

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

क्रम संख्या

४३५३

काल न०

२३१

न०

खण्ड



# बापू की कारावास-कहानी

— आगाखां महल में इक्कीस मास —

डॉ. सुशीला नैयर



भूमिका-लेखक  
राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद



१९५०

सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

प्रकाशक  
भार्तृण्ड उपाध्याय  
भत्री, सस्ता साहित्य मडल  
नई बिल्ली

पहली बार १९५०

मूल्य  
दस रुपये

मुद्रक  
बिल्ली प्रेस, नई बिल्ली



## समर्पित

उन दो पुण्यात्माओं को

जिनका

कारावास में अंतिम बलिदान

अहिंसा के सैनिकों के लिए सदैव को

दीपस्तंभ बन गया



## प्रकाशक की ओर से

प्रस्तुत पुस्तक को पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए जहाँ हमें हर्ष हो रहा है, वहाँ थोड़ा विषाद भी और वह इसलिए कि इस किताब को स्वयं बापू ने कह कर लेखिका से तैयार कराया था और यदि यह उनके जीवन-काल में ही प्रकाशित हो गई होती तो निश्चय ही उन्हें बड़ी खुशी होती।

पुस्तक के बारे में हमें विशेष कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पाठक स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि यह कितनी मूल्यवान वस्तु है। आगालां महल के कारावास के इक्कीस मास की कहानी भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंश है और हम बापू के आभारी हैं कि उन्होंने उन पौने दो वर्षों की अनेक शिभाप्रद और हृदयग्राही घटनाओं को विस्मृति के गर्त में विलीन होने से बचा दिया। इतना ही नहीं, पुस्तक के अधिकांश भाग को उन्होंने स्वयं देखा और उसमें सशोधन करके उसकी प्रामाणिकता पर अपनी मोहर लगा दी।

डा० मुशोला नैयर को वर्षों बापू के साथ रहने और उनका स्नेह व विश्वास पाने का दुर्लभ अवसर मिला था। आगालां महल के बंदी-काल में भी वे बापू के साथ यों। महादेवभाई के देहावसान के बाद बापू ने मुशोलाबहन से कह कर प्रतिदिन की छोटी-बड़ी घटनाओं की डायरी रखवाई। उन्हीं की बंदीदलत आज यह पुस्तक पाठकों को सुलभ हो सकी है। विस्तार-भय से सरकारी आरोप-पत्र और बापू के उत्तर का इसमें उल्लेखमात्र किया गया है। इस विषय में रुचि रखने वाले पाठक इसकी पूरक सामग्री के रूप में नवजीवन प्रकाशन मंदिर द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी पुस्तक 'Gandhiji's Correspondence with the Government (1942-44)' पढ़ लेंगे।

अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इस पुस्तक की भूमिका लिख देने की कृपा की, तदर्थ हम उनके आभारी हैं। बापू ने लेखिका को वचन दिया था कि वे स्वयं भूमिका लिख देंगे, लेकिन ईश्वर को वह मजूर न था।

पुस्तक को मण्डल द्वारा प्रकाशित कराने का श्रेय भाई श्यामलालजी (कस्तूरबा ट्रस्ट, वर्धा) को है। अतः इस अवसर पर हम उनका तथा पुस्तक को आद्योपांत ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें आवश्यक परिवर्तन-परिवर्द्धन कराने के लिए श्री प्यारेलालभाई का विशेष रूप से आभार स्वीकार करते हैं। डायरी की प्रति-लिपि करने व सम्पादन में योग देने के लिए हम अपने स्नेही मित्र श्री काशिनाथ

त्रिवेदी तथा श्री भास्करनाथ मिश्र को भी धन्यवाद देते हैं ।

पुस्तक का कलेवर इतना बढ़िया होते हुए भी उसका रूप इतना न घमक पाता, यदि इसमें सर्वश्री धीरेन गांधी, कनु गांधी, ललित गोपाल प्रभृति बंधुओं और बंबई के 'सेंट्रल फोटोग्राफ्स' व 'इंटरनेशनल बुक हाउस' तथा लंदन की 'दी एसोशियेटेड प्रेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लिमि०' के सौजन्य से प्राप्त प्रसंगोचित चित्र न दिये गये होते । इस कृपा के लिए हम इन सबके अनुगृहीत हैं ।

अंत में हमें पाठकों से क्षमा-याचना करनी है कि प्रेस-संबंधी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण पुस्तक के प्रकाशन में इतना विलम्ब हो गया ।

—मंत्री

## भूमिका

डाक्टर सुशीला नैयर महात्मा गांधी के साथ कई वर्षों से बराबर रहा करती थीं। जब महात्माजी आगाखां महल में १९४२ से नज़रबन्द किये गए, तब से वहां बराबर रहीं। भारत के इति-हास में उन दिनों का बहुत बड़ा स्थान और महत्त्व है। किस तरह से वहां पर दिन बिताये गए, किस तरह महादेवभाई देसाई और पूज्य बा का देहावसान हुआ और किस तरह जो घटनाएं हो रही थीं उनकी प्रतिक्रिया पूज्य बापू पर हो रही थी, यह सबकुछ बहुत विस्तारपूर्वक और मुन्दर तरीके से डाक्टर सुशीला ने इन पृष्ठों में लिखा है। यह महात्माजी से सम्बन्ध रखने वाली उन पुस्तकों में से होगी जो मौलिक सामग्री दे सकेगी। इससे पाठक लाभ उठावेंगे और प्रेरणा पावेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

नई दिल्ली }  
११ जनवरी १९५० }

जि. डे. व. क.

## प्रस्तावना

बापू के आगाखी महल में कारावास की डायरी की प्रस्तावना मुझे स्वयं ही लिखनी होगी, इसकी मुझे स्वप्न में भी कल्पना न थी। वह डायरी मुझसे बापू ने लिखाई थी। १५ अगस्त की रात को महादेवभाई की मृत्यु के बाद एक मेज के छाने में से चंद कागज के पुर्जे मिले। उनपर महादेवभाई ने ९ अगस्त से लेकर रोज बिन की मुख्य घटनाएं अपनी याद ताज़ी करने के लिए दो-दो, चार-चार लाइनों में लिखीं थीं। उसी कागज पर १४ तारीख के नीचे मंने १५ अगस्त की, महादेवभाई के महाप्रयाण की घटना के बारे में मुख्य बातें नोट कर डालीं। हृदय दुःख से भरा था, आंखें पानी से। सारा जगत् घूम रहा था। आंखें बंद करते ही महादेवभाई की अन्तिम यातना का चित्र सामने आ जाता था। सो शाम को प्रार्थना में भी आंखें बंद न कर सकी। महादेवभाई ने मुझे सगी बहन से बढ़ कर समझा था। कई बातों में वे हमारे आदर्शरूप बन गए थे। उनसे बात-बात में सीखने को मिलता था। बापू से सीखना एक बात थी, महादेवभाई से दूसरी। इसी तरह भाई (प्यारेलालजी) भी मुझे सिखाते थे, लेकिन वे तो डांट भी दिया करते थे। मगर महादेवभाई भूल भी बताते तो प्यार से। उन्हें मंने कभी गुस्सा करते नहीं देखा था।

महादेवभाई के एकाएक चल देने के बाद सारी रात आंखों में कटी। पिछले चार साल की अनेक घटनाओं का विचार करती रही। पास में बापू की खाट थी। वे भी रात भर सो नहीं सके। १६ की सुबह की प्रार्थना के समय उन्होंने मुझ से कहा, “महादेव का जितना बोझ उठा सकती हैं उठा ले। आज से तुझे नियमित डायरी रखना होगा। याद रख, एक बिन ये डायरियां छपने वाली हैं।” मंने रात को जो लिखा था, सो लाकर उनके सामने रख दिया।

नियमित डायरियां रखने का मंने प्रयत्न किया। जो भी लिखती थी वह बापू पढ़ जाते थे। जो सुधारने जैसा लगता सुधार डालते थे। कई बार मुझे बापू का इतना समय लेना खटकता था। मगर उनकी उदारता और प्रेम का पार न था। मुझे समझाते, “मं तुझे इतनी मेहनत से सिखा रहा हूं सो अन्य कारण से नहीं। मं चाहता हूं कि तू तैयार हो जाए और मेरा और प्यारेलाल का बोझ हल्का कर सके।” उन्होंने मेरे लिए अंग्रेजी महाबरी की मेकमार्टी की किताब मगाई, नैसफोल्ड की ग्रामर, संस्कृत की डिक्शनरी और भंडारकर की पहली और दूसरी किताब और सिखाना शुरू किया। मगर सागर में अगाध जल होते हुए भी हरेक पात्र अपने माप के अनुसार ही ले पाता है। बापू के अगाध प्रेम और अपार मेहनत के बावजूद मं अपनी सब ऋटियां निकाल न सकी। संस्कृत आज भी कच्ची है। अंग्रेजी भी बापू की परीक्षा में पूरी उतरे ऐसी नहीं। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण

उस महापुरुष के चरणों की धूलि सिर चढ़ाने का अपूर्व अवसर मिला था। मगर उसी के साथ शायद पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही कई स्वभाव-दोष रहे और उस अपूर्व अवसर का पूरा उपयोग न कर पाई। बापू के पास मैं आई तो उनके आसपास के लोगों में सबसे छोटी थी। अपने घर में भी सब भाई-बहनों से छोटी होने के कारण लाड़ में पली थी। बापू ने भी बहुत लाड़ लड़ाया। मेरी लड़कपन की सीधी-सादी बातों का प्यार से जवाब देते। दलील करने में प्रोत्साहन देते और जितना बचान महादेवभाई की बात को देते, उतना ही मेरी बात को भी। कई बातें बापू से कहते-पूछते महादेवभाई या भाई को स्वयं संकोच होता तो मुझसे पुछवाते। परिणाम यह कि बापू के जीवनकाल में मैं समझ न पाई कि बापू जैसे महान आत्मा का मुझसी तुच्छ व्यक्ति पर इतना इतना प्रेम करना और मेहनत लेना उनकी कितनी बड़ी उदारता थी। वे मेरे थे। मैंने पिता की तरह उन्हें माना, उनसे सीखने का, उनकी सेवा करने का प्रयत्न किया, उनसे क्रिजल बलीलें भी कीं, उनका व्यर्थ समय लिया, उन्हें व्यर्थ कष्ट दिया। एक दिन बापू नहीं होंगे, यह कभी खयाल ही नहीं आया। मगर बापू जानते थे, वे हमेशा नहीं रहने वाले। सो वे मुझे सिखाने का प्रयत्न कर रहे थे कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। कई बार किमी छोटी-मोटी घटना से मैं उद्विग्न हो जाती तो बापू कहते, "तेरी डाक्टरों को डिगरी छोन लेनी चाहिए। डाक्टर को स्थितप्रज्ञ होना चाहिए।" मेरा बड़े-से-बड़ा दोष रहा है मेरी कोमल चमड़ी, मेरा छुईमुईपन और अतिशय स्वाभिमान। बापू ने समझाया, जनता में काम करना है तो यह सब ठीक करना होगा। मगर उनका यह प्रयत्न मेरे लिए बहुत कठिन सिद्ध हुआ। जैसे-जैसे काम बढ़ता गया, उनके पास दलील करके समझाने का समय भी कम होता गया। मुझे लगा कि क्या बापू मुझे कम प्यार करने लगे हैं? मगर जल्दी ही अपनी भूल समझ पाई। मुझे वे अपने पांव पर खड़ा होना सिखा रहे थे।

दिल्ली में आखिरी दिनों में सुबह प्रार्थना के बाद वे अक्सर हम लोगों से चिट्ठियों का जवाब लिखवाते या लिखने को कहते। एक दिन मुझे कुछ पत्र दिये। एक पत्र था बापू के पुराने साथी के पुत्र का। उन्होंने पूछा था कि अब हिन्दू आजाद हो गया है। अब खादी पहनने की जगह बिलायत से लाये कपड़े पहनने में क्या हर्ज, इत्यादि। वे बिलायत से कुछ कपड़े लाये थे। नये खादी के कपड़े खरीदने की जगह बिलायत से लाये कपड़े पहने तो कपड़े की बचत होगी। देश में कपड़े की कमी है, वर्ग-वर्ग। बापू कहने लगे, "इसे लिखो कि मुझसे पूछ-पूछकर कब तक चलोगे? मैं तो कभी नहीं कहने वाला कि खादी छोड़ो। सच्ची आजादी तों आई भी नहीं। मगर आजादी आ जाने पर खादी को छोड़ना, जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़े, उसे फेंक देने जैसा होगा। मगर मैं कहूँ, वह मेरा धर्म, तुम्हारा नहीं। अपना पिता कहे... वह धर्म पुत्र भी स्वीकार करे, यह आवश्यक नहीं है। अपने आप को मुझे वही व्यक्ति का धर्म है। हाँ, अपवाद एक है, गुरु। अगर गुरु कहे तो वह धर्म-पालन आवश्यक है।" मैंने कहा, "बापू, आप तो सबके लिए गुरु के स्थान पर हैं न, इसीलिए सब आपको पूछते हैं।" बापू बोले, "ऐसा हो तो गुरु के साथ दलील नहीं

करनी पड़ती । उसका कहना अपने आप हृदय में उतर जाता है ।”

इतना कहकर बापू लेट गये । साढ़े तीन बजे उठकर प्रार्थना के बाद कुछ समय काम करके वे आधा-पौना घंटा फिर आराम लिया करते थे । मने उन्हें कम्बल ओढ़ाया और पीठ और पांव ढबाने लगी । उनकी आंखें बन्द थीं । सिर पर सफेद खादी का रुमाल ओढ़े थे । मं समझी सो गये हैं, मगर उनके मन में वही विचारधारा चल रही थी । क्षण भर बाद धीमे से बोले :

“तने एकलव्य नी वार्ता याद छे (तुझे एकलव्य की कथा याद हं)?” इस वाक्य में बापू हम सबको जीवन भर का सन्देश दे गए ।

मगर डायरी की बात में यह दूसरी ही बात चल पड़ी । जेल से छूटने पर परिस्थिति ऐसी न थी कि जेल की डायरियां छपतीं । मगर १५ अगस्त १९४७ को परिस्थिति पलट गई । कुछ मित्रों ने डायरियां देखी थी । उनका आग्रह था कि उन्हें अब छपाना चाहिए । सस्ता साहित्य मंडल के श्री मार्तण्ड उपाध्याय और हरिभाऊजी का खास आग्रह था । मने बापू से पूछा । उन्होंने ‘हां’ कहा । मने कहा, “मगर आपको प्रस्तावना लिखनी होगी ।” बापू कहने लगे, “हां, वह तो हं । मगर जल्दी तो नहीं हं न?” मने कहा, “नहीं । दिसम्बर के अन्त तक लिख दे तो बस होगा ।” उस समय जनवरी १९४८ के शुरु में मेरे अमरीका जाने की बात चल रही थी । मगर बापू को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं होता था । कई कारणों से मेरा जन्मा लम्बाया । मं खुश होकर बापू को समाचार देने गई । उन्हें वह खटका । बोले, “जाना ही हं तो मं चाहता हूं कि जितनी जल्दी जाकर वापिस आवे उतना ही अच्छा हं ।”

१३ जनवरी को मं हवाई जहाज से अमरीका जाने वाली थी । उसी दिन बापू का दिल्ली वाला उपवास शुरु हुआ । मेरा हृदय प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भरा था कि मेरा जाना लम्बाया और मुझे रास्ते में से भागते-भागते लौटना नहीं पडा । जाना लम्बाने के साथ दूसरा परिणाम यह निकला कि डायरियों का काम और लम्बा गया । बापू प्रस्तावना भी न पढ़ पाये । मुझे पूरी पांडुलिपि सब फिर पढ़ जाना था, वह भी न हो सका ।

३० जनवरी को वज्रपात हुआ । दुनिया काप उठी । हम सब बिना खेबट की नौका के यात्री हो गए । जिस काम में जिसे बापू लगा गए थे, उसीमें उसने अपने दुःख को और अपने आपको भूलने का प्रयत्न किया । डायरियों की तरफ देखने का भी समय न मिला ।

मार्च में एक दिन सरदार पटेल से मिलने गई । उन्हें पटियाले का अपने काम का समाचार देना था । मं पट्टची ही थी कि उन्हें हृदय का दौरा हुआ । ईश्वर को उनसे अभी और काम लेना था । खतरे में से बचाने का उसने मुझे निमित्त बनाया और उनकी थोड़ी-सी सेवा करने का मौका दिया । दौरा कम होने पर सरदार मुझसे कहने लगे, “मं बापू के पास जा रहा था । वही शुक्रवार का दिन था । वही समय होने वाला था । तूने मुझे क्यों रोक लिया ।” मने कहा, “जी नहीं, मं रोकने वाली कौन? बापू ने ही आपके सामने

वरदाज बंद कर दिया है?" सरदार ने बापू की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाये थे। अपना दुःख पी गये थे। आखिर वह फूट निकला। सरदार की सेवा में रहने के कारण डायरियों का काम फिर लम्बाया। आखिर २५ जून को मैंने हिन्दुस्तान छोड़ा। कुछ काम रास्ते में किया, कुछ यहां आकर और डायरियां पढ़कर डिप्लोमैटिक बैंग में हिन्दुस्तान भेजीं।

डायरियां बापू स्वयं पढ़ गये थे। मगर वे होते तो शायद कई विचार और अधिक स्पष्ट करते। पूंजीवाद और समाजवाद के बारे में उनके विचार खास महत्व रखते हैं। वे पूंजीवाद के शत्रु थे, पूंजीवादियों के नहीं। पूंजीपतियों के अनुभव का, ज्ञान का वे उपयोग करना चाहते थे। मगर उनका कहना था कि पूंजीपति अपने आप टूट्टी बन जायें और अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग अपने लिए या अपने कुटुम्ब के लिए नहीं, देश के लिए करें। जो लोग टूट्टीशिप को अच्छा न समझते हों या उनको इसकी सफलता के बारे में कुछ शंका हो उन्हें हिन्दुस्तान की रियासतों का उदाहरण देखना चाहिए। एक जमाना था कि राजकोट जैसी छोटी-सी रियासत में लोकसत्ता कायम करने के लिए बापू को उपवास करना पड़ा था। मगर आज पांच सौ रियासतों के लोग अपने देश की खातिर अपनी सत्ता प्रजा के हाथों में दे चुके हैं। बापू का कहना था कि जब जनता एक चीज चाहती है, जनता में जाप्रति आ जाती है और वह वृद्धता तथा शान्ति से अपनी मांग पेश करती है, तब सत्ताधारी राजा हो या पूंजीपति, विदेशी सरकार हो या देशी सरकार, उसे वह पूरी करनी ही पड़ती है। जो कानून प्रजा की मांग से बनते हैं उनका बोझ प्रजा पर नहीं पड़ता। जब कानून ऊपर से बनाये जाते हैं तब उनका बोझ प्रजा को कुचल सकता है। मगर प्रजा की मांग सच्ची होनी चाहिए। प्रजा को अपना धर्म समझना और उसका पालन करना चाहिए। वे मानते थे कि अपना धर्म पालन करने वालों को ही हक मांगने का अधिकार है।

बापू की कल्पना के आदर्श सत्ताधीश कैसे होने चाहिए, यह विषय भी अत्यन्त रोचक है। बापू की कल्पना में सत्ताधीश लगभग पूर्ण पुरुष होना चाहिए। उसे सर्वथा निःस्वार्थ, सत्यमय, अहिंसामय, सतत जाग्रत, सयमी, अपरिग्रही, आत्मत्यागी, सांसारिक लोभ और सत्ता-मोह से मुक्त, विनम्र और प्रजा का मुख्य चाकर बनकर रहनेवाला होना चाहिए। ऐसे सत्ताधीश को सत्ता खोजनी नहीं पड़ती, सत्ता अपने आप उसे खोज लेती है।

दिल्ली में आखिरी दिनों में एक दिन सुबह घूमते समय बापू से मैंने पूछा, "बापू, आपने कहा है, आप वरअसल समाज-सुधारक हैं। विदेशी राज में आप अपना काम नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको राजनीति में पड़ना पड़ा। अब विदेशी राज चला गया है। क्या अब आप अपना समय रचनात्मक कार्य में लगावेंगे? समाजसुधार में अपनी सारी शक्ति खर्च करेंगे?" उन्होंने उत्तर दिया, "अगर मैं इस अग्नि-परीक्षा में से निकला तो मुझे पहले राजनीति को सुधारना होगा।" राजनीति सत्य और अहिंसा के आधार पर चल सकती है। धर्म से वह अलग या भिन्न नहीं, यह बापू को सबसे बड़ी शोध रही।



अगर जीवन का आधार सत्य और अहिंसा बनाना है तो बचपन से ही बच्चे की तालीम उसी तरह की होनी चाहिए। सो उन्होंने नई तालीम हमारे आगे रखी। जन-साधारण को आजाद होना है, लूट से, शोषण से बचाना है तो विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त स्वीकार करना होगा। छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को बढ़ाना होगा। बड़ी-बड़ी फॅक्टरियाँ बनाने से सत्ता थोड़े लोगों के हाथों में चली जाती है, वे सत्ताधारी भले ही सरकार हो या पूँजीपति। बापू को वह स्वीकार न था। सो उन्होंने हमारे सामने ग्राम्य जीवन, ग्राम्य उद्योग का आदर्श रखा, चर्खा रखा, सारा-का-सारा रचनात्मक कार्यक्रम रखा। अमरीका जैसे देश में, जहाँ लोग फॅक्टरियों के पुजारी रहे हैं, विशाल उत्पादन पर चलते-आए हैं आखिर इस रास्ते का दोष देखने लगे हैं। रेडियो पर और दूसरे साधनों द्वारा फिर से देहात बसाने की बातें कर रहे हैं। एटम बम ने उनकी आंखें खोल दी हैं।

मुझे टेन्नेसी वाली अर्थॉरिटी प्रोजेक्ट (टी. वी. ए.) वालों ने उसकी नई तालीम (प्रोग्रेसिव एजुकेशन) की फिल्म बड़े उत्साह और गर्व से दिखाई। मैंने देखा कि बापू की बताई नई तालीम में इससे बहुत ज्यादा मसाला है। मगर अपने धन की कीमत समझेंगे, या न समझकर पश्चिम के रास्ते बह जायेंगे, सो कौन कह सकता है? एक छोटी-सी मिसाल लीजिए। हमारे देश में करीब-करीब सब माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। यहाँ पर वह छोड़ दिया गया था, अब उसके दुष्परिणाम देखकर फिर माँ के दूध को वापिस लाने की भारी कोशिश हो रही है। यहाँ पर सब बच्चों को अस्पताल में माँ से अलग नर्सरी में रखा जाता था, अब माँ और बच्चे को साथ रखने का प्रयत्न हो रहा है। हम अपने अस्पतालों में आज भी बच्चे को माँ से अलग रखने के प्रयत्न में हैं। जिन चीजों को पश्चिम हानिकारक समझ कर छोड़ रहा है, उन्हें हम ग्रहण करने की कोशिश में हैं। बापू हमारे कान पकड़ कर आज रोक नहीं सकते। क्या हम उनके बताये मार्ग को भूल जायेंगे? क्या हम पश्चिमो धारा में बह जायेंगे, या पश्चिम को और जगत् को रास्ता बताने वाले बनेंगे? जगत् हमारी तरफ देख रहा है और उसका कारण बापू है। बापू आज बुद्ध और ईसा की कोर्ट में गिने जाते हैं। जवाहरलालजी की तुलना लिकन के साथ की जाती है। उनके आदर्शवाद, विश्वबन्धु भाव और विश्वशान्ति भाव, सत्यनिष्ठा, सत्यपरायणता और न्यायप्रियता के कारण जगत् के नेताओं की श्रेणी में जवाहरलालजी आज प्रथम स्थान रखते हैं। मगर अकेले जवाहरलालजी हिन्द का बड़ा थोड़े पार कर सकते हैं! जिनसे उन्हें काम लेना है, उन्हें स्वयं इन ऊँचे आदर्शों को अपनाना है, हिन्द की प्रजा को अल्पदृष्टि छोड़ कर दीर्घ दृष्टि से काम लेना है और अपनी त्रुटियों को दूर करके बापू के बताये ऊँचे आदर्शों पर चलना है। बापू की तपश्चर्या हमारी मार्गदर्शक बनें! ईश्वर हमें उस महापुरुष के वेशवासी होने के लायक बनावे! उनके बताये मार्ग पर चलने की शक्ति दे, यही प्रार्थना है!

बाल्टीमोर, मेरोलैण्ड,

अमरीका ]

— सुरीला नैयर

## विषय-सूची

१ प्रारम्भिक	...	...	...	२३
२ 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव	...	...	...	२६
३ गिरफ्तारियां	...	...	...	१
४ आर्थर रोड जेल	...	...	...	१५
५ अनोखे अनुभव	...	...	...	१७
६ आगाख़ां महल	...	...	...	२१
७ महादेवभाई के साथ चार दिन	...	...	...	२३
८ महादेवभाई का अवसान	...	...	...	३५
९ अग्नि-संस्कार	...	...	...	४१
१० विषाद की छाया	...	...	...	५१
११ समाधि-यात्रा	...	...	...	५५
१२ पुण्यस्मरण	...	...	...	५८
१३ महादेवभाई के बाद	...	...	...	६३
१४ बा अस्यस्य	...	...	...	६७
१५ भाई आ पहुंचे	...	...	...	७०
१६ अहिंसा की कसौटी	...	...	...	७६
१७ घूमते-फिरते सामान्य शिक्षण	...	...	...	८७
१८ जेल में बापू का पहला जन्म-दिन	...	...	...	९३
१९ ईद का त्यौहार	...	...	...	१०२
२० सत्याग्रह में आत्महत्या?	...	...	...	१०५
२१ बा की पहली सख्त बीमारी	...	...	...	१०८
२२ सच्ची वैज्ञानिक के प्रति भावना	...	...	...	१११
२३ मीराबहन की सालगिरह	...	...	...	११४
२४ एक और उत्सव	...	...	...	११८
२५ सतयुग की कल्पना	...	...	...	१२५
२६ भंसालीभाई का उपवास	...	...	...	१२७
२७ ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त	...	...	...	१३४
२८ गोलमेज परिषद के कुछ संस्मरण	...	...	...	१४०

२९ चर्खा और ग्रामोद्योग	...	...	...	१४३
३० भावी समाज-रचना का आधार	...	...	...	१५१
३१ सत्ता और अहिंसा	...	...	...	१५८
३२ विविध चर्चाएँ	...	...	...	१६४
३३ झूठे आरोप	...	...	...	१६८
३४ उपवास के बादल	...	...	...	१७४
३५ निश्चय और तैयारी	...	...	...	१८२
३६ बाइसराय को पत्र	...	...	...	१९०
३७ जेल में पहला स्वतंत्रता-दिवस	...	...	...	१९९
३८ उपवास के निश्चय से चिंता	...	...	...	२०१
३९ बाइसराय का उत्तर	...	...	...	२०९
४० उपवास : अग्निपरीक्षा	...	...	...	२११
४१ परिचारको की बिदाई	...	...	...	२४१
४२ सरोजिनी नायडू की बीमारी और रिहाई	...	...	...	२४६
४३ अहिंसा का प्रयोजन	...	...	...	२५१
४४ गुप्त-नीति का विरोध	...	...	...	२५४
४५ राष्ट्रीय सप्ताह	...	...	...	२५८
४६ सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (१)	...	...	...	२६०
४७ मॅक्सवेल को पत्र	...	...	...	२६५
४८ शांतान व ईश्वर	...	...	...	२६९
४९ सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (२)	...	...	...	२७९
५० मनोरंजक घटना	...	...	...	२८५
५१ सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (३)	...	...	...	२८६
५२ जेलखाना नहीं, सुधार-गृह	...	...	...	२९५
५३ 'हकूमत जाओ'—दिन की सवत्सरी	...	...	...	३००
५४ महादेवभाई की बरसी	...	...	...	३०२
५५ अहिंसा का बाह्य चिन्ह—चर्खा	...	...	...	३०५
५६ हिंसा के बीच अहिंसा	...	...	...	३०८
५७ जेल में बापू का दूसरा जन्मदिन	...	...	...	३२६
५८ सच्चा धर्म	...	...	...	३३८
५९ जेल में दूसरी दीवाली तथा अन्य उत्सव	...	...	...	३४५
६० भाभी का आपरेशन और मृत्यु	...	...	...	३४९
६१ बा के बारे में चिन्ता	...	...	...	३५७
६२ अहिंसा में विचार-बुद्धि	...	...	...	३६९

६३	बा की निराशा	...	...	...	३७४
६४	हालत और बिगड़ी	...	...	...	३७८
६५	अंतिम रात्रि	...	...	...	३८७
६६	बा चली गई	...	...	...	३९४
६७	अंत्योष्टि-क्रिया	...	...	...	३९८
६८	वियोग-वेदना	...	...	...	४०२
६९	सत्याग्रह और सत्ता	...	...	...	४०७
७०	फिर अपने-अपने कर्तव्य पर	...	...	...	४१०
७१	मीराबहन की आश्रम-योजना	...	...	...	४१६
७२	अंग्रेजों की नीति	...	...	...	४१८
७३	जेल में मन-बहुलाव	...	...	...	४२२
७४	बा की स्मृति	...	...	...	४२३
७५	असतोष और प्रगति	...	...	...	४२४
७६	बा के बारे में सरकार की सफाई	...	...	...	४२७
७७	बापू की जागरूकता	...	...	...	४३०
७८	जेल में दूसरा राष्ट्रीय सप्ताह	...	...	...	४३१
७९	बापू को मलेरिया	...	...	...	४३८
८०	मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य	...	...	...	४४२
८१	सरकार की चिन्ता	...	...	...	४४७
८२	रिहाई की खबर	...	...	...	४५१
८३	रिहाई	...	..	...	४५३

- - - - -

### आवरण पृष्ठ

इस पुस्तक के आवरण का भावपूर्ण चित्र आशासां महल के कारावास के समय का है। बापू, बा तथा अग्य जन प्रार्थना में लीन हैं। इस चित्र के लिए हम श्री धीरेन गांधी के आभारी हैं, जिनके 'A Glimpse into Gandhiji's Soul' अलबम से इसे तथा उपवास का एक चित्र लिया गया है।

—प्रकाशक

## चित्र-सूची

१ बापू के साथ लेखिका	...	...	...	३
२ बा : बापू : सरदार	...	...	...	६
३ बा	...	...	...	७
४ आताला महल का बंद द्वार	...	...	...	२२
५ महल का भीतरी हिस्सा	...	...	...	२२
६ कटीले तारों की बाड़	...	...	...	२३
७ बापू और महादेवभाई	...	...	...	६४
८ महादेवभाई और उनका परिवार	...	...	...	६५
९ महादेवभाई की समाधि	...	...	...	६५
१० बापू और प्यारेलालभाई	...	...	...	७२
११ टहलते समय बापू के साथ मीराबहन	...	...	...	११४
१२ चितक बापू	...	...	...	२०८
१३ उपवास की समाप्ति	...	...	...	२४०
१४ बापू और सरोजिनी नायडू	...	...	...	२४९
१५ बा की अंतिम प्रार्थना	...	...	...	३९४
१६ आखिरी श्वास	...	...	...	३९५
१७ बा के शव के पास बापू	...	...	...	३९५
१८ जेल की चादर पर बा का शव	...	...	...	३९८
१९ देवदासजी ने अर्थों सजाई	...	...	...	३९८
२० बा की अर्थों के पास बापू तथा अन्य व्यक्ति	...	...	...	४००
२१ चिता	...	...	...	४००
२२ अग्निदाह	...	...	...	४०१
२३ प्रज्वलित चिता	...	...	...	४०१
२४ महादेवभाई और बा की समाधियां	...	...	...	४०८
२५ कारावास में अंतिम प्रार्थना	...	...	...	४५२
२६ आताला महल का खुला फाटक	...	...	...	४५३
२७ महादेवभाई और बा की संगमरमर की समाधियों पर दशनार्थी	...	...	...	४५६
२८ महादेवभाई की संगमरमर की समाधि	...	...	...	४५६

# बापू की कारावास-कहानी

[ आगरा महल में इक्कीस मास ]



लेखिका बापू के साथ

: १ :

## प्रारंभिक

मुझे बापूजी के प्रथम दर्शन सन् १९२० के बाद हुए थे। असहयोग-आंदोलन शुरू हो चुका था और बापूजी दौरे पर गुजरात गये थे। मेरे पिताजी, मैं जब चंब महीने की थी, गुजर गये थे। बड़े भाई (प्यारेलालजी) एम. ए. में असहयोग करके बापू के पास साबरमती आश्रम में चले गये थे। मैं उस समय बहुत छोटी थी और अपनी माताजी तथा ब्रूसेरे भाई के साथ गुजरात के एक बेहात में रहती थी। मुझे याद है कि एक दिन मैं रास्ते पर खेल रही थी कि वहाँसे कुछ लोगों को इकट्ठे जाते देखा। उनमें हमारी माता समान बड़ी, चचेरी बहन थीं, गाँव की एक विधवा, जिन्हें सब लोग 'फूकी' कहते थे। मैंने उनसे पूछा, "आप कहाँ जाती हैं?" वे कहने लगीं, "महात्मा गांधी के दर्शन करने।" महात्मा गांधी का अर्थ उस समय मेरे लिये था मेरे बड़े भाई। मैं भी उनके साथ चलदी। वे लोग तागे में जाने वाले थे, मगर तागा नहीं मिला। सो मैं उनके साथ पांच मील पैदल चली। शायद कुछ समय के लिए किसीने गोब में उठा लिया था।

गुजरात पहुँचे तो भोड़ का पार न था। किसीने मुझे ऊँचा उठाकर बताया कि वह महात्मा गांधीजी हैं, मगर मैं उन्हें देख भी न पाई। उनके साथी एक जगह बैठे नाश्ता कर रहे थे। दूर से उनके दर्शन करके हम लोग वापिस आगये। मेरे भाई उनमें नहीं थे। न भाई मिले, न महात्मा गांधी के दर्शन हुए। इससे निराशा होती, इतनी समझ अभी नहीं आई थी। ख़शी-ख़शी शाम को लौटे। उसके कुछ महीने या साल भर बाद हम लोग अपने चचा के पास रोहतक गये हुए थे, वहाँ महात्माजी आये। भाई भी उनके साथ थे। महात्माजी स्त्रियों की सभा में भावण करेंगे, यह सुनकर मेरी माताजी वहाँ गईं। उन दिनों हमारे घर में पर्दा था। पुरुषों की सभा में स्त्रियाँ जायँ, यह चचाजी को पसन्द न था। मगर स्त्रियों की सभा में उन्होंने जाने दिया। माँ की उगली पकड़े, भोड़ को चीरते हुए हम महात्माजी के पास पहुँचे। स्त्रियों की सभा में इतना शोर था कि महात्माजी भाषण नहीं कर सके थे। सो वे फंड इकट्ठा कर रहे थे। माताजी ने प्रणाम किया और कहा, "मैं प्यारेलाल की माता हूँ। आपसे मिलना चाहती हूँ।" उन्होंने उन्हें लाहौर में मिलने को कहा।

कुछ दिन बाद हम लोग उनसे मिलने लाहौर गये। स्व० चौधरी रामभज दत्त की कोठी पर बापू का डेरा था। माताजी गई थीं बापूजी से अपना लड़का वापस



मांगने; किन्तु माताजीने आकर बताया कि उनके सामने जाकर मुंह से कुछ और ही निकल गया और वे बोलीं, “आप मेरे लड़के को अधिक-से-अधिक पांच साल तक भले अपने पास रखिये, पीछे मेरे पास भेज दीजिये। मेरे पति के देहांत के बाद यही मेरे घर का बीया है।”

बापूजी ने क्या उत्तर दिया सो मुझे पता नहीं। मुझे माताजी बाहर छोड़ गई थीं, इधर-उधर खेलकर थकने पर मैं चुपचाप बापूजी के कमरे में घुस गई। मेरे पांवों में जूते थे। भाई मुझे भगा देना चाहते थे मगर बापूजी ने रोका और जूते निकालकर आने की आज्ञा दी। आई तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। वे मां से कह रहे थे कि तुम भी अपने लड़के के पास क्यों नहीं आजाती? मां ने कहा, “घर-बार छोड़कर कैसे आ सकती हूँ?”

बापू ने हंसते-हंसते मगर कष्टमय स्वर में उत्तर दिया, “मेरा भी घर था।” फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, “यह लड़की मुझे दे दो।” मां बोलीं, “यह तो मुझसे न हो सकेगा।” फिर बापू मेरे मिल के कपड़े की हंसी उड़ाने लगे। बोले, “देखो न, इस छोटी-सी लड़की को भी विदेशी कपड़ा पहनाया है! क्या बात है?” मां बचाव करने लगीं, “नहीं, स्वदेशी है।” उससे बापू को संतोष होने वाला नहीं था। मैं यह संवाद सुन रही थी। उस समय खट्टर की मीमांसा मेरी समझ से बाहर थी, मगर न पहनने योग्य कपड़ा पहना है, यह समझकर मुझे अंदर-ही-अंदर बड़ी शरम-सी लग रही थी। मुझे उस समय यह स्वप्न में भी कल्पना न थी कि एक दिन बापू के निकटतम सम्पर्क में आने और सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा।

जब मैं बारह साल की हुई तो मेट्रिक की पढ़ाई के लिए माताजी के साथ लाहौर चली आई। स्कूल में भर्ती हुए बिना मेट्रिक पास करके मैं कालेज में इंटर (साइन्स) में दाखिल होगई। भाई ने कई बार चाहा कि मुझे अपने साथ साबरमती आश्रम लेजाएं; लेकिन माताजी राजी न होती थीं। उन्हें डर था कि लड़का तो गया, वह लड़की को भी अपने रास्ते लगाकर उसकी समझ उलटी कर देगा और अपनी तरह बेघरबार की बना देगा। वे कहती थीं, “लड़का तो भिल्लारी हुआ, किन्तु लड़की भी भिल्लारिन बने, यह मुझसे सहन न होगा।”

किन्तु प्रारब्ध के आगे किसीकी नहीं चलती। १९२६ की गरमी की छुट्टियों में हम दिल्ली गये हुए थे। भाई वहां आए और फिर मुझे अपने साथ लेजाने की अपनी पुरानी बात चलाई। इस बार माताजी मान गईं। उस समय से लेकर मैं कभी-कभी गरमी की छुट्टियों में भाई के पास आश्रम में चली जाया करती थी।

लेडी हार्डिंग कालेज से डाक्टर की इम्तहान पास करके मैं शिशु-पालन और प्रसूति विषयक विशेष शिक्षा के लिए कलकत्ते चली गई। इतिहास के बापूजी उस समय बंगाल के नजरबन्दियों की छुड़ाने के लिए कलकत्ते आए। श्री शरत बोस के यहां बुडबर्न स्ट्रीट पर उनको ठहराया गया था। वहां कांग्रेस महासमिति (ए. आई. सी. सी.) की बैठक

भी थी। बापू को रक्तचाप बढ़ने की शिकायत तो रहती ही थी, ए. आई. सी. सी. की बैठक में उन्हें बहुत थकान लगी। उसी रोज बर्धा वापस जा रहे थे। सामाजिक वर्गरह स्टेशन पर जा चुका था। बापूजी बैठक से बाहर आये। गद्दी पर बंटे फल के रस का गिलास हाथ में लिया, इतने में उन्हें चक्कर-सा आ गया। मैंने तुरन्त डा. विधान राय वर्गरह को बुलाया। मैंने मा से सुना था कि लहू का दबाव बढ़ने पर भी मेरे पिताजी बाहर चले गये थे। रास्ते में उनकी नस फूट गई थी और वे चल बसे थे। सो मैं समझी कि बापूजी इतने थके हैं, जहर लहू का दबाव बढ़ा होगा। उन्हें आज सफ़र नहीं करना चाहिए। डा. विधान राय ने देखा तो सचमुच लहू का दबाव बहुत बढ़ा था। सो उस दिन बापूजी का जाना रुक गया। कुछ दिनों बाद जाने का समय आया तब भी उन्हें अकेले सफर करने की इजाजत देने की उनकी हिम्मत न हुई। मैं बहा भाई और महादेव भाई से मिलने जाया करती थी। आखिर यह तय हुआ कि मैं उनके साथ देसभाल के लिये डाक्टर की हस्तियत से जाऊँ और डा. विधान को सूचित करती रहूँ। चूनाचे मैं एक महीने की छुट्टी लेकर उनके साथ सेवाग्राम गई। वहा से बापू को जूहू ले जाना पडा। मेरी छुट्टी खतम हो गई थी। और मागी। पीछे वापस जाने की बात छोडकर वहीं रह गई।

बापू राजकोट-सत्याग्रह के समय राजकोट जाते समय मुझे निजी डाक्टर की उपाधि देकर अपने साथ राजकोट ले गए। मैंने इसमें अपना परम सौभाग्य समझा। मगर साथ ही श्रेण भी लगती थी—कॉलेज से अभी निकली एक लडकी और महात्मा गांधी की डाक्टर! अखबारवाले खबर पूछने आते तो मुझे उनसे बात करते नहीं बनता था, मगर डा. विधान राय, डा. गिल्डर और डा. जोबराज मेहता अपनी उदारता और व्यवहार से मेरी श्रेण दूर कर देते थे। बाद में विचार करते हुए बापूजी को लगा कि उनका डाक्टर तो केवल ईश्वर ही हो सकता है। डाक्टरों सेवा का ये उपयोग कर लेते थे, किन्तु अपना डाक्टर बनाकर ही किसीको अपने साथ रखना वे अपने जीवन-सिद्धांत के विरुद्ध मानते थे। उन्होंने कहा, “मेरा डाक्टर तो केवल भगवान ही है, तू तो मेरी लडकी है। लडकी के पास डाक्टरों ज्ञान है तो वह उसके द्वारा अपने बाप की सेवा भी करेगी, किन्तु मैं तेरे डाक्टरों ज्ञान का उपयोग गरीबों की सेवा के लिए ही करना चाहूँगा।” पर यह तो आध्यात्मिक बात थी। जहातक बाह्य सबध था, उसमें कुछ भी परिवर्तन न हुआ और जनता और जगत के लिए मैं उनकी निजी डाक्टर ही रही। इसका एक बड़ा विचित्र परिणाम आगे जाकर आया।

मैं एम. डी की परीक्षा के लिए फिर दिल्ली चली गई। अपने पुराने लेडी हार्डिंग कालेज में काम ले लिया और साथ-साथ कुछ अनुसंधान का कार्य किया और एम. डी की परीक्षा पूरी की। मई मास (१९४२) में यह काम पूरा हुआ, लेकिन मेरी नौकरी की मुद्दत तो अगस्त के मध्य में पूरी होती थी। मेरा इरादा था कि मैं बंबई में होने वाली ए. आई. सी. सी. की बैठक पूरी होने के बाद सेवाग्राम जाऊँगी, किन्तु ४ या ६ अगस्त को अकस्मात एक मित्र के साथ, जो सरकारी नौकरी में थे, मेरी मुलाकात होगई। वे

पूछने लगे, “क्या तुम ए० आई० सी० सी० की बँठक में जाने वाली हो ?” मंने कहा, “मं तो बँठक पूरी होने के बाद सेवाग्राम जाऊंगी।” वे मुंह चढाकर बोले, “तब वहाँ क्या होगा ?” मुझे खटका लगा; किंतु बहुत पूछने पर भी उन्होंने और कुछ न बताया। बंबई की ए० आई० सी० सी० की बँठक में ‘भारत छोड़ो’ का प्रस्ताव आने वाला था। अफवाह गरम थी कि परिणाम में बापू और सब कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता तुरंत गिरफ्तार कर लिये जाएंगे। मं सीधी अपने प्रिंसिपल के पास आई और बोली, “आप मुझे अभी गरमी की लम्बी छुट्टी दे देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ गड़बड़ होने से पहले मं बंबई पहुंच जाना चाहती हूँ।”

मेडिकल कालेज में गरमी की छुट्टी बारी-बारी से मिलती है, कुछको शुरू में और कुछको आखिर में। उन्होंने सहानुभूति के साथ कहा, “हा, जरूर होआओ।” फिर फौरन ही उन्होंने छुट्टी की अर्जी का फार्म मेरे पास भेज दिया और कहलवाया, “आज ही बरखास्त लिखकर भेज दो।”

यह हुई पांच अगस्त की बात। ७ अगस्त को मं दिल्ली से बम्बई को रवाना होगई।

: २ :

## ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव

बिड़ला-हाउस, बम्बई

८ अगस्त १९४२

८ अगस्त को शाम के करीब ५॥ बजे जब बॉम्बे सेंट्रल पर गाडी से उतरी तो स्टेशन पर मुझे लिवाने के लिए कोई आया नहीं था। मंने सोचा, बिड़ला-हाउस टेलीफोन करके किसी को बुलालू। पब्लिक टेलीफोन का उपयोग करना मं जानती नहीं थी, इसलिए पूछताछ बफ्तर के बाबू से पूछकर वहाँ के टेलीफोन का इस्तेमाल करने के लिए भीतर गई। नम्बर देख रही थी कि इतने में पुलिस और मिलिट्री के कोई दस-बारह अफसर टेलीफोन करने आये। मुझे उन सब के चेहरे तने हुए लगे। मन में आशंका हुई, कहीं गिरफ्तारियां शुरू तो नहीं होगई !

टेलीफोन पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मं स्टेशन से बाहर आई। बो ही टंक्सी खड़ी थीं। टंक्सीवालों ने किरायेपर तंग करना शुरू किया। आखिर एक शरीफ आदमी ने स्टेशन के बाहर जाकर मीटर के हिसाब से टंक्सी ला दी। मंने उनसे पूछा, “बापू को पकड़ा तो नहीं है न ?” उन्होंने जवाब दिया, “नहीं, अभी तबे शान्ति है।”

बिड़ला-हाउस पहुंची तो भाई (प्यारेलालजी), बापू, महाम्बेवभाई, सब कांग्रेस



बा बापू सरदार

(म २ अगस्त सन ४२ की वास्तु महासमिति की बैठक से पहल)



बा

“रू न रह सकती हो तो चल।” पृष्ठ ९

महासमिति को बैठक में थे। अम्नुस्सलामबहन,\* प्रभावतीबहन† और बा घर पर थीं। बाद में लीलावती बहन‡ भी आ गई। यहाँ मेरा तार नहीं पहुँचा था, इसलिए मुझे देखकर सबको आश्चर्य हुआ।

भाई को मंने फोन पर बुलाया। बहुत मुश्किल से मिले। आये तो मेरी आवाज और नाम सुनकर कहने लगे, “मं तो अभी-अभी महादेवभाई के साथ शर्त लगाकर आया हूँ कि तुम आ नहीं सकतीं।” मंने बैठक में जाने की इच्छा प्रकट की। झटपट स्नान किया। स्नाना परोसा ही गया था कि मोटर लेने को आ गई। दो केले हाथ में लेकर मोटर में जा बंठी। पंडाल में पहुँची तो ‘भारत छोड़ो’ प्रस्ताव पर मत लिये जा रहे थे। भाई मुझे मंच पर ले गये। मंने बापू को दूर से देखा। महादेवभाई मुझे देखकर भाई से कहने लगे, “उमसे कहो, तुम कैसे शर्त हारे !”

‘बोर्डिंग’ पूरा हुआ। बापू का भाषण शुरू हुआ। बापू पूरे २ घंटे एक सांस में बोले। अद्भुत भाषण था और बापू की वाणी में और दलील में अद्भुत शक्ति थी ! भाषण पूरा हुआ। बापू उठे। मंने प्रणाम किया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। बोले, “तो तू ठोक मोके पर पहुँची।” वल्लभभाई मिले। कहने लगे, “कल आती तो एक और काम का भाषण सुन सकती।” पिछले दिन बापू का जो भाषण हुआ था, उसीकी ओर सरदार का यह इशारा रहा होगा।

बापू, वल्लभभाई, महादेवभाई और मणिबहन के साथ मैं मोटर में बंठी। भाई दूसरी मोटर में आये। बापू समय पूछने लगे। उस समय रात के सवा दस बजे थे। उन्हें आश्चर्य हुआ। उनको कल्पना तक नहीं थी कि वे सवा दो घंटे बोले हूँ। कहने लगे, “जब मैं बोलने को उठा था, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अब मेरी समझ में आ रहा है कि कल रात मैं क्यों नहीं सो सका। मेरे मन पर बोझ था कि इतना कहना है, कैसे कह पाऊँगा। मगर मंने सोचा, अगर ईश्वर को मुझसे कुछ कहलाना होगा तो वह मेरी जबान खोल देगा, वरना मैं तो इस बात के लिए भी तैयार था कि सिर्फ यही कहकर बँठ जाऊँ कि ‘मुझे कुछ सूझता नहीं, मैं आपसे क्या कहूँ?’ लेकिन ईश्वर ने मेरी जबान खोल दी। मैं मानता हूँ कि ईश्वर ही मुझसे बुलवा रहा था। क्षणभर के लिए तो मुझे यह भी डर लगा कि कहीं आज मेरा खातमा तो नहीं हो जाएगा ! लेकिन फिर

\* आश्रम की एक मुसलमान बहन, जो बरसो से गाधीजी के पास रही और आजकल अपहृत हिन्दू लड़कियाँ का छुड़ाने के काम में लगी हैं।

† विहार के चम्पारन-सत्याग्रह में गाधीजी के पुराने माथी और विहार के सुप्रसिद्ध नेता श्री ब्रजकिशोर बाबू की लड़की और समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण की पत्नी, जिन्हें बाल्यावस्था से ही उनके पिता ने गाधीजी को सौंप दिया था और जो आश्रम में उनके साथ रहती थी।

‡ एक विधवा कन्या जिसने गाधीजी और आश्रम को अपना लिया था।

सोचा, ईश्वर को मुझसे काम करवाना है तो वह खुद शक्ति देगा और उसने दी भी । आज मैंने करीब-करीब सभी मतलब की बातें कह डाली हैं । अब कल की आम सभा में मेरे लिए कोई खास नई बात कहने को रह नहीं जाती । अब तो सिर्फ दोहराने की बात है ।” बाद में उन्हें याद आया कि ‘इंडियन सिविल सर्विस’ को जो दो शब्द आज कहने चाहिए थे, सो कहना भूल गये थे । बोले, “कोई हर्ज नहीं । कल सही । अभी तो यह सब सुनाने के बहुत मौके आने वाले हैं ।”

बापू ने सोचा था कि आज सभा से लौटते वक्त श्री मथुरादासभाई\* को देखते जायेंगे । लेकिन रात इतनी होगई थी कि इरादा छोड़ना पड़ा । बोले, “कल समय निकाल सका तो जाऊंगा । मगर कल समय निकालना कठिन है ।” इतना कहकर फिर सोचने लगे कि कल क्या-क्या करना है । सुबह कार्यकर्त्ताओं की सभा है, बाद में बकिंग कमिटी होगी, फिर यह और वह, और शाम को पब्लिक मीटिंग बर्गरा-बर्गरा ।

घर लौटे तो प्रार्थना के लिए आये हुए कुछ लोग अभीतक बंठे थे । प्रार्थना हुई । एक गुजराती बहन न भजन गाया—“मारूं मायु नमाव प्रभु तारा चरणरजनी तले ।” †

महादेवभाई ने इस बहन को गुरुदेव के कुछ गीतों का गुजराती अनुवाद करके दिया था । यह उन्होंने से एक था । उन्होंने खुद ही इन गीतों की राग बंठाई थी । बहुत पीठे-एश्वर में उस बहन ने यह भजन गाया था । महादेवभाई भी गारहे थे ।

जब बापू सोये, साढे ग्यारह बज रहे थे । मैं भाई के साथ टहलने लगी । भाई ने मुझे उस समय की स्थिति के बारे में कुछ बातें बताईं । फिर हम दोनों महादेवभाई के कमरे में गये । वे अभी जागते थे ।

मैं बम्बई कैसे आई यह सुनकर सब मेरा मजाक उड़ाने लगे । बोले, “कंसी धबराकर भाग आई ? क्या सरकार इतनी मूर्ख होगी कि महासमिति की वंठक हो जाने दी, लोगों में उत्साह भरने दिया और अब पकड़ले !”

डॉक्टर जीवराज मेहता का फोन आया । पूछ रहे थे कि कल हम किस वक्त बापू की देखने आएँ ? मैंने बापू की डॉक्टरी परीक्षा की थी । आज के इतने परिश्रम के बाद भी बापू के खून का दबाव सिर्फ १८६ और ११६ था । हमेशा जितना चढ़ा करता है, उसके मुकाबले आज का यह दबाव बहुत अच्छा कहा जा सकता है । फिर भी डॉक्टर मेहता और डॉक्टर गिल्डर को तो कल आना ही था । बापू से पूछकर उनको दोपहर दो बजे का वक्त दिया । बाद में जब डॉक्टर मेहता ने डॉक्टर गिल्डर को फोन किया तो वे हसकर बोले, “कल दो बजे किसे देखने जाओगे ?” मगर किसीने नहीं माना कि सचमुच

\*गाधीजी के भतीजे सहकर्मी, बाद में बंबई कारपोरेशन के मेयर हुए । गाधीजी के माथ उनके सम्मरणों के लिए देखिए “बापू की प्रसादी” (गुजराती संस्करण, नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद)

†हे प्रभो ! अपने चरणों की रज के तले मेरा सिर झुका ।

बापू पकड़े जायगे।

एक बजे मैं अपने बिस्तर पर गई। भाई महादेवभाई के साथ कुछ देर बातें करते रहे। शहर में बहुत जोरों की अफवाह थी कि बापू को सुबह ही पकड़ लेंगे। फोन-पर-फोन आरहे थे। भाई ने महादेवभाई से कहा, “महादेवभाई, कल हम क्या करेंगे?” महादेवभाई बोले, “फिकर क्यों करते हो, हाथ-में-हाथ मिलाकर हम एक साथ बाहर निकल पड़ेंगे और भगवान हमको कुछ-न-कुछ करने की शक्ति दे ही देगा।”

: ३ :

## गिरफ्तारियां

बिडला-हाउस, बम्बई

६ अगस्त '४२

सुबह चार बजे जब सब प्रार्थना में आए तो महादेवभाई ने कहा, “रात दो बज तक फोन मुझे सताता रहा। दो बजे बाद मैं सोया। बस, यही चल रहा था कि गिरफ्तारी का सारा इतजाम होगया है। वे पकड़ने आरहे हैं, वर्गरा।” इस पर बापू कहने लगे, “नहीं, कल के मेरे भाषण के बाद तो मुझे गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। मैं उनको इतना मूल्य नहीं मानता।” फिर बोले, “अगर इसके बावजूद भी मुझे पकड़ें तो इसका मतलब यह होगा कि उनके दिन पूरे हुए हैं।”

प्रार्थना के बाद मैं आकर बिस्तर पर लेट गई। तीन रात से रात को दो-एक घट की नींद मिली थी। बापू शौच को गये। मैंने भाई से कहा, “जब बापू घूमने को तैयार हो, मुझे जगा दीजिये।” मैंने अभी चादर ओढ़ी ही थी कि महादेवभाई अन्दर आये और बोले, बापू, बापू, पकड़ने आगए।” बापू को गुसलखाने में ही खबर दी गई। उन्होंने पुछवाया, “तैयारी के लिए कितना समय देंगे?” पुलिस कर्मिश्नर ने कहा “आध घंटा।” बापू ने वारंट देखे। महादेवभाई, मीराबहन और बापू के नाम भारत-रक्षा कानून के मातहत नजरबन्दी के नोटिस थे। भाई और बा के लिए लिखा था कि वे भी चाहें तो बापू के साथ उन्ही शर्तों पर चल सकते हैं। बापू ने बा से पूछा, “तू न रह सकती हो तो चल। लेकिन मैं खुद तो यह चाहता हू कि तू बाहर रह, सेवाग्राम जा, मेरा काम कर।” भाई से भी यही कहा। बोले, “मैं तो यह कहूंगा कि यो ही मत आओ। काम करते-करते पकड़लें तो बात अलग है।” फिर एक सूचना की, “हर एक सिपाही अपने कंधे पर ‘करेंगे या मरेंगे’\* का बिल्ला लगाले ताकि आजादी का एक-एक सिपाही जो अहिंसात्मक रूप से मरे, उस पर निशानी के तौरपर ये शब्द ‘करेंगे या मरेंगे’ मौजूब हो।”

\*Do or die.



बापू ने नाश्ता किया। बिड़लाजी बगैरा ने कुछ सबाल पूछे। बापू ने कहा, “इन सबालों का उत्तर कल शाम के भाषण में धनिकों के लिए मैंने जो कहा है, उसमें आजाता है।” बाबू में घनश्यामदासजी ने कहा, “बापू, उपवास की जल्दी न कीजियेगा।” बापू ने कहा, “नहीं, मैं जल्दी करना ही नहीं चाहता। जहाँतक हो सकेगा, टालूंगा।”

फिर प्रार्थना हुई। महादेवभाई ने ‘हरि ने भजतां हजी कोई नी लाज जती नथी जोई रे’\* भजन गाया। फिर रामधुन हुई। अम्नुस्सलामबहन ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ीं। बापू ने दो-चार किताबें गीताजी, भजनावली, अरबी प्राइमर बगैरा इकट्ठी कीं और धनुष-तकली, पूनी का बंडल आदि अपने साथ लिये। अम्नुस्सलामबहन ने कुरानशरीफ दिया। महादेवभाई ने अपना सामान इकट्ठा किया। मीराबहन सबसे आखिर में तैयार हुईं। सबने बापू को प्रणाम किया। मैंने पूछा, “मुझे पकड़ें तो क्या मैं आपके पास आने की मांग कर सकती हूँ?” बापू बोले, “हां, जरूर। तुम कह सकती हो, ‘मैं उनकी मेडिकल एडवाइजर (डॉक्टरों की सलाहकार) रही हूँ। मुझे उनके पास भेजिये।’” भाई को उदास देखकर महादेवभाई बोले, “उदास क्यों होते हो? फर्क इतना ही है न कि हम सवेरे वहाँ पहुँचेंगे और तुम शाम को। और हम तो बिना कुछ किये ही जा रहे हैं, तुम कुछ करके आओगे।”

बापू की सूचना थी कि शाम की आम-सभा जरूर होनी चाहिये। इसलिए अन्दाज यह था कि भाई सभा में बोलेंगे और वहाँ गिफ्तार कर लिये जायेंगे।

बापू अपनी लकड़ी लेकर चल पड़े। श्रीमती रामेश्वरदास बिड़ला ने उन्हें कुंकुम का तिलक लगाया। दो मोटरें तैयार थीं। अगली में बापू और मीराबहन बंठीं, पिछली में महादेवभाई। ऊपर से सब हँसते थे, मगर सबके मन भरे थे। सब जानते थे कि इस बार की लड़ाई भीषण होगी। कोई नहीं जानता था कि फिर कौन, किससे, कब और कहाँ मिल सकेगा या मिलना होगा ही नहीं।

रात सभा से लौटने के बाद बाबूलां और फनु महादेवभाई के साथ मजाक कर रहे थे। बाबूला ने कहा “काका, अब हम आजाद हैं। बापूजी ने कह दिया है, अब सब आजाद हैं। सो अब हम आपकी भी नहीं मानेंगे।” महादेवभाई हंसकर बोले, “लेकिन तुम मेरी माननी ही कब पड़ती है! तुमने तो अपनी मां की ही बात माननी पड़ती है।” मानो भगवान ही उनसे यह बोलवा रहा था। कौन जानता था कि एक हफ्ते के अंदर बाबूला को केवल अपनी मां की ही मानने की आवश्यकता रह जायेगी!

जब पुलिस कमिश्नर बापू को पकड़ने आया, पीने छः बजे थे। बापू ने तैयारी में आध-घंटे से दो-तीन मिनट ज्यादा लिये थे, उसके लिए माफी मांगते हुए

\*हरि का भजन करते हुए किसी की लाज गई हो ऐसा नहीं देखा गया।

†महादेवभाई का नड़का नारायण देसाई।

वे बोले, "I am sorry, I have kept you waiting a couple of minutes longer."\*

चलते समय बिड़लाजी ने कहा, "ये लोग बकरी का आध सेर दूध मांगते हैं।" बापू ने हँसकर जवाब दिया, "चार आने रखवालो और दे दो।"

जब पुलिस आई थी, सन्नाटा था। मगर कौन जाने कहां से बात-की-बात में वहां एक हज़ूम इकट्ठा होगया। जब मोटर चली तो बिड़ला-हाउस के रास्ते पर लोगों की खासी भीड़ मौजूद थी। टेलीफोन कटे पड़े थे। रात को दो बजे से ही काट बिये गए थे। इसीलिए महादेवभाई दो बजे के बाद सोसके थे। फिर भी बापू की गिरफ्तारी की खबर शहर में बिजली की तरह फैल गई। बिड़ला-हाउस पर दल-के-दल लोग इकट्ठा होने लगे। कार्य-कर्त्ता, मित्रगण, अखबारों के संबावदाता बगैरा सब चले आरहे थे।

हम लोग किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं, इस खयाल से हमने अपना सामान बांधना शुरू किया। मंने थोड़ा-सा जरूरी सामान अपने बिस्तरे में और अटंकी केस में रख लिया। मेंडिकल बंग (दवाओ की सटूकची) भी साथ में रखली। मगर भाई को सामान बांधने की फुरसत कहा! एक के बाद एक मिलने वाले आरहे थे। मुश्किल से शाम तक वह अपना सामान बांध सके।

निश्चय हुआ कि बा भी आम सभा में भाषण करें। बा ने एक संदेश<sup>†</sup> बहनों के नाम और एक भाइयो और बहनो के नाम मुझे लिखवाया। भाई ने भी अपना एक छोटा-सा भाषण लिख डाला। उसमें आज सवेरे की घटना का वर्णन था और जनता से यह प्रार्थना की गई थी कि अब बापू को जेल से वापस लाना उसके हाथ में है। इतना सब याद रखें कि बापू दो चीजें अपने जीते-जी बरदाश्त नहीं कर सकेंगे—एक यह कि हिन्दुस्तान के लोग नामवंत बनकर बैठ जायें और दूसरे यह कि वे पागल बनकर अंग्रेज मर्दों, औरतों और बच्चों को काटना शुरू कर दें।

कोई दस बजे टेलीफोन आया। वर्धा का 'ट्रंक कॉल' था। भाई फोन पर बात करने लगे। किशोरलालभाई के साथ बात होरही थी। भाई ने शुरू किया, "आज सवेरे..." बस, संसार ने लाइन काटदी। बाद में दोपहर को फिर फोन मिला। वर्धा में पुलिस भाई की राह देख रही थी। विनोबा गिरफ्तार किये जा चुके थे। दूसरे भी, जिन्होंने पिछले सत्याग्रह में कुछ भी भाग लिया था, पकड़ लिये गए थे। भाई के नाम वारंट तैयार था।

\*"अफसोस है कि मैंने आपको दो-एक मिनट ज्यादा रोका।"

†संदेश इस प्रकार था—"महात्माजी तो आपसे बहुत-कुछ कह गये हैं। कल उन्होंने ढाई घंटे तक महासमिति की बैठक में अपने दिल की बातें कही। उससे ज्यादा और क्या कहा जाय? अब तो उनकी सूचनाओं पर अमल ही करना है। बहनो को अपना तेज दिखाना है। सब कौमो की बहनें मिलकर इस लड़ाई को सफल बनावे। सत्य और अहिंसा का मार्ग न छोड़े।"

हमारा इरादा था कि आज यहां न पकड़े गये तो कल शाम को बर्धा जायेंगे। माताजी वहां हमारी राह देख रही थीं। इस खबर ने जरा सोच में डाला। मगर सोच करने के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं मिला। शाम को सरकार ने हमारे लिए फंसला कर दिया।

चलते समय महादेवभाई कल शाम की सभा के बापू वाले भाषणों के नोट्स भाई को देगये थे। कहा था, “इन्हें तुम ठीक करके आज ही अखबारों को दे देना।” भाई ने सोचा था कि स्नान के बाद कमरा बन्द करके बंठ जायेंगे और लिख डालेंगे। मगर वक्त कहाँसे मिलता! आखिर वह काम भाई ने किसी और को सौंपा। इतने में साविक अली\* आए। भाई ने उन्हें कुछ सूचनाएं दीं और एक सर्व-सामान्य सूचना-पत्र टाइप करने के लिए कहा। वे उसमें लग गये। मृदुलाबहन† आईं और कुछ छपवाने को ले गईं। सुबह कार्यकर्त्ताओं की सभा के लिए लोग आए थे, मगर कुछ लोगों को लगा कि बिड़लाजी पर इस सभा का बोझ अब नहीं डालना चाहिए। सभा दूसरी जगह रखी गई। आखिर यह तय हुआ कि अभी किसी और जगह भी कार्यकर्त्ताओं को इकट्ठा करना ठीक न होगा ताकि कहीं सब एक साथ पकड़े न जायें। अच्छा यह होगा कि वे सब अपने-अपने मुकाम पर चले जायें और वहां काम करें। उनके पास लिखित सूचना पहुंचा दी जायगी। सो भाई कार्यकर्त्ताओं की टुकड़ियों में जाकर उनसे पांच-पांच, सात-सात मिनट बातें करके उन्हें यह सब समझा बिदा कर आए।

शहर से आने वाले लोग बता रहे थे कि सारे शहर में आग-सी फैली हुई है। समूची वकिग कमिटी को, बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के खास-खास कार्यकर्त्ताओं को और स्वयंसेवक दल के मुखियाओं को सुबह ही पकड़ लिया गया था। सरकार ने हड़ताल के खिलाफ दो से तीन साल की कैद की सजा का ऐलान किया था। फिर भी शहर में करीब-करीब मुकम्मल हड़ताल थी। डूकानें बन्द, ट्राम बन्द, बस-सर्विस बन्द। सुबह आठ बजे ग्वालिया टैंक पर झंडाबंदन था। वहां तीन बार अश्रुगैस छोड़ी गई, लाठी-चार्ज किया गया, तब कहीं मुश्किल से लोगों को तितर-बितर किया जा सका। लेकिन थोड़ी देर बाद वे फिर जमा हो गये। मृदुलाबहन आईं। उनके हाथ पर लाठी के तीन निशान थे। और भी कई स्वयंसेवक व कार्यकर्त्ता लाठी खाकर आए। टिचकर आयोडिन की मेरी छोटी-सी शीशी खाली होगई।

यह तय हुआ कि शाम को बा के साथ में, भाई और खुरशेदबहन‡ सभा में जाय। बा के पकड़े जाने पर भी मैं उनके नजदीक ही रहूँ, ताकि उनकी संभाल रख सकूँ। इस लिए मुझे उनके साथ रहने को कहा गया। बा की सेहत इतनी नाजुक थी कि एक डॉक्टर का

\* कांग्रेस महासमिति के ग्राफिस सेक्रेटरी।

† अहमदाबाद के मिलमालिक श्री अवालाल साराभाई की पुत्री।

‡ स्व० दादाभाई नवरोजी की पौत्री।

उनके साथ रहना निहायत जरूरी समझा गया और चूँकि मैं बम्बई में किसी को जानती नहीं थी, इसलिए यह तय पाया गया कि खुरशेदबहन भी हमारे साथ रहें। ]

सुबह चलते समय बापू फिर कह गये थे, "तू मथुरादास को जरूर देख आना।" सो मैं खुरशेदबहन को साथ लेकर उनके घर गई। मथुरादासभाई बहुत खुश हुए। फिर आवेश में आकर बोले, "ये अंग्रेज तो राक्षस हैं, बहन। ये राक्षस बापू को जीता बाहर नहीं आने देंगे।" मैंने समझाया, "आप शांत होजाइये, नहीं तो आवेश से आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो मुझे आपके पास आने का पश्चात्ताप होगा।" उनकी पत्नी ने भी कहा, "आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं।" मगर उनको तो मथुरादासभाई ने डांटकर चुप कर दिया। बोले, "तू चुप रह। तुझे क्या पता ! मैं कब किसीसे मिलता हूँ ? मगर मैंने तो डॉक्टरों से भी कह दिया था कि तुम्हारी तमाम दवाओं से ज्यादा फायदा तो मुझको बापू से मिलकर होगा।" फिर मुझसे बोले, "अपनी स्टेथोस्कोप लाई हो या नहीं ?" मैंने कहा, "लाई तो हूँ।" बोले, "तो फिर निकालती क्यों नहीं हो ?" मैंने उनकी तसल्ली के लिए उनकी छाती की परीक्षा की। सब एकसरे देखे। इतनी बड़ी 'कॉविटी' (दरार) है! 'हेमोप्टाइसिस' (धूँक में खून निकलना) संभव होता है। इसमें कितनी आशा रखी जा सकती है ? फिर भी मैंने उन्हें आश्वासन दिया और चलने को तैयार हुई। मैंने कहा, "अब बापू के साथ आपसे मिलने आऊंगी।" यह सुनकर वे फिर आवेश में आगये। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, "देखना, बहन, यह एक गम्भीर और पवित्र वाक्य है।\* यह देखो, यह (पत्नी) साक्षी है। खुरशेदबहन साक्षी है। ये सब होंगे। यह तो (नसं) नहीं रहेंगी। फिर भी इन्हें इनके घर से बुला लेंगे।"

मैं उनके पास पांच-दस मिनट के लिए गई थी, पौन घंटे के बाद मुश्किल से लौट सकी। बाहर आने पर उनकी पत्नी ने पूछा, "अच्छे तो हो जायेंगे न ?" मैंने कहा, "आप आशा रखिये, घबराइये नहीं।" मथुरादासभाई ने अपने सामने अंग्रेज चित्रकार वाट्स का 'होप' (आशा) नाम का चित्र लटका रखा था। कह रहे थे, "जब मैं सचमुच निराश होजाऊंगा तो इस चित्र को निकालकर फेंक दूंगा।" मगर मुझे ऐसा मालूम पड़ा, मानो उनकी आशा भी आज तो आशा के इस चित्र की तरह एक कमजोर तंतु के आधार पर लटकी हुई है।

बापस लिङ्गल-हाउस आई। देखा तो पुलिस मौजूद थी। सुना कि शहर में पोस्टर्स लग गये थे: "बापू जिस सभा में बोलने वाले थे, उसमें कस्तूरबा भाषण करेंगी।" "यह शान्त बलवा १८५७ के बलवे से भी ज्यादा सफल हो!" वगैरा-वगैरा। सो पुलिस पूछने आई थी— "क्या बा सचमुच ही सभा में जायेंगी ? अगर हाँ, तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे।" जब उन्हें मालूम हुआ कि बा अकेली नहीं होंगी, मैं भी उनके साथ रहूँगी और उनके बाद सभा में भाषण कर्हंगी तो उनका एक आदमी मेरे नाम का वारंट लाने गया:

\*उनके शब्द थे— "Solemn promise."

और एक हमारे पास रहा। सभा का समय होगया था। जब बा और में रवाना होने लगे, तो पुलिस अफसर नाटक-सा करने लगा। बोला, "माजी, आपको घर में बैठना चाहिए। बहन, आपको सभा में नहीं जाना चाहिए," वगैरा। ब्रजमोहन बिड़ला से न रहा गया। बोले, "क्या यह शिष्टाचार आवश्यक है?" इस पर वह हंसने लगा। बोला, "आप जाती ही हैं तो मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ।" बिड़लाजी की जो मोटर हमें सभा की जगह ले-जाने वाली थी, उसीमें जेल के लिए हमारा सामान रख दिया गया। श्रीमती बिड़ला ने फिर आरती संजोई और हम दोनों के टीका निकाला। मुझे अपने टीके पर हंसी आई। मेरे लिए इसकी क्या जरूरत? फिर सोचा, कल कहां थी, आज कहां हूँ! कल किसे पता था कि बम्बई जाते ही मैं कहां पहुंच जाऊंगी!

मोटर चलने ही वाली थी कि पुलिस अफसर ने हममें से किसीकी बात को इधर-उधर से सुनकर अंदाज लगा लिया कि हमारे बाद भाई (प्यारेलालजी) सभा में जा रहे हैं। फिर क्या था! तुरन्त बोला, "तो आप भी आजाइये।" भाई का सामान भी मोटर में रखा गया। चम्पाबहन ने उनके टीका निकाला और हम तीनों चले। घन-श्यामवासजी भाई से कहने लगे, "अच्छा है, अब हमें तुम्हारे हाथ-पैर टूटने की फिकर नहीं रहेगी।" लेकिन हमारे मन में निराशा थी। तीनों में से एक भी सभा में पहुंच पाता तो अच्छा होता। डाह्याभाई वगैरा हमें दिन भर के समाचार थोड़े में सुनाने लगे। सबका खयाल था कि हमें सीधे बापू के पास ही लेजायेंगे।

बाबला और कनु ने प्रणाम किया। बाबला भाई से सुबह ही कह रहा था, "प्यारेलाल काका, काका महादेवभाई अपना दुशाला भूल गये हैं। आप अपने साथ लेजाइये। उन्हें दे दीजियेगा।"

भाई से दोनों लड़कों ने पूछा कि वे क्या करें? भाई ने उनको सलाह दी कि वे जरूरी कागजात लेकर बर्धा चले जायं। कनु ने चलने से पहले मुझे और भाई को 'करेंगे या मरेंगे' का मंत्र लिखकर दिया। कहने लगा, "बस, मैं तो संकड़ो-हजारों ऐसे कागज बांटूंगा। हनुमान की तरह लंका को सर करके पकड़ा जाऊंगा, यों ही नहीं।" बाबला भी उत्साह से भरा था। इस उत्साह से भरे वातावरण को लेकर वे दोनों हमारी गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन सेवाप्राप्त गये।

अम्नुस्सलाम बापू के कल वाले भाषण के पीछे पड़ी थीं। बापू ने उसमें मुसलमानों के लिए जो बातें कही थीं उनकी नकल करने में लगी थीं। वह उसे पत्रिका के रूप में छपवा कर बंटवाना चाहती थीं। जिन्ना साहब के पास एक डेपुटेशन लेजाने की तैयारी करना चाहती थीं। उन्होंने मुझे अपना पता लिखकर दिया। बोलीं, "तुम मुझे रोज एक पत्र बापू के समाचार का लिखा करना।" मैंने कहा, "मुमकिन होगा तो लिखूंगी।"

लीलावतीबहन हैरान-परेशान इधर-उधर घूम रही थीं। कहने लगीं, "मैं क्या करूँ? बापू ने मुझसे कहा है कि तू अपनी पढ़ाई न छोड़ना। लेकिन मैं पढ़ूँ कैसे?"

भाई ने कहा, "तो मत पढ़ना। अपने साथ के विद्यार्थियों को लेकर निकल पड़ना।"

कनुभाई को मखाक सूझा। बोले, "अछा, तो यह लो।" और एक कागज के टुकड़े पर लिखकर देविया, "पढ़ेंगे या मरेंगे!"

मोटर चली तो बा की आंखों में पानी था। सुबह भी जब बापू पकड़े गये, ऐसा ही हुआ था। उस समय भी मैंने बा को समझाकर आश्वस्त किया था। अब भी समझाया। बा को मैंने छुआ तो उनका शरीर गरम लगा। इस बीच मोटर आर्थर रोड जेल पर आ पहुंची। हम उतरकर नीचे खड़े हुए। सड़क पर कुछ मजदूर जा रहे थे। उन्होंने यों ही झांककर देखा और अपनी राह चले गये। मैंने सोचा—क्या ये बा को नहीं पहचानते? क्या ये नहीं जानते कि आज क्या हो रहा है?

: ४ :

## आर्थर रोड जेल

जेल का फाटक खुला। हम तीनों अन्दर गये। हमें ऑफिस में बंठाया गया। कुरसियां गन्दी थीं। कढ़ी, बेआराम, गद्दी गद्दियां उनमें लगी थीं। सारा-का-सारा ऑफिस गन्वा और बेकरीने का नजर आ रहा था। जेलर वगैरा सब एक मजा-सा ले रहे लगते थे, मानो एक बड़िया नाटक देख रहे हों।

थोड़ी देर में हमारा कमरा तैयार होगया। ममा नाम की एक पंतीस-चालीस बरस की मराठी महिला हमें लिबाने आपहुची। हम दोनो उसके साथ चलीं। हमारे पीछे का फाटक बन्द होगया। भाई बाहर ही रह गये। उस क्षण तक मुझे यह खयाल ही नहीं आया था कि भाई हमसे अलग होजायेंगे। मैंने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और जगले की राह उनसे विदा ली। बाहर के कोलाहल की तुलना में यहा एक अजीब सन्नाटा-सा था। भीतर से एक और दरवाजा खुला और हम औरतो वाले विभाग में पहुंचीं। पीछे से फाटक बन्द होगया। यह एक ठोस दरवाजा था, जिसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था।

आर्थर रोड जेल का वह स्त्री-विभाग मुख्य जेल में अलग किया हुआ एक छोटा-सा इहाता था। चारों ओर आठ-नौ फीट ऊंची दीवारें थीं। एक छोटा-सा बागीचा था। रहने की जगह एक कतार में चार कमरे बने थे। दरवाजो में लोहे की मोटी सलाखे लगी थीं। आखिरी कमरा हमारा था। पहले दो कमरों में सजा याफ़ता औरतें थी। कोई तीस एक रही होंगी। बो-तीन की गोब में तो बच्चे भी थे। तीसरा कमरा दिन में उनके काम करने की जगह बन जाता था और रात को खाली रहता था। शाम को साढे पांच बजे सबको अन्दर बन्द करके बाहर लोहे की सलाखो के दरवाजो में ताले डाल दिये जाते थे। सजायाफ़ता औरतों में एक सात बरस की सजा वाली थी। वह हमारी सेवा का प्रबन्ध करती थी। उसका नाम साकू था। उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि वार्डर कौन होते हैं। मगर बाद में पुरुष कैदियों के वार्डरों को देखा तो समझी कि वह सजा पाई हुई स्त्री

कंबिनों को वार्डर थी; लेकिन उसके कपड़े दूसरी कंबिनो के जैसे ही थे, हालांकि मर्दों में वार्डर पीली पगड़ी पहनते हैं।

हमारे कमरे में एक घंटी टंगी थी, ताकि रात को जरूरत पड़ने पर हम उसे बजाकर किसीको बुला सकें। घंटी साकू के कमरे में बजती थी। साकू हमारी अपेक्षा बाहर की दीवार से ज्यादा नजदीक थी, सो वह चिल्लाकर सतरी को बुलाती और संतरी ममा को, तब कहीं मदद आ सकती थी।

चारो कमरो के सामने एक तंग-सा बरामदा था, मगर ए. आर. पी.\* के कारण उसमें बड़ी-बड़ी दीवारें चिन रखी थी। इसी तरह कमरे की खिड़कियों को भी, जिनमें लोहे की मोटी सलाखें थी, तीन-चौथाई ईंटो से चिन रखा था। कमरे में न हवा आ सकती थी, न धूप। फर्श में सीलन थी, पीछे की तरफ फ्लज का पाखाना और एक छोटा-सा गुसल-खाना था। दोनो खासे गन्दे थे। कुछ गंदी नालियां चूती होंगी, इससे वहां बदबू भी थी। पहले दिन तो हम दोनों—मैं और बा—बहुत थकी थीं, सोगई। मगर दूसरे रोज सुबह-ही-सुबह पता चला कि उस कमरे में बैठना सिर-बवं मोल लेना है।

हमारे आते ही हमारे लिए लकड़ी के दो तलत आगये थे। उन पर नारियल के रेशो से भरी हुई गद्दियां लगी थीं। गद्दियों पर जेल की चादरें। मुझे वे गन्दी लगी। साफ-से-साफ दूसरी चादरे लाये, मगर मुझको वे भी गन्दी लगी। आगाखा महल में आने के बाद तो बापू ने हमसे बैसी ही चादरों का इस्तेमाल शुरू करवाया और फिर तो वे कुछ साफ लगने लगीं। मगर उस दिन तो उन चादरों पर मैंने अपना और बा का घर का बिस्तर लगवाया।

बा को ६६.६ बुखार था। उन्हें बिस्तर पर लिटाया। ममा खाने को पूछने आई। बा को कुछ नहीं चाहिए था। मगर मुझको काफी भूख थी। दोपहर में तो दौड़-धूप की वजह से नहीं-जैसा ही खाया था, उससे अगले दिन भी ट्रेन में खाने का ठिकाना न था। मगर जेल में हमें खाना नियम के मुताबिक दूसरे दिन ही मिल सकता था। मैंने सोचा, इस वकत इन्हें रोटी बनाने में कष्ट होगा। चलो, थोड़ा दूध पीकर ही सोजायंगे। मुझे क्या पता कि जेल में दूध कितना दुर्लभ होता है ! सो मैंने एक प्याला दूध मांगा। कुछ देर बाद एक छोटी-सी कटोरी में पानी-सा पतला कोई तीन औंस ठंडा दूध आगया। बेचारे जेलर ने अपने घर से भेजा था। मैं उसीको पीकर लेट गई। बा सोगई थीं। शाम के साढ़े छः बजे होंगे, अन्धेरा होने लगा था। मैंने सोचा, बा उठें तो प्रार्थना करें। किताब लेकर पढ़ने लगी और मैं भी सोगई। तीन रात से पूरी नींद नहीं मिली थी। रास्ते की थकान, तिस पर आज सुबह से वातावरण खूब उत्तेजित रहा था, उसकी भी थकान थी लेटते ही नींद आगई। रात में बा तीन-चार बार पाखाने गईं। दूसरी या तीसरी दफा जब वे पाखाने से आरही थीं, उनकी आहट से मेरी नींद खुली। वे लड़खड़ाकर चल रही थीं।

\*हवाई हमले में हिफाजत

में झट से उठी। उन्हें सुलाकर पढ़ने की कोशिश की मगर ए. आर. पी. की बजह से बत्ती पर काला कागज चढ़ा था, जिससे लाट पर लेटे-लेटे पढ़ा ही नहीं जाता था और उठकर बैठने की इच्छा नहीं होती थी। सो मैं पढ़ी रही। पहली रात ममा आई होगी। हमें सोता देखकर हमारे कमरे की बत्ती बुझा दी गई थी और ममा हमें ताले में बन्द भी कर गई थी।

: ५ :

## अनोखे अनुभव

आर्थर रोड जेल

१० अगस्त '४२

सबरे सात-साढ़े सात बजे ममा ने दरवाजा खोला। उससे पहले मैंने और बा ने हाथ-मुंह धोकर प्रार्थना करली थी। बा को आज भी बुलार था। कमजोरी भी बहुत थी। पतले दस्त हो रहे थे।

हम लोगों ने कल ही बापू की गिरफ्तारी के बाद उपवास करने का विचार किया था। मगर फिर तय हुआ कि उपवास अगले दिन किया जाय; क्योंकि कल-ही-कल सबको खबर नहीं दी जा सकती थी। सो आज मैंने उपवास किया। बा को उनकी 'वेजिटेबल टी' (खास जड़ी-बूटियों की चाय) का काढ़ा बनाकर दिया। उनके स्नान के लिए गरम पानी मांगा तो उसे आने में दो घंटे लगे। स्नान बगैरा से निबटकर बंठी थीं कि जेलर आया। बोला, "अभी मैं आपको अखबार भेजूंगा। जरा खुद देख लूँ, ताकि कसम खाकर कह सकूँ कि सेंसर करके दिये थे।" थोड़ी देर बाद जेलर और सुपरिंटेंडेंट दोनों आए। बा की कुछ चीजें बिडला-हाउस में रह गई थीं। मैंने सुपरिंटेंडेंट से कहा, "या तो आप हमें फोन करने दें, या खुद फोन पर कह दें कि यह सामान हमें भेज दे।" वह बोला, "यह नहीं हो सकता। आप लोग बाहर की दुनिया से कोई सम्पर्क नहीं रख सकतीं।" मैंने पूछा, "तो अखबार कैसे भेजेंगे?" बोला, "नहीं भेजेंगे। और जो कुछ आपको चाहिए, हम आपको बाजार से खरीद देंगे।" मैंने कहा, "मेरे पास रुपये नहीं हैं। आप या तो रुपये मंगाने दें या खुद चीजें मंगवाकर दे दें।" बोला, "ये दोनों बातें नहीं हो सकतीं।" इस पर मैंने तनिक चिढ़कर कहा, "तो मैं नहीं कह सकती कि हम कबतक आपके हुकमों और कायदों का पालन कर सकेंगी।" बेचारा चुपचाप चला गया। कर ही क्या सकता था? और मेरा भी तो जेल का यह पहला ही अनुभव था।

थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आया और हमारी ऊंचाई, वजन और शनास्त के तीन निशान नोट करके चला गया। कुछ देर बाद बड़ा डॉक्टर आया। मैंने बा को बिलखाया। कहने लगा, "अभी दवा भेजता हूँ।" मैंने कहा, "थकान है, मानसिक बोझ है, दवा की इतनी जरूरत नहीं, जितनी खुराक संभालने की है। आप मुझे बा के लिए सेब मंगा दें। मैं उन्हें



सेब के रस के सिवा कुछ नहीं देना चाहती।” कहने लगा, “जेल में बहुत कम ऐसी चीजें मिलती हैं। आपको जो चाहिए बाजार से मंगालें।” मंने कहा, “मगर मेरे पास पैसा नहीं। आप खुद खरीदें। कभी ज़िदा बाहर निकले तो आपका रुपया लौटा दूंगी।” वह बोला, “मैं क्या कर सकता हूँ। जेल में बीमारों को ही खास चीजें दी जा सकती हैं। बाकी की चीजें उन्हें खुद खरीदनी पड़ती हैं।” मं फिर चिड़ गई। बोली, “जिन अस्पतालों में मैंने काम किया है वहाँ बीमारों के लिए सब जरूरी चीजें मंगा देते थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका खर्च आमतीर पर बीमारों को देना पड़ता है। लेकिन अगर वे नहीं दे सकते तो मैं नीचे ‘मुफ्त’ लिखकर अपनी सही कर देती हूँ, तो बीमार को चीज मुफ्त में मिल जाती है। और मंने तो कहा है कि मुझे रुपये मंगावा लेने दें या अभी अपनी जेब से जरूरी चीजें मंगवावें। किसी दिन आपका सब हिसाब चुका दूंगी।” वह जरा नरम पडा। पूछने लगा, “क्या आप डॉक्टर हैं? आप कहाँ काम करती थी?” वगैरा। फिर यह कहकर कि “सेब आजायगे” वह चला गया। मगर सेब शामतक नहीं आसके। बा को दिन में चाय ही दी। ब्रुखार और दस्त की शिकायत बनी रही। कमजोरी बढ़ती गई।

कमरे की हवा इतनी बन्ध थी कि वहा बैठने से सिर में दर्द होने लगता था। मंटून कहने लगी, “मेरे बरामदे में आकर बंठिये।” दरी वगैरा बिछाकर में और बा वहा जा बैठें। दोनों ने काता। मंटून से कुछ बातें कीं। वह गर्भवती थी। कोई सात महीने का गर्भ था। मंने हसी में कहा, “आपकी डिलीवरी (प्रसूति) में मैं मदद कर दूंगी।” पहले वह स्कूल-टोचर थीं, मगर जेल की नौकरी में उन्हें घर की सभाल के लिए ज्यादा समय मिलता था, इसलिए दो-तीन साल से यही नौकरी कर रही थीं। पति मिल में नौकर थे। जेल की नौकरी में वेतन तो करीब ७५) मासिक या ऐसा ही कुछ था, लेकिन रहने को घर मिला हुआ था और काम हल्का था। इसलिए यह नौकरी उन्हें पसन्द थी।

दोपहर बारह बजे मंटून अपने घर चली गई। बा भीतर जाकर लेट गई। मं वहीं बरामदे में बंठकर पढ़ती रही। कोई चार बजे फिर दरवाजा खुला। मंटून थी। सिपाही किसी का बक्स और बिस्तरा लारहा था। मं उत्सुक होकर उठी। एक और बहन आई थीं, नाम था शोमती सोतलदास। मंने साथ जाकर उनका सामान रखबाया। फिर हम दोनों बा के पास जा बैठे। उनकी उमर कोई तीस-पैंतीस साल की रही होगी। चार बच्चों की मां थीं। सबसे छोटा और एकमात्र लड़का दो बरस का था। वह बीमार-सा रहता था। किसी जमाने में यह बहन लेडी हाईग में पढ़ने गई थीं। एक. एस-सी. करके चली आईं। डॉक्टरों में नहीं गईं। जेल में पहली ही बार आई थीं। उनके पति को उनका यह काम पसन्द नहीं था। खुद उनका इरादा भी जेल आने का नहीं था; क्योंकि बच्चों की तबीयत अच्छी नहीं थी। मगर आज सुबह उन्हें लगा कि जब सबको पकड़ लिया है तो किसीको तो बाहर निकलना ही चाहिए। पति से बिना पूछे सुबह झंडाबन्दन में शामिल हुईं। वहाँसे लौटकर विद्यार्थियों से मिलने निकलीं, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। बेचारी घर सामान लेने गईं तो जल्दी में सिर्फ एक प्याली दूध पीकर चली आईं। सुबह से और कुछ खाया नहीं

था। मंदन ने मुझे बताया कि दोपहर बाव जो कंबी आते हैं, उनको दूसरे दिन खाना मिलता है। इसलिए कल रात जो थोड़ा-सा दूध मेरे लिए आया था, वह भी जेलर के घर से आया था। सो उन्हें खाना नहीं मिल सकेगा। शाम को चार बजे मेरा और बा का खाना आया। मैं और श्रीमती सीतलदास दोनों खाने बंठीं। बा ने कुछ नहीं लिया। मेरे लिए थोड़ा-सा उबला साग आया था। बा के लिए जेल की मोटी रोटी, दाल, चावल, दूध और डबल रोटी आई। मक्खन भी था। हम दोनों ने बहुत कोशिश की, मगर वह खाना गले से उतारना कठिन था। एक-दो निचाले से ज्यादा निगल नहीं सकीं। थोड़ा-सा दूध ले लिया। उपवास के बाद ऐसी खुराक से भ्रूशे तो मतली होने लगी। हम दोनों बाहर घूमने निकलीं। श्रीमती सीतलदास ने कहा, “मैंने जेलर से अपने बच्चों का जिक्र किया है। छोटे-छोटे बच्चे हैं और सबसे छोटा बीमार है। मैंने कहा है कि मेहरबानी करके मुझे फोन पर अपनी आया की बीमार बच्चे के बारे में हिदायतें देने का मौका दे।” मैंने सोचा, बेचारी कितनी भोली है! समझती नहीं कि यह जेलखाना है। उनके मन को तैयार करने के लिए मैंने आज सुबह का किस्सा बताया कि कैसे जेलर ने हमसे बाहर की दुनिया से कोई सम्पर्क न रखने देने की बात कही थी। मगर उस भोली बहन ने इतने पर भी यह माना कि शायद उसे तो फोन करने ही देंगे।

जेलर का घर सामने था। हमें घूमते देखकर जेलर की स्त्री और लडकियां दूर खिड़की में से झांकने लगी। फिर उन्होंने बा के ममाचार पूछे। जेलर को तो अपने पेट के लिए सब कुछ करना था, लेकिन घर के स्त्री-बच्चों के दिल में बापू और बा के प्रति भक्तिभाव को वह कैसे मिटा सकता था?

बारिश होने लगी। इससे हमें भीतर आना पड़ा। कमरे में सोना कठिन था। हमने निश्चय किया, बरामदे में सोयेंगी। यहीसे जेल के नियमों को तोड़ना शुरू करेंगी।\* श्रीमती सीतलदास को ‘बी’ क्लास में रखा गया था, हमें ‘ए’ में। फर्क यह था कि उन्हें सोने को लकड़ी का वह तख्त नहीं दिया गया था, जो हमें मिला था। मैंने मंदन के आने से पहले ही अपना और उनका बिस्तर बरामदे में जमीन पर लगवाया। बा का खाट पर। जब मंदन आई, हमने कह दिया कि हम ताले में बन्द होकर नहीं सोयेंगी। वह बेचारी घबराई। जेलर के पास गई। उसने कहलवाया, “भले बरामदे में सोयें।”

श्रीमती सीतलदास ने कल की काफ़ी खबरें सुनाईं। कल जिस सभा में हमें जाना था, वहा लोग रात के ८ बजे तक जमा रहे। मगर सभा न हो पाई। पुलिस ने कई बार अश्रुगंस छोड़ी और लाठियां चलाईं। जैसे ही पुलिस का हमला खतम होता था, लोग फिर

\*गांधी जी ने कुछ ऐसा इशारा किया था कि इस बार के सत्याग्रह में, पिछले सत्याग्रहों के विपरीत, जेल में जाकर सरकारी कायदों का सविनय भंग जारी रखना, किन्तु जेल में जानें के बाद खुद उन्हें इसमें सका उत्पन्न होगई और उनके साथी भी स्वतंत्र रूप से इसी नतीजे पर पहुंचें।

जमा होजाते थे। बंसे ट्रैफिक तो आज भी काफी हदतक बन्द था। हड़ताल भी थी। लोगों में काफी उत्साह था। श्रीमती सीतलदास को विद्यार्थियों से कुछ निराशा-सी हुई थी।

हम लोग जाकर बरामदे में बैठ गईं। मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। मचली होरही थी। मैं लेट गई। श्रीमती सीतलदास 'हरिजन' लाई थीं। उसे पढ़ते-पढ़ते मैं सो-गई। बा भी सोगई थीं। बेचारी श्रीमती सीतलदास को अपने बच्चों की फिकर में नींद कहा? हमने सोचा था, सात बजे उठकर शाम की प्रार्थना कर लेंगी, लेकिन बा उस वक्त भी सोरही थीं। करीब पीने नौ बजे मंटन आई। कहने लगीं, "मैं तो जल्दी आई थी कि सोने से पहले आपको खबर दे दूँ, लेकिन आप तो सो ही गईं।" खबर यह थी कि बा को और मुझको रात को कहीं लेजाने वाले हैं। हमसे कहा गया कि ग्यारह बजे तक अपना सामान तैयार रखें। मैंने उठकर अपना बिस्तर बांधा, दूसरा सामान ठीक किया। बा को नहीं जगया। श्रीमती सीतलदास घबराने लगीं। बोलीं, "मैं तो सोचती थी, आप लोगों के साथ समय अच्छी तरह कट जायगा। मगर अब तो आप भी चलीं!" मुझे भी बुरा लगा। मैंने समझाया, "आपको भी जल्दी ही यहाँसे हटायेंगे। शायद यरबदा में हम फिर मिलें।"

आज सुबह मेरे पास सेब मंगवाने के लिए पैसे नहीं थे, यह मुनकर उन्होंने अपना बटुआ मेरे सामने कर दिया, उसमें तीस-चालीस रुपये थे। मैंने पांच रुपये का एक नोट लेलिया। जल्दी में वे साड़िया कम लाई थीं, रगिन कोई न थी। मैंने अपनी एक उन्हें देदी। मन में सोचा, कहीं जेल में मर जाऊँ तो इनका कर्ज तो सिर पर न रहेगा!

बा जागीं, मैंने उनका बिस्तर बाधा। उनको श्रीमती सीतलदास के बिछौने पर लिटा दिया। फिर हमने बैठ कर प्रार्थना की। रामधुन चल रही थी कि पंरों की आवाज सुनाई पड़ी। प्रार्थना पूरी हुई। जेलर ओर मंटन हमें लेने आये थे। हम तैयार हो थीं। चलदीं। बाहर दफतर में एक आदमी बंठा था, जो हमारे साथ जाने वाला था। मैंने पूछा, "कहा ले जाओगे?" कहने लगा, "बापूजी के पास।" गाड़ी साठे बारह बजे जाती थी। अभी ग्यारह ही बजे थे। दफतर में जेल की सख्त कुर्सी पर बैठे रहने में बा को तकलीफ होरही थी। बा को तबीयत भी अच्छी नहीं थी। दस्तो की वजह से वे बहुत कमजोर हो-गई थीं। मैंने कहा, "आराम-कुर्मी मंगा दीजिये।" इस पर हमारे रखवाले ने कहा, "स्टेशन पर चलिए। वहाँ वैटिंग रूम में आप आराम से बैठ सकेंगी।" फिर कहने लगा, "बापूजी से हमारा प्रणाम कहिए। मैं सन् '३२ में उनके साथ था।" मैंने कहा, "तो कहिए, आप सब बापू के दल में कब आरहे हैं?" हंसकर बोला, "आप लोगो की देखभाल के लिए भी तो कोई चाहिए न?" फिर कहने लगा, "राजनैतिक कैदी इतनी तकलीफ नहीं देते। उनके साथ थोड़ी समझ से पेश आने की जरूरत है; लेकिन दंगे के कैदी तो खतरनाक होते हैं। हिन्दू-मुस्लिम दंगों के वक्त मैंने बहुतों को संभाला है।"

हमारा सामान जेल की मोटर में रखा गया। हम भी उसीमें बैठे। कुछ ही देर में स्टेशन पर पहुंच गईं। कौन-सा स्टेशन था, कुछ पता नहीं चला। वहाँ वैटिंग रूम में बैठे-बैठे मुझे नींद-सी आने लगी। मगर बा को नींद कहा? बैठे-बैठे बोलीं, "देखो, सुशाला,

स्लोग स्टेशन पर आते धीरे जाते हैं। सरकार का सारा कारोबार इस तरह चल रहा है, मानो कुछ हुआ ही न हो। इस हालत में बापू कैसे जीत पायेंगे?" मैंने समझाया और भगवान पर भरोसा रखने को कहा। वे कुछ शान्त हुईं। कोई बारह-सवा बारह बजे हम बाहर स्टेशन पर आईं। बा को एक कुर्सी पर बंठाकर गाड़ी पर लेगए। स्टेशन पर भीड़ काफी थी। हम लोगों में किसीको क्याल तक न था कि क्या होरहा है।

गाड़ी आई। पहले वर्ज के एक डिब्बे में मेरी और बा की जगह थी। बा नीचे सोई, मैं ऊपर। गाड़ी चली। कॉलेज में पढ़ते समय मैंने दत्त लिया था कि जबतक हम आजाद न होजायेंगे, मैं तीसरे वर्ज में ही सफर करूंगी। मगर आज तो हम आजाद हो हैं। आजाद होकर पहले वर्ज में सफर कर रही हूँ! यही कुछ मैं सोचती रही। बा के लिए जो दो सेब आये थे वे हमारे साथ ही थे। मुझे बहुत भूख लगी थी। एक सेब खाकर सो गई। दूसरा बापू के पास पहुँचा।

: ६ :

## आगाखां महल

आगाखां महल, पूना


११ अगस्त '४२

सुबह आंख खुली तो दिन निकल आया था। हमारा साथी आया और यह कहकर चला गया कि अब एक ही स्टेशन और है। मैंने बिस्तर बांधा। जब उतरने का स्टेशन आया तो बा गुसलखाने में थी। रात भर उन्हें दस्त आते रहे थे। गाड़ी को कोई पांच मिनट रुकना पड़ा। हम उतरें। एक हिन्दुस्तानी पुलिस अफसर हमें लिबाने आया था। मोटर तैयार थी। उसमें बंठाकर वे दोनों हमें लेचले। रात में बम्बई वाला साथी अपने दूसरे साथी से पूछने लगा, "यहाँकी हालत कैसी है?" पूना वाले ने कहा, "हालत खराब है। मुझे खुशी है कि मैं अबतक अपनेको इस बला से दूर रख पाया हूँ। यहाँ गोलियां चली हैं और लाठी-चाई हुए हैं। मैंने अपने अफसर से कहा था कि बिद्यार्थियों पर गोली न चलाई जाय। उनमें सात-सात, आठ-आठ बरस के बच्चे भी हैं। बच्चों पर गोलियां चलाकर सरकार लोगों की हमदर्दी खोबेंठेगी और हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, सभीको कांग्रेसपरस्त बना देगी। मैंने बिद्यार्थियों के लिए बेंत मारने की हल्की सजा सुझाई थी। लेकिन किसीने मेरी सुनी नहीं और गोलियों व लाठियों से काम लिया। नतीजा यह है कि हालत बबतर होगई है।" इस पर बम्बई वाला साथी बोला, "हां, बेंत मारना आदर्श चीज होती है।" मुझे इस वाक्य पर हंसी आई। वह बोला, "डाक्टर हमसे सहमत नहीं।" मैंने कहा, "आपका यह सुझाव कि छोटे बच्चों के लिए बेंत की सजा आदर्श

बीज हैं, मुझको कुछ अनोखा-सा लगा ; क्योंकि आज हर आदमी यह जानता है कि छोटें बच्चों को कभी शरीरिक सजा देनी ही नहीं चाहिए और अच्छे मदरसों में तो बेंत की सजा कतई मना है । ” वे दोनों बोले, “हां, लेकिन आप तो सभ्यसमाज की बात कर रही हैं और यहां हमें बर्बरता से काम है । यह न समझिये कि हमें बेंत मारना या दूसरा ऐसा कुछ करना पसन्द है, लेकिन हमें जो हुक्म दिया जाता है, उसकी पाबन्दी तो करनी ही पड़ती है । ” इसके बाद बातचीत बन्द होगई । पहले वे दोनों आपस में कह रहे थे कि किसीको इस दमन-नीति में रस नहीं है । कोई नहीं चाहता कि वह गोली दागे, लाठी चलाये या गिरफ्तारियां करे, बगैरा-बगैरा ।

पन्द्रह-बीस मिनट में मोटर एक सूनी-सी सड़क के किनारे एक बड़े फाटक पर आकर खड़ी होगई । फाटक बन्द था । मोटर दूसरे फाटक पर गई । सामने फौजी पहरा था । फाटक खुला । हम अन्दर घुसे, पीछे फाटक बन्द होगया । थोड़े फासले पर कंटोले तार लगे थे । वहां भी फाटक था और फौजी पहरा । यह दूसरा फाटक खुला और हमारे अन्दर जाने पर फिर बन्द होगया । दूर से मंने देखा, मीराबहन बगीचे में फव्वारे के पास बंठी कुछ घिस रही थीं । मगर उन्होने हमें नहीं देखा । मोटर सगमरमर की सीड़ियों के सामने जाकर खड़ी होगई । बा और मैं दोनों उतरें और ऊपर चलीं । बरामदा लम्बा था । सामने के और बगीचे की तरफ के बरामदे का शुरु का आधा फर्श सगमरमर का था और आगे जाकर आधा मामूली पत्थर का । एक कंबी झाड़ू लगा रहा था । उससे मंने बापू का कमरा पूछा । वह बोला, आगे इसी लाइन में है । बापू का कमरा आया । उनका बिछौना एक कोच पर था । वे उस पर बंठे एक कागज पर गौर कर रहे थे । महादेवभाई उसी कागज को हाथ में पकड़े पास खड़े थे और बापू से कुछ कह रहे थे । हमें आया देख सब चकित-से रह गये । बापू के चेहरे पर एक तनाव की रेखा खिंच गई । बा से बोले, “तूने यहां आने की मांग की थी, या वे ही तुझे लेआये ? ” बा बेचारी झुप रह गईं । कुछ समय ही नहीं सकीं कि क्या पूछ रहे हैं । बापू की भवें और तन गईं । मंने उत्तर दिया, “पकड़कर लाये हैं, बापू । ” तब कहीं बापू की चिन्ता मिटी । मंने प्रणाम किया । हंसने लगे । बोले, “तू आपहुंचो । ” मंने बताया, बा की तबीयत अच्छी नहीं है । तुरन्त ही उनके लिए खाट मंगवाई गई । बापू और महादेवभाई उनकी संभाल में लग गये ।

बा की बीमारी अधिकतर मन के बोझ की वजह से ही थी । यहा आने पर बिना दवा के अपने आप उन्हे अच्छा लगने लगा । सरोजिनी नायडू आकर मिलीं । वे खाने की देख-भाल करती थीं । सो खाने की बात पूछी । बोलीं, “तुम्हे कुछ खास चाहिए तो तुम पका सकती हो । ” मंने पूछा, “क्या हमें अपना खाना खुद पकाना होगा ? ” कहने लगी, “और नहीं तो तुम यहां करोगी क्या ? अपना बक्त यहां किस तरह काटोगी ? ” मंने चुप होगई । मेरे लिए यह एक नई बीज थी कि खाना पकाने की बक्त काटने का जरिया बनाया जा सकता है । मुझे आजतक कभी इस सवाल का सामना ही नहीं करना पड़ा था कि बक्त कैसे काटा जाय । उल्टे बक्त हमेशा बहुत जल्दी खत्म होजाया करता था ।



आगाखां महल का फाटक खुला और फिर  
बंद हो गया।

द्वार पर अंकित महल का नाम



जहा बापू इक्कीस महीने रहे  
(दाई ओर से चीथा वमरा ।)

कटील तारों की बाड  
(इसके बाहर ७२ मवास्त्र पहरेदारो की बाकी रहती थी ।)



बा को मुलाकर सरोजिनी नायडू और महादेवभाई मुझे खाना खिलाने को मेज पर ले-  
गये। टोस्ट, मक्खन और ताजी चाय की प्याली में उस दिन मैंने जो स्वाद पाया, वह  
कभी किसी बड़ी-से-बड़ी दावत में भी नहीं मिला !

: ७ :

## महादेवभाई के साथ चार दिन

महादेवभाई ने कहा, "दो रोज हमने बापू की मालिश की। हम तो मालिश करना  
जानते नहीं। आज बापू मुझे सिखाने वाले थे। अब तुम आपहुँची हो तो सँभालो अपना  
काम।" मैंने बम्बई में यह तय किया था कि बापू की मालिश वगैरा का काम भाई किया  
करेगे और बा की सेवा मैं किया करूँगी। लेकिन भाई तो यहाँ पहुँचे ही नहीं थे। इसलिए  
जब महादेवभाई ने ऐसा कहा तो मैं चुपचाप बापू की मालिश करने चली गई। यह  
मक्खियाँ और मच्छर बहुत हैं। इतनी नई, साफ और शहर के बाहर की जगह में  
इस कदर मक्खियाँ क्यों हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बापू ने बताया कि पूना में सफाई  
का प्रबन्ध अच्छा नहीं है। पता नहीं, यह मकान कब से बन्द पड़ा था ! अभी-अभी खोला  
गया है। इस वजह से भी इतने जीव-जन्तु यहाँ पर हो सकते हैं। मालिश में बापू सो-  
जाते हैं। मक्खी-मच्छर परेशान करते थे सो मालिश के समय महादेवभाई को मक्खियाँ  
उड़ाने का काम करना पड़ा। मैंने देखा, वे बहुत खुशी से यह काम कर रहे थे। वे बापू  
की हर सेवा में खुश रहते थे।

बापू को दोपहर का खाना करीब बारह-साढ़े बारह बजे मिला। मीराबहन और  
महादेवभाई ने बताया कि जिस रोज वे लोग यहाँ आये थे, उस रोज तो यहाँ खाने का  
कोई इन्तजाम था ही नहीं। बिड़ला-हाउस से जो आषसेर बूध आया था, वह बिगड़ गया  
था। इन लोगों ने आकर खुद खाने का सारा इन्तजाम किया। बापू खाना खाते समय  
शाम के खाने की कुछ बात करने लगे। महादेवभाई और मीराबहन ने एक-दूसरे की ओर  
देखा ; क्योंकि शाम के पांच तो बज ही रहे थे। बापू ने घड़ी देखी और हँसने लगे।  
शाम का और सुबह का खाना एक होगया था ! शायद सरकार ने सोचा होगा कि गांधीजी  
तो इस बार उपवास करने ही वाले हैं, फिर खाना पकाने के इन्तजाम की मेहनत क्यों  
कीजाय ! या कँवियों के लिए खाना तैयार करने का उसका रिवाज ही नहीं रहा होगा।

आज हम लोगों ने तो खाना कोई एक बजे ही खाया होगा। खाना खाने के बाद  
महादेवभाई सब प्लेटें उठाकर उन्हें धोने चले गये। मैं भी उनके पीछे गई और थोड़ी  
मदद की। तीन बजे महादेवभाई नीचे रसोईघर में पहुँचे। बापू के लिए सक्की काटी  
और चढ़ाई। उसके बाद उनके लिए भौसम्बी का रस निकाला। नीचे गये, रसोईघर



से सब्जी लाये। मीराबहन को दूध निकालने में देर हुई थी। इसलिए शाम का खाना आज भी बापू को देर से मिला।

मैंने देखा, यहां भी इन लोगों को अलबार बगैरा कुछ नहीं मिलते थे। महादेवभाई को यहां मैंने एक बिलकुल नये रूप में देखा। खाना पकाने और बरतन धोने-जैसे कामों में उनकी विलचस्पी देखने की चीज थी। शाम को प्रार्थना के बाद वे पलथी मारकर बरामदे में बैठ गये और रात को खाने के लिए सबके लिए टोस्ट बना डाले। खाना खाते समय ... की बातें करने लगे। और-और लोगो की चर्चा भी उन्होंने की। जबतक किसीकी सारोफ की कोई बात न आती, महादेवभाई अनमने-से होकर सुनते रहते। लेकिन किसी अच्छी बात की सुनकर, जिससे वे सहमत होसकें, वे उत्साह के साथ उसकी दाद देते थे।

दिन में बापू ने लार्ड लमली (बम्बई के गवर्नर) के नाम अपने पत्र की कच्ची नकल में काट-छांट करके उसे महादेवभाई के हवाले किया और बोले, "मुझे ऐसा लगता है कि यह तो आज जाना ही चाहिए।" इस पत्र में बापू ने एक घटना का उल्लेख किया था, जिसमें मेहता नाम के किसी कार्यकर्ता को स्टेशन पर पशु की तरह घसीटकर लारी में डाला गया था। इसी पत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल और मणिबहन को यहां भेजने की दरखास्त भी कीगई थी। बापू ने लिखा था कि सरदार तो उनकी (बापू की) चिकित्सा में थे, मणिबहन सरदार की नर्स थीं, सो दोनों को उनके पास भेज देना चाहिए। तीन-तीन मसविदों के बाद यह खत तैयार हुआ था। हम सब ऐसा मानते थे कि सरदार वल्लभभाई और मणिबहन जल्दी ही यहां आजायेंगे। उन्हें किस कमरे में रखेंगे यह चर्चा हुई। हम मानते थे कि वल्लभभाई और मणिबहन दोनो घरबदा में हें। भाई को भी जल्दी बापू के पास लेआवेंगे, ऐसी हमारी मान्यता थी।

यहां अभी बरसात शुरू हुई है सो बरामदे में घूमना पडता है। मगर बरामदा बहुत लम्बा है। मकान के चारों तरफ गया है। एक चक्कर में एक-तिहाई मील की घुमाई होजाती है। मकान की निचली मंजिल में हमें रखा गया है, उपर हमारे जेलर मि. कटेली रहते हैं। नीचे वाला भाग भी सब नहीं खोल रखा। एक बड़े कमरे में सरोजिनी नायडू हैं। वहीं दो संगमरमर की मेजें पड़ी हैं जहां सब खाना खाने बैठते हैं। एक कमरे में बापू हैं, एक में मीराबहन। एक छोटा कमरा बापू और सरोजिनी नायडू के कमरे के बीच है, वहाँ महादेवभाई, मैं, बा बगैरा कभी-कभी बैठते थे। अधिकतर तो बापू के कमरे में ही काम करते रहते थे। गुसलखाने दो ही हैं मगर बड़े हैं। पाब्बाना पलश वाला है। बगीचा बहुत बडा है, पर कंटीले तार लगाकर हमें बहुत थोडा-सा टुकड़ा दिया गया है। पानी नहीं पडता तब वहीं थोडा घूम लेते हैं। फूल बहुत सुन्दर हैं।

रात को मीराबहन ने बापू के पैरो की मालिश की, मैंने सिर की। यहां मच्छर इतने हैं कि मच्छरदानी लगाकर सोना पडता है। बा अन्दर कमरे में सोई। सरोजिनी नायडू अपने कमरे में। बाकी के चार—बापू, मीराबहन, महादेवभाई और मैं—बरामदे में सोए।

१२ अगस्त '४२

सबरे उठते ही बापू ने पूछा, "महादेव, मॉंद कंसी आई?" महादेवभाई बोले, "कोई दो बजे अंख खुलू ही जाती हूँ। फिर साढ़े तीन बजे नींद आई होगी। जब आप और सुशीला प्रार्थना कर रहे थे, मैं आवाज तो सुन रहा था, पर उठकर आया नहीं।" इससे मुझे पता चला कि महादेवभाई अच्छी तरह सोते नहीं हैं। मीराबहन ने कहा, "सिर में मालिश करवानी चाहिए।" मैंने उनसे पूछा, "अगर आपको पसन्द हो तो दोब रात को आपके सिर की मालिश कर दिया करूँ।" इस पर वे बोले, "हमारा क्या है। मालिश की जरूरत नहीं रहती।"

मैंने कहा, "रात में जरूरत हो तो आप मुझे सोते से जगा सकते हैं।"

कहने लगे, "दिल्लेंगे।" उन्हें मालिश की जरूरत है, पर सेवा लेने में संकोच होता है।

नाश्ते के बाद मैं और महादेवभाई बापू के साथ बरामदे में घूमे। महादेवभाई और बापू अनेक विषयों पर बातें करते थे। मेरे लिए यह घूमना सामान्य शिक्षण की एक क्लास ही हो जाती है।

आज भी बापू को अपना खाना समय पर नहीं मिल सका। बापू ने कहा, "अब हम सब आपस में काम बांटलें।" महादेवभाई बोले, "बांटना क्या है? बंटा हुआ ही है। सुशीला आपकी सेवा में रहेंगी। मीराबहन पहले सुबह का साग बनाया करती थीं और मैं शाम का। अब सुबह का भी मैं बनालूंगा।" बापू को महादेवभाई का बनाया साग ज्यादा पसन्द आता था, क्योंकि सोड़े की मात्रा ठीक होने से वह ज्यादा गला हुआ रहता था। सो महादेवभाई दोनों समय साग बनाने को तैयार हुए थे। मैंने कहा, "नहीं, शाम का साग मैं बना दिया करूँगी और आप लोगो की प्लेटें भी धोदूंगी।" मगर जब प्लेटें धोने का वक्त आया तो महादेवभाई मेरे पीछे-पीछे नल पर आपहुँचे और सब प्लेटें साथ रहकर धुलवाई। इसी तरह मैं सब्जी चढ़ाने गई तो वहाँ भी पीछे से आपहुँचे। साग काटने और चढ़ाने में मदद की। मैंने कहा, "आप क्यों अपना समय ऐसे कामों में खोते हैं?" बोले, "यहाँ और काम ही क्या है? अबके में अपने साथ कोई सामान ही नहीं लाया, नहीं तो लिखने का काफी काम हो सकता था। लेकिन तीन-चार लेखों की सामग्री के सिवा मैं कुछ लाया ही नहीं।" मैंने कहा, "तो वे तीन-चार लेख तो लिख ही डालिए।" बोले, "लिख लूंगा। बात यह है कि इस समय मेरा तो मन ही नहीं होता कि कुछ करूँ। जबतक बापू की उपवास की तलवार मेरे सिर पर लटक रही है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सन् '३२ में बापू के छः दिन के उपवास में मैंने दस पौण्ड वजन खोया था, हालांकि उन दिनों मैं बराबर भोजन करता था। तभी छः दिन में बापू बेहाल होगये थे तो अब क्या होगा?"

बापू ने बाइसराय के नाम जो खत लिखना शुरू किया था, आज दिन में उसमें फिर सुधार किये गए और मुझे उसकी नकल कर देने का काम मिला। यहाँ मच्छरों और मक्खियों

की बजह से दिन में भी कुछ काम करना हो तो मच्छरदानी में बैठकर ही करना पड़ता है। मैं अपनी खटिया पर जा बैठी, मच्छरदानी डालदी। खत लम्बा था, नकल करने में दो घंटे लगे होंगे। बापू ने महादेवभाई से कहा, “अब तुम इसे पढ़ जाओ, बुढ़िया (सरोजिनी नायडू) को भी पढाओ और कुछ सुझाव देना हो तो दो।” इसके बाद बापू उर्दू के अभ्यास में लग गये। कहने लगे, “अगर सरकार मुझे फिर छः साल की सजा सुना दे तो मैं बहुत काम कर दिखाऊँ।” यह सुनकर महादेवभाई के मन में फिर वही विचार आगया, बापू छः साल तक हमारे साथ रहेंगे सही? सत्यमूर्ति का वाक्य याद आया, “गुलाम हिन्दुस्तान की अपेक्षा आजाद हिन्दुस्तान में आपकी ज्यादा जरूरत रहेगी।”\*

रात बापू मुझसे कहने लगे, “तुझे लिखने-पढ़ने का काम करने की इच्छा थी न! देख, कैसा खन तेरे हाथ आया है!” इस पर महादेवभाई कहने लगे, “अबकी जब बाबूला हमारे साथ बम्बई आया तो रास्ते में मैंने उसे ‘टु अमेरिकन्स’ (अमेरिकनों के प्रति) नामक बापू का लेख टाइप करने को दिया। वह तो नाचने लगा। बोला, “काका, कितने दिनों के बाद आज में टाइप करने लगा हूँ और पहली ही बार यह कितनी बढ़िया चीज मेरे हाथ लगी है!” महादेवभाई को अपने लडके की बहुत याद आ-रही थी। कल मुझसे पूछा, “दोनों लडकों का क्या हुआ?” मैंने कहा, “भाई की सलाह से वर्धा जाना तय हुआ था।” कहने लगे, “मैं तो चाहता था कि दोनों बम्बई से ही पकड़े जाते। मगर ठीक है, मेरी गैरहाजिरी में उन्हें भाई की ही आज्ञा का पालन करना था। उन्होंने सोच-समझकर ही वर्धा जाने की सलाह दी होगी।”

आज प्रार्थना में महादेवभाई ने ‘दीनानाथ दयाल नटवर’ भजन गाया। मि० कटेली, सरोजिनी नायडू, मोराबहन वगैरा सभी प्रार्थना में आते हैं।

आज बापू ने अपने नीचे से कोच निकलवा डाला। जमीन पर जेल का गद्दा बिछवाकर दिन-भर उसी पर बंठे।

१३ अगस्त '४२

बा को आज फिर पतले दस्त होगये। मैंने दवा का नुस्खा लिखकर मि० कटेली को दिया। उसपर लिखा था—कस्तूर बा गांधी के लिए। नीचे मेरे दस्तखत थे। महादेवभाई ने नुस्खा मि० कटेली को दिया कि या तो बाजार से या जेल के अस्पताल से दवा मँगा दें। मि० कटेली बाजार से मँगवाने को तैयार होगए। मैंने महादेवभाई से कहा कि बाजार में लोग पढ़ेंगे कि दवा किसके लिए है और नुस्खा किसने लिखा है तो वहा थोड़ी खलबली नही मचेगी? इसपर महादेवभाई अपने माथे पर हाथ मारकर जेलर की मूर्खता पर हंसने लगे। बापू ने हमारी हंसी सुनी तो पूछा, “क्या बात है?” महादेवभाई ने सब बात बताई। बापू बोले, “नहीं, हमें उन्हें सुझा देना चाहिए। हम व्यर्थ ही उन्हें तकलीफ में नहीं डालना चाहते। वे सब कुछ समझकर भी

\*“Free India needs you more than subject India.”

कोई खतरा न मानें और नुस्खे को ज्यों-का-त्यों बाजार में भेजना चाहें तो बात अलग है। उस वक्त मैं और महादेवभाई, दोनों थोड़ी शरारत की धुन में थे। जाने देते नुस्खा ! थोड़ा-सा मजा आता। लेकिन बापू थोड़े ही ऐसा होने देने वाले थे ! महादेवभाई ने मि० कटेलीसे कहा। वे बहुत खुश हुए। बोले, "मैं बापू का बहुत आभारी हूँ।" नुस्खा उन्होंने अपने हाथ से नकल किया और वह उनके दस्तखत से बाजार गया। बचा आई। मगर बा को एक ही खुराक बी जासकी। इससे उन्हें कब्ज होगया। इसलिए बन्व करनी पड़ी। बा की बीमारी तो बस बापू के पास पहुंचने से ही अच्छी हो-गई लगती है।

बापू ने कल महादेवभाई से वाइसराय को लिखे खत की नकल पढ़ जाने और उसमें जो सुझाव हो, सो देने के लिए कहा था। महादेवभाई दिन भर उमे पढ़ नहीं सके; लेकिन वे जानते थे कि बापू सवेरे ही पूछेंगे, "खत पढा?" सो उस रात को वे दो बजे ही उठ बंटे। कगीब डेढ़-दो घंटे तक बड़े गौर से खत पढ़ते रहे। फिर सोगये। अगले दिन उन्होंने उस खत के बारे में कई सुझाव दिये। बापू ने खत में सुधार किये और उसकी पक्की नकल करने के लिए खत महादेवभाई को दे दिया। उन्हें करीब दो घंटे नकल करने में लगे। पत्र लम्बा था, मगर बहुत अच्छा था। बापू ने वाइसराय को लिखा था कि उनको (बापू को) इस तरह पकड़ने में सरकार की भूल हुई है। सरकार ने जो प्रस्ताव नेताओं की गिरफ्तारी को जायज साबित करने के लिए छपाया है, वह असत्य से भरा है। उसमें कांग्रेस पर जो हमले किये गए थे, उनमें से कुछ का जबाब बापू ने इस खत में दिया था और वाइसराय को सलाह दी थी कि वह अब भी अपनी भूल को सुधारलें तो अच्छा होगा।

पत्र वापस बापू के पास आया। उन्होंने हाथ में लेकर एक-आध मिनट महादेवभाई के मोती-जंसे अक्षरों को देखा, फिर उन्होंने उसमें एक-दो जगह अपने हाथ से छोटे-छोटे सुधार किये और दस्तखत कर दिये। रात को पत्र कटेली साहब को दिया गया। बापू पूछ रहे थे, "नकल करने में कितना वक्त लगा?" महादेवभाई ने कहा, "दो घंटे।" फिर बोले, "मुशौला ने सरकारी वक्तव्य में से अवतरण लेते समय एक जगह एक शब्द छोड़ दिया था। इसलिए मैंने सारा पत्र ध्यान से देखा। इस कारण भी वक्त कुछ ज्यादा लगा।" बापू मेरी तरफ देखकर बोले, "ऐसा क्यों हुआ? यह तो नहीं होना चाहिए।" मेरा मुह फक होगया। बापू के काम में तनिक-सी भी भूल होजाय तो वह असह्य लगता है। बापू भी इन छोटी-छोटी भूलों को बहुत महत्त्व देते हैं। कहा करते हैं, "मुझे यह भरोसा होना चाहिए कि जो काम मुझे सौपा वह संपूर्ण होगा। मुझे उसमें पूछने और फिर से देखने जैसा नहीं रहना चाहिए।" महादेवभाई बाव में मुझसे कहने लगे, "इस तरह की नकल करते समय ऐसा हो ही जाता है।" मैं समझ रही थी कि मुझे आश्चस्त करने के लिए ही वे ऐसा कह रहे हैं। उन्हें अफसोस होरहा था कि बापू के सामने मेरी शिकायत क्यों की। आजकल उनकी मनोवृत्ति कुछ ऐसी बन गई है कि किसीको या किसीके बारे में कोई अच्छी बात कह सकें तो कहें, वरना चुप रह जायें। कीमलता उनके स्वभाव में हमेशा

से रही है। वे किसीका भी बिल दुखाना नहीं चाहते थे। इससे उन पर कभी-कभी यह इल्जाम आता था कि वे सबको सदा मीठी लगने वाली बात कह बिया करते हैं। इसलिए उनके कहे पर बहुत आधार नहीं रखा जा सकता। लेकिन इस बार की उनकी कोमलता तो पराकाष्ठा को पहुंच गई थी। उनके मन में एक ही विचार था : बापू के आदर्शों का—एकादश व्रतों का—जितना पालन हम कर सकेंगे, उतनी ही बापू के महान यश में हम उनकी सहायता कर सकेंगे।

सरोजिनी नायडू ने कल महादेवभाई से कढ़ी बनाने को कहा था। आज उन्होंने कढ़ी बनाई। बहुत अच्छी बनी थी। मंने और महादेवभाई ने तीन बार ली। रोटी यहां कंबी बनाते हैं। चपातियां अच्छी नहीं बनती। महादेवभाई कहने लगे, “अगर दुर्गा यहां होती तो हमें ऐसी रोटी हरगिज न खानी पड़ती।” खाना पकाने के बारे में इधर-उधर की बातें होती रहीं। दोपहर खाने के बाद प्लेटें धोते समय महादेवभाई मुझसे बोले, “ये लोग खाने-पीने की बातें करते हैं ! मैं इन्हे कैसे बताऊँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है ? अगर मैं और तुम दो ही यहां होते तो बापू के लिए जो सज्जी बनती है, उसकै सिवा मैं तो और कुछ भी न बनाता।”

खाने के बाद मंने एक मौसम्बी उठाई। महादेवभाई ने लेने से इन्कार किया। बोले, “तुम खाओ।” मंने आग्रह किया। पूछा, “आप क्यों नहीं खाते हैं?” तो कहने लगे, “असल में यह बापू के लिए है। अपने हिस्से की जो खुराक हमें मिलती है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लेना चाहता। मैं बापू के साथ कई बार जेल में रहा हूँ, मगर फलों को कभी छूता भी नहीं था; क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं अकेला होता तो मुझे ये फल मिलने वाले नहीं थे।” हमारे लिए जेल से केले आया करते थे, सो केले वे कभी-कभी खालिया करते थे।

शाम को हम लोग प्लेटें धोरहे थे। तब फिर महादेवभाई ने कहना शुरू किया, “मैं परेशान हूँ। बापू कब क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। खाना खाते समय भी मुझे तो यही विचार सताता है कि कितने दिनो तक हम चंन से खा सकेंगे! मन पर यह एक भयंकर बोझ है।” महादेवभाई बहुत उदास नजर आते थे और ठडी सास लेरहे थे। मंने पूछा, “चिंता बढ़ाने वाला कोई नया कारण पंदा होगया है ?” बोले, “जो पहले से है, वही क्या कम है और मुझे जो बाहर की खबरें मिल रही हैं, उन्हे बापू जानेंगे तो पता नहीं, उन पर क्या असर होगा ?”

शाम को महादेवभाई बीच के कमरे में बंठे अकेले कात रहे थे। मैं पास जा बंठी। मंने पूछा, “महादेवभाई, आप यहां अकेले क्यों कात रहे हैं?” वे अभी भी उदास ही थे। मुझसे बातें करने लगे। उन्हें बाबला की याद आगई। बोले, “बाबला होता तो टाइप वर्कर करने में काफी मदद देता।” फिर बड़े गर्व के साथ कहने लगे, “वह बापू के हिंदी-भाषणो की बहुत अच्छी रिपोर्ट लेने लगा है।” मंने कहा, “हां, वह होशियार तो है ही, जल्दी ही आपके कामो में हाथ बंटाने लगेगा।” इस पर बोले, “नहीं, अंग्रेजी वह काकी

नहीं जानता ।" मने कहा, "काफी जानता हूँ और आप और ज्यादा सिखा भी तो लेंगे !" इतने में बापू ने मुझे पुकारा ।

शाम को आसमान साफ था । हम नीचे बगीचे में घूम रहे थे । घूमते समय महादेव-भाई बापू से अहिंसा के बारे में खर्चा करने लगे । बोले, "व्यक्तिगत अहिंसा के बारे में तो किसीको कोई शंका है ही नहीं । सब मानते हैं कि व्यक्तिगत रूप में अहिंसा सब कठिनाइयों को हल कर सकती है; किंतु उसके सामाजिक प्रयोग के बारे में लोगों को अवश्य ही शंका है । सो आप उसका प्रयोग करके दिखा ही रहें हैं ।" बाद में 'साहित्य में अहिंसा' की बात चल पड़ी । महादेवभाई ने बापू को रघुवंश में से राजा दिलीप की गो-सेवा-सम्बन्धी कहानी सुनाई जिसमें दिलीप के गाय की सेवा करने का वर्णन है । उन्होंने सुनाया कि किस तरह बाद में शेर गाय को खाने आता है और राजा का उसके साथ क्या संवाद होता है, बर्गरा । फिर कहने लगे, "मैं 'साहित्य में अहिंसा' विषय पर एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ । मेरे पास कई किताबों के नोट्स कही पड़े हैं । उनके आधार पर छोटे-छोटे अध्याय लिखकर तीस-चालीस अध्यायों में इस विषय के बहुत प्रभावशाली नमूने इकट्ठा करूँगा ।" बापू बोले, "इसी नाम की एक पुस्तक सेवाग्राम में हाल ही में हमारे पास आई थी ।" महादेवभाई ने यह देखी नहीं थी । बोले, "तब तो हमें उसे देखना चाहिए ।" फिर कहने लगे, "लेकिन हो सकता है कि इस सम्बन्ध की उस आदमी की धारणा मेरी धारणा से बिल्कुल भिन्न हो ।"

आज प्रार्थना में महादेवभाई ने मराठी का तुकाराम का अंभंग गाया—'भक्त ऐसे जाणा जे देहीं उदास ।' प्रार्थना के बाद मने उनसे इस भजन का अर्थ समझाने को कहा । उन्होंने समझाया । मेरे आने के बाद प्रार्थना में रामायण का गायन शुरू हुआ है । उत्तर-काण्ड का जो भाग जिस जगह से आश्रम में छूट गया था, वहीं से आगे शुरू किया गया है । ताल देने के लिए मंजीरा नहीं है, सो बापू ने मीराबहन से चम्मच और कटोरी का उपयोग कर लेने को कहा है । उन्होंने ऐसे कटोरी-चम्मच बजाकर भी दिखाया ।

कल सुबह घूमते समय हम लोग बगीचे में मकान के सामने की तरफ चले गये थे । ऊपर सामने वाले बरामदे में लकड़ी की जाली लगाई गई है । उसे रंगकर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि वह पुरानी चीज है, ताकि कोई माने कि मुसलमानी घर में पर्दों के खयाल से लगाई गई होगी । मगर बापू को पूरा शक था कि यह नई चीज है । हमें कोई बाहर से देख न सके इस हेतु से लगाई गई है । कल उधर घूमने से यह शक सच्चा साबित हुआ । महादेवभाई को लकड़ी की जाली के कुछ ताजे छिन्के उधर पड़े मिल गये । यह जाली बरसों पहले जब मकान बना था तब लगी होती तो लकड़ी के ये ताजे छिन्के आज यहा कहाँसे आते ! फिर आगे बढ़कर देखा । इस तरफ के प्रवेश को बंद करने के लिए इधर भी जाली का एक ऐसा ही दरवाजा लगाया गया था । उस पर बाहर की ओर से रोगन नहीं हुआ था । या तो करना भूल गए होंगे, या करना गंजरहूरी समझा होगा । लकड़ी साफ ताजी छिली हुई बिछाई देती थी । सरकार को डर रहा होगा कि इस बरामदे

में खड़े होने पर बाहर वाले लोग तो बापू को देख सकेंगे, शायद भीतर बैठे-बैठे भी बापू लोगों को उकसा सकें !

चारों ओर कंटीले तारों का एक अहाता खींच दिया गया है जिसमें से हमें बगीचे का थोड़ा ही हिस्सा मिला है। बाहर की दीवार से कंटीले तारों का करीब ५० या ७५ गज का फासला रखा गया है, ताकि कहीं दरवाजे में से झाँककर हम बाहर वालों के साथ सम्पर्क स्थापित न कर लें ! मगर कंटीले तारों में जगह-जगह इतने बड़े-बड़े रिक्त स्थान हैं कि आदमी भागना चाहे तो आसानी से भाग सकता है। इन कंटीले तारों के अंदर छः सिपाही हमारी रखवाली के लिए रखे गये हैं। वे सेवा भी करते हैं। करीब एक दर्जन सजायापता कंड़ी सबेरे छः बजे से शाम के छः बजे तक यहाँ सफाई इत्यादि करते हैं। करीब पंद्रह या बीस कंड़ी बगीचे में काम करने आते हैं। कंटीले तारों के बाहर ७२ फौजियों का पहरा रहता है।

यहाँ आने वाले सब लोगों के लिए यह जगह एक खासी जेल है। हमारे जेलर मिस्टर कटेली यहाँ अकेले ही रहते हैं। अखबार तक नहीं पढ़ सकते। या तो उन्हें इजाजत नहीं है, या वह अपना फर्ज अदा करने में इतने मुस्तैद हैं कि जान-बूझकर अखबार नहीं पढ़ते। चूँकि हमें अखबार पढ़ने की इजाजत नहीं है, इसलिए अगर वह पढ़ें तो किसी समय भूलचूक से उनके मंह से कोई बात ऐसी निकल सकती है, जिसकी खबर हमें नहीं लगनी चाहिए।

महादेवभाई तो हमेशा जिसके सम्पर्क में आते हैं, उसका मन हरण कर ही लेते हैं। मि० कटेली के साथ भी उसकी खूब बन गई है। जब पहला पत्र तैयार हुआ तो महादेव-भाई उसे लेकर ऊपर मि० कटेली को देने चले गये। खत लेलेने के बाद बातों-ही-बातों में मि० कटेली ने कहा, "आप लोगों को ऊपर आने की इजाजत नहीं है। आपके यहाँ आने से पहले एक पुलिस अफसर आकर मुझसे कहने लगा कि इस जीने के सामने यह नोटिस लगावो कि कोई ऊपर न आये।" मैंने इन्कार किया। कहा, "उनमें कोई ऐसा है ही नहीं, जो खुद ऊपर आये। नोटिस लगाने की जरूरत नहीं।" इस पर महादेवभाई ने कहा, "बस, हमें पता चल गया, अब नहीं आवेंगे।" और उस दिन से उन्होंने ऊपर जाना बंद कर दिया। महादेवभाई विवेक की मूर्ति थे !

मि० कटेली भले आदमी हैं, दयानतदार हैं। सरकार के प्रति अपना फर्ज पूरी तरह अदा करते हैं। उनकी पत्नी मर गई है। घर पर बूढ़ी मां और बच्चे हैं। मां को बहुत याद किया करते हैं। बापू के प्रति भक्ति रखते हुए भी वे सरकार के प्रति अपना फर्ज अदा करने में कभी चूक नहीं सकते। बेचारों ने पहले तो बाहर से खाना मंगवाना शुरू किया था, लेकिन वह सब ठंडा होजाना था। इसलिए सरोजिनी नायडू ने उन्हें अपने साथ खिलाना शुरू किया है। खाने के लिए चुपचाप आते और खाकर चुपचाप ही चले जाते हैं। सारा दिन उनसे कोई बात करने वाला तक नहीं। सिपाहियों के साथ बात भी क्या करें ? कभी-कभी महादेवभाई उनसे जरूर बात कर लेते हैं। मगर हम तो सब कंड़ी रहे।

कंदियों के साथ भी बेचारे कितनी बात कर सकते हैं ? सरोजिनी नायडू कह रही थीं, “वह भी उतने ही कंदी है जितने कि हम। फर्क यह है कि उनको जेल जाने का श्रेय नहीं मिलता जो हमें मिलता है।”

सिपाही लोग भी अपने घर नहीं जा सकते। उनके जमादार का नाम रघुनाथ है। होशियार आदमी है। सन् '३२ में जब बापू पकड़े गये थे तब भी वह घरबदा में उनकी सेवा किया करता था। इसी तरह जब-जब सरोजिनी नायडू घरबदा जेल में रहीं वह हमेशा बाजार से उनके लिए सामान वगैरा लाने का काम करता था। खासा चलतापुर्जा है। सामान लेने बाजार जाता है तो तनिक अपने घर में भी झांक आता है। सिपाही की वर्दी पहनकर नहीं निकलता, क्योंकि आजकल बाजार में लड़के अकसर सिपाहियों की झुरी गत बनाते हैं। हाल ही में एक दिन वह जेल से हमारा 'राशन' लारहा था। लोगों ने गाड़ी रोकली। कहा कि आज हड़ताल है। तुम गाड़ी नहीं ले जासकते। रघुनाथ चुपके से उन्हे कह आया, “नहीं जाने दोगे तो तुम्हारे ही लोग भूखी रहेंगे।” बस, सामान लेआया। उसके कुछ भाई-भतीजे वगैरा कांग्रेस में हैं। जेल भी गये हैं। अपने इस सम्बन्ध का भी वह फायदा उठा लिया करता है। महादेवभाई ने इसके साथ भी अच्छी दोस्ती गाठली है।

कंदियों में जो चार रसोईघर में काम करने वाले हैं उनमें से दो काठियावाड़ के गुजराती हैं। एक नकली रुपये बनाने के इल्जाम में पकड़ा गया था। दोनों भाइयों ने मिलकर कोई पंद्रह हजार रुपये बनाये थे। बाद में एकने सारा बोध अपने सिर लेलिया। रुपये से बहुत-सी जमीन खरीद ली। कोई हजार-एक रुपया किसी डाक्टर को दिया। डॉक्टर ने उसे विमागी दुर्बलता का सर्टीफिकेट देदिया, सो सजा कम होगई। महादेवभाई से कहने लगा, “क्या हुआ जो मेरे दो-तीन साल जेल में चले गये। अब अरराम की जिंदगी बसर करेंगे।” फिर बोला, “साहब, आपके स्वराज में आप मुझे सिक्के ढालने के लिए बुला लेना।”

दूसरा एक बूढा काठियावाड़ी कंदी था भूरा। उसे सब काका कहते थे। सिपाही तक उसे काका कहकर बुलाते थे। वह सब पर हुकम चलाता था। वह हिंदू-मुस्लिम फसाद में पकड़ा गया था और बड़े गर्व से कहता था कि वह दूसरो की रक्षा करते-करते जेल आया है। बाद में पता चला कि वह कई बार जेल आचुका है। हमेशा मार-पीट करके आता है। बड़ा बातूनी है। महादेवभाई जब नीचे सठ्ठी वगैरा काटने को जाते थे तो कंदियों के साथ काफी बातचीत कर आते थे। ये दोनों गुजराती बोलने वाले कंदी तो उन्हें अपना भाई ही मानने लगे थे। कहते, “आखिर हम गुजराती जो हैं!” महादेवभाई उनके साथ बिलकुल बराबरी के आदमी की तरह बात करते थे। सो वे अक्सर कहा करते, “महादेवभाई, हम सूरत जिले में आपके घर आयंगे।”

महादेवभाई कहते, “हा भाई, जरूर आना।”

कंदियों के साथ अपनी सम्पूर्ण एकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने लिए



जेल के कपड़े मंगाने और पहनने का इरादा भी कर लिया था। एक बिन भूरा कहने लगा, “मैं छूटने वाला हूँ, कोई चिट्ठी देना हो तो देना। मैं लेजाऊंगा।” मैंने कहा, “तुम्हारी तलाशी नहीं होगी ?” उसने तुरंत एक अंडे की शकल की छोटी-सी डिब्बी निकाली, उसको खोला, अन्दर कागज का टुकड़ा रखकर बंद किया और झट से मुंह में डाल गया। कहने लगा, “लैलो तलाशी।” कुछ दिखता नहीं था। उसके गलेमें कोई पाकेट-सी बनी होगी, जहा डिब्बी छिपा रखता था। जब हमने हार मानली, उसने झट उबकाई-सी ली और डिब्बी निकालकर खोलकर कागज हमारे हाथ में दे दिया। महादेवभाई कहने लगे, “अगर बापू का उपवास वगैरा कुछ होगया और सरकार ने खबरें बाहर न जाने देने की नीति रखी तो इसके साथ मैं जरूर चिट्ठी भेजूंगा। तुम्हारे पास कुछ रुपये हैं ?” मैंने कहा, “पांच रुपये हैं।” कहने लगे, “काफी हैं। बम्बई तक का किराया इसे देसकू तो काम निपटा। पीछे वहाँसे मित्र लोग सब इंतजाम कर लेंगे।”

यरवदा से आते-जाते दोनो वक्त इन सब कँदियों की तलाशी लीजाती है। यरवदा जेल में इन्हें बाहर की तरफ अलग एक बारक में रखा जाता है, ताकि वे दूसरे कँदियों से मिल न पावें और इधर से उधर कोई खबर न पहुँचा सकें। फिर भी वे रोज सुबह हमें इतनी खबर तो देते ही थे कि आज इतने नये कँदी आये हैं और आज इतने। जेल के फाटक पर नये कँदियों की संख्या रोज लिखी जाती है। दूसरे राजनैतिक कँदियों के लिए जगह करने के खयाल से आम कँदियों को काफी तादाद में छोडा भी जा रहा है। उन बेचारो को इतना फायदा तो हुआ ! अच्छा है।

वाइसरायके नाम खत पूरा करनेके बाद आज दोपहर बापू ‘पैसिफिक अफेयर्स’ पढ़ने लगे। उसमें एक वाक्य आया—“Teleological connection between bourgeois democracy, revolution and industrialism अर्थात् ऐतिहासिक विकास में मध्यमवर्गीय लोकतंत्र, क्रांति और मशीन-प्रथा इन तीनों में क्रमिक संबंध। बापू टेलियोलोजी (Teleology)\* का अर्थ पूछने लगे। महादेवभाई से पूछा। शब्द-कोश देखा। काफी चर्चा हुई। आखिर बापू बोले, “इसे तो ‘Argument in a circle’ अर्थात् जो चीज साबित करनी है उसे बहस का आधार मानकर चलना कह सकते हैं। फिर चर्चा चली कि व्याकरण के अनुसारreek के साथ of आता है या with ? बापू ने कहा, “बुढ़िया से पूछो न !” महादेवभाई बोले, “वे नहीं बता सकेंगी। यह तो आपके और मेरे-जैसे स्कूल-मास्टर्स का काम है कि व्याकरण देखें और विराम-चिह्नो का विचार करें।”

बापू मुझसे वेरीकोस (varicose)† का अर्थ पूछने लगे। मैंने बताया। कहने

\*एक दार्शनिक सिद्धान्त, जिसका विकास निर्धारित दैवी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हो रहा है।

†स्थायी रूप से नाडी का बढना या फँसना

लगे, “नहीं, इसकी धातु क्या है ? इसके क्या-क्या रूपांतर होसकते हैं ? कहां-कहां यह शब्द इस्तेमाल होसकता है, तो सब बताना चाहिए।” फिर कहने लगे कि तेरे लिए सैंटिन सीख लेना जरूरी है। बोले, “मैं तुझे ‘लैन्ड डॉक्टर’ (बिद्वान डॉक्टर) बनाना चाहता हूँ।” मुझे शब्दकोश की भूमिका पढ़ जाने की सलाह दी, ताकि कोश को पूरी तरह समझकर देख सकूँ।

शाम को महादेवभाई इधर-उधर पड़े लोहे के तारों को बटोरकर एक टोस्टर बनाकर लाये। बापू को दिखाया। बापू बहुत खुश हुए। बोले, “Necessity is the mother of invention.” फिर बोले, “इसकी गुजराती क्या होगी ?” महादेवभाई ने जरा सोचकर कहा, “गरज ए शोध नी जनेता छे।”\*

महादेवभाई रोज कहा करते हैं, “सरदार आजायंगे तो बापू को लूब हंसाया करेंगे। वे आजायं और उनके आने तक प्यारेलाल न आये तो फिर हम बड़े जोर के साथ प्यारेलाल को मांग सकते हैं।”

मीराबहन आज फिर मुझसे कहने लगीं, “महादेवभाई को सिर की मालिश की जरूरत रहती है।” मैंने कहा, “मैंने पूछा था, पर उन्होंने करवाई नहीं।” वे कहने लगीं, “कल से तुम बापू का बिस्तर वगैरा लगा दिया करना। मैं उस वक्त महादेव के सिर की मालिश कर दिया करूंगी। मेरा खयाल है कि महादेव मुझसे मालिश करा लिया करेंगे।” मैंने मंजूर किया। बाव में मैं आज फिर महादेवभाई के पास गई और पूछा, “क्या आप सिर की मालिश करवायेंगे ?” बोले, “क्या जरूरत है ?” लेकिन आवाज से मुझे ऐसा लगा कि थके तो है और आधा मन कराने को भी है। मैंने कहा, “जरूरत तो आपको रहती ही है, घर पर भी तो आप मालिश करवाते ही है।”

बोले, “हां, बम्बई में लीलावती मल देती थी।” वे संकोच के कारण कहते नहीं थे और मुझे भी बहुत आप्रह्न करने में संकोच होता था। मैंने कहा, “जब मलवाना चाहें, आप मुझसे कह सकते हैं।” और मैं चली आई।

शाम को महादेवभाई कह रहे थे, “अगर बापू के उपवास की यह तलवार मेरे सिर पर लटकती न होती तो मैंने कुछ पौण्ड वजन कमा लिया होता और थोड़ा शक्ति-संचय कर लिया होता।”

१४ अगस्त '४२

आज बाइसराय को पत्र गया। विचार हुआ कि पत्र के साथ बापू के भावणो का सार भी भेजना चाहिए। मगर वह तैयार नहीं था, इसलिए बापू ने पत्र तो भेज दिया और महादेवभाई से सार तैयार करने को कहा। नोट्स तो ये नहीं। सब कुछ जबानी तैयार करना था। शाम से पहले महादेवभाई ने वह बापू के सामने रख दिया।

बापू ने कर्नल भण्डारी से सरदार और भाई की खबर पुछवाई। उत्तर मिला

\*भावश्यकता खोज की जननी है।

कि सरदार के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए तबीयत अच्छी ही होगी। भाई यहाँ हैं या नहीं, इसका उन्हें पता नहीं था।

महादेवभाई आज फिर कहने लगे, “अब की मैं अपने साथ कुछ सामान ही नहीं लाया। बिल होता है कि गीतांजलि भी होती तो उसके अनेक गीतों का गुजराती अनुबाद ही कर डालता।” मैंने कहा, “बलिये, काम नहीं लाये हैं तो मुझीको कुछ सिखा दिया कीजिये न!” बोले, “मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा। तुम्हीं मुझे थोड़ी-सी बवा-दारू सिखावो।” मैंने कहा, “अच्छी बात है, आप बवा-दारू सीखिये और मुझे दूसरी थोड़ी सिखा दीजिये।”

मुझे कल से थोड़ा जुकाम था और आज तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। बुखार-सा लग रहा था। शाम को महादेवभाई बापू के लिए रस निकाल रहे थे। मुझे कहने लगे, “तुम भी आज रस पीओ।” जबसे महादेवभाई ने बताया था कि जेल में फल हमारे लिए नहीं आते हैं, मैंने फल नहीं लिये थे। महादेवभाई बहुत इसरार करने लगे। मैंने टालने की कोशिश की। कहा, “मुझे रस पीने की जरूरत नहीं मालूम होती।” मैं दूसरे कमरे में गई। लौटकर देखती हूँ तो महादेवभाई ने रस का आधा से ज्यादा गिलास भरकर मेरे लिए तैयार रखा था। उसे गरम होने भी रस दिया था। कहने लगे, “नमक और नीबू के साथ गरम रस गले को बहुत फायदा पहुंचाता है।” मैं रस पीने बंद गई। अगीठी जल रही थी। महादेवभाई ने भी अपने लिए टोस्ट सेक लिये और उसी समय बंदकर खालिये। घूमते समय आज महादेवभाई बापू को साबरमती आश्रम की किताबों के सम्बन्ध में कुछ कहते रहे। बापू ने आश्रम की पुस्तकें महादेवभाई को सौंपी थीं और उन्होंने उनकी एक सुंदर लाइब्रेरी बनाली थी।

प्रार्थना में महादेवभाई ने आज तुकाराम का ‘जे का रंजले गांजले, त्यासी, म्हणे जो आयुले’—अभंग गाया और बाद में उसका अर्थ भी समझाया। उन्होंने बताया कि इसी अभंग के जरिये सबसे पहले उनका तुकाराम के साथ परिचय हुआ था। गोखले ने एक जगह लिखा है कि एक बार वे रानडे के साथ रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे थे। सबेरे गाने की आवाज सुनकर जाग उठे। रानडे ध्यानावस्थित होकर ‘जे का रंजले गांजले’ अभंग गारहे थे। प्रार्थना के बाद महादेवभाई ने ‘रीडर्स डाइजैस्ट’ में से ‘द अमेरिज़िय मि० क्रिप्स’ (हेरतअगेज क्रिप्स) नामक एक लेख बापू को पढ़कर सुनाया।

सोने का समय हुआ। मीराबहन कहने लगी, “तुम्हें सोजाना चाहिए। बापू के सिर की मालिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें आराम मिलेगा और बापू जुकाम को छूटके खतरे से बचेंगे।” मुझे तो आराम की इतनी जरूरत नहीं थी। मगर मैं बापू को अपना जुकाम दूँ, यह कैसे होसकता था? इसलिए मैंने महादेवभाई से कहा कि वे बापू के सिर की मालिश करवें।

बापू पाखाने गये हुए थे। उस समय महादेवभाई सरोजिनी नायडू के साथ बात कर रहे थे। बाद में सरोजिनी नायडू ने मुझे बताया कि कैसे उस रात पहली ही बार महादेवभाई उनको अपने बापू के पास आने का किस्सा सुना रहे थे। किस तरह पहले बापू ने उन्हें

कालत छोड़ने से मना किया था और फिर कंसे एक दिन उन्हें बापू का एक पोस्टकार्ड मिला जिसमें बापू ने उन्हें बुलाया था। एक बार कलकत्ते में मुझे भी महादेवभाई ने यह सारा किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा, “फिर मुझे बापू का एक पोस्टकार्ड मिला। उसमें एक ही वाक्य था, “हूँ तमने मारी सोड़मां इच्छं छुं”,\* और बस में चला आया !” यह कहते समय उनकी आँखों में प्रेम के आंसू छलक आये थे।

मेरे जाने के बाद बात फिर बापू के उपवास पर आकर रुकी। आजकल महादेवभाई इसके सिवा दूसरी किसी चीज का ज्यादा देर तक विचार ही नहीं कर सकते। कहने लगे, “बापू के हरिजन-उपवास के दिनों में पंडित सातबलेकर ने एक पंचांग भेजा था, जिसमें करीब एक साल पहले से बापू के उपवास की निश्चित तारीख दी हुई थी। अब की फिर उन्होंने उनसे वह पंचांग मंगवाया। उनका उत्तर आया कि वह खूब पहले से इस पंचांग की तलाश में थे। १९४२ तक तो उसमें किसी उपवास का जिक्र नहीं था। उसके बाद वह पंचांग छपना ही बंद होगया था।

इस पर सरोजिनी नायडू महादेवभाई को अपने एक मित्र की बात सुनाने लगीं। उनके पास एक विशिष्ट अन्तर्दृष्टि थी, जिससे उन्हें भविष्य में और दूसरी जगह होने वाली बातों का पता चल जाता था। सरोजिनी नायडू ने उनके ऐसे कई किस्से सुनाये। एक बापू के हिंदू-मुस्लिम-ऐक्य के लिए किये गए उपवास के बारे में था। दूसरा किसी के मरने के बारे में। इसी तरह जहाजों के डूबने आदि के किस्से थे। महादेवभाई बापू का सिर मलने आये तो इनमें से कुछ किस्से उन्हें सुनाने लगे। मैं अपनी खटिया पर पड़ी-पड़ी सुनरही थी। मैंने कहा, “मुझे तो भगवान अन्तर्दृष्टि की यह विभूति दे तो भी मैं इसे लेने से इन्कार करदूँ। पहले से ही आदमी दुःख आने वाला है यह जानकर दुःखी क्यों हो ?” भगवान हसरहा होगा ! अगर अगले दिन सुबह की घटनाओं को हम जानते होते तो उस रात कौन सोने वाला था ?

: ८ :

## महादेवभाई का अवनसान

१५ अगस्त '४२

प्रार्थना में बापू और मैं, दो ही सुबह उठा करते हैं। महादेवभाई उठना चाहते हैं, मगर रात में नींद टूट जाती है तो फिर चार बजे नहीं उठ पाते। आज सुबह भी मैंने और बापू ने प्रार्थना की। प्रार्थना पूरी करके हम लोग वापस अपने बिस्तरों पर गये, इतने में

\*मैं तुम्हें अपनी गोद में चाहता हूँ।

महादेवभाई उठे। बा से प्रार्थना के बारे में पूछने लगे। बा ने उत्तर दिया, “हां, अभी-अभी खतम हुई।” आज महादेवभाई का विचार प्रार्थना में आने का था, मगर उन्हें कोई आध घंटे की देर होगई। इससे वह न आसके। छः बजे बापू उठकर आये तो महादेवभाई ने उनके लिए रस निकालकर तैयार रखा था। बाव में जाकर टोस्ट सेंके, चाय बनाई। सरोजिनी नायडू स्नान करके निकलीं तो मेज पर चाय आवि सब चीजें सजी हुई थीं। टोस्ट को काट-सैंककर खूब सुंदर ढंग से लगा दिया था और खुब हजामत बनाकर वहां बंठे थे। एक दिन बापू मुझसे पूछ रहे थे, “तुम दोनों में कौन अच्छे टोस्ट बनाता है, तू या महादेव?” आज मैंने महादेवभाई से कहा, “महादेवभाई, उस दिन बापू के पूछने पर मैं यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि आप मुझसे ज्यादा अच्छे टोस्ट बनाते हैं। मगर आज मुझे यह स्वीकार करना ही होगा और आपके सामने हार माननी ही पड़ेगी। सैंक-साककर आपने तो आज इनको इतने सुंदर ढंग से सजा भी दिया है!” महादेवभाई कहने लगे, “मुझे समय मिले तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ; लेकिन रोज रात को नींद अच्छी नहीं आती। सुबह देर से उठता हूँ तो समय नहीं रह जाता। आज जल्दी उठा था, इसलिए इतना सब काम कर सका।”

इतने में सरोजिनी नायडू आईं। वह भी महादेवभाई को शाबाशी देने लगीं। महादेवभाई हंसने लगे। बोले, “हां, अब मुझे आसानी से खानसामा की नौकरी मिल सकती है।” सरोजिनी नायडू ने कहा, “हां, बापू की गृहस्थी में। इस गृहस्थी में तुम क्या नहीं हो?” महादेवभाई मेरे पास ही बंठे नाश्ता कर रहे थे। मैंने देखा कि उनकी प्लेट में एक टोस्ट पड़ा है, लेकिन उन्होंने बीच में जो प्लेट रखी थी, उसमें से एक टुकड़ा और उठा लिया। मैं समझी, बापू महादेवभाई को कवि कहते हैं। बातों में भूल गये होंगे कि उनकी अपनी प्लेट में भी टोस्ट पड़ा है। इसलिए वह टोस्ट मैंने उठा लिया। लेकिन महादेवभाई ने तो उसे खाने के इरादे से ही रखा था। मैं वापस रखने लगी तो मना किया। बोले, “नहीं, अब तुम्हीं खाजाओ।” कहावत मशहूर है कि बाने-बाने पर मोहर होती है। महादेवभाई का हिसाब खतम होचुका था, सो उनकी प्लेट में सामने रखा हुआ टोस्ट भी उठ गया।

महादेवभाई की हजामत का जिम्मा करते हुए सरोजिनी नायडू बोलीं, “आज जब मैं नहाने गई, मैंने महादेव को बड़े आईने के सामने बंठा देखा। वे हजामत बना रहे थे, अपनी मूँछों को छांट रहे थे और नाखून काट रहे थे। मैंने मन-ही-मन सोचा, “अरे, आज महादेव को यह हो क्या गया है? अचानक उनको आज इस प्रकार सजने की कहां से सूझी?” मगर वह तो कुदरत ही उनसे तैयारी करवा रही थी—

करले सिंगार चतुर अलबेली,

साजन के घर जाना होगा।

जब मैं बापू के साथ घूमने को निकली तो बगीचे के सामने के कोने से महादेव-भाई निकलकर आये और कहने लगे, “लकड़ी की जाली का यह काम नया है, इसका दूसरा

सबूत मुझे मिला है। यह देखिये, लकड़ी की चीपों का यह ढेर लगा पड़ा है। अब मैं इसका ठीक-ठीक उपयोग करा लूंगा।”

धूमते समय महादेवभाई वल्लभभाई की बातें सुनाने लगे। बताते थे कि वल्लभभाई कपड़ों के बारे में कितने शौकीन थे। वे बहुत सफल बँटकर थे। महीने में आठ-दस बिन ही अबालत जाते थे। बाकी वक्त बल्लभ में बँठकर 'ब्रिज' खेला करते थे। तिस पर भी महीने में हजार-पंद्रह सौ रुपये कमा लेते थे। एक बार वे एक दोस्त के साथ बँठकर 'ब्रिज' खेल रहे थे। दोस्त के हाथ में पत्ते थे। एकाएक दोस्त ने पीछे हटकर अपना सिर कुर्सी की पीठ पर टिका दिया। पत्ते हाथ ही में रह गये और उनके प्राण-पखेरू उड़ गये। तब से वल्लभभाई को ताश अच्छे नहीं लगते।” हम सब सुन रहे थे। कौन जानता था कि दो घंटे के अंदर ही महादेवभाई का भी यही हाल होने वाला है!

आज महादेवभाई बहुत प्रसन्न दिखाई देते थे। बापूने नींव के बारे में पूछा तो खुश होकर कहने लगे, “आज पहले दिन ही गहरी नींव आई। इसलिए जल्दी उठ भी सका और अपना सब काम सबेरे ही कर लिया। मैं तो आज प्रार्थना में भी शामिल होने वाला था, लेकिन जरासी देर होगई। प्रार्थना समाप्त हुई कि मैं उठा।” वह बहुत उत्साह में थे। बिन अच्छा शुरु हुआ है, इससे खुश थे। बापू कहने लगे, “सो तो है ही। तुम्हारी नींव मुधर जाय तो सब ठीक होजाय।” फिर इधर-उधर की बातें करते रहे। आज बगीचे की सफाई रोज से ज्यादा मुस्तवी के साथ होरही थी। महादेवभाई कहने लगे, “आज इन्स्पेक्टर जनरल आनेवाले हैं, इसीलिए यह सब सफाई होरही है।” मंने कहा, “इन्स्पेक्टर जनरल से मेरे लिए कुछ स्वास्थ्य-संबंधी अखबार माग लीजियेगा।” बोले, “तुम खुद ही क्यों नहीं मांग लेतीं?” मंने कहा, “शायद उस वक्त मैं मालिश में रहूँ, इसलिए आपसे कहा है।” बातों-बातों में मंने कहा, “महादेवभाई, एक तरह से यह जेल अच्छी है। बापू भी बहुत थक गये थे, आप भी थके हुए थे। यहां जबवंस्ती का आराम मिल रहा है। बाहर जाने के समय तक आप और बापू बाहर के काम के लिए काफी शक्ति का संग्रह कर लेंगे।” इस पर वे बहुत गंभीर होकर मेरी ओर देखने लगे और बोले, “सो मैं नहीं जानता।”

धूमकर हम लोग ऊपर आये। मैं मालिश के लिए बापू के साथ चली गई। इतने में आवाज से पता चला कि इन्स्पेक्टर जनरल आगये हैं। मैं कमरे में कोई चीज लेने गई। महादेवभाई सरोजिनी नायडू वाले गुसलखाने में से निकल रहे थे। बगल में 'आर्ट आब लिबिंग' (जीवन-कला) नाम की किताब थी; लेकिन वे चुपचाप चले गये। यह कुछ असाधारण-सी बात थी। नहीं तो उनसे कहीं भी मिलें, कुछ तो वे कहते ही थे। उनका यह भी खयाल रहता था कि भाई यहां नहीं हैं, इसलिए मेरे लिए भाई की कमी को जितना पूरा कर सकें, करें। खाने के समय भी हमेशा मेरी राह देखा करते थे।

मेरे आने से पहले बापू के खाने के बरतन और उनके कपड़े कंड़ी धोते थे। महादेवभाई कभी अपने कपड़े खुद धोते, कभी-कभी धुलवा लेते थे। मीराबहन अक्सर अपने कपड़े खुद धोती थीं। मीराबहन ने बताया कि कंड़ी लोग बापू का काम करते खुश होते हैं

तो उन्हें करने देना चाहिए। बापू की बातों से मैं समझी कि उन्हें कंबियों और सिपाहियों से सेवा लेना पसंद न था। कहते थे, “मैं नहीं चाहता कि वे लोग हमें अपना सरदार समझें। हम भी उन्हें कि जैसे कंबी हूँ। मुझे तो अपना काम खुद कर लेना या अपने साथियों से करवा लेना ही प्रिय है।” इसलिए मैंने बापू के बरतन खुद साफ करने शुरू कर दिये। कपड़े तो अपने में धोती ही थी, बापू के भी धोने लगी। बापू स्नान करके निकल आते तब मैं कपड़े धोती और स्नान करती थी। महादेवभाई बापू को खाना लाकर बैठे और फिर मेरी राह देखते रहते।

दोनों गुसलखानों के बीच जो दीवार है, वह छत तक नहीं गई, इससे आवाज एक गुसलखाने से दूसरे में आसानी के साथ पहुँच सकती है। बाहिन ह्राय वाला गुसलखाना बापू इस्तेमाल करते हैं और दूसरे भी चाहें तो कर सकते हैं। इस गुसलखाने में कमोड के ऊपर बत्ती है। बापू हमेशा पाखाने के समय में पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने यह गुसलखाना पसंद किया है, वरना यहाँ एक आवमकद आईना भी है जो बापू के काम की चीज नहीं। दूसरे गुसलखाने का इस्तेमाल सरोजिनी नायडू करती हैं और प्रायः बा और मीराबहन भी। करीब हर रोज ही मैं स्नान पूरा करने पर होती या कपड़े पहनती होती, तभी महादेव-भाई सरोजिनी नायडू वाले गुसलखाने से निकलकर पुकारते, “ए सुशीला, कितनी देर है तुमको?” पहले ही रोज उन्हें बहुत भूल लग रही थी। बापू ने आप्रहृ करके मेरे निकलने से चार-पाच मिनट पहले उन्हें खाने के लिए भेज दिया। बाद में बापू ने मुझे पुकारा और कहने लगे, “तुम बहुत वक्त लेती हो। तुम जानती हो कि महादेव कब से तुम्हारी राह देख रहा है?” मैंने महादेवभाई से कहा, “महादेवभाई, आप मेरी राह न देखा कीजिये। खाने के लिए समय पर चले जाइये। मैं आपके बाद ही आजाऊंगी।” दूसरे दिन बापू के स्नानघर से निकलने के समय मैंने खास तौर पर उनसे जाकर कहा, “आप खाना खाने जायें। मुझे देर लगेगी।” लेकिन मैं स्नान करके निकली तो देखा, महादेवभाई मेरी राह देखते बैठे थे! वे जानते थे कि मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगता। खाने की मेज सरोजिनी नायडू के कमरे में है और उनसे मेरा परिचय तो यहाँ आने से पहले नहीं के बराबर ही था। इसलिए महादेवभाई खाते समय मेरा साथ देते और दूसरे जिस काम में भी साथ बसकें देते थे।

महादेवभाई सरोजिनी नायडू के कमरे में जाकर इन्स्पेक्टर जनरल से बातें करने लगे। मैं बापू की मालिश कर रही थी। बातों के बीच-बीच में हँसी की आवाज आती रहती थी। मैंने एक पंर पूरा करके दूसरा पंर शुरू किया, इतने में सरोजिनी नायडू ने मुझे पुकारा, “सुशीला, यहाँ आओ।”

मैंने सोचा, “इन्स्पेक्टर जनरल सबको देखना चाहता होगा। दूसरा पंर जल्दी से खतम कर लूँ और पोछकर ही जाऊँ।” लेकिन इतने में तो दूसरी आवाज आई और साथ ही बा भागती-हाँफती आकर बोली, “महादेव को कुछ होगया है। उन्हें फिट आगया है। मिरगी-सी दिखती है।” मैंने बापू का पांव छोड़ दिया। भागती हुई गई। सरोजिनी

नायडू ने फिर पुकारा । मैं उनके कमरे में पहुँची । इसमें ज्यादा-से-ज्यादा एक मिन्ट लगा होगा ।

जाकर देखती हूँ तो महादेवभाई सरोजिनी नायडू के कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे, बेसुच । चेहरे पर ऐंठन होरही थी । मेरे देखते-देखते सिर से पंर तक जोरका एक झटका-सा लगा । मैंने नाड़ी बेखी । नहीं मिलरही थी । रक्त का दबाव देखने की कोशिश की, वहां भी कुछ नहीं, हृदय पर स्टेथास्कोप रखा—खामोशी ! हृदय की धड़कन ही नहीं सुनाई पड़रही थी । मैंने कहा, “बापू को बुलाओ । ये जारहे हूँ ।” ओठों पर कुछ भाग-से थे । सांस कुछ रुक-रुक कर चलरही थी । मैं अपनी दबा की पेटो लाई; लेकिन वह खुलती ही नहीं थी । मैं उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, साथ ही ह्वायतें भी देरही थी कि ब्राण्डी लाओ, हृदय के लिए दवा दो ।

हाथ-पंर ठंडे होने लगे थे । दवा कोई मौजूद न थी । भंडारी लेने गये थे । सरोजिनी नायडू ने अ-द-कोलोन और शहद बिया और कहा, “यह ब्राण्डी का काम करता हूँ ।” मैंने तो ब्राण्डी मालिश के लिए मांगी थी । लेकिन जब सरोजिनी नायडू ने यह मिश्रण बिया तो उसे मैंने महादेवभाई के मुँह में डाल बिया । निगलने की ताकत अभी उनमें कायम थी । निगल गये । मिस्टर कटेली ने दवा की पेटो का ताला तोड़कर उसे खोल बिया था । उसमें से कॉल्शियम ग्लुकोनेट ही निकला । हृदय को बल पहुंचाने वाली कोई भी दवा न थी । मैं दिल्ली से इतनी जल्दी में निकली थी और बंबई में भी ऐसी भाग-दौड़ रही कि अपनी पेटो में वक्त-जकुरत की दवाओ का संग्रह कर ही नहीं पाई थी । मैंने महादेवभाई का हाथ उठाया, बिलकुल डीला पड़ा था । नस में कॉल्शियम ग्लुकोनेट का इंजेक्शन देदिया । इतने में भंडारी ब्राण्डी की बोतल लेकर आये । मैंने कहा, “कांडिऐक स्टिम्युलप्ट्स’ कहां हूँ ?” तो फिर नीचे भागे । इस बीच मैंने ब्राण्डी मुँह में डाली । लेकिन निगलने की ताकत बहुत मंद पड़ गई थी । काफी देर तक वह मुँह में ही पड़ी रही । बाद में बापू ने कहा, “मैं तो तेरा हाथ पकड़ लेना चाहता था, मगर फिर रहने दिया, तेरी जगह कोई और होता तो मैं ब्राण्डी हरगिज नहीं देने देता !”

महादेवभाई को उल्टी होने लगी । मगर उसे बाहर निकालने में मुश्किल पेश आई । मैंने जबड़े को सहारा देरखा था । सिर एक तरफ कर बिया, ताकि हवा की नली में उल्टो का कोई हिस्सा न चला जाय । बापू तो मेरे बुलवाने के बाद दो-तीन मिन्ट में ही आगये थे । वे कभी महादेवभाई का हाथ पकड़ते, कभी सिर पर हाथ रखते । वे उनकी आंख की तरफ टकटकी लगाकर खड़े थे । कहते थे, “मुझे बिदवास था कि एक बार भी महादेव मेरी ओर देख लेगा तो उठकर खड़ा होजायेगा ।”

जब सरोजिनी नायडू ने मुझे पुकारा था तो बापू समझे थे कि भण्डारी से मिलने के लिए बुलारही हूँ । जब वे बुलाने-भाई तब भी बापू ने यह नहीं सुना कि महादेवभाई को कुछ हुआ है । वे कुछ पढ़रहे थे । यही समझे कि भण्डारी के कारण ही मुझे बुलाते हैं । फिर जब मेरे कहने पर उन्हें बुलाने गये तब भी वे यही समझे कि भण्डारी से मिलने



के लिए ही उन्हें भी बुलाया जा रहा है । बाद में जब यह सुना कि महादेवभाई को कुछ हुआ है, तब भी वे यह नहीं समझे कि कोई गंभीर घटना हुई है । यही खयाल रहा कि जैसे पहले कभी-कभी चक्कर आजाता था, वैसे ही अब भी आया होगा । जरा देर में अच्छा होजायगा ।

सरोजिनी नायडू ने बापू को बताया कि कमरे के बीच में महादेवभाई खड़े थे । भण्डारी और सरोजिनी नायडू दोनों कुर्सियों पर बैठे थे । महादेवभाई कुछ बातें कर रहे थे । मजाक चल रहा था । सब-के-सब खूब हस रहे थे । इसी हंसी की आवाज हमें बाहर सुनाई पड़ रही थी । कुछ देर बाद महादेवभाई ने भंडारी से मेरे लिए स्वास्थ्य-संबंधी अखबार मांगे और फिर एकाएक कहने लगे, “मुझे चक्कर आता है ।” भण्डारी ने कहा, “बदहजमी होगी, लेट जाइये ।” महादेवभाई चलकर तीन-चार गज के फासले पर पड़े पलंग पर जाकर लेट गये । भण्डारी ने नाड़ी देखी तो वह बहुत तेज और कमजोर थी । उन्होंने सरोजिनी नायडू से कहा कि वे मुझे बुलायें और खूब फोन करके सिविल सर्जन को बुलाने ऊपर गये । महादेवभाई जब बात कर रहे थे, गरम वास्कट पहने हुए थे । खाट पर लेटते समय उन्होंने उसे निकाल डाला होगा । जब मैं पहुंची, वह आधी निकली हुई थी ।

उरटी होने के साथ ही वे कराहने भी लगे । भयानक कराह थी, मानों किसी गुफा में से निकल रही हो ! कराहट न बापू से सही जाती थी और न हममें से किसी से । सांस हक-हककर चलती थी । ऐंठन तो जोर की नहीं थी, मगर कंपकंपी बीच-बीच में होती थी । एक बार तो चेहरा बिल्कुल टेढ़ा होगया, मानो एक हिस्से को लकवा मार गया हो । मेरे मन में आया— क्या इस फिट के कारण ये अपंग होकर रह जायेंगे ? किन्तु महादेवभाई के समान मुकृत आत्मा अपंग क्यों होने लगा । एकाएक फिर एक जोर का झटका-सा लगा । जबडा इतने जोर से भिड़ गया कि मुझे लगा कि हड्डी टूट जायगी । उस वक़्त मैं जबड़े को पकड़े हुए थी । फिर वह ढीला पड़ गया । कराहना कम हुआ । सांस और धीमी पड़ी । मैंने बापू से कहा, “बापू, जमनालालजी की तरह ये तो जा रहे हैं ।” जब मैंने कहा, ‘जा रहे हैं’ तब कही बापू समझे कि सचमुच स्थिति गम्भीर है और महादेव-भाई जा रहे हैं । एक बार तो ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने आंख खोली हैं और बोलने की कोशिश कर रहे हैं । मैंने खुश होकर कहा, “ठीक है । वे संभल रहे हैं ।” लेकिन वह निरा आभास ही था । फिर से आंख बंद होगई । सांस तो एक-एक कर चलती ही थी, और भी धीमी पड़ गई । शरीर काला पड़ने लगा ।

बापू तो सारा समय टकटकी लगाकर उनकी आंख की तरफ ही देख रहे थे । अपनी सारी शक्ति एकाग्र करके इसी बात में लगा रहे थे कि एक बार महादेव की आंख उनकी आंख से मिल जाय तो महादेव उठ बंठें । उन्होंने बताया कि एक बार तो आंख जरा खुली भी थी, लेकिन पथराई हुई थी । उसमें देखने की शक्ति नहीं थी । बोलने की तो कोशिश भी वे कैसे करते ! सिर्फ कराह ही सुनाई देती थी ।

लिखने में इतना समय लगा है, लेकिन यह सारा व्यापार तो बिच्युत-वेग से हुआ था ।

मुझे तो शुरू से अखीर तक एक ही क्षण-सा लगा। इधर मैंने बाण्डी का चमचा मुंह में डाला और उधर भंडारी दबा लेकर पहुंचे। मैं इंजेक्शन देने जा रही थी कि उन्होंने रोका। कहां, “एक नस में भी दो।” तो एक पुट्टे पर दिया, एक नस में।

महादेवभाई अब पसीने से भीग रहे थे। शुरू से ही उनका चेहरा और हाथ संगमरमर की तरह सफेद पड़ गये थे। उस सफेद संगमरमर पर अब पसीने के मोती छिटक आये। इंजेक्शन का जरा भी असर नहीं हुआ। नाड़ी तो बंद ही थी, इबास भी बंद होगया। सिविल सर्जन आये तब तक पंछी उड़ गया था। सब खेल खतम होचुका था। पूछने लगे, “क्या ‘हाइ ब्लडप्रेशर’ था ?” मैंने कहा, “नहीं।” बोले, “तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होगा ? क्या इन्हें कभी दर्द उठता था ?” मैंने कहा, “नहीं, लेकिन उन्हें चक्कर आया करते थे। इस हमले के वक्त भी कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मुख्य लक्षण दर्द मौजूब नहीं था।” “मुझे अफसोस है—” कहकर वे चले गये।

: ६ :

## अग्नि-संस्कार

जब मैंने देखा कि सांस भी बंद होगई हूं तो मैं दूसरे कमरे में चली गई कि कहीं कोई मेरी आंखों में पानी न देखले। मगर बा पीछे-पीछे आईं और बोलीं, “महादेव का क्या हाल है ?” मैं क्या कहती ? चुप रह गई। बा अधीर होउठीं। बड़ी हिचकिचाहट के बाद, मैंने बा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, “बा, वह तो गये !” बा चीख उठीं, “एँ, महादेव गये ? कहा गये ? अरे महादेव, तुम कहां गये ?” वे फूट-फूटकर रोने लगीं। बा के पीछे-पीछे बापू भी आपहुचे। उन्होंने बा को दिलासा दिया। हम सब महादेवभाई के पास (वे अब कहां थे ? उनके शव के पास) लौटे। महादेवभाई का एक पंर सीधा था, दूसरा मुड़ा हुआ। मैंने उसे सीधा किया। आंखें आधी खुली थीं, उन्हे बंद किया। क्या कभी स्वप्न में भी मुझे यह विचार आसकता था कि महादेवभाई की आंखें मुझे बंद करनी पड़ेंगी ? उनके चेहरे पर अपूर्व शांति थी, मानो कोई योगिराज समाधिस्थ होकर पड़े हो ! पास ही उनका अपना तौलिया पडा था। उससे मैंने उनका मुंह साफ किया था। बापू कहने लगे, “महादेव की जेबें खाली करले।” मेरे लिए यह कठिन काम था। उनकी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि हाथ टूट जायगा ! क्या महादेवभाई सचमुच चले गये ? और मैं उनकी जेबें भी खाली कर रही हूं ! कुर्ते की जेबें खाली थीं। वास्कट आधी उनके नीचे थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे उनके नीचे से निकाला। एक जेब में से पेन निकला, दूसरी से गीताजी। बापू कहने लगे— ‘बंधव जन’ गाओ, रामधुन चलाओ। मैं अपनी भजनावली निकालकर लाईं। सरहब से लौटते समय बिल्ली के स्टेशन पर जब

मैं और भाई उनसे (महादेवभाई से) अलग हुए तब उन्होंने यह भजनावली मुझे दी थी । उसमें उन्होंने बीच-बीच में कोरे पन्ने लगवाये थे । वेन से पहले, रात भर जागकर, उन्होंने उस भजनावली में अपने हाथ से वे भजन लिख दिये थे, जो मुझे प्रिय थे, पर भजनावली में नहीं थे । उनकी सूची भी तैयार करदी थी । आज वे सब स्मृतियां ताजी होउठीं । यह भजनावली मैंने महादेवभाई के सामने निकाली होती तो उन्हें अच्छा लगता । अब वे कभी यह जान भी न सकेंगे कि उनकी दी हुई भजनावली इस जेल में आपहुंची हूँ ! मगर अब यह सब सोचना तो व्यर्थ था । महादेवभाई की खाट के पास बंठकर प्रार्थना की । गीताजी के अठारहवें अध्याय का पाठ किया ।

बापू ने कर्नल भण्डारी से कहा, “बल्लभभाई और खेर वगैरा को यरवदा से मेरे पास भेज डीजिये । बाद में मैं विचार करूंगा कि मुझे शव किसके हवाले करना चाहिए ।” भण्डारी चले गये । उन्हें जाकर सरकार को खबर देनी थी और इजाजत लेनी थी कि आगे क्या करना चाहिए ।

बापू कहने लगे, “अब मैं जाकर स्नान करलूँ । बल्लभभाई वगैरा के आने से पहले मैं तैयार होजाना चाहता हूँ ।” वे स्नान करने गये, लेकिन फिर तुरत वापस आगये । बोले, “नहीं, मैं पहले महादेव को नहलाऊँ, फिर खुद स्नान करूँगा ।”

मेजर अडवानी, (जो कर्नल भण्डारी के साथ आगये थे और अभी तक बंठे थे) मि० कटेली और कुछ सिपाहियों ने मिलकर शव को उठाया और गुसलखाने में लेजाकर बापू ने उसे टबके पास रखवा लिया । देवयोग से महादेवभाई का सिर उत्तर की तरफ था । बाद में मुझे पता चला कि हिंदू रिवाज के मुताबिक शव का सिर उसी तरफ रखा जाता है । बापू ने उनके कपड़े उतारने को कहा । धोती तो आसानी से निकल गई, मगर कटेली और अडवानी कुर्ता नहीं निकाल सके । वे उसे इतने भट्टे ढग से निकालने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे से न रहा गया । मैं खुद जाकर मदद करने लगी और कुर्ता निकाला । शरीर इतना गरम और इतना कोमल था कि मेरा सिर घूमने लगा । बोली, “बापू, महादेवभाई कहीं जिंदा तो नहीं हैं ?” बापू बोले, “सो तो तू जान ।” मैं फिर से स्टेथोस्कोप उठाकर लाई । लेकिन यह सब मूर्खता थी । हृदय की धडकन तो कभी की बंद होचुकी थी । आईना लाकर महादेवभाई की नाक के सामने रखा । कुछ नहीं था । अडवानी से कहा, “आप भी जांचलें ।” मगर वहां कुछ होता तब न ? डॉक्टर होते हुए भी मैं अपनी समता खोबंठी थी । बापू कहने लगे, “जिंदा है तो अभी गरम पानी डालने से उठ बंटेगा ।” सिपाही तो चले ही गये थे । अडवानी और कटेली ने पूछा, “हम जायें ?” बापू ने कहा, “हां, जाइये ।” मैंने पूछा, “मैं भी ?” बोले, “हां !” मैं आकर कमरे में खड़ी होगई । मगर मैंने देखा कि पानी का डिब्बा उठाते हुए बापू के हाथ जोर-जोर से कांप रहे थे और सारा शरीर भी सिर से पांव तक कांपरहा था । मुझे लगा, कहीं बापू गिर पड़ें तो ? इसलिए उनकी मनाही होते हुए भी मैं फिर उनके पास लौट गई । उन्होंने मुझे रहने दिया । सबमुच ही उन्हें मदद की जरूरत थी । शायद पहले वे समझे होंगे कि

मैं खुद जाना चाहती हूँ, इसीलिए जाने की वृत्ति ही हूँ ।

मैंने पानी डालना शुरू किया । बापू तौलिये से रगड़-रगड़कर महादेवभाई का शरीर साफ करने लगे । मुह पर पानी डाला तो मजबूती से भिड़े हुए ओंठों पर पानी पड़ने से ऐसा आभास होने लगा मानों वे खुद जोर से ओंठ बंद कर रहे हों— ठीक उसी तरह, जिस तरह स्नान करवाते समय बच्चे अपना मुँह और आँख जोर से मींच लेते हैं । पानी पड़ते बस चेहरे पर मुस्कराहट का भी आभास होता था । बापू ने एक-एक अंग साफ किया । मैंने पैर साफ किये । महादेवभाई अकसर नंगे पाँव घूमा करते थे, इसलिए तलवों में रंग-सा खड़ गया था । बापू ने उसे देखा । बोले, “पाँव बिल्कुल साफ होने चाहिए ।” कंसा कण्ठ दृश्य था ! पिता के हृदय की वेदना और प्रेम का वह सूचक था । मैंने तौलिये में साबुन लगाकर पैरों को अच्छी तरह घिसा । आखिर पैर साफ हुए । बापू कहने लगे, “अब तुम जरा इसे एक करवट पर लो तो मैं इसको पीठ साफ करदूँ ।” महादेवभाई का शरीर बस भी भारी था । शव और भी भारी होगया था । मैंने स्नान वाले टय का पिछली तरफ से सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से उसे एक करवट पर किया । करवट बदलते समय मुझे सास की-सी आवाज सुनाई दी । मैंने चौंककर कहा, “बापू, महादेवभाई ने सांस ली है ।” बापू हँसे । बोले, “तू पगली हूँ, सब तेरी कल्पना है ।” मगर वह मेरी कल्पना नहीं थी । करवट पर आने से नीचे का फंकड़ा बब गया था और इस बोझ की वजह से उसके अंदर की हवा बाहर निकली थी ।

स्नान समाप्त हुआ । कल महादेवभाई ने आज स्नान के बाद पहनने के लिए अपने कपडे धोकर रखे थे— उनमें से एक धोती मैं उठा लाई । तौलिया तो उल्टी पोंछने के काम आचुका था, इसलिए बदन सुखाने को बापूजी ने दूसरा तौलिया मांगा । मेरी भाभी ने अपने सूत का एक तौलिया मुझे भेजा था । मेरा विचार था कि वह बापू के काम आये । बुढिया सुनेगी तो बहुत खुश होगी । लेकिन उसका दूसरा उपयोग लिखा था । मैंने बापू को वह तौलिया लाकर दिया । उससे हमने महादेवभाई का शरीर पोंछा । अब शव को बाहर लाना था । मि० कटेली सिपाहियों को बुलाने लगे । मुझे लगा, भूरा और मगन कंबियो को बुलवाना चाहिए । उन्हे अच्छा लगेगा । भूरा और मगन आये । दोनो ने अकेले ही शव को उठा लिया । बापूजी के और श्रीमती नायडू के कमरों के बीच में एक छोटा कमरा है । इसीमें बँठकर महादेवभाई आज सुबह हजामत बना रहे थे । परसो शाम को यहीं बँठकर कातरहे थे और बहुत लगन के साथ गारहे थे :

“मारी नाइ तमारे हाथे हरि संभालजो रे,  
विवस रह्या छे टाँचा बेला बालजो रे ।”

—हे हरि तुम सम्हालना, मेरी नाड़ी तुम्हारे ही हाथ में है । अब दिन थोड़े ही रह गये हैं ।

इस कमरे की कुर्सियां वगैरा निकलवाकर महादेवभाई के शव को यहीं रखा गया । बापू ने जेल की एक चादर नीचे बिछवाई और एक ऊपर ओढ़वाई । बोले, “He is a

prisoner and he must go as a prisoner.”\* उनका चेहरा शांत था, मगर बहुत ही गंभीर और विचारमग्न। आवाज धीमी थी, किंतु किसीके सामने उन्होंने अपनी आवाज में कंपन या आंखों में आंसू नहीं आने दिये।

लाहौर में गिरफ्तारीभाई ने मुझे चंबन का एक टुकड़ा दिया था। उसे वह बारडोली से लाये थे और सबको बांटा था। तभीसे वह सेरे 'हेण्डबैंग' में पड़ा था। मैंने उसे मीरा-बहन को दिया। उन्होंने घिसकर उसका लेप तैयार किया। बापू ने वह लेप महादेवभाई के माथे और छाती पर लगाया। बगीचे से फूल इकट्ठे किये गए। मीराबहन ने या किसी ने एक हार बनाया। बापू ने वह महादेवभाई को पहनाया। मीराबहन शव पर फूल सजाने लगीं। बापू स्नान करने गये। स्नान के बाद शव के पास आकर बैठ गये। मुझसे कहने लगे, “अब तुम भी स्नान करलो। महादेव के कपड़े तुम धोना। ये किसी और से नही धुलवायेंगे।” जिस तौलिये से उन्होंने महादेवभाई का शरीर साफ किया था, उसीसे अपना किया और फिर वह मुझे दे दिया। बोले, “इसे धोकर महादेव के कपड़ों के साथ बाबला के लिए रख देना।”

मैं स्नान करके निकली तो मीराबहन फूल सजा चुकी थीं। उठाने पर ये फूल हिल जायेंगे, इस खयाल से मगन और भूरा अर्धी पर डालने के लिए फूलों की जाली बना रहे थे। बापू शव के पास बंठे गीता-पाठ कर रहे थे। बारहवें अध्याय से शुरू किया था। मैं आई तो गीताजी मुझे दी। अठारहवें अध्याय तक का पाठ पूरा किया।

इतने में भण्डारी आये। उनका चेहरा सूखा हुआ था। मंह से आवाज नहीं निकलती थी। बापू ने पुछवाया, “वल्लभभाई आते हैं क्या?” वे कहने लगे, “वे यहाँ नहीं हैं।” बापू ने फिर पुछवाया, “खेर?” वह भी नहीं आसकते थे। किसीने कहा, “एक लॉरी आई है और एक ब्राह्मण।” बापू चौंके, “किस लिए?” किसीने उत्तर दिया, “यहाँ कुछ पूजा-पाठ कराना हो तो उसके लिए।” बापू कहने लगे, “यहाँ का पूजा-पाठ होचुका है।”

भण्डारी बापू के पास आये। वे सरोजिनी नायडू को आगे-आगे धकेल रहे थे। बापू ने पूछा, “क्या खबर लाये हैं?” भण्डारी हिचकिचाते हुए बोले, “मैंने सब इंतजाम कर लिया है।” बापू ने पूछा, “क्या इंतजाम किया है? क्या मैं शव को मित्रों के हवाले कर सकता हूँ?” भण्डारी फिर सरोजिनी नायडू को आगे धकेलने लगे। उन्हें खुद कहने की हिम्मत न होती थी। सरोजिनी नायडू ने बताया कि सरकार शव किसीको देना नहीं चाहती। भण्डारी खुद जाकर घाट पर जला आवेंगे। बापू कहने लगे, “तो क्या हममें से कोई शव के साथ जासकते हैं?” उत्तर मिला, “नहीं।” बापू ने पूछा, “तो क्या मैं यहाँ अपने सामने शव को जला सकता हूँ?” फिर बोले, “मैं लाश को आपके सुपुर्द कैसे करूँ? क्या कोई पिता अपने पुत्र की लाश अजनबी

\*“वह कैदी है और उसे कैदी की तरह ही जाना चाहिए।”

आबमियों के हाथ सौंप सकता है ?”\*

भण्डारी फिर बंबई सरकार को फोन करने गये । बापू कह रहे थे, “श्रद्धानंदजी के कातिल की लाश फांसी के बाव जनता को देदी गई थी । लोगों ने उसको शहीद बनाया । उसका जलूस निकला । उसमें से हिंदू-मुस्लिम फसाव भी खड़ा होसकता था, मगर सरकार ने परवाह नहीं की । आज वह महादेव का शव नहीं देने देगी । मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे इस प्रश्न पर लड़ लेना होगा, या कड़ुआ घूंट पीकर रह जाना होगा । मैं इसी बात पर अड़ सकता हूँ कि ‘नहीं, शव को मित्र ही जलावेंगे ।’ मगर वह महादेव की मृत्यु को राजनैतिक रंग देकर उससे फायदा उठाने-जैसी बात होजायेगी । पिता अपने लड़के की मृत्यु का ऐसा उपयोग कैसे कर सकता है ?”

सब लोग सांस रोककर इंतजार कर रहे थे कि भण्डारी क्या उत्तर लाते हैं । बाहर कटेली और अडवानी बंठे थे । भण्डारी ऊपर कटेली के कमरे से फोन कर रहे थे । मंने कटेली और अडवानी को समझाने की कोशिश की कि भण्डारी पर जोर डालना चाहिए कि शव को यहां जलाने दें । बापू ने बहुत छोटी चीज की मांग की है । इसका जवाब भी नकार में मिला तो उन पर क्या असर होगा, कौन जाने ? कहीं उपवास बगंरा पर पहुंच गये तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे । श्रद्धानंदजी के कातिल वाली बात भी कही । वे दोनों ऊपर चले गये । थोड़ी देर के बाद भण्डारी आये । शव को यहां जलाने की इजाजत मिल गई थी । सरोजिनी नायडू ने और बाद में कटेली ने कहा, “भण्डारी को मुश्किल से यह इजाजत मिली ।”

दाह-क्रिया के लिए जगह दूधनी थी । सरोजिनी नायडू, भण्डारी और अडवानी बगंरा जाकर जगह देख आये । तारो के बाहर नजदीक ही घास का एक खेत था । उसमें से घास निकलवाकर जगह साफ करवाई । पास में एक तरफ दो-तीन ऊंचे झाड़ थे । सामने पहाड़ियों का सुबर दृश्य दिखाई देता था । महादेवभाई को यह जगह बहुत पसंद आती । घास साफ करके ब्राह्मण ने यहां थोड़ा जल छिड़का, पूजा-पाठ किया । हमारी सीढ़ियों के पास नोचे बगीचे में दरकृतों की टहनियां तोड़कर उनकी अर्थां बनाई जा रही थी । बापू शव के पास बंठे-बंठे या तो खुब गीताजी का पाठ करते थे या मुझसे करवाते थे । बा बापू के पास बंठी थीं । मीराबहन ने एक कटोरी में धूप, चंदन बगंरा जलाकर सिर के पास रख दिया था और वहीं उसके पास बंठी-बंठी उसमें कपूर और चंदन डालती जाती थीं । महादेवभाई का शरीर तो विशाल था ही, लेकिन इधर कुछ असें से वे गरदन को एक तरफ थोड़ा टेढ़ा करके चलते-थे । शव बिल्कुल सीधा पड़ा था इसलिए और साथ ही शायद शरीर के स्नायुओं आदि के शिथिल होजाने के कारण वह जीते-जी जितने लम्बे लगते थे उससे ज्यादा लम्बे इस वक्त लगरहे थे । चेहरे पर अपूर्व शांति थी, अपूर्व शोभा । बापू शव की बाईं ओर बंठे थे । मंने देखा कि महादेवभाई की बाईं आंख

\*“No father can hand over the body of his son to strangers.”

आधी खुली थी। यह अकस्मात् ही हुआ होगा। मैंने तो मृत्यु के बाद दोनों आंखें बंद करदी थीं। आंख फिर से कंसे खुल गई, मैं नहीं जानती। ऐसा प्रतीत होता था मानो अपनी मृत अवस्था में भी महादेवभाई बापू के दर्शन करना चाहते हों।

बापू ने बारहवें से अठारवें अध्याय तक का पाठ पूरा होने पर फिर पहले अध्याय से शुरु करने को कहा। पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा आधा हुआ था कि इनने में ब्राह्मण महाराज ने आकर कहा, "सब तैयार हूँ।" गीता-पाठ बंद हुआ। मुख्य ब्राह्मण के सिवा चार और ब्राह्मण थे। सबने कुर्ते उतारे। जनेऊ दाहिनी तरफ किये और शव को मंत्र पढ़ते-पढ़ते उठाकर अर्था पर रखा। बाद में वे शव को रस्ती से बांधने लगे। मैंने कभी देखा नहीं था कि शव को अर्था पर कंसे रखा जाता है। रस्ती से बांधना मुझे चुभा। मैं रोकने ही वाली थी कि बापू ने टोक दिया। बोले, "शव को बांधना ही पड़ता है।" ब्राह्मण ने एक शाल शव पर डाला जो मिल का बना था। मैंने बापू से पूछा, "क्या मिल की चादर डालनी है?" कहने लगे, "बस चलने दो।" उन्होंने सोचा होगा कि कौदी की हंसियत से हमें इन बातों की नुकताचीनी करने का हक नहीं है।

अर्था उठाकर सीढ़ी से नीचे लाये। अब उसे उठाकर कन्धों पर रखने लगे। छः आबमियों ने मुश्किल से उसे कंधों पर उठाया। बाकी सब पीछे चले। बापू ने आग की हंडिया उठाई। वे बा को भी संभालरहे थे। शव चिता पर रखा गया। बा के लिए दूर एक कुर्सी रखी गई। उनके लिए अग्निदान की क्रिया को देखना असहनीय था। वे दुःख से पागल-सी होरही थीं। आसू-भरी आंखों से दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखती थीं और बार-बार कहती थीं, "भाई, तू ज्यां जजे सुखी रहेजे। भाई, तू सुखी रहेजे। तें बापूजी नी घणी सेवा करी छे। बधा ने सुख पहीचाइय छे। तूं सुखी रहेजे।" \* ब्राह्मण का पूजा-पाठ समाप्त हुआ। शव पर लकड़ियां रखी जाने लगीं। चेहरे पर लकड़ी रखने लगे तो मैं और बापू यत्रवत् अपने आप दो कदम आगे बढ़ गये। ब्राह्मण ने हाथ रोक लिया। अंतिम बार महादेवभाई का दर्शन करके हम लोग पीछे हटे। लकड़ियां चिनदी गईं। अंत में बापू ने उन्हें अग्नि दी। यो पहली आहुति पूरी हुई!

बापू करीब घंटा-डेढ़ घंटा तो खड़े ही रहे। फिर बहुत आग्रह करने पर कुर्सी पर बैठ गये। हमारी तरफ चिता चिनते हूँ तो नीचे भारी लकड़ियां रखते हैं, बीच में पतलो, ऊपर फिर भारी। यहां इन लोगों में नीचे भारी लकड़ियां लगाईं, ऊपर सब पतली। ऊपर की लकड़ियां जल्दी से जलकर राख होने लगीं। मैंने दो-तीन बार कहा कि इतनी लकड़ी से शव पूरा नहीं जल सकता, मगर किसीने ध्यान नहीं दिया। मैं चिता को देखरही थी। अग्नि की ज्वाला में नीचे एक पीला-सा बिंदु नजर आरहा था। धीरे-धीरे वह बड़ा होने लगा। जब ऊपर की लकड़ियां जलकर खतम होने लगीं, एकाएक उस पीले

\* "भाई, तू जहा जाय सुखी रहना। भाई, तू सुखी रहना। तूने बापूजी की बड़ी सेवा की है। सबको सुख पहुंचाया है। तू सुखी रहना।"

बिंदु की जगह पर अंतड़ियों का समूह बेचनी के साथ उभड़कर इधर-उधर फँलता हुआ बाहर निकल आया। मैं बरबस बोल उठी, “बापू, अंतड़ियाँ !” दृश्य भयानक और बढ़ा करण था। दो-चार आदमी दौड़ते हुए गये और हमारी जलाने की लकड़ी में से लकड़ियाँ लाकर ऊपर डालीं। ज्वाला भड़क रही थी। सबके हृदय भरे थे। ऐसा लगता था, सब महादेवभाई के पीछे जाने वाले हैं। मैंने कटेली से कहा, “मान लीजिए कि हममें से कोई जिंदा बाहर न निकला तो आपको यह जगह महादेवभाई के लड़के को दिखानी होगी।” अड़वानी भी सुन रहे थे। ये लोग स्वयं बहुत दुःखी थे। किसीकी तयारी नहीं थी आज की इस घटना का सामना करने की !

कोई तीन घंटे बाद बापूजी शेष चिता को जलती रखन का भार ब्राह्मणों को सौंपकर वापस आये। बा रोरही थीं। बापू उन्हें शांत कर रहे थे। घर सूना था। हम सब अभोतक अपने आपको स्तब्ध-सा अनुभव कर रहे थे।

बापू आजकल बाइबिल पढ़ाया करते हैं। जब वे ब्रेमुथ महादेवभाई के पास आये और जब महादेवभाई अनंत निद्रा में सोगये तब मैं अपने मन में सोचरही थी कि ईसा अपने भक्तों को बचा लेते थे तो क्या बापू नहीं बचा लेंगे ? अब वह आशा खतम हुई। ऐसी आशा का अब कोई कारण नहीं रह गया था ! डाक्टर के नाते मन में इस तरह के विचार को स्थान देना भी शरम की बात थी। किंतु जब अपने प्रिय जनों पर आ बनती हूँ— उनका बिछोह होता हूँ— तो आदमी समता खो बँठता है।

बापू कहा करते हैं, “भावना तो महादेव की खुराक थी।”\*

बापू के उपवास की चिंता तो उनके सिर पर हमेशा सवार ही रहती थी। उन्होंने मुझसे कई वफा कहा था, “मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना किया करता हूँ कि मुझे बापू से पहले उठाले ! और साथ ही यह भी कहूँ कि ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को कभी ठुकराया नहीं है। हमेशा पूरा किया है।”

भण्डारी के साथ बात करते समय कौन जाने उनका कौनसा मर्म-स्थल छू गया होगा, क्या विचार मन में आया होगा कि जिससे एकाएक ऐसा होगया हो। और इंजेक्शन बेचारा तो न नुकसान कर सकता था, न फायदा। जब खून का दौडना ही बंद होगया था तब नस में दिये हुए इंजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था। वह हृदय तक पहुंचे कैसे ? हृदय तक पहुंचने के लिए तो उसे सुई द्वारा सीधा हृदय की मास-पेशी में दिया जाता तो वह † काम देसकता था। फिर सिर पर भूत सवार हुआ। सीधा हृदय में इंजेक्शन दिया होता तो वे उठ बँठते। इस विचार ने मुझे बहुत अशांत कर दिया। मैंने बापू से भी कहा। बापू कहने लगे, “होता भी तो मैं तुझे देने नहीं देता। जितना करने दिया, उसका भी मुझे अफसोस है। महादेव ने जीने का

\*“Mahadev lived on his emotions.”

† Intracardiac इंजेक्शन



मोह छोड़ दिया था और मने तो हमेशा कहा है कि जो आदमी जीने का मोह छोड़ देता है, उसकी बेह अपने आप छूट जाती है ।”

पहले भण्डारी बगैरा यहाँ बाहकिया करने का विरोध कर रहे थे । कहते थे, “कहीं पानी आजायगा तो क्या करेंगे ?” आकाश में बादल थे ज़रूर, लेकिन अर्धों के उठाने तक ही थोड़ी बूँदें आती रहीं, मानो आकाश भी आसू बहाता हो । चिंता जलाने को गये, उसके बाद बारिश बिल्कुल नहीं आई । जब चिंता की जगह पहुंचे तो आकाश में अंधेरा-सा लगा । मने ऊपर सर उठाकर देखा तो ऐसा मालूम हुआ, मानो टिड्डी-दल आया हो ! लेकिन वह टिड्डी-दल नहीं था, जंगली मक्खियों का दल था । इससे पहले या इसके बाद यहाँ कभी इतनी मक्खियाँ देखने में नहीं आई थीं ।

शव जलाकर लोटे । बापू ने सबको हुकम किया कि अब खाना चाहिए । पांच बज चुके थे । दो घंटे पहले जहाँ शव पड़ा था, जहाँ बैठकर आज सुबह महादेवभाई ने बापू के लिए रस निकाला था, वहीं बैठकर आज मने मौसम्बी का रस निकाला । बापू ने दूध और रस लिया । हम लोग सरोजिनी नायडू के कमरे में खाने को गये । टोस्ट, दूध, चाय बगैरा लिया, चायदानी पर नई ‘टी कोजी’ (Tea-cosy)—चायदानी का आवरण—पड़ी थी । महादेवभाई या कोई और सुबह चाय के लिए कभी-कभी जरा देर से पहुंचा करते थे । सरोजिनी नायडू ने मुझसे कहा कि एक ‘टी कोजी’ बनादो तो चाय ठंडी न हुआ करे । कल मने अपना एक पुराना रंगीन ग्लाउज फाड़कर ‘टी कोजी’ काटी । श्रीमती सीतलदास ने आँथर रोड जेल से चलते समय थोड़ी रुई देदी थी । वही रुई भरकर ‘टी कोजी’ तैयार की । शाम की चाय के समय तक वह मेज पर पहुंच गई थी । महादेवभाई उस ‘टी कोजी’ को देखकर इतने खुश हुए कि उठाकर सिर पर पहनली । कहने लगे, “रंग इतना ताजा है, इतनी अच्छी बनी है, मानो अभी बाजार से आई हो !” मने उनके सिर से वह खींचकर उतारली और कहा, “आप तो विदूषक बन रहे हैं !” अपनी मर्यादा में रहकर वह खुद खुश रहना और सबको खुश रखना चाहते थे ।

शाम को धूमने निकले । मैं और बापू दो ही थे । किंतु आभास ऐसा होता था, मानो महादेवभाई हमारे साथ-ही-साथ चल रहे हों । क्या सचमुच उनकी आत्मा आज यहाँ भ्रमण कर रही होगी, अथवा बहुत पहले पुण्यलोक में पहुंच गई होगी ?—भगवान ही जाने !

मेरे सिर पर फिर वही सवाल सवार था । मने बापू से कहा, “हृदय में एड्नेलिन दी होती तो महादेवभाई आज इस तरह न जाते ।” बापू कहने लगे, “नहीं, तेरे पास वह रहती भी तो मैं न देने देता ।”

एड्नेलिन मैं तो जीव-हत्या होती हूँ । मने सोचा कि निरामिष बनावट भी तो होती है ! क्यों मने वह अपने साथ न रखी ? फिर विचार आया, अगर मेरे पास एड्नेलिन होती तो जैसे ही मुझे सूझता कि वही एक बचाने वाली चीज है, मैं बापू से बिना पूछे वह उन्हें दे देती, मगर बापू भी ठीक ही कहते थे । ऐसे संयोग तभी मिलते हैं, जब आयुष्य रहती है । भगवान को जो करना होता है, उसके साधन भी वह पैदा कर देता है—

“जैसी हो भवितव्यता, तैसी मिले सहाय ।”

प्रार्थना हुई। महादेवभाई के बाद प्रार्थना कराने का काम मुझ पर पड़ा। गला खराब था, तिस पर इतनी थकावट। भजन गाना, रामधुन बलान्त, रामायण का पाठ करना, सब कठिन था। रामधुन मीराबहन ने उठाली। भजन और रामायण भेरे जिम्मे रहे। प्रार्थना के लिए जाने से पहले सिविल सर्जन आये— वही, जो महादेवभाई के देहांत के बाद आये थे। जब चिता जलाकर लौटे तो मैंने भण्डारी को कई तात्कालिक आवश्यकता की वबाइयों की एक फेहरिस्त दी। बा को किसी भी समय कोरोनरी थ्रॉम्बोसिस (Coronary Thrombosis)\* होसकता है, और बापू को कार्डियक एस्पेमा (Cardiac Asthma)। आज की घटना की तरह फिर गफ़लत में पकड़े जाना मैं नहीं चाहती थी। साथ ही मुझे यह भी लगता है कि यहां की परीक्षा की घड़ी गई। अब फिर यहां ऐसी परीक्षा नहीं होगी। तो भी वबाइयां गंगबालीं।

मुझे लगा, आज शाम को सिविल सर्जन बापू को देख जायें तो अच्छा हो, क्योंकि आज मैं इतना आत्मविश्वास खोबंठी हूँ कि अपने आपको निकम्मा महसूस करने लगी हूँ। मैंने भण्डारी से यह कहा। उन्होंने सिविल सर्जन को भेजा। वे बेचारे आये। हाल-चाल पूछकर और नाड़ी देखकर चले गये।

आठ-साढ़े आठ बजे बापू बिस्तर पर पड़े। नौ बजे भण्डारी का संदेश मिला। महादेवभाई की पत्नी का पता पूछते थे। शब को स्नान कराने के बाद दोपहर को भण्डारी ने बापू से पूछा था कि क्या महादेवभाई के घर खबर भेजना चाहते हैं? बापू ने कहा कि सरकार भेजनेवे तो तुरंत भेजना चाहते हैं, मगर उनका संदेश तुरंत सीधा और बगैर काट-छांट के जाना चाहिए। उन्होंने उसी समय तार का मजमून लिखा— चिमनलाल भाई के नाम। शुरू किया—Sorry, Mahadev died suddenly. “खेद कि महादेव की अकस्मात मृत्यु होगई।” मगर फिर रुक गये। खेद क्यों? महादेवभाई अपने धर्म का पालन करते हुए गये हैं। इसलिए काटकर यह तार लिखा :—

Mahadev died suddenly Gave no indication. Slept well last night. Had breakfast. Walked with me. Sushila jail doctors did all they could, but God had willed otherwise. Sushila and I bathed body. Body lying peacefully covered with flowers incense burning. Sushila and I reciting Gita. Mahadev has died yogi's and patriot's death. Tell Durga, Babla and Sushila no sorrow allowed Only joy over such noble death. Cremation taking place front of me. Shall keep ashes. Advise Durga remain Ashram but she may go to her

\*हृदय की नाड़ियों में रुकावट के कारण हृदय की नसों में रक्त की कमी या रक्त न पहुंचने की बीमारी।

people if she must. Hope Babla will be brave and prepare himself fill Mahadev's place worthily. Love--BAPU\*

तार भण्डारी को दिया गया। बाव में बापू ने मुझको फिर भेजा और कहा, "उनसे दुबारा कहो कि तार ऐसा का ऐसा, सुरत और सीधा न जा सकता हो तो मुझे वापस लौटा दें। 'एक्सप्रेस' जाना चाहिए।" मैंने रसोईघर के पास जाकर भण्डारी को पकड़ा। वे एक अंधेज पुलिस अफसर को तार दे रहे थे। मैंने उन्हें बापू का संदेश सुनाया। कहने लगे, "लेकिन यह बात मेरे हाथ में नहीं है।" मैंने कहा, "तार वापस देवीजिये।" भण्डारी बोले, "यह तो अब सीधा हो जा रहा है। पुलिस अफसर को सौंप दिया है।" उन्होंने फिर पुलिस अफसर से कहा कि तार अभी जाना चाहिए। मैंने दुबारा कहा, "यह जरूरी तार के रूप में जाना चाहिए— बिना कटे-छटे। वर्ना गांधोजी इसे भेजना नहीं चाहते।" वह तार लेकर चला गया। लेकिन जब रात को फिर पता मंगा गया तो हमें आश्चर्य हुआ। बापू ने समझाया, "वह तार तो हमारी तरफ से गया था न? सरकार को अपनी तरफ से भी खबर भेजनी ही चाहिए! इसलिए अब पता मंगवाया होगा।" हमने गाम-पता भेज दिया।

जब बिस्तर पर लेटी तो मेरी आंख के सामने महादेवभाई की मृत्यु का ही दृश्य था। महादेवभाई के कमरे में से होकर सरोजिनी नायडू के गुसलखाने में जाना पड़ता था। उन्होंने उस कमरे में दीपक रखने को कहा। जहां शव रहता है, वहां बस बिन तक दीपक रखने की प्रथा है।

बापू अपने बिस्तर पर पड़े करवटें बदल रहे थे। बा रोज भीतर सोया करती थीं। आज बाहर सोई। मैंने अपनी खाट बा को दी। महादेवभाई जिस खाट पर सोया करते थे, वह मुझे मिली। बापू कहने लगे, "तुम उर लगता हो तो वह खाट मुझे दे दे और मेरी लू ले ले।" मगर मुझे महादेवभाई से उर क्यों लगने लगा? सोने से पहले मैंने महादेवभाई

\*—महादेव की अकस्मात मृत्यु होगई। पहले जरा भी पता नहीं चला। रात अच्छी तरह सोये। नाश्ता किया। मेरे साथ टहलने। सुशीला और जेल के डाक्टरों ने जो कुछ कर सकते थे किया; लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और थी। सुशीला और मैंने शव को स्नान करवाया। शरीर शांति से पड़ा, फूलों में ढका है, धूप जल रही है। सुशीला और मैं गीता-पाठ कर रहे हैं। महादेव की योगी और देश-भक्त की भांति मृत्यु हुई है। दुर्गा बाबला और सुशीला ने कहा, शोक करने की मनाई है। ऐसी महान् मृत्यु पर हर्ष ही होना चाहिए। अत्येष्टि मेरे सामने हो रही है। भस्म रख लूंगा। दुर्गा को सलाह दी कि आश्रम में रहे, लेकिन अगर वह जाना ही चाहे तो घर वालों के पास जा सकती है। आशा है, बाबला बहादुरी से काम लेंगा और महादेव का सुयोग्य उत्तराधिकारी बनने के लिए अपने को तैयार करेगा। सप्रेम,

की मेज की दराख लोलो और उसमें से एक कागज निकाला, जिस पर वे डायरी लिखते थे। छोटे-छोटे संक्षिप्त नोट लिखे थे। मैंने उसी कागज के नीचे १५ तारीख से डायरी लिखनी शुरू की। इस तरह १५ तारीख से डायरी नियमित शुरू हुई। उससे पहले की घटनाएं तो बाद में अपनी याद से और महादेवभाई के नोट्स की मदद से मैंने लिखी हैं। यहां १५ तारीख की घटनाएं भी असल डायरी पर से नकल की हैं। ब्यौरे की कुछ बातें उस रोज़ की यकान में मैंने नहीं लिखी थीं। बाद में भाई के कहने से लिख डाली हैं।

: १० :

## विषाद की छाया

१६ अगस्त '४२

२॥ बजे बापू उठे। मैं तो जागती ही थी। बापू क्षणभर भी नहीं सोये थे। मैं भी नहीं। बापू नें उठकर बतौन की। गरम पानी पिया। हमने प्रार्थना की। आज रविवार था। आठवें अध्याय में पढा कि जब सूर्य उत्तरायण होता है और शुक्ल-पक्ष होता है तब पुण्यात्मा देह छोड़ते हैं और फिर वे इस लोक में नहीं आते। आजकल शुक्ल पक्ष है और सूर्य भी उत्तरायण है !

प्रार्थना के बाद बापू आध घंटे तक मुझसे बातें करते रहे। वे हमें शांत कर रहे थे और विपक्षियों का सामना करने की तैयारी करवा रहे थे। मृत्यु के बारे में ज्ञान-वार्ता कर रहे थे। शायद भाई भी जावें तो उसके लिए मेरी मानसिक तैयारी करवा रहे थे। मैंने कहा, "भले हम सब एक-एक करके चले जाय, पर आप अच्छे रहें और विजय-पताका फहराते हुए यहांसे बाहर जाय, यही प्रार्थना आज तो हृदय से निकलती है।"

३॥ बजे बापू वापस बिस्तर पर गये। थोड़ी नींद ली। आज रात भर में उन्हें दो घंटे की भी नींद नहीं मिली। मैं भी प्रार्थना के बाद थोड़ी सो गई।

नाश्ते के बाद बापू चिता-स्थान पर गये। चिता अभी जलरही थी। अंगारे धधकर रहे थे। यह है हमारे प्रियतमो का अंत !— मूट्ठी भर राख और अंगार ! प्रभु ! धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी लीला ! एक सप्ताह पहले आज ही के दिन बापू और महादेवभाई आजादी की लड़ाई शुरू होने से पहले ही बंबई में पकड़ लिये गए थे और आज महादेवभाई तो आजाद भी होगये। कौन कब कर सकता है अब उनको ?

बापू के कहने से चिता-स्थान पर लड़े होकर बारहवें अध्याय का पाठ किया। 'तुल्य निवा स्तुतिर्मनी' (निवा और स्तुति को एक समान मानने वाला, मौन रखने वाला) पढ़ते समय आंख के सामने तुल्य निवा स्तुतिर्मनी महादेवभाई का शव पड़ा था। उस शव के चेहरे की अपूर्व शांति और कान्ति सामने मौजूब थी।

पाठ करके हम लोग बापस आये। बापू के लिए सुबह का साग बनाने का काम मीराबहन ने लेलिया, शाम का मंने। रस निकालने का काम मेरा था। दोपहर को शाम के लिए साग चढ़ाने नीचे रसोई-घर में गई तो भूरा और मगन मेरे पास आकर खड़े हो-गये। बोले, “बहन, बड़ा गजब होगया ! हममें से कल किसीने खाया नहीं। जब कल फूल इकट्ठा करने को कहा गया, तो मंने सोचा, माताजी बीमार थीं, वे गई होंगी। लेकिन जब हम ऊपर बुलाया तो सच्ची बात का पता चला। बड़ा जुलम हुआ है, बहन ! सभी कंवी और सिपाही कांपते हैं।”

सिबिल सर्जन आज फिर आये। पूछ गये, क्या हाल है ? मंने बताया कि बापू बहुत थके हुए हैं। कल की थकान और रात नींद का न आना, इसके कारण है। बापू की नाड़ी अटक-अटककर चलती थी (extra systoles), सो भी मंने उनसे कहा। बेचारे क्या कर सकते थे ? कहने लगे, “मुझे आशा है कि दिन में कुछ नींद आयेशी और वे हल्कापन अनुभव करेंगे।” इतना कहकर वे चले गये।

हम सबको ऐसा लग रहा है कि महादेवभाई जिस ‘लटकती तलवार’ के डर से गये, वह तलवार उनके चले जाने के कारण हमारे सिर से अभी तो उठ-सी गई है। महादेव-भाई के बलिदान ने बापू के उपवास को टाला है। बापू ने ऐसा कुछ कहा भी था, “महादेव का बलिदान कोई छोटी चीज नहीं है। अकेला भी वह बहुत काम करेगा।”

सरोजिनी नायडू ने कहा, “अगर कभी किसीने दूसरे के लिए अपना जीवन दिया है तो वह महादेव है। योशु प्रभु की तरह वह इसलिए मरे कि बापू जीसकें। मनुष्य दूसरे मनुष्य की इससे बढ़कर और क्या सेवा कर सकता है कि वह उसके लिए अपने प्राण ही न्योछावर करदे ?”

शाम को घूमते समय बापू फिर चिता-स्थान पर गये। मुझे एक डिब्बी या बोटल लानेको कहा था। वे उसमें थोड़ी राख भरकर लाना चाहते थे। यों तो कल ब्राह्मण अस्थि, राख आदि इकट्ठा करने आवेगा हो, लेकिन कहीं रात में बारिश आ गई तो राख का रग बिगड जायगा। इस विचार से बापू आज ही थोड़ी राख उठा लेना चाहते थे। मंने अपनी स्वान स्याही की शीशी के साथ की गत्ते की डिब्बी लेली। चितास्थान पर उज्ज्वल, सक्रम राख की छोटी-सी ढेरी पड़ी थी। बापू के कहने से मंने सबसे सफेद राख जो वहां मिल सकती थी, अपनी उस डिब्बी में भरली। राख को मुट्ठी में लिया तो पता चला कि अभीतक उसमें जलते अंगारे थे। एक चम्मच मगवाकर बिना अंगारों वाली राख निकाली। तो भी छोटे-छोटे अंगार आ ही गये, जिससे डिब्बी थोड़ी-सी जल गई। इन अंगारों में से कुछ तो सखमुच अस्थियां थी, जो अंगार-सी लगती थीं।

बापू ने डिब्बी अपने पास अपनी मेज पर रखी और उसमें से राख लेकर अपने भाये पर टीका लगाया। काल की गति क्या-क्या रंग दिखाती है। तुलसीदासजी ने सच ही कहा है :

“अिन चरणन की चरणपादुका भरत रह्यो लब लाई ।  
शिव सनकादिक अह ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई ॥  
तुलसीदास मारुत सुत्र की प्रभु निज मुख करत बड़ाई ॥”



शाम की प्रार्थना के समय फिर कल का-सा हाल हुआ । मैं प्रार्थना में या बिस्तर पर आंख बंद कर ही नहीं सकती । करती हूँ तो आंख के सामने मृत्यु-शय्या पर छटपटाते हुए महादेवभाई की तस्वीर ही सामने आजाती है ।

कटेली रात एक अण को भी नहीं सोसके । बेचारे को बहुत आघात पहुंचा है । किसीने कल्पना तक न की थी कि महादेवभाई इस तरह बात-की-बात में हमें छोड़कर चले जावेंगे ।

महादेवभाई के कपड़े इकट्ठे करके उनके बक्स में रखे । बापू ने बक्स का सामान उनके सामने रखने को कहा । ‘बैटिल फॉर एशिया’ नामक एक किताब थी । अगाथा हूरिसन द्वारा महादेवभाई को भेंट की गई बाइबिल निकाली । ६ अगस्त का ‘ईवनिंग न्यूज’, ‘पैसिफिक अफेयर्स’ का एक अंक, गुरुदेव का ‘मुक्तधारा’ नामक नाटक, ‘सिलवर स्टीम’, ‘ए चाइनीज प्ले’ और कुछ कपड़े, बस इतनी चीजें थीं ।

बापू कहने लगे, “इसमें तो छः महीने के अभ्यास का सामान है ।” बाइबिल पढ़ना शुरू किया । ‘बैटिल फॉर एशिया’ भी निकाली । ‘मुक्तधारा’ भी पढ़ना प्रारंभ किया ।

बापू मुझसे कहने लगे, “आज से, या जब से आई हो, तब से डायरी लिखना शुरू करदो ।” मैंने कहा कि कल से मैं लिखने लगी हूँ । महादेवभाई की लिखी कुछ चीजें भी दिखाई— नोट्स थे । बापू ने मेरी डायरी लेकर पढ़ी— एक-आध बात लिखना मैं भूल गई थी, उसकी ओर मेरा ध्यान दिलाया । जैसे, गीताजी का कितना पाठ किया था, वगैरा ।

१७ अगस्त '४२

आज तीसरा रोज है । बापू अच्छी तरह सोये । मैं आज भी नहीं सोसकी । मि० कटेली भी नहीं सोये । रात को ऊपर उनके टहलने की आवाज आरही थी ।

५ बजे बापू उठे । प्रार्थना की । नाश्ते के बाद चिता-स्थान पर गये । रात पानी की बूंदें आई थीं । राख का रंग काला पड़ गया था ।

मृत्यु के एक-दो दिन पहले महादेवभाई बकरी का एक चितकबरा बच्चा उठाकर बापू के पास लाये थे । वे उसे बहुत प्यार कर रहे थे । उसका मुंह सूम रहे थे । बच्चा बहुत सुंदर है । वह कुछ तो समझता होगा । जब हम चिता की जगह जाने के लिए नीचे आते हैं, वह आकर पांवों में लिपटने लगता है । मैं उसे उठाकर चितास्थान पर ले-गई । वहां मुझे बारहवें अध्याय का पाठ करना था (यह रोज सुबह का नियम बन

गया है)। बकरी का बच्चा भी ज़रा चिल्लाने लग गया था। मैं उसे छोड़ने लगी, मगर मीराबहन ने उसको मुझे लेलिया। बाद में उन्होंने बताया कि पाठ शुरू होते ही वह इतना शांत होगया था, मानो ध्यान लगाकर सुन रहा हो।

स्नान के बाद बापू ने फिर महादेवभाई की राख का टीका लगाया। कह रहे थे, “यह राख मैं दुर्गा के पास लेजाऊंगा। वह भले रोज इसका टीका लगाया करे।”

ब्राह्मण आया हुआ था। बापू से पूजा, पिण्ड-दान, तर्पण इत्यादि करवाया। शांति-पाठ किया। सरोजिनी नायडू ने बाद में मुझे बताया कि पूजा करते समय बापू का चेहरा इतना गंभीर और तना हुआ था कि देखा नहीं जाता था। मैं तो पूजा के समय पूजा की क्रिया को ही देख रही थी और शांति-पाठ को समझने की कोशिश कर रही थी। मैंने बापू की ओर ध्यान से नहीं देखा। २० मिनट में पूजा पूरी हुई। एक पिता के लिए अपने पुत्र की उत्तर-क्रिया करना बड़े-से-बड़े दुःख की बात होती है और बापू के निकट तो महादेवभाई पुत्र से भी अधिक थे। लेकिन बापू कौन साधारण पिता हैं? कल कह रहे थे, “ईश्वर मुझे कंसा कसीटी पर कसरहा है! अगर मैं इन चीजों से विचलित होजाऊं तो मेरा काम कैसे चले।”

दोपहर को खाने के समय बम्बई के गवर्नर का उत्तर आया। बहुत खराब था। भाषा भी उद्धत थी। बल्लभभाई को नहीं भेजा जासकता। अखबार वर्गरा देने का भी अभी सरकार का कोई इरादा नहीं। यह उसका सार था। मैंने डरते-डरते पत्र बापू के सामने रखा—कौन जानें, उसका उन पर क्या असर होगा? मगर इस उत्तर के लिए बापू की मानसिक तैयारी थी।

आज सोमवार था। मौन था। दोपहर को मीराबहन ने कुछ पूछा। उत्तर में बापू ने लिखा, “मैं उपवास के बारे में नहीं सोच रहा। न यह सोच रहा हूँ कि बाहर क्या हो रहा है। मैं तो अपने यहां के काम और अभ्यास वर्गरा का ही विचार कर रहा हूँ।” इन शब्दों से सबको बहुत आश्चर्य हुआ और आश्वासन भी मिला। महादेवभाई को बापू के उपवास की चिंता ही खायें जाती थी। उनके रहते बापू ने ये शब्द कहे होते तो उन्हें कितना चैन मिलता! शायद बापू के आज के इन शब्दों का कारण महादेवभाई को यह मृत्यु ही हो!

मृत्यु की घटना पर सोचती हूँ तो अनेक तरह के विचारों की आंधी-सी मन में आने लगती है। निदान के बारे में तो कोई शक नहीं रहा। था तो स्टोक्स एडम्स सिन्ड्रोम (Stokes Adams Syndrom)\*, लेकिन उसका कारण हम दावे के साथ नहीं बता सकते। फिर विचार आता है कि एड्रेनेलिन की सुई अगर सीधी हृदय में लगादी होती तो! किंतु इस कोरे तर्क-बितर्क से फायदा क्या? जो शक्य था, सो किया। जैसा कि आज बापू समझा रहे थे, हमारी परिस्थिति में जितना कुछ होसकता था, हमने

\*हृदय-सम्बन्धी एक विशेष रोग

किया। तो भी बिल से यह अरमान नहीं जाता कि ऐसे मरीज के लिए जितना होना चाहिए था, नहीं हुआ !

बापू ने मुझे 'मुक्तधारा' पढ़ने को कहा। बोले, "पिछले पन्नों पर मैंने निशान लगाये हैं, शुरू में नहीं लगाये। तुम मेरे निशान देखकर शुरू के पन्नों में भी उसी तरह निशान लगा देना।" मैं 'मुक्तधारा' पढ़ गई, बहुत बिलचस्प है। बापू की फिलासफी उसमें भरी पड़ी है।

मालूम होता है, मि० कटेली ने मेरी यह बात याद रखी है कि हममें से कोई भी न रहे तो आपको यह चिंता-स्थान बाबला को बिलाना है। आज उन्होंने चिंता-स्थान के चारों कोनों पर खूंटियां गड़बाकर डोरियां बंधवावी थीं, ताकि निशान रहे कि कौनसी जगह थी।

आज मैंने मालिश के समय बापू से पूछा, "महादेवभाई शायद यहीं घूमते होंगे। मृत्यु के बाद भी वे आपसे दूर नहीं जासकेंगे।" बापू कहने लगे, "तू महादेव को पुण्यात्मा मानती है या नहीं?" मैंने कहा, "हां।"

"तो उसकी आत्मा क्या भटकेगी?"

मैंने कहा, "तो क्या आप मानते हैं कि वे कहीं नया जन्म लेने को भी चले गये? कई लोग कहते हैं कि जब एक शरीर छूटता है तो दूसरा तैयार ही रहता है।"

बापू कहने लगे, "नहीं, कहा यह जाता है कि स्थूल शरीर छूट जाने पर आत्मा लिंग शरीर लेकर इहलोक से अन्य लोकों में चला जाता है। बहुत अरसे तक वहां रहकर फिर समय आने पर जन्म लेता है।"

: ११ :

## समाधि-यात्रा

१८ अगस्त '४२

सुबह-शाम बापू महादेवभाई की समाधि पर जाते हैं। बापू इसे तीर्थयात्रा मानते हैं। न जायें, तो बेचैन होउठें। जब बारिश होती रहती है तब छाता लेकर भी जाते हैं। मैं थोड़े फूल लेजाती हूँ। आखिरी दिन घूमते समय महादेवभाई बेलिया के पौधों को कलियों से लदा देखकर बोले थे, "अब फूल खूब आयेंगे।" ये फूल अब खिलरहे हैं। सो थोड़े लेजाते हैं। जीतेजी हम लोग इन्सान की कवर नहीं करते। मृत्यु के बाद सभी भट्टांजलि चढ़ाने को तैयार होजाते हैं। महादेवभाई की कीमत तो हम सब उनके जीतेजी भी जानते थे, मगर उनके जाने के बाद अब पता चलता है कि शायद उनके जीवन-काल में हमने उनकी पूरी कीमत नहीं समझी थी।



शाम को सिविल सर्जन आये। बापू गुसलखाने में थे। इंतजार करते रहे। मंने यहाँ के मेडिकल स्कूल के बारे में पूछा। कुछ बताते रहे। फिर बातों-ही-बातों में कह गये, "इस वक़्त हमारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आता।" हम समझ गये। जब बिद्यार्थी ही न आये, प्रोफ़ेसर को लेक्चर में क्या रस आसकता है! बापू आये। "आप कैसे हैं?" इतना पूछकर सिविल सर्जन चले गये।

हमारे पास कॅलेण्डर नहीं था। मगर बापूजी ६ अगस्त को रविवार के दिन पकड़े गये थे। उस पर से उन्होंने मुझे कॅलेण्डर बनाने को कहा था। आज दोपहर मैं बनाने बैठी। बापू ने भी मरव दी। मुझे तीन बार कॅलेण्डर बनाना पड़ा। कहीं-कहीं कोई भूल रह ही जाती थी। आखिर प्रार्थना के बाद कॅलेण्डर तैयार हुआ। कॅलेण्डर की खास ख़रत तो बा की एकादशी वगैरा बताने के लिए थी।

१६ अगस्त '४२

महादेवभाई की समाधि पर मैं रोज़ फूल लेजाती थी। आज मि० कटेली ने सिपाही से कहकर फूलों की एक पत्तल सजवाकर तैयार रखी थी। मि० कटेली पर भी महादेवभाई के आकर्षक व्यक्तित्व ने खासा प्रभाव डाला था। अपने क्रमों को अदा करते हुए वह जितनी सहानुभूति हम लोगों से रख सकते हैं, रखते हैं। बापू कह रहे थे, "महादेव की मृत्यु के समाचारों से बहुतांशों के बिल टूट जायेंगे।"

यह अक्षरशः सच था। जो उनके सम्पर्क में इतने कम आये थे, उनको उनके जाने से इतना सबमा पहुँचा है तो उनके निकट के मित्रवर्ग का और सगे-सम्बन्धियों का क्या हाल हुआ होगा, कौन कह सकता है! बापू रोज़ स्नान करके महादेवभाई की राख का टीका लगाते हैं। बा कह रही थीं, "शंकर तो विभूति लगाते थे, लेकिन मनुष्य को ऐसा करते देखा नहीं था।" मगर बापू तो बापू ही हैं न!

हम सुबह समाधि पर बारहवें अध्याय का पाठ करते हैं। पाठ करते समय आंख के सामने निद्रा में चिंता पर सोते हुए महादेवभाई खड़े होजाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता है, मानो वे भी हमारे साथ खड़े पाठ कर रहे हैं! काम करते समय भी अक्सर उनकी मौजूदगी का आभास होने लगता है। अच्छा मालूम होता है। महादेवभाई की स्मृति हमारे सामने हमेशा ताज़ी रहे, ताकि हम उनके जीवन से सवा सबक सीखते रहें। उनकी अनन्य सेवा और भक्ति सदा सबके लिए पदार्थ पाठ रूप बने!

कई बार बिचार आता है, "कौन जाने, भाई को अभीतक यह खबर भी मिली होगी या नहीं!"

शाम को घूमते समय बापू ने कहा, "महादेव के नाम पचास हजार रुपये जमा हैं। वे जनता के हैं। महादेव से मैंने उसका ट्रस्ट बना देने को कहा था, मगर वह कर नहीं पाया। मैंने हमेशा कहा है कि हमें जनता के पैसे को एक क्षण के लिए भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। कौन जाने, कब मृत्यु आवबाये! इसके मामले में ऐसा ही हुआ न? जब मुश्किल पैदा होगी। शायद महादेव अपने कागज़ों में इसके बारे में कुछ लिख गया हो।

यहां उसके जितने कागज़ हूँ सब देख लेना। शायद रामेश्वरबास, बाबला और दुर्गा से भी इस बारे में कुछ पता चले। उनसे भी पूछना। आज मैं तुम्हें यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं बाबू में इसे भूल न जाऊँ। हममें से कोई भी बाहर न जासके तो दूसरों की जानकारों के लिए इस सम्बन्ध का एक नोट हमें अभी तैयार करके रखना चाहिए।”

आज मथुराबासभाई का पत्र आया। महादेवभाई की मृत्यु से उन्हें बहुत सदा पटुंघा है। लिखते हैं, “धन्य जीवन उनका! किंतु अत्यन्त बेग से पार किया। आपके निजी सम्पर्क में उनका स्थान कौन लेगा? परम कारुणिक भगवान् बुद्ध का एक ही शिष्य था, बंसे ही महादेव आपके रहे।” मथुराबासभाई के अक्षर अच्छे थे। बापू कहने लगे, “बीमार होने से पहले मथुराबास के अक्षर जितने अच्छे होते थे, उतने इस पत्र में हैं।” मैंने कहा, “हां, आदमी को जब कोई सख्त आघात पटुंघता है तो क्षण भर के लिए उसके शरीर में विशेष शक्ति आजाती है।” ईश्वर की लीला अपार है!

२० अगस्त '४२

आज सबेरे नहाने के बाद मैं और बापू फूल लेकर समाधि पर जाने को निकले। मीराबहन भी सबेरे तो आती ही हैं और मि० कटेली को तो दोनों समय कंबियों के साथ आना ही होता है। मि० कटेली योड़ी हिचकिचाहट के साथ कहने लगे, “तीन दिन तक यहां आने की इजाजत भण्डारी साहब ने दी थी। अब हर रोज यहां आने में विवकत पेश होगी।” इन शब्दों से बापू को बहुत आघात पटुंघा। मगर वे तो विशाल हृदय हैं, पीगये। बोले, “अच्छा, तो आज का यह आखिरी आना है!” मि० कटेली को भी बुरा लगा होगा। बोले, “मैं फूल वहां भिजवाता रहूंगा। आप कहेंगे तो खुद जाकर चढ़ा आया करूंगा। भण्डारी ने आज मुझको अपने घर बुलाया था, क्योंकि फोन पर ऐसी बात हो नहीं सकती थी। कहने लगे, ‘इस तरह हर रोज तार के बाहर जाने देने में आपत्ति उठ सकती है। इस बार सरकार का रूल दूसरे ही ढंग का है।’” बापू बोले, “हां, सो तो मैं जानता हूँ। मैं आपको या भण्डारी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। लेकिन अगर भण्डारी को आपत्ति न हो तो मैं इस बात को अवश्य ही आगे बढ़ाना चाहूंगा। उस उल्लेख तो रह जाय कि वे किस हद तक जाते हैं। आपने इस समाधि के चारों ओर पत्थर रखवाये हैं, लेकिन इतना मैं आपसे कहूँ कि इस पर भी आपत्ति की जासकती है।”

मि० कटेली चुपचाप सुन रहे थे। बापू फिर कहने लगे, “मैं तो यह मानता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, सो ईश्वर मुझसे कराता है। नहीं तो, मैं क्या हूँ— एक दुर्बल आदमी! मेरी क्या शक्ति कि इतने बड़े साम्राज्य के विरुद्ध लड़ सकूँ! और हिन्दुस्तान की प्रजा की क्या शक्ति, जिसके पास छाठी तक नहीं!”

मि० कटेली ने समाधि के चारों ओर पत्थरों की छोटी-छोटी दीवार खड़ी कर दी है। चिंता की जगह पर पत्थर रख दिये हैं। बा उसे देखकर बोल उठीं, “यह तो कब्र का आकार होगया।” सब हंस पड़े। बात ठीक थी। आकार से कोई भी उसे कुछ समझ सकता था, लेकिन असल में तो उस जगह की निशानी रखने के लिए ही

यह किया गया है ।

२१ अगस्त '४२

आज बापू ने लिखकर बताया कि सोमवार छः बजे तक का मौन लिया है । सब मिलाकर ६१ घंटे का मौन होगा । बुरा लगा, मगर कुछ कहना फिजूल था । प्रार्थना के बाद बापू सो गये ।

नाश्ते के बाद हम रोज की तरह फूल लेकर चले । तारों वाला दरवाजा खुला । मगर हम उसके बाहर नहीं गये । सिपाही फूलों का पत्ता ले गया । दरवाजे के इस पार खड़े होकर हमने गीताजी का पाठ किया । शाम को भी फूल लेकर गये । इस समय दरवाजा भी नहीं खुला । तार में से ही सिपाही फूल ले गया ।

बापू के मौन से बम घुटने लगा है ।

शाम को बकरी का दूध निकालना सीखा । मेरे पास अब खासा काम होगया । सबेरे नाश्ता तैयार करना, घूमने के बाद सुबह का साग चढ़ाना, बा की मालिश, बापू की मालिश, कपड़े धोना, बापू का खाना लाना, बरतन धोना, दोपहर को बापू के पैर मलना, दोपहर का साग चढ़ाना, शाम को बकरी का दूध निकालना, रस निकालना, बरतन धोना, रात को फिर बापू के सिर और पैरों की मालिश करना, दबाना वर्गरा । मैंने खाना लाना तो शाम को ही शुरू कर दिया है । दिन भर काम में जाता है, यह मुझे अच्छा लगता है । न निकम्मे विचारों के लिए समय रहता है, न निकम्मी बातों के लिए ! घूमते समय सुबह-शाम महादेवभाई की ही बातें होती रहती हैं । बापू से पहले जाकर महादेवभाई उनके पूज्य बन गये हैं । भगवान भी भक्त के वश में रहते हैं । फिर बापू भक्त की समाधि को प्रणाम करें इसमें आश्चर्य की क्या बात है !

आज दोपहर को 'सिलवर स्ट्रीम' पूरा किया ।

बा कह रही थीं, "देखो, महादेव गये । ब्राह्मण की मृत्यु हुई, अपशकुनी है न ! इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ बापू लड़ रहे हैं, कैसे जीतेंगे !" बापू ने मुना तो कहने लगे, "मैं इसे शुभ शकुन मानता हूँ । शुद्धतम बलिदान हुआ है, इस्का परिणाम अशुभ नहीं हो सकता ।"

: १२ :

## पुरायस्मरणा

२२ अगस्त '४२

आज महादेवभाई को गये हफ्ता पूरा हुआ । आज सरोजिनी नाथडू भी तार तक आईं । उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए वे रोज नीचे नहीं उतरतीं । हफ्ते में एक बार उतरने का विचार किया है ।

बापू का मौन था। मैंने आज २४ घंटे का उपवास किया। गीताजी का पारायण-भी किया। गीताजी के पारायण का मंत्र मुझे महादेवभाई से मिला था। विचार है, हर शनिवार को उपवास और गीताजी का पारायण कहंगी।

अणे साहब का समवेदना का तार आया। बापू बोले, "हजारों तार और खत आये होंगे। उनमें से एक मथुरादास का खत और अणेजी का तार हमें बिया है, क्योंकि मथुरादास मेयर रह चुके हैं, बम्बई सरकार के सब लोगों को जानते हैं और अणेजी तो आज सरकार के ही हैं।"

बापू का मौन था। वातावरण बहुत ही दम घोटनेवाला-सा बन गया है। 'वीमन कॉल्ड वाइल्ड' ('Women Called Wild') पढ़रही थी। हालिदे हबीब का वर्णन बापू को पढ़कर सुनाया। अच्छा था।

२३ अगस्त '४२

आज बापू को यहां आये पूरे दो हफ्ते हुए। महादेवभाई ने तो यहां एक हफ्ता भी नहीं बिताया!

आज भी बापू का मौन है। अच्छा नहीं लगता। शाम को ८ बजे बापू का रक्त-चाप लिया। ठीक था— १५६/९६, नाड़ी ६६.

आज सुबह कलेक्टर और प्रॉल नाम के नये सिबिल सर्जन आये। दोनों मुंह कुप्पा किये हुए थे। यंत्रबत्त पूछने फिरते थे— "आप कैसे हैं?" सरोजिनी नायडू ने उत्तर दिया, "मेरी सेहत हदब मामूल है।"

बस, उन्होंने वाक्य पकड़ लिया। हरएक को पूछने लगे, "क्या आपकी सेहत हदब मामूल है?" बापू से भी यही पूछा। सरोजिनी नायडू ने तो अपना कमरा सजाया था। नये फूल रखे थे। मगर वे लोग न एक मिनट के लिए कमरे में बंटे, न कोई बात की। सरोजिनी नायडू को बुरा लगा। वहां हरएक को उनका बरताव बड़ा बुरा लगा।

दिन भर एक ही विचार आता रहता है: भाई, दुर्गाबहन और बाबला के क्या हाल होंगे? भाई को कंसा लगता होगा? इस यज्ञ का क्या नतीजा होगा? इसमें किस-किस की अंतिम आहुति पड़ेगी? सब कुछ होने के बाद भी आखिर बापू विजय हासिल करें, तो बस है।

२४ अगस्त '४२

आज बस दिन पूरे हुए। सुबह-शाम हम फूल लेकर तार के पास जाते और वहां खड़े रहते हैं। सिपाही फूल लेजाकर समाधि पर रख आता है। फूल हवा से उड़ जाया करते थे, इसलिए उन्होंने सिर और पैर दोनों ओर पत्थर खड़े करके वहां छोटी कंबरा-सी बनादी है। एक दृष्टि से देखें तो ऐसा मालूम होता है, मानो वह महादेव का मंदिर हो! दूसरी तरफ से देखने पर ऐसा लगता है कि वहां कोई शब पड़ा है, जिसका सिर और पैर उठे हुए हैं। तार और चिता-स्थान के बीच एक-दो झाड़ियां थीं, जिनके कारण नजर चिता तक पहुंच नहीं सकती थी। मि० कटेली ने उन्हें कटवा दिया है। अब तार के

पास से समूचा दृश्य नजर आता है। भविष्य के किसी चित्रकार के लिए बापू का तारों के भीतर से महादेवभाई को पुष्पाञ्जलि चढ़ाना चित्रकला का एक खासा अच्छा विषय होगा।

शाम को ६ बजे बापू का मौन छूटा। ६१ घंटों के बाद ! बहुत अच्छा लगा।

मेरे मन में आज यह विचार आरहा था कि दंब ने महादेवभाई को दस-यांद्रह वर्ष और बिये होते हो उसका क्या बिगड़ जाता ! बापू के साथ घूमते समय यही उद्गार मेरे मुंह से सहज ही निकल गया। बाद में शाम को बापू ने कहा, "महादेव का काम पूरा होचुका था। उसने ५० वर्ष में १०० वर्ष का काम पूरा करलिया था। वह और क्यों ठहरता ? भगवान उसे और क्यों ठहरने देता ?"

मि० कटेली आज खबर लाये कि हम लाइब्रेरी से किताबें लेसकते हैं। पहले हमें कहा गया था कि नहीं लेसकते। बापू कहने लगे, "बाद में उम्हें शर्म लगी होगी कि वे किस हद तक जा रहे हैं !"

आज भी भाई के आने की कोई खबर नहीं मिली। महादेवभाई के जाने के बाद लगता था कि अब भाई जन्दी ही आजायंगे। मगर जैसे-जैसे दिन बीतरहे हैं, उनके आने की आशा कम होरही है। अंदर से चिंता भी होती है, कौन जाने, उनका क्या हाल होगा ? कहीं उन्होंने उपवास बगैरा तो नहीं शुरू कर दिया है, जो ये लोग उम्हें ला नहीं रहे ?

२५ अगस्त '४२

कुछ दिनों से बापू के लिए साग ऊपर पकाना शुरू कर दिया था। मगर कोयला कम है, इसलिए आज से फिर नीचे रसोईघर में पकाना शुरू किया है। महादेवभाई तो वहाँ से पकाकर लाते थे। सबेरे में मालिश में होती है। सब्जी काटकर बरतन में भर बेती है, बाद में कंदी रसोइया उसे लेजाकर चढ़ा बेता है। दो-चार दिन में सुबह आग बगैरा देखने गई थी। अब तो बापू की मालिश से निपटने के बाद जब वे कमोड पर जाते हैं, में साग देख आती है। बापू जब स्नान करके निकलते हैं तब कंदी रसोइया सब्जी ऊपर लेआता है। में उस समय स्नान-घर में होती है। बा आज कह रही थीं, "देखो न, अब कंदी बापू का खाना लाते हैं। महादेव थे तो खुद लाते थे।"

कल में रातभर सो नहीं सकी। एकाएक विचार आया— आज बापू के पास पड़े हैं। मगर कौन जानता है, यह कितने दिन रहनेवाली चीज है ? इस विचार ने रात के अंधेरे में उग्र रूप धारण कर लिया। महादेवभाई की मृत्यु का दृश्य तो अभीतक आंखों के सामने से हटता ही नहीं। सो इन दोनों चीजों ने मेरी नींद खाडाली।

घूमते समय अभीतक महादेवभाई की ही बातें हुआ करती हैं। आज बापू कहने लगे, "अब तुम्हें इस बारे में अधिक मोच-विचार नहीं करना चाहिए। न महादेव की, न हमारी इस लड़ाई की और न मेरी ही चिंता करनी चाहिए। में जान-बूझकर मरना नहीं चाहता। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ ही जाय तो कहा नहीं जासकता कि क्या करूंगा। में चाहता हूँ कि तुम कुछ विचार करो। लेकिन उसे जबतक कार्यरूप में परिणत

न किया जाय, वह निकम्मा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ लिखो। मैंने पहले भी तुम्हें एक बार कहा था कि एक वफा 'मा ने शिक्षामण' (मां को सीख) नाम की गुजराती की एक पुस्तक मेरे देखने में आई थी। अच्छी पुस्तक थी। उस तरह की कोई चीज तुम्हें लिखनी चाहिए, जिससे बहनों और लड़कियों को स्वास्थ्य का आवश्यक ज्ञान मिल जाय। मैं खुद भी लिखना शुरू करनेवाला हूँ। नोटबुक मंगवा लेना।”

२६ अगस्त '४२

आज भण्डारी आये। कहने लगे, “आप लोग जो किताबें मंगवाना चाहें, मुझे बतायें। मैं खरीद लूंगा। बाद में वे जेल-लाइब्रेरी के काम में आजावेंगी।” साथ में बहुत-सी किताबें और कुछ स्वास्थ्य-संबंधी अखबार भी लाये थे।

शाम को बापू बिस्तर पर लेटे कि तभी मि० कटेली बम्बई सरकार के गृह-विभाग के सेफ्टरी का भेजा एक हुक्मनामा लाये। उसमें लिखा था कि बापू को अखबार मिल सकते हैं। वे फेहरिस्त भेजें, और हम लोग अपने घर के लोगों को घरेलू विषयों पर पत्र लिख सकते हैं।

बापू रात ठीक तरह से सो नहीं पाये। जिस शर्त पर पत्र लिखने की इजाजत आई थी, वह उन्हें मजूर नहीं है।

बापू ने आज 'आरोग्य नी चाबी' की प्रस्तावना लिखी। यह बापूजी की पुरानी किताब 'गाइड टु हेल्थ' ('Guide to Health') की नई आवृत्ति होगी। मुझसे कहने लगे, “मैं जो लिखता हूँ, सो तुम्हें पढ़ जाना है। कुछ सुझाव देना हो तो देना। मतलब यह कि जो काम महादेव करते थे, सो सब तुम्हें करना है। और यह तो तुम्हारा विषय भी है। इसे तुम महादेव से भी ज्यादा अच्छी तरह कर सकोगी।”

आज महादेवभाई होते तो अखबार मिलने की खबर से और इस बात से कि बापू एक किताब लिखने लगे हैं कितने खुश होते।

बा की तबीयत खूब अच्छी है। बापू के साथ सुबह-शाम आधा-पौन घंटा तेजी से घूम लेती हैं, मगर दम फूलने लगता है। मैंने एक-दो बार कहा भी कि यह अच्छा नहीं। कम घूमें या धीमे घूमें, मगर बा या बापू कोई भी सुनने को तैयार नहीं।

मेरी आंख में आज बहुत दर्द रहा।

२७ अगस्त '४२

आज बापू ने अखबारों की फेहरिस्त सरकार को दी। रोजाना, हफ्तावार और माहवार सब मिलाकर १६ अखबारों के नाम फेहरिस्त में थे। दोपहर को बम्बई सरकार के नाम पत्र लिखा कि वे बरसों पहले से गृहस्थ मिटाकर आश्रमवासी बन चुके थे। इसलिए सरकार की शर्त पर पत्र लिखने की इजाजत का वे कोई उपयोग नहीं कर सकते। पत्र में भाई का भी जिक्र किया था। लिखा था, “प्यारेलाल को आप मेरे पास भेजने को तैयार थे, मगर अभी तक उन्हें भेजा नहीं है और तिस पर मैं उन्हें पत्र भी न लिख सकूँ तो पत्र लिखने की इजाजत मेरे किस काम की? दुर्गाबहन बगैरा को मैं पत्र न लिख सकूँ, बल्लभ-

भाई को जो मेरे मरीज थे, उनकी सेहत के बारे में न पूछ सकूँ तो और किसको लिखूँ ?”

रात बाइसराय का उत्तर आया। भाषा मीठी थी, मगर असल में जबाब कोरा इन्कारो का था। भीराबहन भाषा को सराहनें लगीं। बापूजी को भी मीठी भाषा अच्छी तो लगी, मगर हम जानते हैं कि ये लोग जहाँ बिना कुछ खर्च किये मीठी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, कर लेते हैं।

२८ अगस्त '४२

बापू ने अरबी को भी प्राइमर और उर्दू को दो किताबें जेल से मंगवाई हैं। रोज अरबी, उर्दू, कुरान-शरीफ और बाइबिल का नियमित अभ्यास करते हैं। कभी-कभी उर्दू पढ़ते समय मुझे भी अपने साथ बँठा लेते हैं। आज उन्हें थोड़ी इमला लिखवाई। घूमते समय भी बापू किसी विचार-धारा में ही मग्न रहें, यह अच्छा नहीं लगता; क्योंकि दिन में भी वे प्रायः चुपचाप ही बँठते हैं। मगर मैं बातें भी क्या करूँ? महादेव-भाई तो बहुत कुछ जानते थे। मेरा ज्ञान ही कितना है! सो आज सबेरे घूमते समय गीताजी के बारहवें और तेरहवें अध्याय के श्लोकों का अर्थ कर गई।

शाम को घूमते समय मि० कटेली साथ थे। बापू उन्हें चम्पारन की बातें सुनाते रहे। उन्होंने थोड़े में चम्पारन के सत्याग्रह का सारा इतिहास उन्हें सुना दिया। हिन्दुस्तान में वह उनकी पहली लड़ाई थी।

शाम को प्रार्थना के बाद रामायण का कहीं कोई अर्थ समझ में नहीं आता तो बापू से पूछ लेती हूँ। वे बहुत रस के साथ बताते हैं। कह रहे थे, “रामायण तो हमारी खूराक है, उसकी भाषा इतनी मधुर है कि मैं उससे कभी थकता ही नहीं।”

आज सुबह नल का पानी बंद हो गया था। इसलिए बापू ने रात को सोने से पहले स्नान किया। इससे सोने में कुछ बेर होगई।

बा की छाती में कुछ दर्द है! आज घूमने नहीं गई। कल मेरे रोकने पर भी वे बापू के साथ ५५ मिनट तक तेजी से घूमी थीं। शायद यह दर्द उसीका नतीजा हो।

२९ अगस्त '४२

बापू गुड़ खाया करते हैं। बाजार के गुड़ पर मक्खी बगैरह बँठती है, इसलिए उसे गरम करके शुद्ध करते हैं। उसमें मिट्टी, घास बगैरा के टुकड़े भी पाये जाते हैं। इसलिए पहले उसे पानी में धोलकर छान लेते हैं, फिर पकाकर पानी सुखा देते हैं। साफ भी होजाता है, शुद्ध भी। आज मैंने पानी की जगह दूध डाला, अच्छी खासी टॉफी\* बन गई।

मुझे पढ़ने के लिए बहुत कम समय मिलता है। सुबह प्रार्थना के बाद न सोऊँ तो एक घंटा मिल सकता है।

\* एक घग्गेजी मिठाई

आज शनिवार हैं। महादेवभाई को गये दो हफ्ते पूरे हुए। मैं उपवास करना चाहती थी, मगर बापू ने रोक दिया। बोले, "ऐसा करके हम मृत व्यक्ति के साथ न्याय नहीं करते। एक तरह से हम उसे बांध लेते हैं।" बाद में महादेवभाई की मृत्यु के क्या-क्या कारण होसकते थे, इसकी चर्चा करते रहे। इसलिए आज गीताजी का पाठ नहीं होसका। मुझे याद आया कि ऐसे ही एक दिन जमनालालजी बंटे थे। कहने लगे, "यह पुनर्जन्म की ही कोई बात होगी; नहीं तो कहां तुम, कहां हम और कहां बापू!" सच है। कैसे हम सब इकट्ठे हुए।

रात भर पानी बरसा था। सुबह भी थोड़ा बरसता था। फिर भी बापू महादेवभाई की समाधि पर पुष्पांजलि चढ़ाने गये ही। जाना तो कंटीले तारों की हव तक ही था। वहां छातों के नीचे लड़े-लड़े गीताजी का पाठ किया। फिर वापस आकर ऊपर बरामदे में घूमे।

आज रसोइया मगन और भूरा दोनों नहीं आये। उन्हें उनकी मुह्त से पहले ही छोड़ दिया गया था। जेल में राजनैतिक कैदियों के लिए जगह की जरूरत थी।

: १३ :

## महादेवभाई के बाद

३० अगस्त '४२

आज बापू को यहा आये तीन हफ्ते पूरे हुए। जैसे-जैसे दिन जाते हैं, महादेवभाई की कमी और अधिक महसूस होती है। बाहर जाने पर और भी होगी।

आज फिर कलेक्टर और सिविल सजंन आये। सरोजिनी नायडू कहती थीं कि आज वे कुछ अधिक स्वाभाविक थे।

शाम को घूमते समय बापू कहने लगे, "छः महीनों के अंदर हमें इस जेल से बाहर निकलना ही है। हमारी लड़ाई सफल हुई तो भी, और लोग हारकर बंधगये तो भी। मैं नहीं जानता, लोग क्या करेंगे। लेकिन मैं यह जानता हूं कि लोग लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। हमने तैयारी की ही नहीं थी; लेकिन अहिंसा का काम करने का रास्ता दूसरा ही होता है। इसलिए हमें निराश होने का कोई कारण नहीं। हम नहीं जानते कि ईश्वर ने क्या सोच रखा है। जो भी हो, लेकिन जितने आज इस लड़ाई के लिए निकल पड़े हैं, उनकी मर मिटने की तैयारी होनी ही चाहिए। वे आजाद हुए टिना चैन नहीं लेंगे। अगर आजादों के लिए लड़ते-लड़ते वे खत्म भी होगये तो खुद तो आजाद हो ही जायेंगे।"

मैंने पूछा, "उस हालत में हम लोगों को सरकार का सामना किस तरह करना होगा, जिससे या तो उसे हिन्दुस्तान को आजाद कर देना पड़े या हमीं को खत्म कर डालना



पड़े ?”

बापू कहने लगे, “सत्याग्रह करने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। अगर सचमुच हम मुट्ठी भर लोग ही सत्याग्रह करने वाले रह गये तब तो वे लोग हमें चुन-चुनकर धार डालेंगे।”

मैंने कहा, “हां ठीक है, मगर यह सब तो छूटने के बाद की बातें हुईं न ?”

बापू कहने लगे, “छूटे बगैर हम रह नहीं सकते। बिना मुकदमा चलाये वे बरसों तक हमें जेल में बंद करके रख नहीं सकते। और अगर मुकदमा चलाते हैं तो किस बुनियाद पर चलायेंगे ? तुम्हें किस बिना पर पकड़ा ? बा को किस बिना पर पकड़ा ? उनके पास मुकदमा चलाने के लिए तो कोई सामान ही नहीं। क्या यह कहेंगे कि तुम लोग सभा में जाकर भाषण करने का विचार कर रहे थे ? इरादे को जबतक कार्यरूप में परिणत न किया जाय, गुनाह नहीं माना जा सकता।”

३१ अगस्त '४२

आज बापू का मौन था। मौन के दिन वातावरण बहुत उदास-सा बन जाता है। विवादा तो सचमुच महादेवभाई के जाने से ही छाया हुआ था। बापू के मौन के दिन वह और भी गहरा लगने लगता है।

शाम को मि० कटेली खबर लाये कि सरकार ने अखबारों की फेहरिस्त मंजूर कर ली है। उन्होंने मुझसे उसकी एक और नकल मांगी, ताकि वे अखबारवालों को लिखकर उन्हें मंगा सकें। बापू ने आठ अगस्त से लेकर इधर के सब अखबार मंगाने को कहा।

१ सितम्बर '४२

आज से नया वक्त शुरू होगया है। घड़ियां एक घटा आगे कर दी गई हैं। कारण यह बताया जाता है कि लोग काम से जल्दी लौटा करे। 'क्लंकआउट'\* के दिनों में इससे लोगों को सुभीता रहेगा। यहां बंटे तो यह परिवर्तन निकम्मा-सा लगता है, इस लिए हमारी घड़ियां सब पुराने वक्त के अनुसार चल रही हैं।

दोपहर को आज का 'टाइम्स आब इण्डिया' और 'बॉम्बे क्रानिकल' आये। टाइम्स के पांच-छः पुराने अंक भी आज मिले, बाकी सब बाद में आयेंगे। अखबारों ने काफ़ी वक्त ले लिया। मालूम होता है, जनता ने हिंसा तो की है मगर उनकी जिम्मेदारी सरकार की अपनी है। जब सब नेताओं को पकड़ लिया गया तो लोगों को काबू में कौन रखता ?

मैंने पूछा, “बाहर निकलकर हम लोग क्या करेंगे ?” बापू बोले, “तब की बात तब सोचेंगे।”

एक दिन भीराबहन ने कहा था, “यहां से बाहर निकलने पर क्या आप यह

\*लड़ाई के दिनों में हवाई जहाजों के डर से रात को बतिया बंद रखने का नियम



### आजादी के आखिरी युद्ध की घोषणा

(कांग्रेस महासमिति के ८ अगस्त १९४२ के ऐतिहासिक अधिवेशन में गांधी के साथ महादेवभाई का अंतिम चित्र)



महादेवभाई : पुत्र नारायण (बाबला) : श्रीमती दुर्गाबहन  
महादेवभाई : परिवार के साथ

बाबला ने कहा, "काका, अब हम धाजाद हो गये वापूजी ने कह दिया है।  
अब हम धापकी नहीं मानेंगे।" पृष्ठ १०



महादेवभाई की समाधि

"या तो भारत धाजादी प्राप्त करेगा या महादेव के पाम  
मेरी भी समाधि बनेगा।"—बापू, पृष्ठ ७१

चाहेंगे कि मैं जैसे गिरफ्तारी से पहले बीरा कर रही थी फिर बंसे ही कर्क ? ”

बापू ने उत्तर दिया, “भेरा ख्याल है कि अब से छः महीने बाव हिन्दुस्तान एक बिलकुल बदला हुआ देश होगा। आज मैं नहीं कह सकता कि उस समय मैं तुमसे क्या कराना चाहूँगा। ”

२ सितम्बर '४२

आज भण्डारी आये। मैंने उनसे भाई की खबर पूछी। उन्होंने बताया कि वे अभी आर्बर रोड जेल में ही हैं। उनकी तबीयत अच्छी है। मैंने कहा, “जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं, उनके यहां आने की संभावना तो कम ही होती जाती है न ? ”

वे बोले, “नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ”

आज 'बॉम्बे क्रानिकल' के दो-चार पुराने अंक मिले। सरकार लोगों पर खूब जुल्म कर रही है। डर है कि लोग इससे और ज्यादा हिंसक बनेंगे। बापू को लोगों की हिंसा से दुःख होता है। मगर वे यह भी मानते हैं कि सरकार ने उसे खुद मोल लिया है। इसलिए चुप बैठें हैं। दूसरी बात यह भी है कि अखबार आज सरकार के कब्जे में हैं। इनमें इकतरफा बयान ही ज्यादा आबेंगे। ऐसे अखबारों के बयानों पर कितना विश्वास किया जा सकता है, यह निश्चय करना भी कठिन है।

दोपहर को बापू मुझसे कहने लगे, “तुम्हें अपने एक-एक मिनट का हिसाब रखना चाहिए। हिसा के इस समुद्र में अहिंसा को अपना स्थान ढूँढ़ लेना है और यह हमारे जीवन को नियमित बनाने से ही हो सकता है। ”

भण्डारी आज कह गये थे कि मैं भाई को पत्र लिख सकती हूँ। मगर मैं तो अभी किसीको पत्र लिख ही नहीं रही। बापू ने कहा है कि बम्बई सरकार की तरफ से उनके पत्र का उत्तर आने तक मैं राह देखूँ।

मीराबहन को बम्बई सरकार का उत्तर मिला है कि वे अपने मित्रों को पत्र लिख सकती हैं।

आज कृष्णाष्टमी है। बहुत दिन पहले बापू ने मीराबहन को हाथी दांत की बनी हुई बालकृष्ण की एक मूर्ति दी थी। किसी ने वह बापू को भेंट की थी। मीराबहन पास में थीं। उन्होंने वह मीराबहन को दे दी। कई वर्षों से वह उनके बक्स में पड़ी थी। आज उन्होंने उसे निकाला और उसकी पूजा की। बा की बिन्दी के बारे में बात हुई। बापू को पता ही नहीं था कि बा भी बिन्दी लगाती हैं और बा दिन-रात बापू की आँस के सामने रहती हैं !

३ सितम्बर '४२

आज अखबार देर से आये। वर्षा के कारण लाइन टूट गई है। इसलिए डाकू देर से आई।

बापू ने वाइसराय के नाम एक तार लिखकर दिया। उसमें बताया कि अखबारों की खबरों का उनके मन पर क्या असर हुआ है।

जैने 'आरोग्य नी चाबी' का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद शुरू किया ।

४ सितम्बर '४२

बापू ने वाइसराय को तार के बदले पत्र लिखने का विचार किया । मि० कटेली कहते थे कि तार यहाँ से नहीं जासकेगा । बम्बई की सरकार शायद अपने 'कोड' शब्दों में भेज सके । पहले बापू ने विचार किया कि भण्डारी से कहें कि वे फोन पर बम्बई सरकार से पूछलें । मगर बाद में विचार बदल गया । कहने लगे, "तार में सब विस्तारपूर्वक कह भी नहीं सकूंगा । इससे पत्र भेजना ही ठीक होगा ।" दोपहर को पत्र पूरा करके सोये । मुझे कहा कि उनके उठने से पहले उसकी एक साफ नकल तैयार करके रखें । मैंने नकल तैयार की । उठने के बाद उसे फिरसे पढ़ने लगे । पढ़ते-पढ़ते फिर विचार बदला और कुछ भी न भेजने का निश्चय किया । कहने लगे, "इस पत्र में मैं कोई नई चीज नहीं दे रहा । इससे उन लोगों को चिढ़ ही आसकती है । वाइसराय अगर मित्र हैं तो उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए । और मित्र नहीं हैं तो दुश्मन को लिखने से फ़ायदा ही क्या ? लोगों की हिंसा को देखकर यदि मैं आन्दोलन बन्द करने का निश्चय करता तो बात दूसरी थी । मगर आज तो मेरे सपने में भी यह चीज नहीं है । तो फिर लिखने से फ़ायदा क्या ?" इतने में सड़क पर से कुछ लोग जोरों के साथ 'महात्मा गांधी की जय' पुकारते हुए गुजरे । बापू बोल उठे, "इसके साथ मेरे पत्र का क्या मेल !"

बा की तबीयत अच्छी नहीं है । छाती में दर्द रहता ही है ।

शाम को समाधि पर तार के इस पार खड़े होकर सिपाही को फूल देते समय मैंने कहा, "इस तरह यहाँ खड़े होने से खूब अच्छी तरह मालूम होजाता है कि हम कैदी हैं और कैद चुभने लगती है ।"

मि० कटेली कहने लगे, "आप कभी जेल गई है ?"

मैंने कहा, "यह मेरी पहली यात्रा है ।"

वे बोले, "लेकिन यह जेल नहीं है, यह तो महल है ।"

मैंने कहा, "बचपन में मैंने एक छोटी-सी कविता सीखी थी । उसका भावार्थ है, मेरे पास एक छोटा-सा कबूतर था । वह मर गया । क्यों मरा ? मुझे लगता है, राम से मरा । मगर गम काहे का ? उसके पांव में मैंने अपने हाथों से तैयार किया हुआ रेशमी धागा बांधा था । इस तरह यद्यपि धागा रेशमी था और प्यार-भरी उँगलियों ने उसे तैयार किया था, फिर भी वह बन्धन था और उसने बेचारे कबूतर को ख़तम कर डाला । इसी तरह यह महल कितना ही भव्य क्यों न हो, यह असल में जेल ही है । और जेलर कितना ही अच्छा क्यों न हो, आखिर तो वह जेलर ही है ।" सब हँसने लगे ।

५ सितम्बर '४२

आज पारसियों का नया साल है । मि० कटेली सुबह ही बापू को दण्डवत प्रणाम करने आये । मीराबाहन ने मि० कटेली के लिए नाश्ते की मेज पर सुन्दर फूल सजा दिये । बापू ने मुझे उनके लिए एक 'बटन-होल' (button-hole) तैयार करने को कहा ।

इसी तरह बापू सेवाग्राम में मुझे लॉर्ड लोथियन (Lord Lothian) के लिए 'बटन-होल' तैयार करवाया करते थे। वहाँ फूल नहीं थे। घास से ही न बनवाया करती थी और लॉर्ड लोथियन खुशी के साथ उसे अपने कोट में लगाया करते थे। बाद में जब उन्हें आर्डर ऑफ़ दि थिस्टल (Order of the Thistle)\* मिला, वे नाइट बने, तो मुझे ऐसा लगा मानो बापू ने पहले से ही उन्हें थिस्टल (Thistle) घास के बटन-होल पहनाकर उनको मिलने वाली इस पदवी की भविष्यवाणी करदी थी !

दोपहर को खबर आई कि हम कांटेदार बाड़ के बाहर महादेवभाई की समाधि पर जासकेंगे। शाम को हम वहाँ गये।

: १४ :

### बा अस्वस्थ

बा का छाती का दर्द हृदय की बीमारी के कारण है। उनके हृदय की पीड़ा के लक्षण इसके सूचक हैं। दर्द आज अधिक था। मैंने मि० कटेली से कहा, "मुझे बा के लिए डॉक्टरों सलाह की जरूरत है।" उन्होंने भण्डारी को फोन किया। भण्डारी रात को आये। बाद में डा० शाह आये। वह आगा खां के रिश्तेदार हैं। भले आदमी हैं। एमिल नाइट्राइट (Amyl Nitrite) की नलियां रखने को कह गये। नाइट्रो ग्लिसरीन (Nitro Glycerine) की टिकियां तो मेरे पास थीं ही। लिक्विड कोरामीन (Liquid Coramine) भी मंगवाली थी, ताकि वक्त जरूरत सामान तैयार मिले।

६ सितम्बर '४२

आज सिविल सर्जन और कलेक्टर फिर आये। भण्डारी ने सिविल सर्जन से कहा था कि बीमारों को देखकर आइए, इसलिए उन्होंने बा को, बापू को और सरोजिनी नायडू को देखा। कहने लगे, "बा के फेफड़ों की भिल्ली का दर्द है।" मैंने कहा, "इस दर्द का न तो सांस के साथ सम्बन्ध है, न खांसी के साथ। दर्द का फैलाव (Distribution) हृदय से संबंधित है।" तब उन्होंने 'हिस्टरी टिकट' पर लिख दिया, "दर्द फेफड़ों की भिल्ली का है। उसमें हृदय भी आंशिक कारण होसकता है। हृदय में कोई विशेष विकार या बोध नहीं है।"†

मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। बा के हृदय की स्थिति साधारण कहना कंसी अजीब

\*स्कॉटलैंड की एक सम्मानसूचक उपाधि का नाम।

†"Pain is pleuritic. There may be some coronary element as well.

Heart, n. a. d."

बात है। बा को तो स्वांस की नली की सूजन और उसके कारण कफ इकट्ठा होने की पुरानी शिकायत है। इस बास्ते सांस लेने में कफ की धड़धड़ाहट होती है। उन्होंने कफ की आवाज को कॅफड़ों की झिल्ली की रगड़ की आवाज समझा होगा, भगवान ही जाने। दिल की सांस-पेशियों की कमजोरी है। हृदय का बायां किनारा अपनी जगह से बढ़ा हुआ है। दिल के परदे में सिकुडन के समय स्पष्ट आवाज होती है। बात तो यह है कि जब वह मन में दिल की बीमारी की शंका रखते हैं तो उन्हें हृदय को बरा ब्यादा ध्यानपूर्वक देखना चाहिए था।

उन लोगों के जाने के बाद डा० शाह आये।

बा कल से बिस्तर पर है। डॉक्टरों के आने का इतना फायदा हुआ कि बा समझ गई कि सचमुच बीमार है और उन्हें खाट पर पड़े रहना चाहिए, नहीं तो पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं आजतक उनको बिस्तर पर नहीं रख सकी थी।

७ सितम्बर '४२

आज सबेरे कर्नल शाह और भण्डारी आये। भण्डारी कहने लगे, "अबसे ये ही यहां आया करेंगे, सिविल सर्जन नहीं। मुझे इन पर बहुत विश्वास है। इनके हाथ में शक़ा है।"

मैंने बा के दिल की घड़कन का ग्राफ—नक्शा—बनाने को कहा। दोपहर को डॉक्टर कोयाजी आये और उन्होंने वह नक्शा उतारा। सामान्यतया ऐसा चार जगह बिजली के तार लगाकर किया जाता है, उन्होंने सिर्फ पहले तीन स्थान से ही किया। मैंने चौथे स्थान से भी लेने को कहा, मगर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।

सड़क की ओर से 'महात्मा गांधी की जय' का नाव आरहा था। आज कोई बड़ी सभा हुई होगी।

कंवियों से भरी तीन लारियां सड़क पर से गईं। मालूम होता है, सरकार खूब जुल्म कर रही है। मगर अभीतक तो लोग भी हिम्मत दिखा रहे हैं। कहीं-कहीं हिंसा भी होती देखती है। यह बुरी बात है। मगर नामर्दा इससे भी बुरी है।

आज भण्डारी कह रहे थे, "एक-दो दिन में आप अपने लिए मरद की उम्मीद रख सकती है।" शायद भाई आनेवाले होंगे। बापू से मैंने खिच किया तो कहने लगे, "मुझे तो अब उसके आने की आशा बहुत कम है। जब सामने आकर खड़ा होजायेगा तब मानूंगा कि आया।" उसके बाद बताने लगे कि उन्हें आज ही स्वप्न आया था कि भाई उनके सामने बैठे हैं। कहने लगे, "स्वप्न क्या, मैं तो आधे से ज्यादा जाग्रत था। देखता हूं प्यारेलाल सामने खड़ा है। उसके हाथ में एक कागज है। कहता था, 'मुझे तो आपके पास ये लोग (सरकार) रहने नहीं देंगे। सब बातें मैंने इस कागज पर लिख डाली हैं, ताकि मुझे सब कहने का समय न मिले तो आप यह पढ़ लें।' पहले तो मुझे आभास हुआ कि महादेव बातें कर रहा है, मगर फिर देखता हूं तो प्यारेलाल है। उसने कागज मुझे देकर जल्दी-जल्दी कहना शुरू किया। बाहर की सब खबरें दीं। कहा, लड़ाई अच्छी चल रही

हैं। आर्थ्यनायकम खूब काम करता है, श्रीमधारायण की कलम में अब्भुत शक्ति आगई है, वह भी बहुत काम कर रहा है। सरकार की तरफ से बहुत सक्ती होती है, इस बीज ने जनता के विल में बड़ा घर कर लिया है। लोग सरकार के सामने जम गये हैं। आप पर भी खूब सक्ती करने वाले हैं। मुझे आपके पास रहने नहीं देंगे, मगर सुनीला तो आप के पास है ही। उसके माता-पिता-भाई आज सब आप ही हैं। उसपर दया रखना और मैं तो जहां भी रहूंगा आप ही का काम करूंगा। मैं आपके डंग से काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। मेरे काम से आपको कभी सिर नीचा नहीं करना पड़ेगा, आपको विश्वास बिलाता हूँ।' इतना कहकर वह गायब होगया। मैं जाग उठा।"

दूसरे दिन 'सर्वोदय' और 'राष्ट्रभाषा समाचार' इत्यादि मासिक पत्र आये, उनमें देखा कि भाई ने स्वप्न में जो बाहर की लड़ाई इत्यादि की सबरें दी थीं, करीब-करीब सही थीं। कॉमर्स कालेज वर्धा को सरकार ने बन्द करा दिया था। आर्थ्यनायकमजी और श्रीमन्जी पकड़े गये थे। खूब सक्ती चल रही थी, लेकिन लोग यथाशक्ति लडे जा रहे थे।

८ सितम्बर '४२

आज बा की तबीयत थोड़ी अच्छी है। डा० शाह आये थे। डा० कोयाजी जो दवा बता गये थे, वह उनको नापसन्द है। कहने लगे, "दवा न देना, हृदय जब यथाशक्ति काम कर रहा है तो चलते घोड़े को चाबुक क्या लगाना!"

दिन शान्ति से गुजरा। यहां तो इतनी शान्ति मिलती है कि उससे थक जाते ह। बाहर जायेंगे तब क्या होगा, सो तो भगवान जाने, मगर जायेंगे तब न!

और कब जायेंगे, कैसे जायेंगे, इस सब पर भविष्य का आधार होगा। महादेव-भाई अच्छे इन झगडो से मुक्त होगये। कई बार मन में शिकायत उठती है, उन्हें इस तरह वगा नहीं देना चाहिए था। मगर नहीं, वह अपना जीवन-कार्य पूरा कर गये, हमें अभी करना है।

९ सितम्बर '४२

बा की तबीयत आज भी अच्छी है। डॉक्टर शाह और भण्डारी आये थे। पहले तीन नक्शो उतारे गए थे। उनमें विल की कोई खराबी दिखाई नहीं दी। मगर मंने कई बार देखा है कि पहले तीन नक्शों में कुछ नहीं मिलता, मगर चौथे नक्शो में खराबी पकड़ी जाती है। मंने कर्मल भण्डारी से कहा कि चौथा नक्शा भी लेना चाहिए। उस रोज डॉक्टर कोयाजी से भी कहा था, मगर न जाने क्यों, उन्होंने नहीं लिम्न। डॉक्टर शाह कहने लगे, "सच तो यह है कि मैं इन और इस तरह के दूसरै-नए-नए आडम्बरों में यकीन नहीं करता।"

जब सरोजिनी नायडू के गुर्व की हालत की जांच कराने की बात हुई थी, तब भी उन्होंने आधुनिक विज्ञान की प्रगति वरीरा में अपनी अश्रद्धा प्रकट की थी और बात टालदी थी।



१० सितम्बर '४२

आज 'बॉम्बे क्रानिकल' के सब पुराने अंक आगये। मालूम होता है, महादेव-भाई की मृत्यु को देश ने चुपचाप सह लिया है। यह चीज बापू को काफी चुभी है। घूमते समय कहने लगे, "आखिर तो महादेव इनके जेल में मरा है न? महादेव का खून इनके सिर है। मैं उस दिन गवर्नर को लिखने वाला था, मगर फिर काट डाला। जिन्दा रहा तो किसी दिन मैं जरूर उन्हें यह सुनाऊंगा कि महादेव की मृत्यु का कारण आप है। मैं मानता हूँ कि वह जेल न आते तो कर्म-से-कर्म इस वक्त तो हर्गिज न मरते। बाहर वह कई तरह के कामों में उलझे रहते। यहाँ वह एक ही विचार में डूबे रहे, एक ही चिन्ता उनके सिर पर सवार रही। वह उन्हें खागई। उनपर भावना का कुछ इतना जोर पड़ा कि वह खतम होगये। देश ने कुछ भी नहीं किया। बंकुण्ठ मेहता की श्रद्धांजलि तो आने ही वाली थी और बरेलवी की भी। मगर महादेव तो सारे देश के थे और देश के लिए वह गये हैं। भगर्तासह की मृत्यु के बाद जब मैं लॉर्ड अर्बिन से समझौता करके करांची जा रहा था तो लोगों के झुड़-के-झुड़ हर स्टेशन पर मेरे पास आते थे और चिल्लाते थे, "लाओ भगर्तासह को!" इसी तरह अब की भी वे सरकार को कह सकते थे, "लाओ महादेव को!" सरकार लाती तो कहासे? कह देती कि जो लोग इतने भावुक, इतने विभ्रम और इतने सबेदन-शील हैं, वे जेल में आते ही क्यों हैं? न आयें—वर्गारा।" फिर बापू कहने लगे, "मगर लोग शायद सोचते होंगे कि आज सरकार के साथ ऐसा घमासान युद्ध चल रहा है कि उसमें दूसरी किसी चीज का विचार करने का अवकाश ही कहा रह जाता है?" मैंने कहा, "और आपने भी तो तार में लिखा था न कि जो किया जा सकता था, किया गया! इसके कारण भी लोग शांत रह गये होंगे। समझे होंगे कि यह तो स्वाभाविक मृत्यु थी, जो कहीं-भी हो सकती थी।" बापू ने कहा, "सो तो है, लेकिन मृत्यु हुई तो सरकार के जेल में न?"

बा अच्छी हो रही है। बापू को आज एक पतला वस्तु हुआ। दो-तीन दिन से आलू और सकरकंद खाना शुरू किया था। शायद उसका असर होगा।

: १५ :

## भाई आ पहुंचे

११ सितम्बर '४२

आज दोपहर में खाना खाकर उठी तो किसी ने कहा, प्यारेलाल आगये। मैंने ऊपर देखा तो वे सामने बरामदे में खड़े थे। बापू उनके आने की आशा छोड़ चुके थे। महादेवभाई को गये चार हफ्ते होने आये। ऐसा लगता था कि भाई को आना होता

तो जल्दी ही आते। सो बापू कल ही कह रहे थे, “अब तो मेरे सामने आकर वह खड़ा रहेगा तभी मैं मानूंगा कि वह आया।”

महादेवभाई की मृत्यु से भाई को बड़ा धक्का लगा था। कहने लगे, “जाने की बात तो मैं किया करता था और चले गये वह!”

भाई ने बताया कि जिस दिन महादेवभाई की मृत्यु हुई उसी दिन सबेरे करीब साढ़े आठ बजे उन्होंने पता नहीं क्यों उपवास करने का विचार किया था। (यहां आशाखाना महल में करीब साढ़े आठ बजे महादेवभाई की तबीयत बिगड़ी होगी। भाई को तब कुछ पता न था कि यहां क्या होगया है।)

फिर कहने लगे, “मैंने विचार किया था कि इस बार मुझे यहां गीताजी और बाइबिल—न्यू टेस्टामेंट—सिल्वेअडंग।” और संयोग की बात कि यही दोनों चीजें यहां बापू मुझे सिल्वारहे हैं! बापू ने जब यह सुना तो कहने लगे, “टेलीपैथी (Telepathy) कितना काम करती है।”

मि० कटेली को करीब महीने-भर के बाद कोई बात करने को मिला। बहुत खुश थे। खाने के बाद काफी देर बैठकर भाई के साथ बातें करते रहे।

चर्चिल के भाषण से बापू को और हम सबको बड़ा आघात लगा। मन पर यह भी असर हुआ कि ऐसा भाषण लोगों को और भड़कायेगा, और कड़ा बना-देगा।

महादेवभाई की मृत्यु पर बापू ने जो तार भेजा था वह आज अल्लबार में आया, मगर सेन्सर किया हुआ था। उसमें से दो-तीन वाक्य काट दिये गए थे। एक तो यह कि महादेवभाई देशभक्त और योगी की मृत्यु मरे हैं और दूसरा बापू का आशा प्रकट करना कि उनका लड़का उनके स्थान को सुशोभित करने के लिए अपने आपको तैयार करेगा। बापू ने साफ कहा था कि अगर तार जैसा लिखा है वंसा ही न जासके तो वह भोजना नहीं है। जब मैंने काटे हुए वाक्य उन्हें बताये तो वे बहुत चिढ़ गये। मीराबहन कहने लगीं, “शायद प्रेस ने काट दिये हों। यहांसे तो पूरा-का-पूरा गया होगा।” बापू कहने लगे, “बहुत करके यहीं—जेल वालों ने—सेन्सर किया होगा।” मीराबहन कहने लगीं, “जब हम बाहर निकलेंगे तभी सच्चाई का पता चलेगा।” बापू कहने लगे, “Don't you see I get out only as a free man. Either India wins her freedom, or I go to lie by Mahadev's side.”\*

आज बापू का खून का दबाव खूब बढ़ गया (१८८११२-११६) था। कहने लगे, ‘बस कोई भी असत्य या बेईमानी की बात देखकर मेरा मिजाज बिगड़ जाता है।’ यह इशारा चर्चिल के भाषण की तरफ था।

\*“तुम समझती नहीं हो कि मैं आजाद होकर ही बाहर निकलूंगा। या तो भारत आजादी प्राप्त करेगा या महादेव के पास मेरी भी समाधि बनेगी।”

१२ सितम्बर '४२

दिन में कुछ खास खबर नहीं थी। भाई इधर-उधर की बातें सुनाते रहे। बाहर की खबर सन्तोषजनक है। बापू का विश्वास है कि ईश्वर के हाथ के बिना ऐसा आन्दोलन बिना लीडरों के चल नहीं सकता—खास करके जब सब लीडरों को सरकार एकदम उठा ले गई हो।

घूमते समय मैंने कहा, “बापू, कोई चमत्कार ही हो तो आज हमारी सफलता होसकती है। मुसलमान तो ऐसे अकड़े पड़े हैं, सरकार भी उन्हें सिर खटारही है। ऐसी हालत में हमारी सफलता कठिन है।”

बापू बोले, “हां, सो तो है, मगर जहां सत्य रहता है वहां चमत्कार भी होते हैं। मैंने तो कहा ही है कि अहिंसा नये ही ढंग से काम करती है। लोग चुपचाप बैठ नहीं जायेंगे तो सब अच्छा ही होगा।”

१३ सितम्बर '४२

आज कमिश्नर और सिविल सर्जन के आने का दिन था। मगर सिविल सर्जन की जगह डा० शाह ही आये। वे भाई को जानते हैं, ऐसा कहने लगे। कमिश्नर भी जब आते हैं, कुछ-न-कुछ बातें करते हैं। सरोजिनी नायडू पहले दिन कमिश्नर और सिविल सर्जन से बहुत चिढ़ गई थीं, मगर अब खुश हैं।

शाम को घूमते समय भाई बाहर की बातें सुना रहे थे। बापू कहने लगे, “अगर सरकार ने हमें पकड़ने की भूल न की होती तो आन्दोलन यह रूप कभी लेने वाला था नहीं। मैं अकेला भी बाहर रहता तो संभाल लेता। मगर अब तो मैं अकेला बाहर निकलना नहीं चाहता।” मैंने पूछा, “क्यों?” कहने लगे, “उस वक्त इच्छा थी, श्रद्धा थी और शक्ति भी थी कि मैं संभाल लूंगा। मगर आज न इच्छा है, न श्रद्धा है, न शक्ति है।” मैंने कहा कि इसे जरा विस्तार से समझाइए। कहने लगे, “इच्छा होती है तो शक्ति भी आती है, श्रद्धा रहती है, मगर जब इच्छा ही नहीं तो शक्ति कहाँसे आसकती है? मैंने तो अपनी इच्छा को भी ईश्वर के अधीन कर दिया है न! तो उसे जब जो मुझसे कराना होगा करायेगा। यो कहो कि आज ईश्वर मुझसे कोई इच्छा नहीं करा रहा। ठीक है, ईश्वर को लगा होगा कि आंदोलन ऐसे ही चल सकता है।”

प्रार्थना में मीराबहन ने भजन गाया। उसके बाद बापू का मौन शुरू हुआ।

१४ सितम्बर '४२

आज बापू का मौन था। महादेवभाई की समाधि पर जो पत्थर रखे थे उनका आकार कब्र का था। बापू को बह खटक। हम सबको भी। इस कारण बी रोज हुए उसे चौरस करवा दिया है। रघुनाथ वर्गार ने गोबर से बहा लीप भी दिया है। उस पर छेद करके फूलों का ॐ बनाया। और जगह भी फूलों के लिए छेद किये। सजाने पर बहुत सुन्दर लगता है। मैंने कहा, “बापू, महादेवभाई होते तो बहुत खुश होते।” और कहते, “बापू, कैसा सुन्दर दीखता है?”



बापू और प्यारेलालभाई

बापू वाक जहा सय रहता ट वहा चमकार भी हान ह। पृष्ठ ७२

आज अलखारों से पता चला कि बापू का तार दुर्गाबहन बर्गारा को भेजा ही नहीं गया था। ४ सितम्बर को वह विल्ली से डाक के जरिये भेजा गया। हम सबको इससे बहुत आघात लगा। सरकार ने दुर्गाबहन बर्गारा से तो माफी मांगी है, मगर वह मांगनी तो चाहिए बापू से।

बा अच्छी है, बापू की तबीयत भी ठीक है। बर्षा खतम होगई। दिन में खूब धूप होती है। रात को आकाश तारों से भरा होता है। बापू रात में कहने लगे, "मैं इन तारों के नीचे सोसकूं तो नाचने लगूं।" मैंने कहा, हमें भी आकाश-दर्शन करावें। कहने लगे, "हां, जितना याद है उतना तो करा ही सकता हूं। परबदा में मैं बहुत आकाश देखा करता था।"

१५ सितम्बर '४२

आज समाधि पर गीता लेजाना भूल गई। बारहवां अध्याय कंठ होगया है। इस कारण मैंने सोचा उसके पाठ में कोई कठिनाई नहीं आवेगी, मगर पढ़ते-पढ़ते एकाध श्लोक आगे-पीछे होगया। घूमते समय बापू इस पर कहते रहे, "पुरा बारहवां अध्याय तो तुम्हारे लिए एक श्लोक के जंसा होजाना चाहिए, फिर उसमें भूल हो नहीं सकती। और फिर इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि तुमको सारा याद है। पादरियों को तो बचपन से ही बाइबिल का अभ्यास कराया जाता है। तो भी वे किताब सामने रखकर प्रार्थना-समाज में बाइबिल पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं भूल होजावे तो सारे समाज का तार टूटता है।"

इसके बाद बातों-बातों में बाहर जाकर क्या होगा, इस बारे में मेरे मुंह से कुछ निकल गया। पर तुरन्त ही मैंने सुधार लिया "मगर वह तो बाहर जावेंगे तब न! कौन जाने महादेवभाई के साथ ही सबको यहीं रह जाना हो।" बापू बोले, "वह तो है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम सब यहीं रह जायें।" मैंने कहा, "आप नहीं। आपको छोड़कर बाकी हम सब।" बापू इस वाक्य से कुछ चिढ़-से गये। बोले, "हमेशा ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसा करके तुम लोग मेरे शुभ संकल्प को ठेस पहुंचाते हो। इसीमें महादेव गया और अब तुम भी वही कह रही हो।" मैंने कहा, "आप नाराज न हों तो मैं कहूँ कि क्यों मेरे मुंह से ऐसा उद्गार निकला। कोई भी सेनापति—जनरल—खुद मरने की जगह पर नहीं जाता, अपने सिपाहियों और अफसरों को भेजता है। ऐसे ही आपका है। आप हैं तो आजादी की लड़ाई चलाते रहेंगे। अहिंसा की लड़ाई आपके साथ है।" यह सुनकर बापू कहने लगे, "मगर तू तो जनरल की भी सुपर जनरल (Super-General)—बड़ी जनरल—बनती है। यही मैंने महादेव को कहा था। जनरल जानता है, उसे कहा किसे भेजना है और कहां खुद जाना है। तूने 'मुक्तधारा' पढ़ी है! वहां युवराज कैसे अपने भाई को रोक देता है। नहीं, मुझे ही इस काम में जाना चाहिए, तुमको नहीं।" फिर विलियम ऑव ऑरेंज (William of Orange) का किस्सा कहा, "ऐसे ही मुझे लगे कि मुझे जाना चाहिए

और तुम लोग मेरा विरोध करते रहो तो वह मेरी शक्ति क्षीण करने जंसा है । आज तो मैं कसंभ्यमूढ़ बनता नहीं हूँ । लेकिन मुझे भी लग सकता है कि देखो न, महादेव कहता था, सुशीला, बा, प्यारेलाल सब कहते हैं, तो शायद वे कहते हैं वही ठीक होगा । और धर्म-ग्रन्थों में भी कहा है, जो सौ को खिलाता है वह रहे और पचास खाने वाले मरजावें तो हर्ज नहीं, मगर खिलाने वाला भी चला जावे तो सब भूलों मरेंगे । इसलिए मुझे तो जिन्दा रहना चाहिए । मगर ऐसा है नहीं । जब खिलाने वाला कहता है कि मैं तो इस तरह जिन्दा रहूँ तो भी खिला नहीं सकूँगा, मैं खुद भार-रूप बन जाऊँगा, तो उसे रोकने से क्या फायदा ! सब खाने वाले उसके जाने से अपने पंरो पर खड़े होसकते हैं । मैं मरना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है । देखती नहीं कि मैं तो पन्द्रह वर्ष के लड़के के उस्ताह से उर्दू सीख रहा हूँ और दूसरा अभ्यास भी करता हूँ, तेरे साथ खेलता हूँ । जो भी रस लेने लायक चीजें हैं उनका रस मैं खींच लेता हूँ । मगर जब ऐसा मौका आजाय कि मैं लाचार बन जाऊँ तब मैं क्या कर सकता हूँ !” मैंने कहा, “जी, कोई ऐसा मौका आसकता है जब कि आदमी अपना स्वाभिमान रखकर जिन्दा नहीं रह सकता । ऐसी हालत में जीने से क्या फायदा ? मगर ऐसा मौका न आवे, ऐसी इच्छा रखने में तो कोई हर्ज नहीं है ।” कहने लगे, “ऐसे तो महादेव भी मान गया था कि ऐसा मौका आसकता है कि उपवास करना धर्म होजाय । मगर यह बात उसके हृदय में बंठी नहीं थी । ऐसी इच्छा करने में दोष नहीं, मगर वह इच्छा तुम्हारे ही पास रहनी चाहिए ।” मैंने कहा, “ठीक है । आपका मतलब है कि आपके सामने उसकी बात नहीं करनी चाहिए । मूक इच्छा रखना ठीक है ।” बोले, “हां, मूक इच्छा ईश्वर के पास जाती है । अगर हम उसकी चर्चा करते हैं तो उसकी शक्ति कम होती है और मेरे रास्ते में वह रुकावट डाल सकती है । ईश्वर के पास अपनी इच्छा रखो । जो उसे करना होगा सो करेगा, जो मुझसे करवाना होगा वह करायेगा ।”

घूमने का वक्त पूरा होगया । भाई अब बापू की मालिश बगरा करते हैं । मैं बा का काम कर देती हूँ, सो खाने आदि का सब काम मिलाकर मेरा समय तो बंसा-का-बंसा ही भरा रहता है । दोपहर खाने के समय भाई के साथ बंठती हूँ । वह बहुत धीरे-धीरे खाते हैं । मैं खाकर उतने समय में साग भी काट लेती हूँ । आज भी ऐसा ही किया । इससे बापू के पंर मलने को जरा देर से पहुँची तो डाट पड़ गई । कहने लगे, “हमारे पास जब काम पड़ा हो तब हम खाना खाकर भेज पर बंठे नहीं रह सकते ।”

शाम को घूमते समय बाहर जो चल रहा है उसकी बातें होती रहीं । बापू बाइबिल—ओल्ड टेस्टामेंट—की बात कर रहे थे—“उसमें रबतपात जगह-जगह जाता है । ईश्वर की शरण जो लोग जाते हैं, मामूली भूलें करने वाले लोग जब ईश्वर का आश्रय मांगते हैं तब ईश्वर उन्हें बचा लेता है । उनके दुश्मनों को मार डालता है, प्लेग भेज देता है इत्यादि । तो मैं तो उसमें से इतना ही सार निकाल लेता

हूँ कि ईश्वर पर खड़ा बड़ी चीज हूँ और ईश्वर सर्वशक्तिमान हूँ। उसे जो करना है वह किसी की भी मार्फत करवा लेता हूँ। हिन्दुस्तान में भी उसे जो करवाना होगा करा लेगा।”

१६ सितम्बर '४२

आज धूमते समय फिर बाहर की बातें होने लगीं। भाई ने कहा, “जो फौज और पुलिस से आशा थी, वह तो कुछ फली नहीं। बाकी आम लोग आंदोलन चलारहे हैं।” बापू कहने लगे, “मैंने फौज और पुलिस पर कभी आशा रखी ही नहीं थी। रूस में बेशक फौज और पुलिस जनता से आमिली; परन्तु वहाँ तो हिंसक क्रान्ति थी, हमारी अहिंसक क्रान्ति है। उसमें फौज, जो कि हिंसा की प्रतिमा है, कैसे आसकती है? वे लोग तब जनता के साथ आबेंगे जब सत्ता लोगों के हाथ में आजावेगी; क्योंकि पीछे तो कोई चारा ही नहीं रह जाता। वे लोग तो जड़ हैं। पढ़े-लिखे सुशिक्षित लोग कमीशन लेकर बंठे हैं; परन्तु किसी ने अपना कमीशन छोड़ा? यह जड़ता की निशानी है।”

आज रामेश्वरी नेहरू की दोबारा गिरफ्तारी तथा अम्बालाल साराभाई की लड़कियों तथा और जगह दूसरी स्त्रियों की गिरफ्तारी की खबर पढ़कर बापू ने कहा, “इसका मैं यह नतीजा निकालता हूँ कि कई जगह हिंसा की घटनाएँ होते हुए भी सब मिलाकर आंदोलन अहिंसक है, वरना इस तरह इतनी स्त्रियाँ—और कुलीन स्त्रियाँ—इसमें हिंसा नहीं लेसकती थीं।”

कालते समय बापू को बाइबिल—न्यू टेस्टामेंट—पढ़कर सुनाती हूँ। ऐसा करने से मेरा भी बाइबिल का अभ्यास होजाता है।

आज मॅथ्यू की कथा पूरी हुई। बापू के मन पर उसका गहरा असर पड़ा। शाम को मीराबहन से बोले, “जब मैं अब्भूत सलीब की ओर निहारता हूँ ('When I servey the Wond'rous Cross')\* गासकोगी? आज मॅथ्यू की कथा पूरी हुई सुनकर मेरा दिल भर आया है। मैं उससे भरा हुआ हूँ।” मीराबहन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहतीं, जिससे उनके ईसाई धर्म और यूरोपियन जन्म की झलक आसपास के लोग देख सकें। इसीलिए बापू ने उनसे पूछा कि यह ईसाई गीत गासकोगी या नहीं। मीराबहन ने कहा, “आपके सामने गाऊंगी। बाहर जाकर औरो के सामने नहीं; क्योंकि आपको तो कोई गलतफहमी नहीं होगी।” मीराबहन ने बहुत अच्छी तरह गाया। रात जब बापू पलंग पर सोने गये तब मीराबहन ने आकर पूछा, “बापू, फिर गाऊँ?” बापू ने ‘हाँ’ कहा और उन्होंने बोबारा वही गीत बापू को सुनाया। उसकी ध्वनि को कान में रखकर बापू सोगये। उनके सोने के थोड़ी देर बाद बा ने गरम पानी मांगा। हममें से कोई

\*अग्नेजी के एक भजन की पहली कड़ी

पास न था, हम लोग अभी भीतर बंठे बातें और काम कर रहे थे। सो बापूजी ने खुद उठकर उन्हें पानी दिया। बा की आज की रात अच्छी नहीं कटी। खाने-पीने में कुछ बदपरहेबी हुई थी। मुबह उठने पर उन्हें जल्दी कराई। तब जाकर उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई।

: १६ :

## अहिंसा की कसौटी

१७ सितम्बर '४२

मुबह घूमते समय बा की तबीयत की चर्चा करते-करते बापू अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव की बातें सुनाने लगे। पोलक ने उन्हें रस्किन का 'अन्टू विस लास्ट'\* ('Unto this Last') पढ़ने को दिया था। पढ़कर बापू के मन पर उसका गहरा असर हुआ। विभाग में वही विचार भरे थे। उसी रोज किसी मित्र के यहां खाना खाने गये थे। वहां बहुत गरिष्ठ भोजन हुआ। पेट भारी होने के कारण रात में नींद नहीं आई— 'अन्टू विस लास्ट' के ही विचार आते रहे। बस आखिर में निश्चय किया कि अब मुझे ऐसा खाना नहीं खाना है, सादा जीवन बनाना है, जंगल में जाकर रहना है। दूसरे ही दिन साधियों की सम्मति लेकर जमीन के लिए विज्ञापन दे दिया। हृषते भर के अन्दर जमीन मिल गई। बस रात भर में ही जीवन पलट गया। फिनक्स (Phoenix) आश्रम की वह जड़ है।"

शाम को घूमते समय बापू ने भाई को खाने के समय का पालन करने को कहा। आज उन्हें बहुत वेर होगई थी। सरोजनी नायडू नाराज होगई थीं। बापू ने कहा कि वे यहां कुटुम्ब की मां बनकर बंठी हैं। सबको मा की तरह प्यार से खिलती हैं। उनको हमें शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए।

'इन्डियन मेडिकल गजेट' के सम्पादक का ४ अगस्त का लिखा पत्र आज मिला है। मेरे लेख के प्रूफों के बारे में था। लिफाफे पर मोहनभाई के हाथ का पता लिखा था— C/o महात्मा गांधी, आगा खां महल, पूना। और हमें पत्रों पर हमारी नजरबंदी की जगह लिखना मना है। क्या मजाक है कि जिसे सब जानते हैं उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है!

१८ सितम्बर '४२

मुबह घूमते समय बापू मुझे कल की एक घटना पर शिक्षा देते रहे, "मैं कहता हूँ कि वह मूर्खता थी। महादेव की मृत्यु से और कुछ नहीं तो इतना तो सीखते कि किसी

\*जिसका अनुवाद बापू ने 'सर्वोदय' के नाम से किया है।



चीज से परेशान होना ही नहीं चाहिए। बारहवां अध्याय रोज पढ़ने का क्या अर्थ है ? स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का पाठ करने का क्या अर्थ है।" मुझे बड़ी शर्म आई। पहले से ही शैव रही थी मगर इससे और बुरा लगा। कितना सोचा था कि अपने आपको सुधारा हूँ। छुई-भुईपन निकाल डाला हूँ। मगर पहली ही परीक्षा में फेल होगई।

दोपहर बापू जो पुस्तक लिख रहे हैं उसका कुछ तर्जुमा किया, फिर काता। आराम नहीं किया। इससे शाम को जल्दी नींद आने लगी। बापू की राह देखते-देखते सोनाई, आधा घंटा सोचकी थी तब बापू आये। उन्हें उठने में देर होगई थी। बोले, "तू बक्त पर उठाने क्यों नहीं आई ? झुंझे तो काम में बक्त का ध्यान न रहे, पर तुम्हें तो मुझे कहना चाहिए था कि उठने का बक्त हुआ।" मुझे अपने सोजाने का अफसोस हुआ।

बाबला और दुर्गाबहन का बापू के नाम पत्र आया था। दुर्गाबहन का एक ही वाक्य उनके हृदय की स्थिति बताता था—'पत्थर की बनी हूँ। सह रही हूँ।' बाबला का सुन्दर पत्र था—'मेरे बारे में जो लिखा है वंसा करने का प्रयत्न तो करूंगा, पर मैं तो बिलकुल क्षुद्र हूँ। वहाँ कैसे पहुंच सकूंगा !' मैंने मन में कहा, "भगवान तुम्हें पहुंचायेगा, तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हें पहुंचायेगी।"

शाम को घूमते समय बापू बताते रहे कि कैसे वे एक बार कुतुबमीनार देखने गये थे। दिखानेवाला इतिहास का बड़ा विद्वान था। वह बताने लगा कि कुतुब के बाहर के दरवाजे की सीढ़ी से लेकर एक-एक पत्थर मूर्ति का पत्थर है। मुझसे यह सहन नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ ही नहीं सका और मुझे वापस ले चलने को उन्हें कहा। और मैं वापस आगया। पीछे इस्लाम के बारे में बातें होती रहीं। बापू जानते हैं कि मुसलमानों ने कितने अत्याचार किये हैं, फिर भी मुसलमानों के प्रति वह इतनी उदारता और इतना प्रेम बताते हैं। मुसलमान उन्हें गाली देते हैं तो भी उनकी खातिर वह हिन्दुओं से लड़ते हैं। यह चकित कर देने वाली चीज है। उनकी अहिंसा की कसौटी है।

महादेवभाई ने मेरी भजनावली में कुछ भजन लिख दिये थे उनमें से एक था : "जावे कि हो दिन आमार, विफले चालिये।" आज वह मेरे कान में गूंजर रहा था। मन में उठ रहा था, "क्या है हमारा जीवन ! ईश्वर बापू को दीर्घायु करें ताकि वह अपना काम पूरा करें। हमारे जैसों की आयु भी भगवान उन्हें देवे तो उसका सदुपयोग होजावे।"

१६ सितम्बर '४२

सुबह घूमते समय बापू फिर परसों वाली घटना की बात करने लगे। पोलक की बात बताने लगे, "वह बहुत जल्दी चिढ़ जाता था। वह और श्रीमती पोलक पहले मित्र थे। इथिकल सोसाइटी (Ethical Society) के सदस्य बने, वहाँ से मित्रता शुरू हुई, आखिर मैंने उनकी शादी कराई। वे सोचते थे कि कुछ पैसे होजायें तब शादी करें। मगर मैंने कहा, 'यह निकम्मी बात है, और पैसे की जरूरत हो तो मैं भी तो

तुम्हारे पास पड़ा हूँ न !” इसी तरह बापू ने अपनी टाइपिस्ट, मिस डिक की जो स्काच थी, शादी मि० मॅकडोनाल्ड से कराई थी। इसी प्रकार बापू ने मि० वेस्ट की भी शादी करवाई थी। बापू बताने लगे, “पोलक का यह प्रेम-सम्बन्ध था। मगर वह कई बार अपना संतुलन खो बँठता था। वैसे तो श्रीमती पोलक दो की चार सुनाने वाली थी, मगर जब पोलक गुस्से में होता था तो उससे बड़े प्रेम से पेश आती थी। कहती, “तुम्हें हुआ क्या है ?” और हंस बेती थी। मैं कहा करता था कि यह क्या बात है कि पहले तो तुम इतने मित्र थे, और अब शादी होगई है तो क्या लड़ना ही चाहिए ? जैसे मैंने तुम्हारी शादी कराई है वैसे ही तलाक भी करवाना होगा क्या ? श्रीमती पोलक की कार्य-कुशलता का नतीजा यह है कि वे आज एक दूसरे को पूजते हैं और मुझे छोड़ दिया है। ऐसा कइयों का हुआ है। कैलेन बैंक मुझे कहा करता था, तुम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हो कि आखिर तुम्हें सब छोड़ देंगे, वे तुम्हारे साथ आगे बढ़ नहीं सकेंगे। मैंने कहा कि तुम भी छोड़ दोगे ? तो कहने लगा, “मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। हम तो एक जान दो शरीर जैसे हैं, और मैंने तुमको अपनी गरज के लिए बूढ़ा है, तुमने मुझे नहीं बूढ़ा। मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता।” मगर अब तो वह भी छूट गया है। उसके विचार भी मुझसे अलग पड़ गये हैं। यहूदियों के बारे में उसका इतना पक्षपात है कि क्या कहना ! वह मानता है कि जर्मनी यहूदियों का दुश्मन है और जर्मनी से लड़ने वाले अंग्रेजों के साथ में लड़ रहा है। उसका वह समर्पण नहीं कर पाया। जब वह यहां आया था तब मैंने उसे बहुत समझाया था कि क्यों मैंने यहूदियों को हिंसा से भरे हुए कहा है। आज तो वे हिंसा को ही अपने हृदय में पोषण दे रहे हैं। मन में हिंसा रहे तो बाहर की अहिंसा का कोई अर्थ नहीं रहता। वह मेरी बात कुछ समझा भी सही। मैंने उसे इस आशय का एक खुला पत्र यहूदियों को लिखने को कहा था। उसने लिखा भी, मगर उसे ऐसा लगता था कि इस बारे में उसकी कौन सुनेगा। इसलिए अखबारों में भेजा नहीं। मैंने कहा, भले न सुने, तुम अपना धर्म पूरा करो। भले ही फिलस्तीन में जाकर लड़ो और मर जाओ, यह मैं सहन करूंगा, मगर आज जैसे यहूदियों का चल रहा है वह असह्य है। हृदय में हिंसा है तो बाहर इससे उल्टा बताने में कोई अर्थ नहीं।”

मैंने कहा, “आप ठीक कहते हैं, ऐसी चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए, यह मैं समझती हूँ। मगर कई बातें हमारी बुद्धि स्वीकार करती हैं, तो भी कसौटी का मौका आता है तब फिसल जाते हैं।” बापू बोले, “वह तो अभ्यास से होता है। और ‘अभ्यासे-प्यसमर्थोऽसि, मत्कर्म परमो भव ।”

मैंने कहा, “सो तो ठीक है मगर जब-जब फिसलते हैं तो निराशा तो होती ही है। और आपको भी होती ही होगी।” वे कहने लगे, “मुझे क्या निराशा होगी, मैं तो किसी चीज की आशा ही नहीं करता तो पीछे निराशा कैसे !” मैंने कहा, “वह और भी अधिक दुःख की बात है, मगर मैं अब ऐसी चीजों से परेशान नहीं होऊँगी, ऐसी आशा

तो हूँ।" कहने लगे, "हां 'आशा तो है' इतना कहना पड़ता है। ठीक है, कहना कम करना अधिक, यही अच्छा है।"

बोपहर बापू बा से कह रहे थे, "तू मुझे अपनी मालिश करने दे। मैं सुशीला से अच्छी कर सकता हूँ। इसका धंधा कहां मालिश करने का है! वह तो डाक्टर है। हुकम कर देती हूँ कि इस मरीज को मालिश हो। इसको यह करो, उसको वह करो। यहा पर मालिश भी करे, सब्जी भी काटे, डाक्टरों भी करे, कपड़ा भी धोये!" मने कहा, "इस लम्बी-चौड़ी बात का अर्थ तो इतना ही है न कि आप मुझसे अच्छी मालिश जानते हैं। हम सब आपका यह दावा स्वीकार करते हैं।" बापू हंसने लगे। बोले, "मतलब यह है कि बा मुझे अपनी मालिश करने दे।" फिर दक्षिण अफ्रीका की बात बताते रहे कि कैसे १४ दिन के उपवास के बाद उन्हें स्मट्स ने बुलवाया था। चलकर गये और रास्ते में टांगों में इतना दर्द हुआ कि चिल्ला उठे। बा भी उनके साथ थीं। वह बीमार थीं, मगर तो भी पीछे रहने से ना करती थीं। कहने लगे, "तब मैं बा की सब सेवा किया करता था, मालिश भी करता था।"

शाम को महादेवभाई के समाधि-स्थान से लौट रहे थे तब बापू कहने लगे, "यहा आजाना मेरे लिए बहुत शांतिदायक है और उससे जो प्रेरणा मुझे लेनी होती है मैं लेलेता हूँ।" मने कहा, अब आप महादेवभाई से प्रेरणा लेते हैं, कभी वह आपसे लेते थे!" कहने लगे, "क्यों नहीं, प्रेरणा तो एक बच्चे से भी लेसकते हैं, और बच्चा चला जाता है, तो भी क्या? उसका स्मरण तो २४ घंटे चलता ही है। जो राजाजी ने कहा है वह बिल्कुल सही है। महादेव मेरा अतिरिक्त शरीर (Spare Body) था। कितनी दफा मने उसे मंक्सवेल के पास भेजा है, दूसरों के पास भेजा है। मान लेता था कि महादेव को काम सौंपा है तो वह कर लेगा।" पीछे कोटमैन (Mr. Coatman) के भाषण के विषय में बात करने लगे। कहने लगे, "पहले किप्स बोला, फिर राइसमन और अब कोटमैन। एक-दो रोज मैं हंलीफक्स भी ऐसी बात निकाले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे बदनाम करने के लिए एक गंदा जाल रच रहे हैं। लुई फिशर अमेरिका में मेरे पक्ष की बात कर रहा होगा। उसको धोड़ालने के लिए भी यह सब प्रचार इन लोगों को करना चाहिए न। इन्हें झूठ से कहां परहेज है। इनका काम तो चलता है धोखेबाजी, पशुबल, झूठ और धापलूसी (Fraud, Force, Falsehood and Flattery) से। कोई और ऐब हो तो वह भी लगावो। मैं किस-किस को जवाब दूँ? जो बातें मने खुली तरह से कही हैं उन्हें ऐसा रूप दिया जाता है, मानो मने कोई खुफिया साजिश रची हो! उसका मैं क्या करूँ? मगर ईश्वर है न, वह तो सच्ची बात जानता ही है!" मेरे मुंह से निकल गया, "मगर अभी तो ईश्वर भी हमारे ही विरुद्ध गया न। देखिये, कैसे महादेवभाई को लेगया।" बापू बोले, "यह तेरी अश्रद्धा बुलवाती है। यह अपना काम पूरा कर गया। बुद्धिवाद से तू कह सकती है कि वह २५ वर्ष और जिन्दा

रहता तो ईश्वर का क्या जाने वाला था, हमें तो फायदा होता ही । मगर भट्टा से देखो तो हम कहां ईश्वर की सब कृतियों को समझते हैं ! महादेव ने अपना डेस्क हमेशा साफ रखा, सो उसने अपना जीवन-कार्य पूरा किया । आगे चलकर वह क्या कर पाता था न कर पाता वह हम क्या जानें !” मैंने पूछा, “बापू ! आपको इतनी चोट किसी और की मृत्यु से नहीं लगी होगी ।” बोले, “नहीं, मगनलाल, जमनालाल, महादेव तीनों अपनी-अपनी जगह स्तम्भ थे । अद्वितीय थे । लेकिन और किसीको मैं अपना दूसरा शरीर नहीं कह सकता, मगर उससे भी तो ज्यादा महत्व की चीजें दूसरी होसकती हैं । जो मगनलाल कर सकता था और उसने किया, वह महादेव कभी नहीं कर सकता था । महादेव कितना उसकी मृत्यु पर रोया है ! जो महादेव कर सकता था वह जमनालाल नहीं, मगनलाल नहीं । जो जमनालाल कर सकता था, महादेव या मगनलाल नहीं । तीनों के जाने से जो जगह खाली हुई वह भर नहीं पाई ।”

बापू प्रार्थना से पहले और पीछे रामायण का अर्थ करते रहे, बा के लिए चुनी हुई चौपाइयों का गुजराती अनुवाद भाई से करवाते हैं । फिर उसे खुद सुधारते हैं । उसको दुस्त करने में आज बहुत समय गया ।

दोपहर बम्बई सरकार के गृह-विभाग के सेक्रेटरी को बापू ने पत्र लिखा । उसमें पूछा कि महादेवभाई की मृत्यु के बारे में बापू का तार पत्र क्यों बनाया गया था ? इतनी देर से क्यों दिया गया, और इसके लिए खेद-प्रकाश तक नहीं किया, यह कंसी बात ? जेल से पत्र लिखने के बारे में बापू ने सरकार को जो पत्र लिखा था, उसका सरकार ने उत्तर नहीं दिया । यह शिकायत भी इस पत्र में की ।

रात बापू थके थे । छून का दबाव २००/११२/११६ था । चिन्ता हुई । रात के सोये भी अच्छी तरह नहीं । विचार चल रहे थे ।

आज महादेवभाई को गये पांच हफ्ते पूरे हुए । समाधि पर के सारे फूल बदले, नया ढं बनाया (रोज मुरझाए हुए फूल ही बदलते थे), लाल देहलिया (Dahlia) के फूलों का स्वस्तिक बनाया । मन में आया, महादेवभाई यह देख सकें तो कितने खुश हों ! मगर प्राणी कहां जाता है यह कौन जानता है !

सरोजिनी नायडू भी आज समाधि-स्थान पर आई । शनिवार को वे आती हैं । बा भी आना चाहती थीं, मगर उन्हें चलने की इजाजत नहीं । “अगले शनिवार को सही,” इतना कहकर बैठ गईं । दोपहर बा कुछ निराश थीं । बाहर जायेंगे तो क्या करेंगे, यह बात चलती थी । एकाएक बोली, “मेरा तो पता नहीं कि जाऊंगी या नहीं । मैं तो अब हूँ और शाम को नहीं, ऐसा होसकता है ।”

बापू बोले, “ऐसा तो सबके लिए कहा जासकता है । यह सुशीला अभी एम. डी. होकर आई हैं, तो भी होसकता है कि अब हूँ और शाम को नहीं । महादेव का ऐसे ही हुआ न ! तू और मैं जो बीमार पड़े हैं, बंठे रहे । तुमने तो अच्छी होना ही है । जो चाहिए सो सेवा ले । चिन्ता न कर ।”

२० सितम्बर '४२

बापू का खून का दबाव सबेरे उतर गया, १६०/१०० था, दोपहर को १४६/६२ हो गया। घूमते वक़्त बताते रहे कि रात उनके मन में क्या विचार चलते थे। बाद में सूरदास और तुलसीदास की बातें करते रहे।

दोपहर में सरोजिनी नायडू के कहने से गाजर का हलबा बनाया और बंगन का भरता। तीन घंटा रसोई में लग गया। थक गई। दोपहर दूसरा काम था। शाम को सवा चार बजे सो गई। पांच बजे उठी। पीने पांच बजे बापू को खाना देना था, ५-१० पर ब्रेककी! बुरा लगा। बापू कहने लगे, “अगर ऐसी बकी थी तो ३-३० पर बाइबिल पढ़नी छोड़कर सो जाना था और किसीको कह देना था कि समय पर जगावे। ऐसी छोटी-छोटी बातों से हमारी परीक्षा हो जाती है।”

रामायण के एक-एक शब्द के अर्थ पर बापू किसी समय दस मिनट लगा देते हैं। कह रहे थे, “मैं ऊपर-ऊपर से कोई काम कर ही नहीं सकता।” यह बापू की विशेषता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति (Genius) की व्याख्या की बात होने पर एक दिन मैंने कहा, “मेरा चित्रकला का शिक्षक कहा करता था कि जीनियस (प्रतिभाशाली) वह है जो कभी एक ही गलती दोबारा नहीं करता।”\* बापू कहने लगे, “नहीं, प्रतिभाशाली की सच्ची व्याख्या है बारीक-से-बारीक विगत में उतरने की अपार शक्ति।”†

शाम को घूमते समय फिर कल की बात निकली। . . . के भाषण से बापू को भारी आघात पहुंचा है। दोपहर सरकार को पत्र लिखना शुरू किया था कि उनके लिए बापू के तथा कांग्रेस के सामने इतना झूठ चलाना ठीक नहीं है। मगर पीछे . . . के भाषण की बात सुनी तो कहने लगे, “. . . ऐसा कह सकता है तो और किसीको मैं क्या कहूँ? अंग्रेजों के दोष इससे घुल जाते हैं। . . . का और मेरा कितना सम्बन्ध रहा! वाइसराय को मैंने ही कहा था . . . को अपनी कौंसिल में बुलाओ, वह बुद्धिशाली है, मेहनती है, विश्वासपात्र है। आज मैं कहूँ कि वह झूठ बोलता है तो वाइसराय कहेगा कि तेरे पक्ष की बात कहे तो वह भला, नहीं तो बुरा। मैं अपने के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता। मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं है। अम्बेडकर साहब से तो दूसरी आशा ही नहीं थी। वह मेरा हमेशा विरोधी रहा है। वह मुझे मार भी डाले तो मुझे अफसोस न होगा। फीरोजखान नून तो गाली ही देसकता है। ये सब मेरे विरुद्ध भले कुछ कहें। मगर . . . ऐसे कहे वह तो ऐसा हुआ कि राजाजी मेरे विरुद्ध इस तरह कहें तो उसे मैं क्या उत्तर दूँ? . . . मेरा मित्र रहा। उसे एक बार सत्याग्रह में मैंने डिक्टेटर भी बनाया था, मगर सरकार के घर बैठकर लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं। सो सरकार को अब कुछ लिखने के लिए मेरी कलम नहीं चलती।” अतः बापू ने वह पत्र लिखना छोड़ दिया।

\*“Genius is one who does not commit the same mistake twice.”

†“Infinite capacity to go into the minutest detail.”

शाम को बापू ने ७-३५ पर मौन लिया, खून का दबाव आज फिर बढ़ा—  
१६६/११२ था ।

२१ सितम्बर '४२

आज बापू का मौन था । दोपहर भारत-सरकार के गृह-मंत्री को उन्होंने पत्र लिखा । जो झूठ चल रहा है उसका प्रतिबाद किया था । उन्होंने यह भी लिखा कि देश में जितनी बर्बादी हुई है उस सबकी जिम्मेदार सरकार है । वह कांग्रेस के लीडरों को इस तरह न पकड़ती तो कुछ भी हानि होनेवाली नहीं थी । सरोजिनी नायडू की सूचना थी कि इस सब झूठ का विरोध करने की जरूरत नहीं, यह आपकी शान के खिलाफ है ।

रात फिर बापू का खून का दबाव बहुत ज्यादा था— २०८/१२६ । महादेवभाई का वाक्य याद आ रहा था, “बापू तो ज्वालामुखी हैं । कब वह भड़क उठेगा, कहा नहीं जा सकता ।”

२२ सितम्बर '४२

आज सबेरे गीता-पाठ करते-करते में कई जगह अटकी । बापू ने भाई को कल से गीता का क्रम चलाने को कहा ।

प्रार्थना के बाद बा के सिर में दर्द था, बापू खुद दबाने लगे । पांच-सात मिनट तक दबाया । जिनको में पत्र लिखना चाहूँ उन रिश्तेदारों की मि० कटेली ने सूची मुझसे मांगी थी । शाम को मुझे बापू ने बताया कि उन्हें क्या उत्तर देना चाहिए ।

बापू का सरकार के नाम नया पत्र अभी गया नहीं । बापू ने खुद पत्र लिखने इत्यादि के बारे में जो पत्र बम्बई सरकार को २७ अगस्त, १९४२ को लिखा था उसका उत्तर अभी तक नहीं आया । मि० कटेली ने उसके लिए फिर से याद विलाया था । आज उत्तर आया कि सरकार बापू के पत्र का उत्तर नहीं देगी, ऐसी बात नहीं, मगर अभी समय लगेगा ।

आज बापू का खून का दबाव कुछ कम रहा— १८०/१०६ । रोटी-मखन आज बन्द किया ।

२३ सितम्बर '४२

आज सबेरे भाई ने प्रार्थना चलाई । घूमते समय में गीता याद कर रही थी । बापू के कहने से बोलकर याद करना शुरू किया । १६-१७ अध्याय कंठ कर लिये । बापू मानते हैं कि घूमते समय काम की बात करना तो उनके लिए अच्छा नहीं, मगर कुछ बात न करें, ध्यानावस्थित ही रहें, तो वह भी उनके लिए अच्छा नहीं । सो बापू कहते थे कि मैंने गीता याद करना शुरू किया । यह अच्छा हुआ । गीता उन्हें प्रिय है और उसका उन्होंने इतना अभ्यास किया है कि वह सुनने में या उसकी बात करने में उन पर किसी प्रकार का श्रम नहीं पड़ता ।

दोपहर भारत सरकार के मंत्री को बापू का पत्र गया । मैंने नकल की, उसमें थोड़ी

गलती होगई थी। बापू नकल भेजना चाहते थे। कहने लगे, “इससे तू सीखेगी और आगे के लिए होशियार होजाबेगी।” मगर मुझे वह ठीक न लगा। मेरे बहुत कहने पर दूसरी नकल करनेदी।

मैंने ‘इण्डियन मॅडिकल गजेट’ के सम्पादक को पत्र लिखा। मि० कटेली को, अपने घरवालों को पत्र लिखने के बारे में जबाब दिया। बापू ने मसविदा बना दिया था। मैं उसकी नकल कर रही थी। इतने में मीराबहन आई और कहने लगी, “ऐसा करने में कोई अर्थ नहीं है। बापू का मामला अलग प्रकार का है। वे इस तरह किसी को भी पत्र लिखने से इन्कार कर सकते हैं। मगर हम उस श्रेणी के नहीं हैं।” मैंने कहा, “बापू को मेरा यही जबाब देना ठीक लगता है।” शाम को बा कहने लगी, “तुम माताजी को क्यों नहीं लिखती हो? बापूजी कहते हैं कि उन्होंने तुम दोनों भाई-बहन को घर लिखने को कहा है।” मैंने समझाया कि बापू न लिखें तो हम कैसे लिखें! सरकार बापू को उनकी शर्त पर पत्र लिखने नहीं देती, उस पर हम अपनी नाराजगी केवल इसी तरह बता सकते हैं कि हम भी न लिखें। बापू को यही ठीक लगता है।

भाई ने भी कटेली को उत्तर दिया कि सरकार की शर्त पर वह पत्र नहीं लिख सकते। उनके लिए अपने घरवाले ही केवल कुटुम्बीजन नहीं हैं, इत्यादि।

हम लोगों ने जवाब लिखा। उसके बाद बापू के पत्र के उत्तर में सरकार का पत्र आया कि वे सेवाश्रम में किस-किस को लिखना चाहते हैं उनकी सूची दें। मगर वे घरेलू मामलों के बारे में ही लिख सकते हैं। सरोजिनी नायडू, मीराबहन वर्गरा को मैंने यह पत्र दिखाया तो सब उत्सुकता से पूछने लगीं, “अब क्या वे लिखेंगे?” मैंने कहा, “नहीं, मुझे नहीं लगता कि वे इस शर्त पर लिखें।”

दोपहर घर से पत्र मिले। बहुत अच्छा लगा। यहां पर एक पत्र मिल जाये तो मानो बड़ी बात होगई। माताजी का मिले तो बस खुशी का कहना क्या! उन्हें हमारे पत्र न मिलने से आघात पहुंचता होगा, इस विचार से मन में दुःख होता है। बा कहने लगीं, “एक बार तो लिखो, फिर न लिखना। बूढ़ी मां को लिखना ही चाहिए।” मैंने कहा, “बा, ऐसे नहीं लिखा जासकता। मा को न लिखने की इच्छा का संयम आसान बात नहीं। मगर तय किया है कि नहीं लिखना तो नहीं ही लिखना।

२४ सितम्बर '४२

सुबह घूमते समय मैंने बापू से पूछा, “मीराबहन वर्गरा को मेरा घर पत्र न लिखना एक हास्यास्पद चीज लगती है। शायद ऐसा भी लगे कि मैंने अपना महत्त्व बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। बा भी रात को कहती थीं कि घर पर पत्र क्यों नहीं लिखती। मैंने तो ऐसी किसी भावना से न लिखने का सोचा नहीं। आपको मेरा न लिखना ही ठीक लगा, सो न लिखने का निर्णय किया। मगर बा के कहने से मैं ऐसा समझी कि आप चाहते हैं कि मैं लिखूं।” इस पर बापू ने कहा, “मैं नहीं चाहता कि मेरे कहने के कारण तुम न लिखो। मगर तुम मुझसे पूछो कि मुनासिब क्या है तो मैंने बताया है कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए।

तुम्हें यहाँ पर अकेले थोड़े रखनेवाले थे । यहाँ रखा तो मेरे कारण । तो तुमको लगना चाहिए कि जब मेरा स्थान ही बापू के कारण से है तो जो हक बापू नहीं लेते उसे मैं कैसे लेसकती हूँ । सरोजिनी नायडू को वह चीज लागू नहीं होती । वह कोई आश्रमवासी तो है नहीं; बहुत चीजों में मेरा विरोध भी कर लेती है । मैं तो गुणों को ही देखता हूँ । मैं खुद कहां दोषरहित हूँ कि किसीके दोष देखूँ ! वह तो अपना स्वतन्त्र स्थान रखती है । उसने अपना मार्ग निकाल लिया है । मीराबहन तो आश्रमवासी रही । घर-बार, माता-पिता का त्याग करके आई । उसको तो जो चीज प्यारेलाल को लागू होती है उससे भी ज्यादा लागू होती है । वह यद्यपि अपने को मेरी लड़की कहती है, मगर उसका भी तो अपना स्वतन्त्र स्थान बन गया है । अपने आप उसको लगता कि उसे नहीं लिखना चाहिए तो अलग बात थी । तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुम्हें तुम्हारा धर्म बताया । पहले तो मैंने तुमसे यही कहा कि मेरे सरकार को लिखे पत्र का उत्तर आजाने दो । बाद में यह सूत्र बताया कि बापू न लिख सके तो तुम भी नहीं लिख सकती । अगर तुम उसे समझ गई हो तो तुम्हें अपने आप ऐसा लगना चाहिए कि मैं नहीं लिख सकती । फिर किसी की हंसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, नही तो बूढ़े, उसके लड़के और गधे को ईसप-वार्तावाला हाल होगा । तुम्हारे मन में इस बारे में अगर शंका है तो मैं कहता हूँ कि लिखो । कटेली को कल जो लिखा है वह वापस लिया जासकता है । मगर मेरा कहना दिल में बैठ गया है कि बापू न लिखें तो मैं भी नहीं लिख सकती, तो फिर शंका का स्थान नही रहना चाहिए । जब मैंने यह पोशाक अस्तियार की तब मुझे तो हंसी का काफी डर था । खास करके मुसलमानों से, क्योंकि उनके धर्म में यह है कि शरीर टखनों तक ढका होना चाहिए । मैं मद्रास जा रहा था, रास्ते में मौलाना मुहम्मदअली को सरकार ने पकड़ लिया । बेगम मुहम्मदअली मेरे साथ थीं और बुरका ओढ़े थीं । वह मद्रास तक मेरे साथ आई । मुसलमानों को यह पसन्द नहीं आया कि वह मेरे साथ इस तरह घूमें । सो मद्रास से वे अलग हुईं । वहाँ सभा में जो लोग आये सब विदेशी कपड़े पहने हुए थे । मुझे दुःख हुआ । मैं क्या करूँ ? लोगो ने कहा, खादी मिलती नहीं । सो मैंने सोचा कम-से-कम कपड़े से कैसे काम चला सकते हैं, यह मैं ही करके दिखाऊँ । उमर सोबानी से सलाह की और नई पोशाक धारण करने के बारे में उन्हें विचार करने को कहा, खासकर मुसलमान के नुकतेनिगाह से । उन्होंने मेरा विचार पसन्द किया और खुद लुंगी पहननी शुरू की । मैंने एक बार जब नई पोशाक पहनने का निश्चय किया तो फिर किसी की हंसी-मजाक की परवाह नहीं की । विचार किया, और उसे अमल में रखा । यानी नई पोशाक धारण करली । उसमें तीनोंक महीने लग गये होंगे । उससे पहले तो मैं काफी कपड़े पहनता था ।” मैंने कहा—“जी हाँ, महादेव-भाई बताया करते थे कि कैसे वे आपका खाना पकाते थे, आपको खिलाते थे और सब बड़े-बड़े कपड़े भी धोते थे । बापू हंसने लगे, “हाँ, तब कपड़े धोना सचमुच बड़ा काम था । अब तू जो धोती है वह तो खेल है । और इस सारे काम के साथ महादेव को



लिखना-पढ़ना, 'यंग इण्डिया' का काम करना, लोगों से मिलना वगैरा यह सब करना होता था। उसके पास एक मिनट की फुरसत नहीं रहती थी।" मैंने कहा, "तब आप साथियों के आराम के बारे में इतना आग्रह भी नहीं रखते थे। आज तो हम लोगों को समय पर सोना, आराम करना, खाना यह सब आपके ध्यान में रहता हूँ और उस पर आपका जोर का आग्रह रहता हूँ। आपकी अपनी शारीरिक शक्ति कम होगई है। इसलिए दूसरों में भी आप कम शक्ति का अनुमान करते हैं।" बापू बोले, "यह ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि अब मैं आश्रम चलाने के लायक नहीं रहा हूँ। मैं तो अपने गज से ही सबका माप निकालूंगा न ! मैं प्रार्थना सोते-सोते कर लेता हूँ। सब ऐसा करने लगे तो कैसा दृश्य बन जाय ? मगर लोग मुझे नहीं छोड़ते हैं तो चलाता हूँ। जितना कर सकता हूँ करता हूँ।"

सरोजिनी नायडू की बात करते-करते गोखले की बात बताने लगे। गोखले का उनके बारे में मत बताने लगे। कहने लगे, "मैं तुझसे बहुत सी बातें कर लेता हूँ जो किसीसे नहीं करता। करने की हूँ भी नहीं। ऐसे ही गोखले मेरे साथ सब बातें कर लिया करते थे। उनके मित्र तो बहुत थे, मगर ऐसा कोई नहीं था कि जिसके सामने निःसंकोच अपने मन की सारी बातें वे कह सके। मुझे उन्होंने विश्वास-पात्र समझा और एकएक आदमी का पृथक्करण करके बता दिया।"

कुछ देर बाद बोले, "आज तेरा गीता का पाठ नहीं होसका, मगर यह भी तो गीता ही है न। मैं जो बातें कर लेता हूँ, वे निकम्मी तो होती ही नहीं। उनमें से जो कुछ ले सकती हो लेलेना।"

मुझे बाइबिल का वाक्य याद आया—“कानोंवाले सुनें, आंखोंवाले देखें।”<sup>\*</sup> बापू के पास तो ज्ञान का सागर पड़ा है। जितनी जिस इन्सान की शक्ति है, उतना सीख सकता है। उस सागर में से हरेक अपना प्याला भर सकता है, किसीका प्याला छोटा हो, या टूटा हुआ हो तो उसमें बापू क्या करें !

२५ सितम्बर '४२

आज बापू ने सरकार के पत्र का उत्तर लिखा। इसलिए इमला नहीं लिख सके। सुबह कलेक्टर और डा० शाह आये। शाह पहले आये। बापू का खून का दबाव बढ़ा और यह सुनकर बापू से कहने लगे, "मि० गांधी, मैं समझता था कि आप तो बड़े तत्त्वज्ञानी हैं। जिन चीजों के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उनकी चिन्ता क्यों?"<sup>†</sup>

कलेक्टर सबकी पूछ जाता है, "कोई खास बात तो नहीं है?" जब वे लोग

\* "Those that have ears let them hear, those that have eyes let them see."

† "Mr. Gandhi, I thought you were a great philosopher. You must not worry about things you can do nothing about?"

आधे तब भाई वहाँ न थे। इनके मिलने के लिए भाई की खोज होने लगी मगर वे मिले ही नहीं। बापू ने बाद में कहा, “जब ये लोग आते हैं तब हम सबको एक जगह रहना चाहिए, ताकि उन्हें हमें खोजने की तकलीफ न उठानी पड़े। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कंड़ी हैं।”

आज सुबह बापू छः बजे उठे। मैं तो चार बजे प्रार्थना के समय जाग उठी थी। मगर बकत का पता नहीं था। सबको सोता देखकर पड़ी रही। पीछे सो गई। बापू जब उठे और सुना कि मैं प्रार्थना के समय जाग गई थी, मगर बकत का पता न होने से पड़ी रही तो नाराज होगये, “क्यों पड़ी रही थी? यह कोई बात है! नींद खुल जाय तो उठना ही चाहिए।” अपने आप पर भी वे बहुत नाराज होने लगे कि क्यों प्रार्थना के समय वे उठ नहीं सके। नाश्ते में दूध नहीं लिया। खाली फल का रस लिया।

बा को आज मैंने शहद में विटामिन की गोली दी। बापू ने कल कहा था कि शहद में मिलाकर देना। मैं समझी स्वाद खराब न लगे, इसलिए शहद में देने को कहा होगा। मगर बापू चाहते थे कि बा को पता ही न चले ऐसी तरह देना है। घूमते समय इसी बारे में बात करते रहे।

शाम को घूमते समय मैंने १६, १७, १८ अध्याय गीता के ज़बानी सुनाये। मैंने बापू से कहा, “महादेवभाई बताते थे कि एक बार जल में वे आपसे अलग रखे गये थे। तब वे रोज घूमते-घूमते सारी गीता का पारायण किया करते थे। करीब डेढ़ घण्टा लग जाता था। ऐसा करते-करते उन्हें गीता याद होगई थी। उन्होंने तय किया था कि जब-तक आप से अलग रहेंगे तबतक रोज गीता का पारायण करेंगे।” बापू ठंडी सांस लेकर बोले, “हां, उसने मुझे यह सब बताया था और अब हमेशा के लिए अलग होगया।”

२६ सितम्बर '४२

आज शनिवार था। महादेवभाई को गये छः हफ्ते पूरे हुए। उनकी समाधि पर सब गये, फूल सजाये। उसमें आधा घंटा लगा। घूमते समय गीता-पाठ किया। बापू थके-से लगते थे। गरमी काफी बढ़ गई है, यही कारण होगा। खून का दबाव ठीक था, मगर खून के दबाव के होजाने से भी तो थकान होती है न।

आज सरोजिनी नायडू का जन्म-दिन है। उसके लिए उन्होंने शाम को आइसक्रीम बनवाई थी। दोपहर के खाने के समय बापू के लिए सलाद अच्छी तरह सजाई। नास्ट्रॉम\* के पत्ते और फूल, बीच में टमाटर, मूली, खीरे के टुकड़े बहुत सुंदर दीखते थे। बापू को भी आइसक्रीम खिलाई। बकरी के दूध की बनाई गई थी। कल मुससे गाजर का हलवा बनवाया था, रामनाथ (रसोइया) ने बालाई बनाई। वह हलवे पर लगाई गई। मटर का पुलाव बना; भाई ने जिन्जर केक और कढ़ी बनाई। कटेली साहब ने सूरती

\*एक प्रकार का पीधा जिसके फूल घीर पत्ते का स्वाद राई की तरह तीखा और चरपरा होता है।

जिठाई का पार्सल मंगवाया था। मीराबहन ने कमरे में नये फूल सजाये। बिजली के चूल्हे तक के चारों ओर फूल रखे गये। सरोजिनी नाथदू खूब उत्साह में थीं। ठाटबाट से तैयारी कीगई थी। इस कारण खाना आधा घंटा देरी से परोसा गया। वे बहुत खुश थीं। उनका एक गुण है कि जो भी लोग कुछ काम करें उनकी तारीफ करना, सबको रिझाकर काम करवाना। दोपहर को सब कैंदियों को जो वहां काम करने आया करते थे, और सिपाहियों को खिबड़ा और केले बांटे। उन्हें बहुत अच्छा लगा। बापू से बातें करते समय कहने लगीं, "सचमुच समझ में नहीं आता, माताएँ ऐसी पगली क्यों होती हैं!"\*

शाम को घूमते समय अंग्रेजी न जानने वालों की बातें चलीं। चर्चा मीराबहन ने चलाई थी। मने कहा, "जमनालालजी भी तो अंग्रेजी नहीं जानते थे, मगर वह अपना काम खासा चला लेते थे।" बापू कहने लगे, "मगर जमनालाल अंग्रेजी की बातें सब समझ लेता था। अंग्रेजी में प्रस्ताव वगैरा आते थे, उनमें वह एक भी चीज छोड़ता नहीं था। व्याकरण नहीं जानता था, मगर शब्दों का उपयोग ठीक जानता था। इसलिए अपने भाषणों वगैरा का तर्जमा दुस्त किया करता था। उसके जंसा बारीकी से हरेक चीज को पकड़नेवाला आदमी भाग्य से ही कहीं मिलता है। जमनालाल किसी चीज को बर्किय कामेटी में छोड़ता नहीं था। वह बुद्धिशाली था और व्यवहार-कुशल भी। वह अपनी जगह पर अद्वितीय था।"

रात को मैं और भाई महादेवभाई की बातें करते-करते ११ बजे तक बंठे रहे। जीवित के हम गुण और दोष देखते हैं। कई बार दोषों को देखकर गुणों को भूल भी जाते हैं। मगर मृत के दोष अपने आप लोप होजाते हैं। गुण-ही-गुण स्मृति में रह जाते हैं। महादेव भाई का चित्र आज हमारे सामने तो एक आदर्श और सम्पूर्ण जीवन का चित्र है। उसमें कोई कमी बिलखाई नहीं देती।

: १७ :

## घूमते-फिरते सामान्य शिक्षण

२७ सितम्बर '४२

घूमते समय मेरे हाथ में अक्सर कैंची रहती है। फूल काटने के लिए रखती है। बापू कहा करते हैं कि कैंची से ही फूल काटने चाहिए, मरोड़-कर फूल तोड़ने में हिंसा और जंगलीपन है। घूमकर लौटने पर उसे अपने

\*"Really I don't know why mothers are so silly."

ठिकाने रख देती हूँ। कई दफ़ा हाथ के नाखून उससे काटने लगती हूँ। आज बापू कहने लगे, “यह या तो व्यर्थ ही हरकतें हैं, या तुझे सचमुच ही नख काटने की जरूरत है?” मुझे कहना पड़ा कि जरूरत तो नहीं थी। बापू बोले, “तो इसको मैं सहन नहीं करूँगा।” मैंने नाखून काटना बन्द कर दिया। एक-दो चक्कर लगाये कि फिर यन्त्रबत मेरा नख काटना शुरू होगया। तुरन्त मुझे स्मरण हुआ कि बापू ने मना किया है। बन्द किया, मगर बापू ने काटते देख लिया था। कहने लगे, “मेरी आँख बहुत-सी चीजें देख लेती है, मगर मैं हमेशा टोकता नहीं हूँ। अगर ऐसा कहीं तो तेरा और मेरा दोनों का स्वात्मा होजाय।” मैंने कहा, “आपने जिस प्रकार आज कहा है, उस प्रकार कहीं तब तो घबराहट नहीं होती, मगर जब आप चिढ़ जाते हैं तब मैं परेशान होजाती हूँ। मेरी ग्रहण-शक्ति कुंठित होजाती है। गुस्से में मैं कभी कुछ सीख ही नहीं सकी हूँ। और हर किसीसे भी मैं नहीं सीख सकती।” बापू ने कहा, “यह तो बच्चों की-सी बात हुई। उन्हें रिश्ता करके सिखाना पड़ता है। तू कबतक बच्ची-सी रहेगी? कान पकड़कर तुझे क्यों नहीं बताया जासकता? अगर तू इस चीज को अपना गुण मानती है तो यह भी तेरी भूल है। मैं चाहता हूँ कि हरेक से सीखने की शक्ति रख। दत्तात्रेय के २४ गुरु थे। उन्होंने पवन, पानी, वक्ष आदि हरेक गुरु से कुछ-न-कुछ सीख लिया था।” मुझे याद आया कि जब मैंने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था तब जो भी हमारे वहाँ आजाता था उससे मैं एक पाठ सीख लेती थी। मैंने कहा, “हरेक से न सीख सकना गुण नहीं मानती हूँ। मैंने तो जो मन में आया सो कहा। सबसे और हर हालत में मैं ग्रहण करने की कोशिश तो करती ही हूँ। आप कभी कोई बात चिढ़कर बताने हैं तो पीछे से तो उसका भी असर होता ही है मगर उस वक्त विभाग सुन्न होजाता है। छुटपन से कभी किसीसे मैं गुस्से से नहीं सीख सकी।” बापू हँसने लगे, “तो एक से तो सीख।... की तो मैं बहुत-सी चीजें देखता हू। पर उसे कभी कुछ कहता ही नहीं, कहने से कुछ फायदा भी नहीं!... भी बहुत-सी ऐसी बातें कर लेती हूँ, जो मुझे अच्छी नहीं लगतीं। उसे भी अब कुछ नहीं कहता। एक वक्त था कि उसे काफी कह लेता था और वह मुझसे कहती थी कि और भी बताते जाओ। मगर अब वह सिलसिला टूट गया है। मुझे बताता रहता हूँ। जबतक तू सुनेगी, बताऊँगा।” मैंने कहा कि मैं सुधारने की कोशिश तो करती ही हूँ। बापू बोले, “तभी तो मैं बताता हू। जो बताना ही चाहिए उतना कहकर सन्तोष मान लेता हूँ। काफी छोड भी देता हूँ।” मैंने कहा, “आप छोड देते हैं, तो उससे मन में धोखा-सा पंदा होता है कि अब सीखने-जैसा कुछ रहा ही नहीं, हमने सब सुधार लिया है।” बापू बोले, “अगर ऐसा हो तो वह होने देना चाहिए। मैं अभी बाइबिल में जोब (Job) का वर्णन पढ़ रहा हूँ। वह ईश्वर का परम भक्त था। ईश्वर ने शैतान को बुलाकर कहा कि तू उसकी परीक्षा कर सकता है; पर एक बात है, सब कुछ करना, मगर उसे मार न डालना। शैतान एक बार हारकर जाता है। ईश्वर उसे दुबारा भेजता है। जोब को ‘किस्मत से राम मिला जिसको’ इस भजन

मैं बताई तीनों जगह मिलती हैं। पीछे वह चिल्ला-चिल्लाकर ईश्वर की शिकायत करता है। लोग उसे समझाने जाते हैं तो चिड़ता है, “मेरे पास एक बाघा, रह गई है। मैं ईश्वर के पास चिल्लाकर शिकायत करता हू तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है?” जब जोब-जैसा भक्त भी कड़ी परीक्षा सहन नहीं कर सका तो साधारण लोगों की तो बात ही क्या है?” मैंने कहा, “मैं प्रयत्न तो करती ही रहती हूँ कि मैं छुई-मुई न बनी रहूँ। यद्यपि कई बार असफल होजाती हूँ, तो भी कुछ तो सुधार होगा ही। माताजी ने तो कुछ नहीं कहा, मगर कई और कहा करते हैं कि बापू के पास जाकर तुम इतना तो फायदा हुआ है कि तेरा गुस्सा बहुत शान्त होगया है।”

बापू हंसने लगे, “तो उसका यश भी मुझे मिलता है तुझे नहीं।” फिर गम्भीर हो गए और कहने लगे, “यह हम लोगों की विशेषता है। अच्छा होता है तो यश मुझे देंगे, किन्तु बुरा होता है तो दोष नहीं देंगे। अंग्रेजों का इससे उलटा है। वे अब मुझे सबसे अलग करके सारे तूफान की जड़ मुझे ही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं।”

मैंने कहा, “वे भी एक दिन समझेंगे, इसमें शक नहीं है।”

बापू बोले, “यह तो है, मेरे जीतेजी नहीं समझे तो मेरे पीछे जोन आर्क (Joan of Arc) जैसा होनेवाला है। और मेरी मृत्यु से लोगो की शक्ति तो बढने ही वाली है।”

मैंने कहा, “मानिये कि सरकार आपको मार डाले तो इससे जरूर एक शक्ति पैदा होगी, मगर आप खुद उपवास करके या स्वाभाविक मृत्यु से चले जायें तो उसमें इतनी शक्ति पैदा नहीं होसकती।”

बापू बोले, “हा, यह मैं मानता हूँ। इसीलिए तो बैठा हूँ। भगवान् को जो करना होगा करेगा। मेरा अध्ययन भी ऐसा बन गया है। बाइबिल है तो उम्रमें भी बस ईश्वर की ही महिमा भरी है। और उसमें भी मैं अब भजनों के हिस्से पर आ-गया हूँ। लुई फिशर की किताब† भी उसी तरह नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी रोज पढ़ता हूँ और रामायण को तो मैं सर्वोपरि ग्रन्थ मानता हूँ।”

मैंने बीच में कहा, “आपके राम में और तुलसीदास के राम में बहुत साम्य है। राम के पास बन्दर थे, आपके पास बिना हथियारवाले स्त्री-पुरुष और बालक। राम भी भक्त-वत्सल थे। जैसे वह सबके साथ मनुष्य होकर रहते थे, वैसे आप हमारे बीच रहते हैं।”

बापू बोले, “यह तो दूसरी बात हुई। रामायण की भाषा मुझे पकड़ लेती है। सगीत भी पकड़ लेता हूँ। मैंने अपना अभ्यास ऐसी चीजों का ही रखा है। दूसरी चीजें जान-बूझकर छोड़बी हैं, नहीं तो मैं साहित्य तो बहुत पढ़ सकता हूँ। रस तो भरा ही पड़ा

†‘Men & Politics’ by Louis Fisher

हैं। कोई रस सूखता नहीं है। मगर मैंने अपने काम की चीजें चुनली हैं। मैं सरकार को भी आज पत्र लिखता हूँ तो सिर्फ उसकी जानकारी के लिए; दलील करना मैंने छोड़ दिया है। भाषा का डंक निकल गया है। शुद्ध अहिंसा ही उसमें भरी है। मैं देखता हूँ कि बाहर कुछ हिंसा भी होती है। मगर अधिकतर तो अहिंसा ही चल रही है। इसीलिए मैंने निश्चय किया है कि इस बार आंदोलन बन्द नहीं करूँगा। यह आन्दोलन अप्रेजों के प्रति मेरे प्रेम का नतीजा है। मैं उसे बन्द करूँ तो उनके प्रति और सबके प्रति अपना धर्म चूकूँ।”

शाम को घूमते समय गीता का क्रम चला। ८-२० पर रात बापू ने मौन लिया।

२८ सितम्बर '४२

सबेरे साढ़े तीन बजे बापू ने प्रार्थना के लिए उठायी। मैंने बापू को पीने के लिए गरम पानी दिया। फिर बतौन करने जा रही थी कि इतने में भाई अपना हजामत का सामान लेने आए और बस खड़े-के-खड़े ही रह गये। हृदय के पास जोर का दर्द हुआ। दर्द बाएँ कंधे में जाता था। नरज घोमी थी। नागपुर जेल में भी ऐसा ही दर्द उन्हें हुआ था। मगर उसके वर्णन से मुझे ऐसा लगा कि दर्द हृदय से संबन्ध नहीं रखता, छाती के स्नायुओं से रखता है। मगर आज का दर्द एंजाइना पेक्टोरिस (Angina Pectoris)\* जैसा लगा।

मैंने उन्हें लिटाया। कम्बल ओढ़ाया। बा के लिए ऐसे दर्द के लिए जो दवा आई हुई थी उसका असर देखने के लिए मैंने वह उन्हें सुंघादी। बाद में भी उन्हें छाती में कुछ खिंचाव - सा लगता रहा। मगर दर्द चला गया। मैं काफी डर गई थी। मगर हृदय को मजबूत करके सब करती रही। सोचती थी, ईश्वर अब और क्या करने वाला है।

प्रार्थना के बाद बापू फिर सो गये। सुबह घूमते समय गीता पढ़ी। भाई को बहुत कहा कि आज आराम कर ले, मगर वे नहीं माने। कहने लगे, “अब तो कुछ है ही नहीं। मैं तो भूल भी गया हूँ कि कुछ हुआ था।”

डा० शाह आये। भाई से कहने लगे, “मैंने तुम्हें जवान-तन्दुरुस्त आदमी समझकर छोड़ दिया था। डाक्टरों की परीक्षा तक नहीं की थी। मगर अब तुम परेशान करने लगे हो!” उन्होंने अच्छी तरह परीक्षा की, मगर कुछ मिला नहीं।

शाम को समाधि-स्थान के लिए फूल इकट्ठे कर रही थी, इतने में बापू निकल गये। मैंने उन्हें जाते देखा नहीं। समाधि पर पहुँचकर थोड़ी देर उन्हें मेरी राह देखनी पड़ी। समाधि की बीचार सजाने के लिए भी फूल ले गई थी। मीराबहन नाराज होगईं। बोलीं, “क्यों इतने फूल लाती हो? बापू का भी समय जाता है।” फूल सजाने की सारी खुशी मारी गई।

शाम को कुछ जुकाम-सा लग रहा था। मीराबहन ने गले पर मालिश की।

\* हृदय का खतरनाक दर्द, जो प्रायः प्राण-घातक सिद्ध होता है।

सोने को कुछ देर से गई। सरोजिनी नायडू से बातें होरही थीं कि बापू के जन्मदिन को क्या करना है।

गर्मा बहुत पड़ने लगी है। दोपहर को तो बम-सा घुटता है।

२६ सितम्बर '४२

सुबह समाधिस्थान से लौटरहे थे तब धुंध थी। उसमें दूर के आधे छिपे वृक्ष देखकर भाई बोले, “यह चित्रकारी में कितना अच्छा दिखे। अब तुम फिर चित्रकारी शुरू करदो। उससे पहले ड्राइंग अच्छी तरह सीख लेना।” मैंने कहा, “मेरे पास इतना समय कहाँ है?” इस पर कहने लगे कि हार मान बैठने की तेरी मनोवृत्ति बन गई है। हँसी की बात थी। इतने में हम बापू के पास पहुंच गये। मैंने उनसे कहा, “भाई कहते हैं, ड्राइंग सीखो, चित्रकला, संगीत व साइन्स का गहरा ज्ञान हासिल करो, भाषाएं सीखो & मैं कहती हूँ, यह सब नहीं होसकता तो नाराज होते हैं। या तो मैं चुपचाप सुनती रहूँ, उत्तर न दूँ यह समझकर कि यह सुनने की बात है करने की नहीं, या साफ कहदूँ कि आप जो कहते हैं वह मेरे-जैसा तो कर नहीं सकता, कोई विलक्षण शक्तिवाले लोग भले कर सके।”

बापू कहने लगे, “वह जो कहना चाहता है, वह यह है कि सच्ची शिक्षा में बचपन से ही संगीत सिखाया जाना चाहिए। इससे कंठ का विकास होगा। चित्रकला, ड्राइंग इत्यादि ही से हाथ का विकास कराया जायगा, इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई संगीत और चित्रकला के विशारद होजावेंगे। मगर वे इन चीजों को समझ सकेंगे, थोड़ा-बहुत गा-सकेंगे, थोड़ी-बहुत चित्रकारी कर सकेंगे। यही भाषाओं के बारे में है।” मैंने कहा, “छुटपन से सब किया हो तो अलग बात है। मगर आज मैं किस-किस चीज के पीछे भागूँ?” बापू कहने लगे, “हां, आज तो तू एक ही चीज के पीछे पागल बन सकती है। वह है डाक्टर, जिसके पीछे इतने साल खर्च कर चुकी है।”

भाई बोले, “डाक्टर के बारे में भी मैं कहता हूँ तो यह ऐसा ही जवाब देती है। अच्छा डाक्टर बनने के लिए इसे रसायन-शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, रोग के कारण शारीरिक विकार को समझने के लिए रेडियोलॉजी (Radiology)\* और पैथोलॉजी (Pathology)† का खास ज्ञान होना चाहिए। एक्सरे की मशीन में साधारण खराबी होजाय तो उसे ठीक करना आना चाहिए या नहीं? डाक्टर के पास समय नहीं रहता, इसलिए भले वह सब काम खुद न करे, किसी और से करवाले, मगर उसका ज्ञान तो इतना होना ही चाहिए कि जरूरत पड़े तो सब कुछ खुद कर सके।”

मैंने कहा, “मैं तो भानती हूँ कि इनमें से हर-एक चीज का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आजीवन मेहनत की आवश्यकता है। नहीं तो डाक्टरों की इतनी शाखाएं

\*शरीर के भीतर के चित्र उतारने का शास्त्र

†रोग-निदान

बनती ही क्यों? एक आवमी सब कुछ करना चाहे तो रोगी को न्याय नहीं देसकता। बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी इत्यादि की रिपोर्टों पर से निर्णय पर आने की कला तो डाक्टर जरूर जाने, मगर हरएक शाखा का सूक्ष्म ज्ञान और उसकी कुशलता रखना में असम्भव मानती हैं। डाक्टर एक विषय का विशेषज्ञ हो और अन्य सब विषयों का एक सामान्य डाक्टर के जितना ज्ञान रखे। विशेषज्ञ न हो तो काम चलाना ही पड़ता है। सेवाग्राम में मेरे पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं, मगर जो सब परीक्षाएं एक अच्छी खासी प्रयोगशाला में होसकती हैं, सेवाग्राम में आज नहीं होसकतीं। अगर रोगी को न्याय देना हो, प्रत्येक वस्तु की सर्वोत्तम चिकित्सा करनी हो तो सब विशेषज्ञ मिलकर काम करे ताकि एक फीस में से मरौज को सबकी सेवाएं मिल सकें। मगर हरएक सब चीजों के विशेषज्ञ बनना चाहें तो वह कठिन काम है।”

बापू बोले, “यह सब तो हुआ, मगर मैं पूछता हूँ कि क्या आज ये सब बातें अप्रस्तुत नहीं हैं? जब बाहर जायेंगे तब देखा जायगा। हमारे सामने भगीरथ काम पड़ा है। हम पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहते। या तो आजाद हिन्दुस्तान में बाहर जायेंगे या यहाँ मर मिटेंगे, यह हमारा सकल्प है, यदि प्रभु ने उसे फलित किया तो।” मैंने कहा कि फलित क्यों नहीं करेगा? बापू बोले, “कैसे करेगा, क्यों करेगा, अगर हम जो इस भगीरथ काम के मुखिया हैं वही अपना समय फिजूल बातों में खोदेते हैं। हमारा तो एक-एक क्षण, एक-एक सांस उसी काम की साधना में जाना चाहिए। हम एक-एक शब्द तौलकर बोलें, अनावश्यक बात बिल्कुल न करे, तब कहीं हम अपने काम के निकट पहुंच सकते हैं। आज हमारे सामने जेल है। हम यहाँ अपने समय का उपयोग कैसे करे, यह सवाल है। मैं देखता हूँ, यहाँ कितना ही समय नष्ट होता रहता है। मुझे यह चूभता है। मैंने खुद तो अपना कार्यक्रम बना लिया है। अपने-आप वह बन गया है। बाइबिल है, लुई फिशर की किताब है, उर्दू है, कुरानशरीफ है। इन सबका अभ्यास नियमित चलता है। मुशीला का भी कार्यक्रम बना है, उसे वह पूरा करे। सो आज तुरत हमारा क्या धर्म है, हमें उसीका विचार करना चाहिए।”

इसके बाद प्रसंग बदलते हुए बापू ने कहा, “मैं तेरे साथ मीराबहन की बात करना चाहता था। कल फूलों की बात पर तू इतनी घबराहट में क्यों पड़ी थी? यहाँतक कहने लगी कि मैं अब फूल इकट्ठे नहीं करूँगी। ऐसा क्यों? जो हमारा धर्म है उससे क्यों चूकें? कोई भले ही कुछ कहे।” मैंने कहा, “इसमें धर्म की बात नहीं, फूल लेजाकर हम मृत की तो कोई सेवा नहीं करते; अपने सन्तोष के लिए लेजाते हैं। मीराबहन नाराज हुई तो मैंने सोचा अब नहीं लाऊँगी।” बापू कहने लगे, “हां, किन्तु यदि फूल चढ़ाकर उसमें से हम कुछ प्रेरणा लेते हैं, हमारी निष्ठा को कुछ दृढ़ता मिलती है तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो यह फिजूल ही है। मगर मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी बातों से उद्विग्न क्यों होना चाहिए और इतनी जिज्ञासा भी क्यों रखनी चाहिए कि हमारे बारे में किसीने क्या कहा था! हम उसी हृदयक जानने की इच्छा रखें जहाँतक वह हमारे



आत्म-सुधार के लिए आवश्यक हूँ, जिज्ञासा की खातिर नहीं।”

रात मेरे सिर में खूब दर्द था। मीराबहन ने प्यार से आकर सिर पर दर्द की दवा लगाई। विलायती मगनेशिया के जुलाब की एक मात्रा पिलाई, बिस्तर में सुलाकर बबाने लगीं। मैंने इन्कार किया, मगर उन्होंने नहीं माना। मैंने कहा, “मीराबहन, बस कीजिए। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं परेशानी महसूस करती हूँ। मैंने इस किस्म की सेवा किसीसे नहीं ली।” वह बोली, “तब तो और भी जहरी है कि तुम ऐसी सेवा लो।” बहुत प्यार से मुझे चादर ओढ़ाई। दो-चार मिनट छोटे बच्चों की तरह थपकी देकर कहने लगीं, “अच्छी, नन्ही बकरी!”\* सब हस पड़े। मीराबहन बकरियों को इतना प्यार करती है कि अपनी कोमलतम भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्हें बकरियों का सहारा लेना पडा।

३० सितम्बर '४२

सुबह घूमते समय मैंने बापू से मीराबहन की बकरीवाली बात कही। कहने लगे, “मीराबहन में एक बड़ा गुण है। उसके निकट मनुष्य, पशु, वृक्षों और फूलों में कोई फर्क नहीं है। उसे बकरियों से बातें करते तो तूने सुना होगा। फूल-पत्तों से भी वह बातें करती है। और कल रात उसने बिना किसीके कहे वह सब तेरे लिए किया।” मैंने कहा, “उनमें गुण तो भरे ही हैं, नही तो अपने राजा-समान पिता के घर को छोड़कर वह यहां भागकर क्यों आती।” बापू बोले, “हां, यह बात तो है।”

आज मैंने उपवास किया। खाली सूप पिया। शाम को अच्छा लगता था। मीराबहन पूछने आई कि कोई सेवा या मदद चाहिए तो बताना। सरोजिनी नायडू कह रही थीं, “मीरा तुम्हारे लिए कल रात बहुत चिन्तित थी। वह तुम्हें बहुत चाहती है और मुझे मालूम ही न था कि वह प्यारेलाल को भी इतना चाहती है।” मैंने उन्हें कल रात की बकरी-वाली बात बताई। कहने लगीं, “बकरी के साथ उपमा देने से अधिक प्रशंसा वह किसी-की और क्या करती?”

: १८ :

## जेल में बापू का पहला जन्म-दिन

आज हम सबने काफी समय यह सलाह करने में खर्च किया कि बापू के जन्म-दिन को हमें क्या करना है। सरोजिनी नायडू ने बात शुरू की। पीछे सब अपने-अपने सुझाव देने लगे। रात को मैं आई तो आठ बजकर इस मिनट होगये थे। बापू कुछ समझ गये होंगे। कहने लगे, “तुम लोग क्या हवाई महल बनारहे

\*‘Nice Little goat !’

थे ?" वे हंस रहे थे। मैंने हंसी में कहा, "बहुत अच्छी-अच्छी चीजों की बातें कर रहे थे। उनमें बाइबिल भी थी। सरोजिनी नायडू विचार कर रही हैं कि यहाँ जो लोग हैं उनके सामान्य ज्ञान की परीक्षा लीजाय, इसलिए पर्चा तैयार कर रही हैं। उसमें बाइबिल के उद्धरण भी आवेंगे !"

बा की रात अच्छी नहीं गई। बापू को शक था कि कुछ खाने में बदपरहेजी हुई होगी।

१ अक्टूबर '४२

कल बापू का जन्म-दिन है। बापू के घूमने जाने के बाद फूल लटकाने के लिए दीवारों में कोले लगादी गई। बापू ने दोपहर को कहा, "देखो, सबसे कह दो, सजावट नहीं होनी चाहिए। सजावट हृदय के भीतर की हो।" मैंने हँस दिया। सरोजिनी नायडू ने मुझे बापू को यह संदेश देने को कहा था कि वे कल दोपहर तीन बजे का समय खाली रखें। जब मैं यह संदेश देरही थी तब बापू ने सजावट न करने की बात कही। फिर पूछने लगे, "तीन बजे क्या है?" भाई कहने लगे, वह तो अत्यन्त गुप्त वस्तु है। सरोजिनी नायडू से मैंने बापू का सजावट न करने का संदेश कहा तो हँसने लगी, बोलीं, "बापू हमको, खासकर मुझे, अपना बिल बहलाने से नहीं रोक सकते।"

मीराबहन ने यह सुना तो कहने लगीं, "बापू ऐसा कहते हैं तो फूल सजाने की बात छोड़ें।" सरोजिनी नायडू ने कहा, "नहीं, तुम सब दोष मुझ पर डाल देना। मुझे यह आवेश कहां दिया गया था कि जेल में भी गांधीजी के हुक्म का पालन करें !"

बा दो तीन-दिन पहले कहरही थीं, "बापू के जन्म-दिन पर हम हमेशा गरीबों को खाना बांटते हैं। इस बार ऐसा नहीं कर सकेंगे।" मैंने कहा, "क्यों नहीं?" बा ने उत्तर दिया, "बापू कहते हैं, यह जेल है और सरकार का पंसा इस तरह खर्च नहीं किया जा सकता।" मैंने बा को बताया कि हम लोग अपने-अपने पैसे से सामान मगवा रहे हैं, सरकार के पैसे से नहीं, और सबको बांटेंगे। बा खुश हुई। मालिश के समय बापू की गाँवों के ऊपर कील ठोकने के निशान देखकर बोलीं, "यहाँ फूल नहीं लगाना। दरवाजे में तोरण भले बांधो। यहाँ यह सब डोग नहीं चाहिए।" सिपाही उस वक्त तो चला गया, मगर पीछे से कील लगा गया। लेडी ठाकरसी के यहाँ से सब्जी की टोकरी लेआया। पहले शहव आया था, फिर गुड़ भी। गुड़ की टाफी मैंने कल ही बनाली थी। बापू से सरोजिनी नायडू कहने लगीं, "बापू, कल आपको एक सभ्य मनुष्य की तरह भोजन मिलेगा।"

बापू हँस दिये। पूछा, "वह कैसे?"

श्रीमती नायडू ने उत्तर दिया, "विशेष प्रकार का सूप, फूल गोभी, रोटी, कच्ची सब्जी आदि सभी वस्तुएं बारी-बारी से और ठीक तरीके से परोसी जायंगी।" बापू हँस दिये। सरोजिनी नायडू को इन्कार न कर सके।

हमारे जेल सुपरिन्टेन्डेंट बहुत-से फूल लाये। हम लोगों ने उनके हार बनाये। बापू

के सोने के बाव बापू के दरवाजे में बैठने की जगह पर, दीवार पर, सामने अल्मारी पर, महादेवभाईवाले कमरे में और सरोजिनी नायडू के कमरे के दरवाजों पर मालाएँ लटकादीं। सीढ़ियों पर मैंने और भाई ने “जीवेम शरवः शतम्” यह पूरा मंत्र सफेद रांगोली में लिखा। भाई ने पहले कोयले में लिखा। उनके अक्षर ज्यादा अच्छे हैं। मैंने उस पर रांगोली डाली। एक-एक सीढ़ी पर मन्त्र की एक-एक पंक्ति थी—

जीवेम शरवः शतम्,  
पश्येम शरवः शतम्,  
शृणुयाम शरवः शतम्,  
प्रब्रवाम शरवः शतम्,  
भूयश्च शरवः शतात् ।

दूसरी तरफ सीढ़ी पर उसी तरह—‘असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय’ यह मंत्र भाई ने लिखा। इसका आगे का मुख बाहर की ओर था और प्रथम मंत्र का भीतर की ओर। विचार था कि एक ओर से बापू को घूमने के लिए नीचे लेजावेंगे और दूसरी ओर से वापस लायेंगे ताकि एक मंत्र उतरते समय सीधा सामने हो, दूसरा चढ़ते समय। दोनों तरफ की सीढ़ियों की बीच की जगह पर रांगोली से चित्र बनाये थे। बरामदे में ‘मुस्वागतम्’ लिखा। यह सब लिखते-लिखाते मुझे रात के १२ बज गये। मुझे डर लगा और भाई भी डरे कि कहीं बापू उठ गए तो नाराज होंगे। कहने लगे, “अब जो रह गया हूँ सो छोड़दो, मुबह देखा जायगा।”

मुबह उठी तो देखा रांगोली खतम होगई थी। अतः जो रह गया था, रह ही गया। सरोजिनी नायडू ने रात को साढ़े ग्यारह बजे चाय बनाकर पिलाई। कहने लगीं, इससे ताजा होजाओगी। जिस टोकरी में मैं महादेवभाई की समाधि पर रोज फूल लेजाती थी, उसमें फूल, बादाम, टाफी की बोटल, शहद की बोटल आदि सामग्री रखी गई। उसे फूलों से मीराबहन ने सजाया। उनमें कला-वृत्ति स्वाभाविक रूप में है। सब जगह फूल सजाने का भार उन्होंने लिया था। सरोजिनी नायडू के जिन्मे सामान्य देखरेख थी। वे बंठी-बंठी कल के लिए रात के साढ़े बारह बजे तक मटर के दाने निकालती रहीं।

मीराबहन ने सबरे खाने के समय बकरी के बच्चे को बापू से प्रणाम कराने को लाने का विचार किया था। भाई ने सूचना की कि उनके गले में ‘सहनाववतु’\* वाला मन्त्र लिखकर लटका दिया जाय। मीराबहन को यह विचार अच्छा नहीं लगा। पहले तो बे इधर-उधर के ऐतराज करती रहीं मगर सरोजिनी नायडू ने बताया कि उनके खयाल से जो विचार मूल में मीराबहन का था, उसमें दूसरे लोग बखल न दें तो अच्छा है। भाई

\*आश्रम में भोजन करते समय इससे धारभ किया जाता था। वह मंत्र यह है :  
सहनाववतु, सहनीभुनक्तु, सहवीर्यं करवावहै ।  
तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै ॥

ने उनकी अच्छी देखकर फौरन ही अपनी सूचना वापस लेली। मुझे यह थोड़ा चुभा। मैंने भाई से कहा, “यह अफसोस की बात है कि मीराबहन ने आपकी सूचना नापसंद की; उससे तो बापू खुश होते और बकरी के बच्चों से प्रणाम करवाना बहुत शोभायमान होता।” भाई ने उत्तर दिया, “हां, बकरी के बच्चों के साथ ऐक्य की बात से बापू बहुत खुश होते, मगर उसे छोड़ना ही ठीक था। आखिर आज के दिन की खासियत तो यही है कि हम सबके साथ एकरस हों, परस्पर मिठास हो और जो चीज किसी और को पसन्द न हो उसे खुशी से छोड़ दें।”

रात को मेरे सोजाने के बाद मीराबहन अपने-आप भाई के पास आई और बकरी के बच्चे के लिए ‘सहनावबतु’ वाला मंत्र लिखने का अनुरोध किया। वह साबुन का एक खाली डिब्बा लाई। उसमें से पान की शकल के गले काटकर भाई ने उन पर ‘सहनावबतु’ मंत्र लिखा और नीचे लिखा ‘मोटा भाई घणु जीवो’ (बड़े भाई आपकी बड़ी उम्र हो)। ये गले बकरी के बच्चे के गले में लटकाये जावेंगे। बापू बकरी का दूध पीते हैं, तो बकरी के बच्चों के बड़े भाई हुए न। मैं रात बारह-साढ़े बारह बजे बिस्तर पर पडी थी, आंखें जलती थीं। भाई ने मिट्टी की पट्टी आंख के लिए बनादी थी, आंख पर रखकर सोई; पर नींद नहीं आई। एक बजे के बाद सोसकी। नींद ही उठ गई थी। ३-२० पर बापू ने प्रार्थना के लिए उठाया। मिट्टी की पट्टी से आंख को बहुत आराम मिला था।

२ अक्टूबर '४२

सरोजिनी नायडू और मीराबहन, दोनों ने उन्हें प्रार्थना के लिए आज जगाने को कहा था। मैं गई तब सरोजिनी नायडू तो जग ही रही थी। वह रात भर सो ही नहीं सकी। मीराबहन को गहरी नींद से जगाना पडा। बापू के लिए पहला आश्चर्य तो इन दोनों का प्रार्थना में आना और दरवाजे और दीवार पर लगे हुए फूल देखना था। मीराबहन ने भजन गाया, “जागिये रघुनाथ कुंवर।” उन्हें सुबह का एक यही भजन आता था, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। प्रार्थना के बाद मैंने देखा कि एक सिपाही रांगोली भर रहा था। बा भी आज प्रार्थना के लिए उठी थीं। मीराबहन ने प्रार्थना से पहले बापू को प्रणाम किया; मैंने, भाई और बा ने प्रार्थना के बाद। बापू प्रार्थना के बाद सोगये, बा भी। सरोजिनी नायडू, मीराबहन, भाई और मैंने स्नान किया। मैं बापू के लिए मौसम्बी का रस निकालरही थी तभी बापू उठकर भीतर आये।

प्रार्थना के समय दीवार पर फूल देखकर बापू ने बा से कहा, “तू नहीं रोक सकी न इनको?” बा ने कहा, “मैंने सना तो किया था मगर नहीं माने।” बापू ने सरोजिनी नायडू से कहा, “मुहब्बत भी किसी पर लावनी नहीं चाहिए।” सरोजिनी नायडू ने दीवार पर से फूल उतरवा दिये और सीढ़ी के पास रख दिये।

नाश्ते के लिए बापू आये तो फल को टोकरी सजी हुई सामने रखी हुई थी। सरोजिनी नायडू ने आकर फूल का हार पहनाया और मीराबहन ने सूत का। हमारे जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० कटेली ने भी फूल का हार पहनाया। साथ में ७५) ६० हरिजन

काम के लिए भेंट किये और सादर प्रणाम किया। मैंने अपने सूत का हार बनाया था। भाई आये, कहने लगे मुझे भी बनादो। वह रस निकालने लगे। मैंने उनके और बा के सूत के हार बनाये। रांगोली के ७४ निशान सूत के हारों पर लगाये। नीचे एक गेंदे का फूल बांध दिया। भाई ने पूछा, "क्या महादेवभाई का सूत नहीं है?" मैंने जल्दी से निकालकर एक हार उसका भी बनाया।

बापू नाश्ता कर रहे थे, इतने में मीराबहन और भाई एक-एक बकरी के बच्चे को लिये हुए आपहुंचे। दोनों बच्चों के गले में फूल-पत्तों के हार और 'सहनाबवतु' मंत्रवाले गत्ते लटकरहे थे। मीराबहन ने उनकी ओर से एक छोटी-सी सुन्दर स्तुति कही और बकरी के बच्चों से हाथ जोड़कर प्रणाम कराया। फिर बापू के हाथ से उन्हें रोटी दिलवाई। मगर उससे पहले ही उन्होंने एक-दूसरे के गले के फूलों और कोमल पत्तियों के पहनाये हुए हारों को ही खाना शुरू कर दिया था। बापू बहुत हंसे। मैंने उन्हें अपने और बा के सूत का हार पहनाया। बा ने कहा था कि उनके सूत का हार भी मैं ही पहना हूँ। भाई ने अपना हार पहनाया। इसके बाद घूमने को निकले। रास्ते में बापू ने हमारी रांगोली और सीढ़ी पर लिखे मंत्र देखे। सारी फूल मालाएं और टोकरी के फूल महादेवभाई की समाधि पर लेगये। वहां दीवार पर सब सजा दिये। रोज की प्रार्थना की। प्रार्थना से पहले भाई ने महादेवभाई के सूत का हार बापू को पहनाया। बापू और भाई की आंखों में पानी आगया। आज खास तौर से प्रार्थना के समय ऐसा आभास होता था मानो महादेवभाई हमारे साथ ही खड़े प्रार्थना बोलरहे हैं।

घूमते समय बापू ने पूछा, "तूने भर्तृहरि की कथा सुनी है?" मैंने कहा, "जी हां, सुनी तो है।" बापू बताने लगे, "योगी होने के बाद अन्त में भर्तृहरि को अपनी पत्नी के पास भीख मागने जाना था। जाता है तो अपने भाई का और उसके प्रति अपने बताव का स्मरण करके कहता हूँ, 'अरे जखम जोगे नहीं जशे'।\* यही बात महादेव के चले जाने के घाव पर भी लागू होती है।" यद्यपि बापू अपना दुःख व्यक्त नहीं करते, मगर महादेवभाई के जाने से उन्हे बहुत गहरा घाव लगा है।

बा को मालिश और स्नान करवाकर मैं सरोजिनी नायडू की भवव के लिए गई। उन्होंने मटर का पुलाव बनाने को कहा था। बंगन का रायता बना दिया। बापू के खाने की तैयारी की। मीराबहन ने खाने की भोजपोश के फिनारे फूलों की बेल और फूलों का सुन्दर स्वस्तिक बनाया। दरवाजे पर लाल रांगोली का सुन्दर स्वस्तिक बनाया था। एक तयतरी में फूलों से सजाकर फल रखे। मीराबहन ने कच्ची सब्जी भी सुन्दर ढंग से सजाई। टमाटर को गुलाब के फूल के आकार में काटा था।

साढ़े दस बजे कलेक्टर और डा० शाह आये। डा० शाह तो अच्छी तरह

\*'योगी होने पर भी यह घाव मिट नहीं सकता।'

बातें करते रहे। कलेक्टर ने तो इतना ही कहा, “अपनी बर्गगांठ के बिन आप कैसे हूँ?” बापू कुर्सी पर बैठे थे ताकि उसके आने पर खड़े होकर हाथ मिला सकें। नीचे गद्दी पर बैठकर उठना उनके लिए कठिन रहता हूँ। कलेक्टर के आने पर खड़े हुए, हाथ मिलाया। मुझे यह अच्छा नहीं लगा, बापू क्यों कलेक्टर की खातिर खड़े हों? अगर बापू तो मर्यादा की मूर्ति हूँ। जो करना चाहिए उसमें कभी नहीं चूकते। वे दूसरा कर नहीं सकते थे। कंदी की हैसियत से उन्हें कलेक्टर का मान रखना चाहिए था। नाश्ता करते हुए बापू ने कहा कि मैं जन्म-दिन पर उपवास किया करता हूँ और दूसरों से भी उनके जन्म-दिन पर करवाता हूँ। आज मुझे फल और सब्जी पर ही रहने दें। मैंने कहा, “नहीं, फल और दूध लीजिए।” सरोजिनी नायडू ने कहा, “साग तो खाना ही होगा।” आखिर एक रोटी को छोड़कर बाकी सब कुछ लिया। खाने के बाद पंर के तलबों पर मालिश करवाकर बापू सोगये। बा भी आज उत्साह में थीं। उन्होंने कल आज की तैयारी में सिर धोया था। आज नया टीका लगाया, बालों में फूल लगाये। खायी भी अच्छी तरह। मैं और मीराबहन दोपहर काफी सोये, बा भी। सब थक गये थे।

सरोजिनी नायडू ने दोपहर को आराम नहीं किया। सिपाहियों और कंदियों के लिए दाल, सेब, पेड़े, जलेबी और केले मंगाये थे। सबका हिस्सा करके उन्होंने रखा। यह सब अपने, मीराबहन के और मेरे पैसे से मंगाये थे। तीन बजे सब कंदी आकर लाइन में बैठ गये। बापू ने आकर उन्हें दर्शन दिये— नमस्कार किया। बा ने सबको खाने का सामान बांटा। वह बहुत खुश थीं। बापू भी कंदियों को खाते देखकर बहुत खुश हुए। आज सुबह सब सिपाही बापू को प्रणाम करने आए थे। सबको बापू ने कुछ-न-कुछ फल दिये थे। घूमते समय बापू कह रहे थे, “सिपाहियों को तो फल दिये, अगर कंदियों को तो कुछ दिया ही नहीं।” मैंने कहा—देंगे। आप देखते रहिये। दोपहर को कंदियों को खाने की चीजें मिलती देखकर वे बहुत खुश हुए। जेल में कंदी लोग मामूली-मामूली चीजों के लिए भी तरस जाते हैं। कटेली साहब ने सबके लिए आइसक्रीम बनवाई। बापू के लिए तो बकरी के दूध की बनाई और अपने हाथ से मशीन चलाई। आज बापू ने शाम को खाने के समय तीस वर्ष के बाद थोड़ी आइसक्रीम सरोजिनी नायडू के आग्रह के बश होकर खाई। हम सबने पेट भरकर खाई। सब सिपाहियों और कंदियों को भी दी। बापू खुश हुए। बोले, “इन लोगों को जेल में ऐसी चीजें देखने को भी नहीं मिलतीं।” शाम को महादेवभाई की समाधि पर नए फूल रखे।

शाम को प्रार्थना में ‘बंणबजन तो’ भजन गाया। प्रार्थना के बाद मैं बापू को बरामदे में ले गई। फव्वारे और रेलिंग पर दीपमाला थी। सुन्दर दृश्य था। बा ने कहा, “शंकर (महादेवभाई) के जहां भी दीया रख आना।” मैं और भाई सिपाहियों के साथ वहां सात दीये रख आये।

रात हम सबने और आइसक्रीम खाई। इससे मेरा पेट बिगड़ा। बापू रात बिस्तर पर लेटे तब कहने लगे, “यह सब जो तुम लोगों ने किया है, उसके औचित्य में मुझे

शक है।" उन्हें लगता था कि हम कैदी हैं और कैदियों को ऐसे उत्सव क्या मनाना था ?

३ अक्तूबर '४२

सुबह प्रार्थना के बाद मैं फिर सो गई। रात की आइसफीम ने कुछ तबीयत बिगाड़ी थी। घूमते समय बापू ने सुबह न उठ सकने के बारे में कुछ पूछा तो कारण बताना पड़ा, (हालांकि सरोजिनी नायडू ने कहा था, "हुआ क्या, रोज-रोज थोड़े ऐसा होता है। अब इस बारे में बापू और मीरा को न बताना। मीरा तो सालभर के बाद भी आइसफीम को दोष दिया करेगी।") बापू सुनकर हंस दिये। बोले, "मेरे कहने से तू न खाती तो इतना असर नहीं होसकता था। मगर अब तकलीफ हुई। इसलिए शायद आगे ऐसी भूल न करेगी।" फिर बापू बताने लगे कि जिन लोगों ने ये सब खाने की चीजें निकाली हैं उन्होंने अपने आप उनके लिए छोटे-छोटे बर्तन भी बनालिये हैं। आइसफीम कभी बड़े बर्तनों में नहीं खाई जाती है। अलग नहीं पी जाती। शेरी (दक्षिणी स्पेन की सक्रंद शराब) का गिलास अलग होता है, पोट (दूसरी तरह की शराब) का अलग। व्हिस्की कभी अकेली नहीं पी जाती, सोडा मिलाकर पीते हैं। हम नकल करनेवाले यह सब तो जानते नहीं, प्याले भर-भरकर गटक जाते हैं और पीछे तकलीफ उठाते हैं।" फिर कहने लगे, "मैंने रात भी कहा था कि यह सब जो तुम लोगों ने किया है, करने जैसा नहीं था। सरोजिनी नायडू काम तो बहुत बढिया कर लेती हैं, मगर सच्ची संस्कृति की कीमत बेकर। जो चीज मैं कहता हू उसमें सच्ची संस्कृति है। जो सब तुम लोगों ने किया, उसका मजाक भी उड़ाया जासकता है। किन्तु यदि हम जेल में सरकार का दूध-मक्खनतक न खायें, सूखी रोटी खायें तो उसका कौन मजाक उडा सकता है ? मैंने यह सब सहन किया, अड़ जाता तो तुम लोग नहीं कर पाते। मगर मैंने देखा कि आखिर तो इसमें शुद्ध प्रेम ही भरा है, अतः होने दिया और कैदियों को तो देना अच्छा ही लगता है, मगर यह सब हमारी मर्यादा से बाहर है।"

दोपहर पांच बजे पता चला कि जिन बकरी के बच्चों को कल मीराबहन बापू के पास लाई थीं, उनमें से एक मर गया है। चार बजेतक अच्छा था, पांच बजेतक खतम होगया। किसी जहरीले सांप के काटने का शक था। सबके मन में आया कि वह कल बापूके हाथ से रोटी खाने के लिए ही जिन्दा रहा था। कैदी और सिपाही लोग सब कह रहे थे कि उसकी गति तो अच्छी ही होगी।

आज महादेवभाई की गए सात हफ्ते पूरे होगए।

४ अक्तूबर '४२

मेरा अप्रेजी व्याकरण अभीतक बहुत कम होपाया है। ७ तारीखतक कैसे पूरा होगा ? ऐसा लगता है कि हो नहीं सकेगा। यह चुभता है। बापू कह रहे थे कि मैं उनका सब काम छोड़ूँ और सारा समय व्याकरण को दूँ। मगर उनका तो मेरे पास आजकल काम है ही बहुत कम। बा का है, वह तो छूट नहीं सकता। दिनभर थोड़ा-थोड़ा निकलता रहता है। पढ़ाई का समय ही नहीं मिलता। बीच में आँख के

कारण दो दिन निकल गये। यह सब मेरी पहली एम. डी. की परीक्षा के जंसा हुआ।

आज बापू को यहां आये आठ हफ्ते पूरे होगये हैं। देखें और कितने पूरे करने पड़ते हैं।

बापू की सलाह से मंने मि० कटेली से कहा था कि वह मेरे घरवालों को खबर दे दें कि उनके पत्र मिल गए हैं और मंने न लिखने का निश्चय किया है। उन्होंने बम्बई सरकार के गृह-विभाग के सेक्रेटरी को लिखा; क्योंकि वह स्वयं सीधे नहीं लिख सकते थे।

५ अक्तूबर '४२

भारत सरकार के गृह-विभाग का आज उत्तर आया कि सरकार यह सन्देश नहीं पहुंचा सकती, मैं खुद ही उन्हें इस बारे में लिख सकती हूं। बापू ने लिखने को कहा।

बा को दो रोज से अच्छी नींद नहीं आती। गर्मी काफी है, मच्छरदानी में बम घुटता है। आज बा कमरे में बिना मच्छरदानी के सोई। कमरे में हवा खूब आती है। भाई उनके पास सोये। बा को लगता है कि बापू रात को उठें, किसी चीज की जहूरत हो तो भाई शायद जल्दी न उठें, मे तो उठ ही जाऊंगी; इसलिए मुझे बापू के पास से नहीं हटने देतीं। बा आज बहुत अच्छी तरह सोई। आधी रात के समय बापू ने मुझे जगाकर पूछा कि क्या बा सोरही है? उसकी कुछ आवाज ही नहीं आती। मंने कहा, "सोती नहीं तो आप क्या समझते है?" बापू ने कहा, "कौन क्या कह सकता है?" मैं देख आई। बा गहरी नींद में सोरही थीं। बापू के मन में डर पैदा होगया है कि कहीं बा को भी न यहां खोना पड़े। किन्तु यदि बा का यह निश्चय कायम रहेगा कि अच्छा होकर बाहर जाना है तो सब अच्छा ही होगा।

६ अक्तूबर '४२

कल बापू का मौन था। कल ही कर्नल शाह के आने का दिन था मगर वे नहीं आये, इसलिए आज आये। कल फिर भंडारी के साथ आवेंगे।

बापू ने कहा, "इस वक्त मेरे जन्मदिन के लिए कुछ भी बाह्य समारोह मत करना।" देशी तिथि के अनुसार कल उनका जन्मदिन होगा। हमने कातने का प्रोग्राम रखने और खाने की जगह फूल सजाने की इजाजत उनसे लेली।

सरकार ने मि० कटेली को लिखा था कि वह खतों के बारे में मेरा सन्देश मेरे घरवालों को नहीं पहुंचा सकती। मैं इस बारे में खुद लिखू। मेरे पत्र का मसबिदा भाई ने बनाया। बापू ने उसे नापसन्द किया। कहने लगे, "बिल्कुल सामान्य और संक्षिप्त होना चाहिए।"

आज माताजी आदि के पत्र मिले। बापू घूमते समय कहने लगे कि बम्बई सरकार के वपतर में तेरी साल जम गई मालूम होती है। मैं समझी नहीं। पूछा—कैसे? कहने लगे, "इस वक्त खल जल्दी देविये है, कुछ काटा-छांटा भी नहीं। उन्हें लगता होगा कि यह तो ठीक चलती है, हमारा काम भी कर लेती है। तेरे बिना



बा को वे लोग यहां रख नहीं सकते।" बा बीमार रहती हैं। डाक्टर साथ हैं इसका सरकार को बहुत सहारा है।

७ अक्तूबर '४२

आज देशी तिथि के अनुसार बापू का जन्म-दिन था। सबरे प्रार्थना में बा उठीं। बापू ने आज केवल अनपका खाना खाने का निश्चय किया था। नाश्ते में संतरे-मीसम्बी का रस लिया। सबरे प्रार्थना से पहले गरम पानी और शहब लिया, दोपहर को भी। ११ बजे टमाटर का रस, बादाम-काजू, गाजर-भूली पीसकर व किशमिश भिगोकर साफ करके सामने रखीं। सब चीजें संतरे के छिलके की कटोरियां बनाकर उनमें सजाकर रखी थीं। सुन्दर लगती थीं। खाने की जगह पर राष्ट्रीय पताका और 'भारतमाता की जय' फूलों में लिखा बहुत सुन्दर लगता था।

मीराबहन, बा, भाई और मंने बापू को सूत के हार पहनाये। बा के कहने से मंने बापू को टीका भी लगाया। दोपहर आधे घंटेतक कताई का बंगल हुआ। बापू, भाई, मीराबहन और मं चार कातनेवाले थे। मेरा नम्बर पहला आया।

भंडारी और शाह आये। हमने भंडारी से एक हिरण देने को कहा। वह हमारी कंटीली बाड़ के बाहर अलग हाते में रहता है। हम घूमने निकलते हैं तो हमारी तरफ ही देखता रहता है। हमने सोचा हमारे पास आजायगा तो उसे भी लाभ होगा, हमें भी। भंडारी 'हा' कह गये, मगर बाव में सरोजिनी नायडू नाराज हुईं। कहने लगीं— वह तो बगोचा उजाड़ देगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? सो भंडारी ने भी विचार बदल दिया।

शाम को बापू ने फल, काजू, बादाम और टमाटर का रस लिया। फलों की नशतरी बहुत सुन्दर सजाई थी। बा ने भी आज दूध और फल ही खाये।

शाम की प्रार्थना में मीराबहन ने 'प्रेमल ज्योति'\* भजन गाया। सरोजिनी नायडू ने 'संध्याकालीन प्रार्थना का आह्वान'† नाम की अपनी कविता पढ़ी। मंने और भाई ने कुछ श्लोक पढ़े। बड़े अच्छे थे। प्रार्थना के बाद भाई 'छान्दोग्य-उपनिषद्' में से बापू को कुछ मंत्र बतारहे थे, जिनका भावार्थ था कि जिसकी सब क्रिया यज्ञमय होगई है वह ११६ वर्ष तक जीता है।

बापू ने ध्याकरण की परीक्षा के लिए मुझे १५ दिन का और समय दिया। श्लोकों के बारे में मजाक करने लगे, "कुछ समझी या भट्टजी के बंगनोंवाली बात रही!" मंने जानबूझकर अज्ञता प्रकट की। मंने कहा—नहीं समझी। बोले, "यह तो मंत्र है न, इसका जप करने से सिद्धि मिलती है। जैसे गायत्री मंत्र से, मगर समझकर कोई करे तो! तुझे ११६ वर्षतक जीना है क्या?" मंने कहा, "जो नहीं, वह आपके लिए है। हमारे

\*Lead kindly light

†Call to Evening Prayer

जैसे ११६ वर्ष जीकर क्या करेंगे ?” फिर मंने पूछा, “मंगर मंत्र के जब के बारे में क्या आप सचमुच ऐसा मानते हैं कि वह फलदायी है ?”

बापू ने कहा, “मं तो रामनाम के बारे में कह सकता हूँ। वह मेरा नित्य का अनुभव है, रोज नया, आज भी हुआ। मंने बहुत लड़के-लड़कियों से कहा है कि रामनाम जपो। वे कहते हैं कि गंदे विचार आते हैं, तो मं कहता हूँ कि उनको निकालने का प्रयत्न न करो। उन्हें कहोगे कि ‘जाओ-जाओ’ तो यह भी उन विचारों की एक तरह से पूजा ही हुई। उसके बजाय दूसरे अच्छे विचार भरो, रामनाम जपो। गंदे विचार अपने आप भाग जावेंगे। मं आठ वर्ष का था, भूत-प्रेत से डरता था, तब मेरी धाय रंभा ने कहा, ‘राम नाम जपो तो सब भूत भाग जावेंगे।’ उस वक्त से यह चीज शुरू हुई। पीछे रामायण वालिल हुई। इस प्रकार उन छुटपन के संस्कारों ने गहरी जड़ पकड़ी। उस वक्त भूत भागें कि नहीं, यह मुझे याद नहीं, मगर आज किसी भी अनावश्यक विचार को भगाने के लिए रामनाम का अब्भुत असर होता है। जो मुझे कहते हैं कि असर नहीं होता उन्हें मं कहता हूँ कि और जपो। असर हुए बिना रहेगा नहीं।” फिर स्टीवेंसन इंजीनियर का किस्सा बताने लगे। उसे कहा गया कि यहां इतना पानी है कि इसे कोई भर नहीं सकता, पुल बांध नहीं सकता। उसने कहा कि कितना भी गहरा हो उसे आखिर भरना ही है। और उसने वहां पुल बनाकर ही छोड़ा।

: ५६ :

## ईद का त्यौहार

८ अक्तूबर '४२

सुबह घूमते समय आज मंने फिर गीता के अर्थ शुरू किये। २५ श्लोक होगये। बापू कहने लगे कि यदि नियमित करे तो बहुत होजाय, मगर तू कभी तो करती है और कभी नहीं करती। मंने कहा, “समय मिले तो कर लेती हूँ, पर कोई बात करनेवाले आपके साथ घूमते हों तब कैसे होसकता है ?” बापू कहने लगे, “हम अपने लिए बचाव कभी न दूँगे। दूसरे के वृष्टि-बिन्दु को देखने की कोशिश करें। ऐसा करने से एक तरह की सरलता आजाती है। ग्रहण-शक्ति बढ़ती है। यह चीज आजाय तो तेरे बहुत ऊंचा चढ़ने के रास्ते में से रकावट निकल जाय।”

दोपहर को बापू के कमरे के कालीन वर्गरा निकाल कर सफाई करवाई। बहुत धूल निकली। बापू सफाई से बहुत खुश हुए।

बा की तबीयत थोड़ी अच्छी है।

शाम को घूमते समय बापू कहने लगे, “मंने बाहर के जगत के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखा। उसमें से मैं तो रस के घूंट ले रहा हूँ।”

६ अक्तूबर '४२

चार-पांच रोज से सस्त गर्मी पड़ती है। आज शाम को खूब बादल आए। ऐसा लगा, जोरों से पानी बरसेगा। मगर दो-चार छोटे आने के बाद बाबल चले गये। महादेवभाई की समाधि को आज लीपा और नए फूल सजाए। बहुत सुन्दर लग रहा था।

भाई रामायण का अनुवाद कर रहे हैं। बापू ने उसमें मुझे चौपाइयां लिखने को कहा था। आज मैंने लिखना शुरू किया, मगर मेरी व्याकरण की किताब अभी पूरी नहीं हुई। इसलिए बापू ने रामायण लिखना छोड़ने को कहा। मैंने कहा—पंद्रह मिनट की तो बात है। मुझे लिखना अच्छा भी लगता है, लिखने दीजिए। बापू बोल उठे, “क्या तेरे पास पंद्रह मिनट की कोई कीमत ही नहीं है? और तुझे बहुत चीजें अच्छी लगती हैं। इसका अर्थ क्या? रस तो मैं भी बहुत चीजों में रखता हूँ। मगर मैं अपने मन को रोक लेता हूँ। इसके बिना आदमी कुछ भी कर नहीं पाता।”

१० अक्तूबर '४२

विनभर गर्मी कुछ कम रही, शाम को खूब बढी। बादल भी घिर आये। मगर जब कल के काले बादल बिना बरसे ही चले गये तो आज के बादलों पर क्या आशा रखी जासकती है?

बा काफी अच्छी है। अब वह सब जगह घूमती है। हर काम में कुछ-न-कुछ उन्हें कहने को रहता है। खाने-पीने को भी मन होआता है।

शाम को महादेवभाई की समाधि पर थोड़े फूल लेगये। मुझे लगा, आज धूप नहीं थी, सुबहवाले सूखे नहीं होंगे। मगर वे तो सूख गये थे। स्वस्तिक बनाने को तो फूल नहीं थे, मगर एक क्रॉस बन गया। बापू को वह बहुत अच्छा लगा। बापू ने ही बनाया था।

आज कई दिनों के बाद फिर महादेवभाई की मृत्यु का चित्र सारे समय मेरे सामने रहा।

शाम को बापू 'तस्माय परिहायेंऽर्थं, नत्वंशोचितुमर्हसि'वाले श्लोक का मनन करने को कह रहे थे। अपने लोगो में जो दोष हैं उन्हें हमें बिना समता खोये खूबसूरती से सहन करना है, ऐसा बता रहे थे।

मेरे गले में आज फिर दर्द है।

११ अक्तूबर '४२

आज सबेरे महादेवभाई की समाधि पर मैं नए फूल रखने लगी। उसमें मुझे पांच-सात मिनट लग गये। साधारणतः सुबह हम प्रार्थना में ही समय बेटे है। फूल शाम को सजाते हैं, वे दूसरी सुबहतक ताजे रहते हैं।

बापू आज अपने सिर की चमड़ी को छूने से भी बर्द होता बताते थे। पहले सोचा कि खून का दबाव बढ़ा होगा। मगर देखा तो खून का दबाव १६६/१०० ही था। तो

फिर इस दर्द का कारण कबज होना चाहिए। कल रात उन्होनों नींद भी अच्छी नहीं ली थी। यह भी कारण होसकता है।

सरोजिनी नायडू ने बापू से कल ईद की सेबियां खाने को कहा था। बापू ने कहा, “मुझे खजूर खाने दो। हजरत मुहम्मद की तो बही खुराक थी न !” वे मान गईं। बा को पता लगा तो पूछने लगीं, “आप कल फलाहार क्यों कर रहे हो ?” बापू सोमवार का मौन लेचुके थे। लिखकर बताया, “ईद के कारण।” बा ने कहा, “मुसलमान तो कल सब कुछ खायेंगे, आप क्यों उपवास-सा करते हो ?” बापू ने लिखा, “दक्षिण अफ्रीका में तो तुम जानती हो न, महीना-भर मंने रोजा रखा था। इस समय तो एक भी रोजा नहीं रखा! तो कल ईद के रोज कुछ तो त्याग कर लू। पंगम्बर की प्रिय खजूर और बूध लूंगा और मेरी प्रिय रोटी और साग छोड़ दूंगा।”

बा आज राजनीति की बहुत सारी बातें कर रहीं थीं। कहती थीं, “एमरो कहता है कि गांधी और जिन्ना एक-दूसरे से बात भी नहीं करते, मगर गांधी तो जिन्ना के घर गया था। महादेवभाई ने सब लिखकर रखा है। मैं तो लिखित सबूत सबके आगे प्रकट करने-वाली हूँ।” मंने कहा, “बा, इसीलिए तो सब एमरो को झूठा कहते हैं न ?” कहने लगीं, “हां, ये लोग बड़े खराब हैं।”

रात मंने बापू का काम भाई पर छोड़ दिया। मीराबहन के सिर में दर्द था, सो उनके सिर में मालिश की और सरोजिनी नायडू की टांगों की भी मालिश की। रोज मीराबहन उनकी मालिश किया करती थीं। सवा दस बजे सोई।

शाम को ईद का चाद बापू ने सबसे पहले देखा। मौन थे। मुझे बुलाकर दिखाया। फिर मंने सबको बताया। एक मुसलमान सिपाही है, मुहम्मद खा। उसे चाद बताकर बापू ने उसे मौसम्बी दिलवाई। सब चाद को देखकर ऐसे खुश हो रहे थे मानो रमजान हमीं लोगों ने रखा था।

१२ अक्टूबर '४२

आज ईद थी। सबरे बापू ३-१० पर प्रार्थना को आये। प्रार्थना के बाद सोगये। आज उन्होने सिवा उबले दूध के बाकी सब बिन-पका खाना खाया। खजूर, टमाटर, संतरा, मूली, बादाम वगैरा। शाम की प्रार्थना पर भाई ने कुरान की आयते पढ़ीं और सरोजिनी नायडू ने अपनी एक कविता। शाम की प्रार्थना के बाद बापू बा को पढ़ारहे थे। आज फिर एक भजन का स्वर उन्हें सिलारहे थे। सरोजिनी नायडू हंसने लगीं। बोलीं, “७४ वर्ष के बूढे नव विवाहित दम्पती का स्वांग-सा रब आनन्द ले रहे हैं !”

मंने उन्हें ७ तारीख के ‘टाइम्स ऑफ इण्डिया’ अखबार में से ६१ वर्ष के पुरुष और ७६ वर्ष की स्त्री की शादी की खबर पढ़कर सुनाई। हंसने लगीं। बोलीं, “इसके सामने तो ७४ वर्ष की स्त्री बच्चों के समान है।” बहुत हंसी होती रही।

मीराबहन ने महादेवभाई की समाधि पर रोज न आकर हफ्ते में एक बार आने

की इजाजत बापू से मांगली । बापू ने खुशी से दे-दी ।

घूमते समय बापू फिर भेरे ऐसे समय बम्बई पहुँचने और यहाँ आने की घटना पर आश्चर्य कर रहे थे । बोले, “अब इसे ईश्वर का चमत्कार न कहा जाय तो क्या कहा जाय ? इसी तरह यह भी तो ईश्वर का चमत्कार ही है न कि इतनी बड़ी सलतनत से मैं लड़ रहा हूँ, वे इतना धमकाते भी हूँ मगर मुझ पर कुछ असर ही नहीं होता । न डर है, न निराशा, न गुस्सा ही आता है, बबदुआ कभी भेरे हृदय से उनके लिए निकलती ही नहीं ।”

: २० :

### सत्याग्रह में आत्महत्या ?

१३ अक्तूबर '४२

मकान के सामने एक फव्वारा है । वहाँ घूमते समय बापू हम सबके साथ मकड़ी के जाले देखते रहे । कंसे मकड़ी इतना पानी पार करके जाती होगी । इस प्रश्न पर गहराई से विचार होता रहा । बापू किस-किस चीज में रस लेसकते हैं, यह चकित करनेवाली चीज है ।

बा खन लिखना चाहती थीं । बापू ने उनके लिए कनु के नाम एक पत्र का और धनुष तकली पर लगानेवाले राल का मसाला मंगवा देने के बारे के पत्र का मसबिदा बनाकर दिया । मंने उनकी साफ नकल करके बा के वस्तुगत लिये और पत्र भेजे । बा बहुत खुश थी कि अब उत्तर में और पत्र आवेंगे ।

महादेवभाई की समाधि पर फूलों का ॐ बनाया । वह बहुत अच्छा लगता था । स्वस्तिक चिह्न की जगह कास बनाना शुरू किया है । फूल कम होगये हैं, इसलिए यह परिवर्तन शुरू हुआ है । मगर बापू को अब कास ही अच्छा लगता है ।

१४ अक्तूबर '४२

ऋतु एकदम बदल गई है । गर्मी बढी है । फूल एकाएक मानो झुलस ही गये हैं, सैकड़ों एक साथ सूख रहे हैं । महादेवभाई की समाधि पर आज एस्टर (Astor) के फूलों का ॐ बनाया । कर्नल भण्डारी और कर्नल शाह दोनों आज आये । शाह तो कल भी आये थे । बापू को मालिश वर्गों में इस कारण देर होगई ।

बापू बा को आज दोपहर गीता सिखारहे थे । रात को एक घंटा गुजराती लिखाते हैं, गाना भी । बा कहरही थीं कि पहले से मंने इस तरह सीखा होता तो कितना सीख लेती । मगर बापू ने कभी इस तरह उन्हें समय दिया ही नहीं । अब भी बेंते रहें तो अच्छा है ।

घूमते समय बापू अपने जीवन की बातें बतारहे थे । कहने लगे, “किसी पर

ही ईश्वर का इतना अनुग्रह होता होगा, जितना मुझ पर हुआ है, नहीं तो बेध्या के घर जाकर कौन बच सकता है ? मगर मुझे तो वहाँ मन में किसी तरह का उद्वेग, शरीर में किसी तरह का संचारतक नहीं हुआ ।”

मि० कटेली ने बाहर की हरी बाड़ में से निकलकर सामने की तरफ जाकर घूमने का रास्ता बड़ा करवा दिया है । उधर छाया रहती है, सो सबेरे उधर घूमने जाते हैं । बापू को कटेली साहब का अपनेआप उनके आराम का इतना ध्यान रखना अच्छा लगा । सिपाही लोग बगीचे की पगडंडियाँ भी अच्छी बनारहे हैं ।

रघुनाथ जमादार को आज कुनैन का दूसरा इंजेक्शन दिया । पहला परसों दिया था । उसे बहुत सस्त किस्म का मलेरिया है । अच्छा होरहा है । यहाँ मेरी डाक्टरी अपने साथियो, सिपाहियो और हमारा काम करनेवाले सजायाफता कैदियो तक सीमित है । कोई बीमार सलाह लेने आता है तो अच्छा लगता है ।

१५ अक्तूबर '४२

आज महादेवभाई को गये दो महीने पूरे होगये । जगत चलता ही रहता है । मनुष्य आता है और चला जाता है, किन्तु जगत की गति में फरक नहीं पड़ता ।

थोड़ी-थोड़ी सर्वाँ शुरु हुई है, अब सबेरे घूमते समय 'हिमालय' में सर्वाँ लगती है । सामने की ओर मि० कटेली ने जो घूमने का रास्ता तयार करवा दिया है, वह हमारे यहाँ के कुटुम्ब में 'हिमालय' कहलाता है ।

घूमते समय जेल में उपवास की नीबत आवे और जेल-अधिकारी जबदस्ती खाना खिलावे तो मनुष्य क्या करे, इस प्रश्न की चर्चा उठी । बापू बोले, “बाह्य उपायों की सोचना ही क्यों ? जिसकी सचमुच जीने की इच्छा उठ गई है, उसका शरीर अपने आप गिर जायगा । अलंकार में कहूँ तो वह योगाग्नि पंदा करके उसमें भस्म होजायगा । इतना प्रतिरोध करेगा कि उसमें टूट जायगा ।” भाई ने कहा, “सिद्धांत में यह ठीक है, मगर कहांतक मैं खुद यह कर पाऊंगा, इसमें मुझे शंका है । तब बाह्य उपाय भी सोच रखना चाहिए न ?” बापू बोले, “जो बाह्य उपाय का ही विचार करता रहता है, वह अन्दर की अग्नि पंदा कर ही नहीं पाता । मगर कोई बाह्य उपाय का आश्रय ले और ऐसी हालत में आत्महत्या भी करे तो मैं उसे दोष नहीं दूँगा ।”

भाई ने बाह्य उपायों में अपने उस्तरे से खून की कोई बड़ी नाड़ी काट लेने की बात की । मैंने पूछा, “यदि कोई रात को चुपचाप अपनी एक बड़ी नाड़ी काटले और खून निकल-निकलकर ही वह मुबहत्तक मर जाये तो क्या वह ठीक होगा ? जेल में उपवास का हेतु मरना नहीं है । हेतु तो सत्ताधारियों का हृदय बदलना है । सामने-बाला देख भी नहीं पाता और हम चुपचाप आत्महत्या कर लेते हैं तो उसमें सामनेवाले का हृदय-परिवर्तन कैसे होगा ?”

बापू बोले, “इस समय हृदय-परिवर्तन की बात नहीं होरही है । आज प्रयोग बहावुर की अहिंसा का नहीं, कमजोर की अहिंसा का है । यहाँ भी नेता के पास तो

हृदय-परिवर्तन की बात रहती है। मगर सर्वसाधारण लोगों के लिए ऐसा मौका आसकता है कि वे किसी अपमान को बरदाश्त न कर सकें और उससे बचने का उनके पास दूसरा साधन नहीं है तो वे मर जायें। तब उनका कार्य अहिंसक ही होगा, चाहे उस कार्य की आत्मा शायद अहिंसक न हो।" मैंने पूछा, "यह कैसे ?" बापू समझाने लगे, "एक आदमी को फांसी की सजा मिलती है। जो सिपाही उसका रखवाला है उसकी रक्षा करता है। उसे फांसी मिलनेतक अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करता है। उसका कार्य तो अहिंसक है, मगर वह कहां जानता है कि उसमें अहिंसा है !

"तो इस दुर्बल की अहिंसा को मुझे आजमाना है। मैंने देखा है कि सारे देश को मैं बहादुर की अहिंसा आज नहीं सिखा सकूंगा। मगर यह दुर्बल की अहिंसा कुछ फल लावे तो दुर्बल प्रजा के हाथ में अपनी रक्षा के लिए एक साधन आजाता है और उसमें से बलवान की अहिंसा भी निकल सकती है। अगर दुर्बल की अहिंसा फल लासकती है तो सच्ची बहादुर की अहिंसा की ताकत का अन्दाज लगाया जासकता है।" बा काफ़ी अच्छी है। बापू के पास से सीखती हूँ, मेरे साथ भी पढ़ती हूँ, भाई के साथ भी। इससे उनका मन बहला रहता है।

१६ अक्तूबर '४२

राजाजी के भाषण की रिपोर्ट अखबारों में पढ़ी। मगर वह रिपोर्ट शायद दुरुस्त न भी हो। एक-दो दिन में पता लग जायगा।

बा की खांसी बढ़ी है। बेचारी का एक बदन बैठता है और दूसरा खड़ा होजाता है। सरोजिनी नायडू अभीसे फिफ में है कि मीराबहन के जन्म-दिन को क्या-क्या किया जाये। मीराबहन जिस रोज बापू के पास आई थीं, उसे अपना जन्म-दिन मानती हैं। वह है सातवां नवम्बर। इस वर्ष दिवाली भी उसी रोज पड़ती है। सरोजिनी नायडू कुछ खाने की चीज बनाने को कहती थीं। एक डलिया में साबुन-तेल बर्गरा रखकर मीराबहन को बने का विचार है।

आज कलेक्टर और डा० शाह आये। मीराबहन के सिर में बदन रहता है यह सुनकर डा० शाह पूछने लगे, "दांत में तो कोई तकलीफ नहीं है ?" मगर उनके सिर बदन का कारण दूसरा ही है। कर्नल शाह हर बदन का कारण दांतों में डूँढ़ते हैं।

आज महादेवभाई की समाधि को लीपा था। शाम को नए फूल सजाए। गुलाबी एस्टर का ॐ और सफेद एस्टर का क्रॉस बनाया। बहुत सुन्दर लगते थे। पांव के पास फूल सजा रहे थे। अचानक उनका आकार गुजराती 'जी' बन गया। बापू को बहुत अच्छा लगा। कहने लगे, "महादेव के पांव के पास यह अच्छा लगता। मेरे कानों में महादेव की 'जी' की ध्वनि गुंजने लगती- है।"

१७ अक्टूबर '४२

कल से बा ने मेरे साथ बापू की आरोग्य-सम्बन्धी किताब\* के सिवा गीता-पढ़ना भी शुरू किया है। बापू के साथ भी खूब पढ़ती है। तबीयत अच्छी नहीं-तो भी पढ़ने का शौक खूब रखती है। इसका एक उपयोग यह भी है कि बा को 'सिलाते समय बापू के लिए थोड़ा दिल-बहुलाव होजाता है।

'टाइम्स' ने राजाजी के भाषण पर आज एक अप्रलेख लिखा है। ऐसा अज्ञात एसी चीज से फायदा उठाने का मौका भला क्यों छोड़ने वाला था!

: २१ :

## बा की पहली सख्त बीमारी

१८ अक्टूबर '४२

आज बा को बुखार है। मलेरिया हो या शायद ब्रांको निमोनिया (Broncho-Pneumonia)। फेफड़ों में पुराने ब्रान्काइटिस (Bronchitis) बगैरा के निशान है। नया कुछ नहीं सुनाई देता। मगर इस तरह के ब्रान्काइटिसवाले फेफड़ों में नए निशान ढके रहते हैं। नई बीमारी बूँदनी कठिन होजाती है। मि० कटेली ने डा० शाह को बुलाने को पूछा। मैंने और बापू ने पहले तो कह दिया कि आवश्यकता नहीं है। मगर बाद में मैंने कहा, "आपको लगे कि उन्हें बताना चाहिए तो भले बता-इए।" मि० कटेली ने शाम को टेलीफोन किया। रात आठ बजे डा० शाह आये और तबीयत कैसी है, यह पूछकर चले गये। मुझसे कहने लगे, "मुझे लगा कि मुझे देखने आना चाहिए। मैं जानता हूँ, मेरे लिए कुछ करने को रहता नहीं, मगर न आता तो मुझे चिन्ता लगी रहती। इसलिए आगया।" मैंने कहा, "आप आगये यह अच्छा हुआ। बा इतनी कमजोर है कि उनके बारे में चिन्ता होती ही है।"

आज दशहरा है। सब कवियों के लिए सब्जी बनाई। बाकी उन्हें कच्चा सामान दिया। उन्होंने अपना पकाकर खाया।

शाम की प्रार्थना में सरोजिनो नायडू ने कालीदेवी के बारे में अपनी लिखी एक कविता पढ़ी। अच्छी थी। मैंने कई बार कहा है कि कुछ नया लिखिए, महावेवभाई के विषय में अथवा बापू के विषय में, मगर वे नहीं लिखतीं। शायद प्रेरणा नहीं होती होगी।

\*बापू ने जेल में आरोग्य-संबन्धी अपनी पुरानी किताब को फिर से लिखना शुरू किया। मुझसे रोज जितना वे गुजराती में लिखे उसका हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद करने को कह रखा था। बा बापू का लिखा मेरे साथ पढा करती थी।



बा को सुबह १००.२ बुखार था तो भी बापू से पड़ा। बाव में खाट पर जा लेटीं। उनके सिर में बहुत दर्द था। खांसी-जुकाम तो है ही।

दोपहर खाने-पीने में विधि-निषेध की बातें होरही थीं। मंने बापू से कहा, "आदमी कोशिश करे तो धीरे-धीरे काफी चीजें पचा सकता है, आदत पड़ने में थोड़ा समय जाता है सही। भिसाल के तौर पर अब मैं घर जाऊं या घर से आश्रम आऊं तो खाने के बारे में आदत बदलने में कुछ समय लगता है। दोनों जगह का खाना अलग किस्म का रहता है। मगर कुछ दिन पीछे उस खाने से कुछ तकलीफ नहीं होती।" बापू कहने लगे, "जल्दी से आदत बदल सकना गुण है। श्रुत बदलती है तो हमें अपनेआपको उसके अनुकूल करना पड़ता है। वह स्वाभाविक अनुकूलता हुई। मगर जिस तरह की तुम बात कर रही हो वह अस्वाभाविक है। इस तरह नए खाने के अनुकूल होने के लिए ताकत खर्च करना तो शक्ति को फिजूल खोना है। अनुचित भी है। इस तरह करने से आखिर शरीर क्षय होता है और बुद्धि का भी क्षय होजाता है। शरीर का क्षय तो आखिर होने ही वाला है, मगर मैं मानता हूँ कि बुद्धि का क्षय नहीं होना चाहिए। अब देखूंगा कि मेरे साथ आखिर क्या होता है। हो सकता है कि मेरी बुद्धि का अन्त में क्षय हो। अगर ऐसा हुआ तो कहूंगा कि मुझे उससे बचने के लिए जो कुछ करना चाहिए था वह मैंने नहीं किया।"

१६ अक्टूबर '४२

बा की रात काफी बेचनी में गई। डा० शाह सुबह फिर आए, बा सोती थीं। शाम को आने को कह गये। शाम को आये तो कहने लगे, "आप बा के शरीर को पहचानती हो। दवा बगैरा जो देनी हो तो देती जाओ। मैं बखल नहीं दूंगा।" मंने कहा, "ठीक है, मुझे मदद की जरूरत होगी तो आपको कह दूंगी।" उनकी नम्रता और शराफत आदमी को मुग्ध कर लेती है।

बा को सल्फा (Sulpha) दवा की गोलिया देना शुरू किया है। शाम को बुखार ९९ होगया। आशा है, जल्दी अच्छी होजायंगी।

आज सरोजिनी नायडू कहने लगीं, "बा प्यारेलाल को बहुत प्यार करती है। मैं नहीं समझती कि उनके अपने लड़कों ने भी मां की कभी इस तरह सेवा की होगी, जैसी प्यारेलाल कर रहा है। वह भी उन्हें अपने लड़के की ही तरह प्यार करती है। कहना होगा, मुझे भी प्यारेलाल का बहुत सहारा है। वह कुछ खास मेरे लिए करते नहीं हैं, मगर उनमें कुछ ऐसा आकर्षण है, जो खींच लेता है।"

शाम को भाई से कहने लगीं, "मंने आज तुम्हारी बहुत तारीफ कर डाली है। अपनी बहन से पूछो।" भाई कहने लगे, "अगर मेरी निन्दा की होती तो पूछने में अर्ब भी रहता। तारीफ के बारे में जाकर क्या पूछूँ?"

बापू का मौन शाम को सवा सात बजे खुला। बा की तबीयत इस वक्त अच्छी लगती है।

२० अक्तूबर '४२

आज बा की तबीयत काफी अच्छी है, मगर रात नींद कम आई। साढ़े तीन बजे सबेरे भाई ने मुझे जगाया, "बा घबराती है। नाड़ी बहुत तेज है, गिनी नहीं जाती।" मैं घबरा उठी। देखा तो नाड़ी अच्छी थी, बहुत तेज भी नहीं थी, १०० के अन्दर थी। बा कहने लगी, "मुझे नींद की गोली दो।" नींद की गोली तो थी ही नहीं, मगर सोडा बाईकार्ब (Soda Bicarb) की गोली थी। एक दिन इसी तरह बा को नींद नहीं आती थी तब नींद के नाम से मंने बही गोली देदी थी। विचार के असर से ही उस रोज वे सो गई थीं। आज भी मंने बही गोली दी। शहब और गरम पानी पीने को दिया। बापू ने प्रार्थना बा के कमरे में करवाई। प्रार्थना के बाद बापू को सुलाकर मं आई कि भाई को छुट्टी दिला सकूं। मगर देखा तो बा और भाई दोनों छोटे बेटे और मां की तरह साथ पड़े सो रहे थे। छः बजे से पहले बा जाग गई। घूमने के बाद उन्हें स्पंज किया। पानी पिलाया। दवाई दी। पीछे मंने उन्हें धीमे-धीमे भजन सुनाना शुरू किया। सिर पर धीमे-धीमे हाथ भी फिराती जाती थी। बा सो गई। छोटे बच्चे को लोरी देकर सुलाने-जैसी बात थी। मुझे याद आया, मेरी टाइफाइड की बीमारी में कई बार माताजी ने मुझे इसी तरह सुलाया था। साथ ही ध्यान आया कि मंने अपनी मां की कभी कुछ सेवा नहीं की।

घूमते समय बापू बा की बीमारी की बात कर रहे थे कि कंसे वह एक क्षण में जा सकती हैं।

२१ अक्तूबर '४२

रात बा को फिर नींद नहीं आती थी। ११-३० पर मंने नींद की एक गोली दी। बस फिर तो रातभर सोई और दिनभर भी। खाने के लिए भी जगाना पड़ता था।

आज मेरा व्याकरण पूरा करने का आखिरी दिन था। कल बापू परीक्षा लेंगे। जेल की नीरसता में ऐसी चीजों से ही वे विल बहलाते हैं।

आज भंडारी और डाक्टर शाह आए। बा का हाल पूछकर चले गये।

२२ अक्तूबर '४२

आज बापू घूमते और कातते समय मुझसे व्याकरण के प्रश्न पूछते रहे। बाब में कहने लगे, "आधा घंटा व्याकरण पढ़ने के लिए रोज रखना।" व्याकरण की दूसरी किताबें भी मंगवा रहे हैं। कहते हैं कि व्याकरण पर पूरा काबू पाना अच्छा है, जरूरी है। बापू को व्याकरण का बहुत शौक है।

दिन में आज भी गर्मी थी। रात को ठंड होजाती है। चांबनी रातें हैं। रात को सोते हैं तो फवारे के पानी का नाद सुनाई देता है। आज्ञावी में ऐसी जगह पर थोड़े दिन आराम मिले तो सबको कितना अच्छा लगे! मगर आज तो यह सब काटता है।

## सच्ची वैज्ञानिक के प्रति भावना

२३ अक्तूबर '४२

आज बा बहुत उदास है ।

बापू मंडम क्यूरी की किताब पढ़ रहे हैं । कह रहे थे, "बह तो सच्ची तपस्विनी थी । मेरे मन में होता है कि पेरिस जाकर उसका घर देख आऊँ । हमारे किसी वैज्ञानिक ने इतना दुःख नहीं भोगा । नतीजा तो मैं यह निकालता हूँ कि हम पर अंग्रेजी की मेहरबानी होने के कारण हमने अंग्रेजों के ढग से ही काम करना सीखा । शोध-विभाग इत्यादि के सफेद हाथी खड़े कर लिये । इतना पैसा खर्च होता है । इतनी बड़ी प्रयोग-शालाएं टाटा ने खड़ी कीं, सरकार ने भी कीं, पर काम वहां पर कितना होता है ?"

शाम को बापू कहने लगे, "व्याकरण सीखनेवाला किसी चीज का सार समझकर सन्तोष नहीं मानता ।" बात कवि वर्ड्सवर्थ की 'ड्यूटी' (Wordsworth's 'Ode to Duty') नाम की कविता के अर्थ की चर्चा में से निकली थी । कहने लगे, "व्याकरण जाननेवाला एक-एक शब्द के अर्थ को गहराई से समझता है । बारीकी से हरेक पहलू समझने की आदत डालता है । ऐसा करते-करते एक-एक शब्द के विचार में घण्टो बीत सकते हैं ।"

बा की बापू को काफी चिंता है, मगर करें क्या ? सेहत के कारण बा छूट तो आज सकती है, मगर छूटकर वे और घबरायेंगी । बापू के बिना उन्हें बाहर ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा । शायद बापू का वियोग सहन ही न कर सकें और चल भी दें । जिस रोज बापू पकड़े गये थे उसी रोज बा को दस्त आने लगे थे । वो दिन बाद यहा पहुंचते ही अपने आप अच्छे होगये । दो-एक रोज बा और यहा न आतीं तो शायद खत्म होगई होतीं ।

२४ अक्तूबर '४२

कल रात बापू बहुत कम सो पाये । बा उदास थीं । बापू उनकी चिन्ता से सो नहीं सके । आज अपने पलंग का रत्न बदल दिया ताकि सारा समय वे बा के पलंग पर नज़र रख सकें ।

मंडम क्यूरी की किताब से तो बस बापू चिपक गये हैं । उसकी एक लड़की विल्ली में बापू से मिलने आई थी—बह थी ईव क्यूरी, इस किताब की लेखिका । आज बापू बहुत अफ़सोस से कह रहे थे, "मुझे दुःख है कि मैंने उस लड़की के साथ अच्छी तरह जान-पहचान नहीं करली ।" शाम को मुझसे बोले, "तुझे इस किताब का हिन्दी में मुन्वर

अनुवाद करना है।" पीछे भाषा में गहरे उतरने का महत्त्व और उसकी आवश्यकता बताते रहे।

सुबह गीता-पाठ में मुझे कई बार नौद आजाती है। आज बापू ने दुःखित होकर कहा, "मे सोचता हूँ कि गीता को छोड़ ही दिया जावे।" मने मन में निश्चय किया और बापू से कहा कि अब ऐसा कहने का आपको कभी अवसर नहीं दूगी।

सरोजिनी नाथडू आज कहरही थीं, "प्यारेलाल मुझे मेरे लडके बाबा की याद बिलाता है और तुम लीलामणि की।" मने कहा, "यह तो अच्छी बात है। आपको अपने घर का-सा वातावरण मिल गया।" वे बेचारी काफी हवतक हम सबकी मां बन-कर बैठो है। मां की तरह हम सबके खाने-पीने की देखभाल रखती है।

मीराबहन के दाव होगया है। कहाँसे उसे लेआई है, इसका पता नही चलता।

भाई ने बताया कि कल बापू बा के बारे में बहुत चिन्तित थे। उनसे कहने लगे, "बा की मुझे बहुत चिंता रहती है। महादेव के जाने के बाद मुझे कबूल करना पड़ता है कि मेरा मन कमजोर पड़ गया है। कई बार चिंता होने लगती है कि कही बा को भी न खोना पड़े। मन में तैयारी तो मने इसकी भी कर रखी है; लेकिन जहांतक मुझसे बन सकेगा, मैं अब और किसीको नहीं खोना चाहता।"

बा अखबार में एमरी, क्रिप्स वर्गरी के भाषण देखती है तो बहुत चिड जाती है। हमारे लोगों पर सरकारी सल्लियों की खबर पड़ती है तो दुःखी होती है। आज कहने लगीं, "यह सरकार बहुत घमंड कर रही है। सारी हालत आज तो डांवाडोल है। कब और कंसे इसका अंत होगा?"

फिर कहने लगीं, "लेकिन पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है। इसलिए जितना झूठ ये बोलना चाहें, बोलनेदो। आखिर भगवान तो है न!"

इन विचारो ने और इन सरकारी झूठे आरोपो के प्रति गुस्से ने उनके मन में इतना घर कर लिया है कि कहीं भी मौका हो तो वे इस विषय पर बात करने लगती है। एक रोज डा० शाह से कहने लगी, "ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते है? उन्हें मना कीजिए न?" बेचारे डा० शाह क्या कहते! बोले, "मां-मां, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। वह आपकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। झूठ बोलते है तो बोलनेदो। जब कोई झूठ ही बोलने पर तुला हो तो क्या एक और क्या बीस! एक ही बात है।"

४ नवम्बर '४२

आज इस दिन के बाद डायरी उठाती है। मुझे शक होगया था कि मुझे भी दाव होगया है। बा की मालिश वर्गरी का काम छोड़कर सारा समय 'मंडम क्यूरी' को पढ़ने में लगाती है। बड़ी उत्साहवर्धक किताब है। बापू ने पूरी पढ़ी है। मुझसे फिर कहरहे थे कि तुम्हें इसका अनुवाद हिन्दी में करना होगा। क्यूरी-रम्पती ने इतने कम साधनों के साथ इतनी बड़ी शोध की, इसकी तुलना हमारे यहां आज जो शोध का काम होता है उसके साथ करते हुए बापू कहने लगे, "हमने तो अंधेजों से यह सब काम सीखा

हैं न, सो उनकी तरह पंसा उड़ाना भी सीखा। उड़ाने के लिए पंसा हो या न हो, शोध हम क्या कर पाये हैं ? मैं एक भी शोधक हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं जानता, जिसने ब्यूरियों की तरह तंगवस्ती भोगी हो। पश्चिम में तो ऐसे असंख्य लोग पड़े हैं। तभी तो वे विज्ञान को इतना देसके हैं।”

मैंने सोचा था कि दो दिन की डायरी इकट्ठी लिख डालूंगी, मगर तीसरे दिन बुखार आगया और ऐसे जोर का कि उसने मुझे निकम्मा बना दिया।

भाई ने हफ्ताभर दिन-रात काम किया। बापू का सारा काम और मेरी बीमारी से कुछ थोड़ा-बहुत बा का काम भी उनके सिर पर आपड़ा। मेरी देखभाल तथा दूसरे अनेक कामों के कारण एक मिनट की भी उन्हें फुसंत नहीं मिलती थी। जब यह निश्चय होगया कि मुझे मलेरिया है, टाइफ़ाइड नहीं, तब सबकी चिंता दूर हुई।

बुखार में ही डा० लाजरस का खत आया। मैंने अपनी अगस्त और आधे सितम्बर की तनखा मंगवाई थी। कहती हैं, “तुम्हारा इस्तीफा हमने सात अगस्त से स्वीकार कर लिया है।” मगर मैंने इस्तीफा सात अगस्त से दिया ही नहीं था। परसों उसके पत्र का उत्तर लिखकर बापू को दिया था। आज होसका तो उसे भेज दूंगी। तीन-चार सौ रुपए हज़म कर गई हैं। कॉलेज कैसे मेरे हक की छुट्टी मार सकता है ?

मेरी बीमारी में सरोजिनी नायडू बापू की काफी सेवा करने लगी हैं ! भाई कह-रहे थे, “ऐसा लगता है कि बापू की सेवा की छूत उन्हे भी लग गई है। उनमें सेवा-भाव तो काफ़ी है। हम लोग मेज़ पर खाने को बँठते हैं तो जूठे बर्तनतक उठाने लगती है। कोई चीज़ चाहिए तो सबसे पहले उठकर लाने को चल देती है। हम लोग संकोच में पड़ जाते हैं। हरएक की आवश्यकता को, इच्छा को, वे पहले से ताड़कर पूरा करने का प्रयत्न करती हैं। मि० कटेली की सेवा तो इस तरह कर रही है कि कोई मां क्या करेगी ! अपराधी बवियों, सिपाहियों, सबको खिलाती रहती है। एक कंदी को बुखार आगया तो मेरे पास आई और बोली, “मुझे इसके लिए कोई ताकत की दवा लिख-दो।” एक सिपाही के घर लड़का हुआ। उसके बच्चे के कुरते के लिए उन्होंने रेशमी कपड़ा देविया। ये सब चीज़ें उनके स्वभाव का एक अंग हैं।

कल रात मीराबहन और सरोजिनी नायडू मेरे कमरे में आकर ऊंची आवाज़ से कविता पढ़ रही थीं। मीराबहन राबर्ट बन्स की कविताओं में से कुछ गाकर भी सुनारही थीं। मीराबहन का कविता पढ़ने का ढंग बहुत अच्छा और प्रभावकारी है।

## मीराबहन की सालगिरह

५ नवम्बर '४२

आज बापू ने लार्ड लिनलिथगो को लार्ड हेलीफ्रैंक्स के लड़के की मृत्यु पर शोक-समवेदना का पत्र भेजने के लिए लिखा। बापू अंग्रेजों की बहादुरी की स्तुति कर रहे थे, "कोई उमराव नहीं है जिसके अपने लड़के युद्ध में न गये हों, तभी तो जनता में भी त्याग-वृत्ति पैदा होसकती है, उत्साह आसकता है।" मने कहा, "मगर वहाँ तो जबरन सबको फौज में जाना पड़ता है न ! वे अपने लड़कों को घर पर रख कैसे सकते हैं?" बापू कहने लगे, "वह अलग बात है, मगर वे रखना चाहें तो कई तरीके निकाले जा सकते हैं।"

डा. शाह आज फिर कुनीन का एक इन्जेक्शन मुझे वेगये। उन्हें खुद मलेरिया आ-रहा है। कहते थे, "मुझे भी आज इन्जेक्शन लेना चाहिए था, मगर औरतें ज्यादा बहादुर होती हैं। मैं इन्जेक्शन लेने का इरादा नहीं कर पाया।" फिर अहमदाबाद में जब वे जेल-सुपरिन्टेण्डेन्ट थे, तब के अपने अनुभव सुनाते रहे और बताते रहे कि सरकारी वक्तों में कितनी डील से काम लिया जाता है।

इतने दिन के बाद आज शाम को बापू मुझे महादेवभाई के स्थान पर लेगए। अच्छा लगा। वहाँ पर अब छोटे-छोटे शंखों का २० बनाया है। फूलों के २० जितना सुन्दर वह नहीं लगता, मगर फूल तो सूख जाते हैं, रोज ताजे नहीं मिलते। मिलते हैं तो शंखों पर लगा देते हैं।

शाम को बापू के एक पत्र की नकल नहीं मिलरही थी। बापू भी चिन्ता में थे। इतने में वह मुझे मिल गई। बापू को बताया तो हंसी में कहने लगे, "यह शुभ चिह्न है। अभी जब मैं उसके पाने की आशा छोड़ने लगा था तो सोचा था कि याद से उसे फिर लिख डालूंगा। इतने में तू आगई। देखने में चाहे आज निराशाजनक परिस्थिति हो, तो भी छः महीने में हमारा बँड़ा पार होनेवाला है।"

रात को मीराबहन भाई के साथ चर्चा कररही थीं। कहने लगीं, "साम्यवाद और गांधीवाद में एक समानता है। दोनों गरीब-से-गरीब की सेवा करना चाहते हैं। दोनों की समता की बातें लोगों के सामने रखी जाये तो वे बहुत प्रभावकारी हो।" भाई ने कहा, "ठीक है, पर यह समता साम्यवादियों के लिए बहुत महत्त्व नहीं रखती। बँसे तो साम्यवाद की सब या बहुत-सी अच्छी चीजें बापू के कार्यक्रम में आजाती हैं; परन्तु भेद साधनों में



टहलते समय बापू के साथ मीराबहन

“इसके भोलेपन और इसकी कल्पना-शक्ति का कोई पार नहीं है ” पृष्ठ ६१७

हैं। साम्यवाद आज एक खास पद्धति और जीवन-मीमांसा का नाम है।” मीराबहन कहने लगीं, “हां, मगर बापू पूंजीपतियों के पीछे काक्री हाथ धोकर नहीं पड़े। पूंजीवाद को मिटना होगा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अमली रूप में चलनेवाला नहीं।” भाई समझाते रहे कि सम्पत्ति का अर्थ क्या है, ‘पूंजीवाद को मिट जाना होगा’—इसका अर्थ क्या है और कहने लगे कि बापू के साधन अलग हैं। सत्य और अहिंसा के जरिये बापू को काम करना है, इसलिए उनका काम करने का ढंग भी अलग है और होना ही चाहिए। दूसरा रास्ता ही नहीं है।

मीराबहन साम्यवाद का सिद्धांत समझने के पीछे पड़ी है। मार्क्सवाद का खूब अभ्यास करती है।

दो रोज से रात को खासी सरदी पड़ने लगी है, मगर मौसम धोखेबाज है। शाम को कई बार खासी गर्मी लगने लगती है। अब तो दिवाली आनेवाली है। दिवाली तो हमारे यहां सर्दी की ऋतु का त्यौहार ही माना जाता है। दिवाली के नाम से घर की स्मृति ताजी होजाती है और कलिज की भी। बेचारी माताजी को हम लोगों की उस विन बहुत याद आवेगी।

६ नवम्बर '४२

परसों दिवाली है। कल मीराबहन बापू के पास आईं। दिवाली के दिन उनकी अठारहवें सालगिरह है। सरोजिनी नायडू ने विचार किया था कि मीराबहन का जन्म-दिन और दिवाली का समारोह साय कर दिया जाय। मीराबहन के लिए उन्होंने आन्ध्र की खावी की एक बारीक साड़ी निकाली और उसे मीराबहन को ओढ़नी बनाने के लिए भेंट करने का विचार किया। बिन्दी और इलायची मंगाई और अपनी ‘बांसुरी न्जय्या कृष्ण’ पर लिखी हुई एक कविता, इन सबका अपनी तरफ से एक बण्डल बनाया। मंने बाजार से सीता और राम की एक-एक मूर्ति मंगाई और अगरबत्ती का एक पैकेट। बावाम वर्गरे डालकर टांफ्री बनाई और उसका एक पैकेट बनाया—यह सब मेरी और भाई की भेंट थी। मि० कटेली ने मीराबहन के लिए इकतारान बनाया, फिर कपड़े धोने के साबुन, स्नान करने के साबुन, तेल, दंतमंजन वर्गरे का एक बण्डल बनाया। भाई ने एक खत टाइप किया। भारत सरकार के गृह-विभाग ने मीराबहन को लिखा था कि आपके नाम से एक पार्सल आया है। उस पर लिखा था, “देवत्व के पश्चात् दूसरा दर्जा स्वच्छता का ही है।” वह हम भेजते हैं।” यह सब रात को हमने छिपाकर रख दिया। मीराबहन को जरा भी शंका न हुई कि हम लोग कुछ कर रहे हैं।

बा को कल दोपहर बापू की राह देखते-देखते बहुत भूल लग आई थी। बापू आधा घंटा बेरी से खाने की पहुंचे। बा उनकी बाट तो जोहती रहीं, मगर उनके बेर से

\*“Cleanliness is next to Godliness.”



आने के लिए बहुत नाराज हुई। बापू ने कारण बताने की कोशिश की, पर बा मानने-वाली थोड़े ही थीं !

आज सुबह मैं करीब आधा घंटा घूमी। अब शरीर में शक्ति आ गई है। इससे थकान नहीं हुई। रघुनाथ जमावार को आज फिर बुलार आ गया। बापू कहने लगे, “कुनीन के इन्जेक्शन के बाद भी बुलार आता है तो इन्जेक्शन किस काम के ? वह एक बार इन्जेक्शन ले चुका है।” मैंने बताया कि जहां मलेरिया के मच्छर भरे पड़े हैं, वहां बुलार मच्छर के काटने से दस दिन में नया मलेरिया आसकता है। कुनीन हमेशा तो खून में बँधी नहीं रहती। रोग से लड़ने की हम अपनी ताकत बढ़ा लें, जिससे मच्छर के काटने से भी बुलार न आवे, तो दूसरी बात है। लेकिन इससे बापू की शंका मिटी नहीं।

महादेवभाई की समाधि पर दीमक इतनी बढ गई थी कि पार न था। गोबर की लिपाई बन्द करने से सब दीमक चली गई। इस बार मिट्टी में थोड़ा खूना डालकर लीपा था। लिपाई के बाद समाधि बड़ी सुन्दर दिखाई देती है। ऊँची सफेद शंखो की कतार के साथ जमीन भी सफेद होगई है।

७ नवम्बर '४२

आज सुबह नाश्ते के समय सरोजिनी नायडू ने मीराबहन से कहा, “तुम्हारे लिए एक चिट्ठी और पार्सल आया है। दूध पीकर जरा खोलो तो। कैसे मौके पर आया है।” नाश्ते के बाद मीराबहन ने पार्सल खोला। पहले तो वे मान गई कि पत्र सरकारी लगता है, मगर बाद में समझ गईं। बोली, “हाँ, कल रात प्यारे लाल टाइप कर रहा था।” पार्सल खुल रहे थे तो बापू भी आपहुँचे। घूमने जाने के लिए उठे थे। सब हँसरहे थे। इतने में मीराबहन का हाथ लगा और इकतारा गिर गया। मैंने जल्दी से पीछे से रघुनाथ को दे-विया कि ठोक करा लाओ। कहीं मीराबहन फूटा देखें तो उसे अपशकुन न समझने लगे ! शाम को रघुनाथ नया इकतारा लेआया। मीराबहन बहुत खुश थीं।

दोपहर को कँदियों को चाय तथा कुछ खाने-पीने की चीजें— केले आदि दोगईं । बापू आकर उनसे पूछने लगे, “जानते हो, यह क्यो मिल रहा है ? मीराबहन यहां आकर हम लोगो-जैसी बन गईं हैं। उस दिन को आज सत्रह साल हुए हैं। दिवाली भी है। सरोजिनी नायडू ने सोचा कि तुम्हें यह सब दिया जावे।” एक कँदी आज पहले ही दिन आया था। बापू को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह उठकर बापू के पांव छूने को आया। बस फिर तो तांता लग गया। लोग उठ-उठकर पांव छूने के लिए आने लगे।

बाद में सरोजिनी नायडू कहने लगी, “बापू को इन गरीब कँदियों को पाटों देना अच्छा लगता है। उन्हें राजाओं की पार्टियों में रस नहीं आता, मगर इन लोगों की पार्टियों में आता है। हम इन लोगों का खयाल रखते हैं, इससे बापू को खुशी होती है।”

आज सुबह घूमते समय बापू गीता के बारहवें अध्याय की चर्चा कर रहे थे :

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विधिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिनिरंतरम् ॥

कहने लगे, “अभ्यास का अर्थ हठयोग, ज्ञान का श्रवणमननादि और ध्यान का अर्थ मंत्र करता हूँ उपासना । बा जैसी स्त्री, जिससे पूछो कि तीन सौ से पहले क्या, तो वो सौ नहीं बता सकेगी, मगर हबेली (मंदिर) में जाकर उसे विया जलाना हो या झाड़ू लगाना हो तो उस काम को वह बहुत प्रेम से करेगी । वह भक्ति हुई । ऐसे लोगों के लिए है ध्यान । और चौथा तो कर्म-फल है ही । श्रेय का अर्थ मंत्र करता हूँ आसान । ज्ञान से ध्यान आसान है और सबसे आसान है कर्मफल-त्याग ।\* ध्यान का यह अर्थ मुझे बिनोबा ने बताया था । जब मैंने ‘अनासक्ति योग’ लिखा तो उसे बिनोबा को पढ़ने को विया था । उसके कई स्थलों पर हमारी चर्चा हुई थी । उसमें यह श्लोक चर्चा का विषय था ।”

८ नवम्बर '४२

आज महादेवभाई की समाधि पर शंखों का नया ॐ बनाया । बापू ने गीली मिट्टी तैयार कराई । मिट्टी का ॐ बनाकर उसमें शंख लगाने थे । बापू सुबह ठीक साढ़े सात बजे नीचे जाते हैं, आज सवा सात पर निकले । मीराबहन को बुलाया । वे आईं और उन्होंने मिट्टी नापास की । कहने लगीं, “बहुत डीली है । कल बनाएंगे ।” मगर बापू आज ही बनाना चाहते थे । आखिर ॐ बनाया और बड़ा सुन्दर बन गया ।

जब बनाकर निकले तो आठ बज गए थे । पौन घंटा लगा । बापू बहुत खुश थे—“आज के शुभ दिन मैं नाकामयाब होकर नहीं जाना चाहता था ।” घूमते समय मीराबहन मिली । बापू ने उन्हें बताया कि ॐ सुन्दर बना है । फिर उन्हें तार में से दूर से दिखाने भी लेगा । मीराबहन कहने लगी, “हां बापू, बन तो सकता था, मगर कच्चा बनता । इसलिए मैं बनाना नहीं चाहती थी ।” बापू कहने लगे, “मुझे उसकी परवा नहीं । भले एक दिन ही टिके, मगर हम बनाकर देखें तो सही । अनुभव करना अच्छा है ।”

शाम को बा ने मुझसे कहा कि बापू के जन्मदिन पर जैसी रांगोली दरवाजे पर की थी वैसी करो और ॐ बनाओ । मैंने चूने का ॐ बना दिया, मगर बा को पसन्द नहीं आया । सिपाहियों ने तुलसी के पास लाल रांगोली के चित्र बनाये थे । वे बा को अच्छे लगे । अपने दरवाजे के सामने लाल चित्र उन्हें पसंद आया ।

\*इम अर्थ में कुछ कमी रह जाती है । ‘ध्यानात्कर्मफलत्याग’ का अर्थ यहाँ जैसा श्री बेलवलकर ने बताया है, इतना ही है कि उपासना से कर्म-फल-न्याग सहज ही प्राप्त होता है, क्योंकि उपासक अपना सबकुछ देवार्पण करता है । इसीमें वह परम आनन्द का अनुभव करता है । और कोई फल वह चाहता ही नहीं । इसमें उसे अनंत शांति मिलती है । ‘विशिष्यते’ का अनुमथान ऊपर ही खतम होजाता है । भाई ने बापू को यह बताया तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया ।

शाम को प्रार्थना के बाद महादेवभाई की समाधि पर मैं, भाई और सरोजिनी नायडू गए। शंखों के बीच-बीच में अगरबत्तियों की कतार लगाई। अंधेरी रात में वह इतनी सुन्दर लगरही थी कि क्या कहना! सरोजिनी नायडू कहने लगी, "ओहो, यह तो एक खूबसूरत-सी कविता दीख पड़ती है।" आकर हमने बापू को बताया। कहा, "आपको बिलाने के लिए हमें एक दिन फिर ऐसी ही बत्तियां लगाकर जलानी होंगी।"

श्री कटेली बाहर गये हुए थे। कौन जाने कितने दिनों के बाद आज निकले होंगे? लौटते तो सरोजिनी नायडू ने उनसे भी कहा, "आज आपने एक सुन्दर दृश्य खोबिया है।"

: २७ :

## एक और उत्सव

६ नवम्बर '४२

आज बापू की और हमारी गिरफ्तारी को पूरे तीन महीने होगए हैं। बापू को बिदवास है कि हमें छः महीने से अधिक यहाँ नहीं रहना होगा।

आज गुजराती का नया वर्ष शुरू होता है।

भंडारी और शाह साडे दस बजे आए। बापू ने उन्हें मीराबहन के लिए बनाई गई टाफ़ियों में से कुछ दीं।

सरोजिनी नायडू ने बा को एक साड़ी भेंट की। मेरे लिए भी एक साड़ी और ब्लाउज निकालकर लाई, मगर मैंने लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने बहुत आप्रह किया, पर मुझे इस तरह भेंट लेना उचित नहीं मालूम पड़ा, खासकर इस परिस्थिति और इस वातावरण में। बापू ने मेरा समर्थन किया।

कल से कातना शुरू किया है। बापू कह रहे थे, "अब तू इतनी अच्छी होगई है कि कातना शुरू करना चाहिए।" रात को आजकल बापू के सोने के समय ही सोजाती हूँ, यानी नौ सवा नौ बजे और सुबह छः बजे उठती हूँ। बीच में प्रार्थना के लिए एक घंटा उठ जाती हूँ। उसके बाद सोना नहीं चाहिए, मगर बापू आप्रह करने लगते हैं और मुझे भी बुलार से डर लगता है। इसलिए बहुत कम काम करती हूँ। काफी समय आराम में जाता है।

१० नवम्बर '४२

सुबह घूमते समय बापू कहने लग, "महादेव को मेरा वारिस होना था; पर मुझे उसका वारिस होना पड़ा है। मीराबहन को महादेवभाई की समाधि पर मेरा जाना खटकता है, मगर मेरे लिए वह बिलकुल सहज बन गया है। मैं न जाऊँ तो बेचैन हो-जाऊँ। वहाँ जाकर मैं कुछ करना नहीं चाहता, समय भी नहीं देना चाहता, मगर हो-आता हूँ, इतना ही मेरे लिए बस है। अगर मैं जिन्दा रहा तो यह जमीन आगाखंड

से मांगलूंगा । वह न दे, यह संभव होसकता है । मगर किसी रोज तो हिन्दुस्तान आजाब होगा । तब यह यात्रा का स्थान बनेगा । मैं वहां जाता हूँ तो महादेव के गुणों का स्मरण करने के लिए, उन्हें प्रहण करने के लिए । मैं उसकी स्मृति को खोना नहीं चाहता । और जिस तरह से वह यहां मरा, उससे उसके, उसकी स्त्री और लड़के के प्रति मेरी बक्रावारी भी मुझे बताती है कि मुझे वहां नियमित रूप से जाना चाहिए । होसकता है कि मेरी जिन्दगी में यह जगह मुझे न मिल सके और इस जगह को यात्रा-स्थल बनते में न देख सकूँ, मगर किसी-न-किसी दिन वह जरूर बनेगा, इतना मैं जानता हूँ । आज तो मैं सब काम उसका काम समझकर करता हूँ । बाहर जाऊंगा तब भी उसीका काम करूंगा ।”

मीराबहन ने आज कहा कि वह बा की मालिश नहीं कर सकती है । उनके पास सुबह समय नहीं रहता । कल से मैं करूंगी ।

११ नवम्बर '४२

आज से मैंने बा की मालिश शुरू की । मीराबहन की तबीयत आज ऐसी है कि वह कोई भार उठा ही नहीं सकती ।

शाम को घूमते समय चर्चिल के आज के भाषण की बात आई । मैंने कहा, “थोड़ी-सी विजय होगई तब तो ऐसा बोलने लगे हैं, आगे क्या होगा ?” बापू कहने लगे, “अप्रेज लड़ाई जीतलें, पीछे हमारी लड़ाई और तीव्र बनेगी । आज तो अखबारवाले भी कुछ खास नहीं कह सकते । बाद में वे काफी काम कर सकेंगे । अप्रेज जितने आज बिगड़े हैं उससे ज्यादा और क्या बिगड़ेंगे ? मगर पिछली लड़ाई में इनकी जीत हुई थी । उसके बाद रौलट ऐक्ट आया था । अब भी ऐसा होसकता है । मगर मैं मानता हूँ, ऐसा कुछ वे करेंगे नहीं । करेंगे तो उनकी बड़ी बदनामी होगी । वे बदनामी की भी परवा न करें, ऐसा होसकता है, मगर हम ही चिन्ता क्यों करें ? हम तो आजाद होगये । उस रात उन दो लड़कों ने महादेव से कहा था न कि हम आजाद होगये । वह ठीक था । मैं उसे मानता हूँ । जितना ज्यादा ये लोग जन्म करेगें, जितना बिगड़ेंगे, उतनी ही जल्दी हमारी आजादी आयेगी । मैं नहीं चाहता कि इस कारण वे पशु बनें । मगर मेरे कहने या न कहने से होता क्या है !”

आज अखबार में जयप्रकाश के जेल में से भाग जाने की खबर थी ।

१२ नवम्बर '४२

बापू ने जब अहिंसा इत्यादि एकादश व्रत आश्रम में प्रचलित कर दिये थे तब के अपने अनुभव और बूसरों द्वारा उनकी टीका की बातें आज बतारहे थे । फिर उनके प्रयोगों की बात करने लगे—आत्मबंधना बहुत आसान चीज है । आदमी का माप तो छोटी-छोटी चीजों में से ही निकल आता है ।

१३ नवम्बर '४२

सरोजिनी नायडू की लड़की पद्मजा का मंगल को जन्मदिन है । बापू कहने लगे, “हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए ।” आखिर निश्चय हुआ कि खादी के रुमाल बनाये

जावें। बापू को यहाँ एक बहन ने दो जोड़े धोतियों के भेजे थे। बापू ने धोतियों में से थोड़े-थोड़े टुकड़े निकाल लिये थे। ओढ़ने का टुकड़ा बँसा-का-बँसा रखा था। धोती में से निकला हुआ एक टुकड़ा काम आया। उसमें से पांच रुमाल बनाए। उस पर कढ़ाई करने वगैरा का काम मेरे सिर आया। दो दिन उसमें लगे। कल विचार हुआ कि कुछ चाकलेट बनाकर उनके साथ रुमाल भेजे जावें तो अच्छा रहेगा।

वाइसराय ने राजाजी को बापू से मिलने की इजाजत नहीं दी। इस बारे में बातें होती रहीं।

१४ नवम्बर '४२

आज महादेवभाई को गए पूरे बारह हफ्ते होगए। जो लोग जीवन में सबको सुख देते हैं, वे भरते समय भी किसीको दुःख नहीं देते और जल्दी ही इस जग से चल बसते हैं। जिन्हें अपना किया भगतना है, वे अपने लिए भाररूप होकर दूसरों के लिए भी भाररूप होजाते हैं और लम्बे असंतक पृथ्वी का बोझ बढ़ाया करते हैं। ईश्वर का यह कँसा विधान है!

आज चाकलेट बनाये और पांचो रुमाल पूरे किए।

बापू ने वाइसराय को पत्र लिखा। वे उसे आज ही भेजना चाहते थे, मगर समय पर तैयार न होसका। अच्छा ही हुआ। अब इसमें और सुधार होसकेगे। रात को वह पत्र बापू ने भाई को दिया और उसके विचार तथा भाषा-सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करने को कहा।

शाम को घूमते समय जनरल स्मट्स की बातें चलीं। भाई कहने लगे कि यह सत्या-ग्रह की खूबी है न, कि आठ वर्ष की सख्त लड़ाई के बाद इस तरह मिठास और सुगंधि रहे। बापू कहने लगे, "वह तो है ही। आठ वर्ष में स्मट्स को मेरी ओर से कोई कटु अनुभव हुआ ही नहीं। उसके पास में जब भी जाता था हँसाकर आता था।" भाई डा. राधाकृष्णन्वाली पुस्तक में बापू पर स्मट्सवाले लेख की बात करने लगे। किताब में लिखना तो आसान है, मगर गोलमेज कान्फ्रेंस के अवसर पर भी उसने हिम्मत से अच्छा वक्तव्य निकाला था और आज फिर ऐसा ही किया है। आज वह बापू के परम मित्रों में से एक है। फिर लार्ड अविन की बात आई। बापू कहने लगे, "अविन ने खूब सस्ती करके अंत में थककर कहा था, 'क्या मैं सारे हिन्दुस्तान को कन्न बनादू?' आखिर उसने समझौता कर लेना ही उचित समझा। बेजबुड बेन ने भी तार द्वारा समझौता कर लेने का आग्रह किया। सो वह हुआ। सत्याग्रह में आखिरी शक्ति भगवान की रहती है। हम क्या जानते हैं कि इस समय उसने क्या ठानी है?"

रात को महादेवभाई की समाधि का नक्शा बनाने की बात बापू ने कही। बोले, "अगर हममें से कोई भी जिन्दा बाहर न जावे तो यह नक्शा हमारे सामान में महादेव की पत्नी और लड़के को मिले।"

१५ नवम्बर '४२

आज महादेवभाई को गए पूरे तीन महीने होगए। हम यहां आए थे तब कल्पना भी नहीं की थी कि यहां महीने गुजारने पड़ेंगे। बाइसराय को १४ अगस्तवाला पत्र भेजकर महादेवभाई बहुत खुश थे। उन्होंने कहा था, “अब बापू इस पत्र के उत्तर की राह तो देखेंगे ही। उसमें दस-पंद्रह दिन लग जावेंगे और पंद्रह दिन में तो बहुत कुछ हो-सकता है।” उनके सिर पर एक ही विचार भूत के समान सवार था—कौन जाने बापू कब उपवास की बात पर आजावे ?

बापू कल कह रहे थे, “मैं नहीं चाहता कि मैं इस जेल में मरूं, मगर ईश्वर को क्या स्वीकार है, यह कौन जानता है ?”

भाई रात को बारह बजे तक बाइसरायवाले पत्र पर लगे रहे। सुबह बापू ने उसे देखा। बाद में बाइसराय को जो पहला खत लिखा था उसकी और भारत सरकार के गृह-विभाग के मंत्री को भेजे गये पत्र की नकलें मांगीं। उन्हें मालिश में साथ लेगए। खाना खाते समय कहने लगे, “बाइसराय को पत्र नहीं जाएगा।” कल सरोजिनी नायडू ने कहा था, “बापू को पत्र नहीं लिखना चाहिए। बापू का पहला पत्र सम्पूर्ण था। अब बापू क्यों बार-बार लिखकर इन लोगों को मुह लगाएं? बापू इतने महान हैं कि उन्हें इन लोगों को बार-बार नहीं लिखना चाहिए। उन्हें चुपचाप बंटे रहना चाहिए। आखिर अप्रैज मजदूर होकर बापू के पास आयेंगे।” उस समय तो बापू ने उनकी बात पर खास ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में रात को उस पर और विचार किया। सुबह पुराने पत्र पढ़े तो उन्हें उनकी बात ठीक लगी। पत्र लिखनेका विचार छोड़ दिया। सरोजिनी नायडू उधर से गुजर रही थीं, उन्हें बुलाकर कहने लगे, “अम्माजान, मुझे तुम्हारे सामने स्वीकार करना होगा कि कल जब तुमने बाइसराय को जानेवाले भेरे नए पत्र के बारे में राय जाहिर की तो मैंने उसे कोई महत्त्व न दिया। मैंने गर्व में सोचा कि अम्माजान तो बूढ़ी होगई हैं। ये बातें ठीक तरह नहीं समझतीं। बाद में मैंने इस बारे में फिर सोचा। आज सुबह मैंने सुशीला से बाइसराय वरुंरा के साथ का पुराना पत्र-व्यवहार लाने को कहा। मालिश में उसे साथ लेगया। मालिश के शुरू में १५ मिनट तक मैं काफी काम कर लेता हूं। वह पत्र-व्यवहार पढ़ने के बाद तुम्हारी दलील का बखान में समझा और मैंने अपनेआप सोचा कि अम्माजान तो जबान होरही हैं—हम बूढ़े हो रहे हैं और सठियारहे हैं। सो वह खत अब नहीं जाएगा।” बीच-बीच में हंसी भी खूब चलती थी। जब बापू ने कहा, “मैंने गर्व में सोचा” तो सरोजिनी नायडू ने मजाक में उत्तर दिया, “हां, जवानों के गर्व में सोचा।”

रात बापू उर्दू लिख रहे थे। मीराबहन आईं और कहने लगीं, “हां बापू, यह ठीक है। आप अपनी उर्दू को न छोड़िए।”

मेरे चित्रकारी के रंग आज आए हैं। मीराबहन ने उनसे एक सुन्दर चित्र बनाया। आज भंडारी और शाह आए तब मैं स्नानघर में थी। बापू ने बताया कि उन्हें

सर्पगंधा के उपयोग के बारे में मुझसे कुछ पूछना था। सो मैंने सब कुछ लिखकर भेज दिया। थोड़ी-सी दवा भी भेज दी। अब वह रविवार को आया करेंगे। दूसरे दिन मोटर नहीं मिल सकती। उनके बच्चों को स्कूल जाना होता है।

१६ नवम्बर '४२

आज बापू का मौन था। कल शाम को भाई के कहने से जल्दी मौन लेलिया था, सो आज प्रार्थना से पहले छूट गया। कल और आज बापू ने पद्यजा के लिए जो रुमाल बनाए थे उन पर चार भाषाओं—गुजराती, बंगाली, हिन्दी और तमिल—में 'प.' लिखा। पांचवां मैंने उर्दू में लिखकर उन्हें बताया। रुमाल और चाकलेट पैक करके आज सरोजिनी नायडू को पासल देआई। वह उसे पद्यजा के पास कल जन्म-दिन पर भेजेंगी।

बा की तबीयत आज फिर कुछ बिगड़ी है। भाई की रात भी बहुत खराब गई। उन्हें कुछ दिनों से रात को बहुत कम सोने को मिलता है। कारण कई हैं। एक कारण बा की तबीयत भी है। यह चिंता की बात है।

१७ नवम्बर '४२

आज पद्यजा का जन्म-दिन था। सुबह सरोजिनी नायडू स्नानघर में थीं तब मीराबहन ने उनका कमरा सजाया। पीछे उन्होंने 'खाखरे' बनाए। मैंने पुलाव और साग बनाया। कंदियों को आज खिचड़ी, आमटी, केले, मूली, साग, पापड़ इत्यादि खाने को दिये गए। सिपाहियों को भी खाना मिला। दिनभर धूमधाम में गुजरा। पकाने में इतनी देर लगी कि कंदो लोग दो बजे खाने को बंठे—सिपाही उससे भी आधा घंटा बाद। कंदियों का खाना सिपाहियों ने पकाया, सिपाहियों का सरोजिनी नायडू ने और उनका याने घर के लोगो का मैंने और मीराबहन ने।

१८ नवम्बर '४२

कल पद्यजा के जन्म-दिन के लिए जो खाना पकाया था वह मैंने उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा खाया था। मैं तो कई दिनों से कच्चा साग ही खाती हूँ, मगर सरोजिनी नायडू ने आप्रह किया तो थोडा पका साग इत्यादि चख लिया ताकि उन्हें बुरा न लगे। आज सुबह धूमते समय बापू कहने लगे कि वह नहीं करना चाहिए था। पीछे बताने लगे कि अक्सर उन्हें खाने के कमरे से हम लोगों के हंसने की आवाज आया करती है। हम लोग भूल गए लगते हैं कि यहा हम किस हेतु से आए हैं। हंसना बुरा नहीं है; पर हंसने के योग्य वातावरण होना चाहिए। ऐसे व्यर्थ ही खाने की मेज पर बंठे इधर-उधर की बातों में पड़ने से क्या फायदा? यह थकान उतारने का सच्चा तरीका भी नहीं। यहां हमें गम्भीर रहना चाहिए।

एक कंदी की आंख के पास फोड़ा था। आंख सूजकर बन्द होगई थी। बोपहर उसे चीरा लगाया। बापू बड़ी विलचस्पी के साथ सारा समय पास खड़े रहे और जो मद्द दे-सकते थे, देते रहे। अंत में पट्टी बांधी तो वह कुछ छोटी निकली। दूसरी उसके साथ जोड़ी तब काम पूरा हुआ। बापू कहने लगे, "मेरा आपरेशन करती तो तू कभी छोटी-

पट्टी लेकर शुरू न करती। पहले से पट्टी बड़ी रखनी चाहिए थी।”

कंदी ने ऑपरेशन बड़ी बहादुरी से कराया। भाई को डर था कि वह चीरे के नाम से ही डर जाएगा। शायद बेहोश भी होजाए। इसीलिए सलाह दे रहे थे कि उसे लिटाकर चीरा लगाना चाहिए। मगर बापू कहने लगे, “नहीं, ये लोग तो बहादुर होते हैं। तुम्हें जैसे सुविधा हो वैसे करो।” मनें उसे बिठाकर ही चीरा लगाया। बाव में इस पर बापू कहने लगे, “सर्जन सोच समझकर ही निश्चय करता है; फिर उस पर पक्का रहता है। किसीके कहने से बदलता नहीं।”

डा० लाजरस का उत्तर आया कि मैं सात को दिल्ली से चली थी और आठ की आधी छुट्टी डा० एचीसन से ली थी। इस तरह उसने मेरी सारी छुट्टी मारली है।

१६ नवम्बर '४२

बा को आज दिल की धड़कन का दौरा हुआ। मालिश करने से दब गया।

बापू ने डा० लाजरस को सख्त उत्तर देने को कहा है। अब वह तैयार करना होगा।

२० नवम्बर '४२

कल डा० गिल्डर इत्यादि सबके पकड़े जाने के बारे में बापू बातें कर रहे थे, “सरकार की नीति इस समय लोगों को त्रस्त करने की है, जैसे भी बने भयभीत करना। यह उसके लिए बुरी बात है। इसमें उसका अपना अहित है।”

भाई पंद्रह मिनट घूमकर चले गए। बापू और मैं घूमते रहे। बापू दक्षिण अफ्रीका की बातें करने लगे—कैसे कैलेनबैंक को उनके पास उनका एक साथी, खोजा मुसलमान, जो खुद बहुत व्यभिचारी था, लाया। उनके जीवन पर बापू कोई असर न डाल सके मगर कैलेनबैंक का जीवन, जोकि उसी मुसलमान के जैसा गंदा था, बिलकुल पलट गया। फिर बापू बा के प्रति अपना भाव बताने लगे—कैसे बा ने हमेशा उनका साथ दिया, सब रिस्तेदारो ने भी बा को यही शिक्षा दी कि वे उनके पीछे चलें। बाद में कैलेनबैंक वर्गवादी का स्त्रियों के बारे में क्या मत था, बापू का अपना क्या मत था, यह बताते रहे। कैसे बापू अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर आए, उनका सिद्धांत, उनका प्रयोग, स्त्रियों के साथ उनका व्यवहार—यह सब समझाया। उनकी राय में नवविध बाढ़ के अन्दर रहकर जो ब्रह्मचर्य रखा जासके, वह उनकी दृष्टि से सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं है।

बोपहर को मैं सो गई। आंख खुली तो डा० लाजरस के पत्र का उत्तर सोचती रही। फिर सरोजिनी नायडू को इंजेक्शन दिया। जिस कंदी को चीरा लगाया था उसकी पट्टी की। उसकी सूजन तो सब चली गई है और घाव भर रहा है। बापू कल भी पट्टी के समय आकर खड़े हो गए थे और आज भी। मुझे लगता है कि महादेवभाई ने भी रोगियों की सेवा का शौक बापू से ही लिया होगा।

बा की तबीयत आज अच्छी रही। उदास तो वह है ही। लोहा देना बन्द किया है; क्योंकि लोहे से कब्ज बहुत रहने लगा है।



आज डा० शाह और कलेक्टर हलल आए । कुछ नई वबाइयाँ उनसे कहकर मंगवाई ।

सरोजिनी नायडू की तबीयत अच्छी नहीं है । आज वस्तु होगए, थकान है । बजन तो कम हो ही रहा है । उनके लिए यहां भोजन अनुकूल नहीं है । वे मांसाहारी भी हैं, यहां शाकाहारी बनी है । मगर शरीर को यह परिवर्तन अनुकूल नहीं है, ऐसा लगता है । बापू ने समझाने की कोशिश की कि मांस खाएं, मगर वे नहीं मानतीं । आखिर इतना जानीं कि अंडे हफ्ते में दो दफ़ा खाएंगी ।

बापू ने अकबर इलाहाबादी की कविता पढ़नी शुरू की है और बहुत हविपूर्वक पढ़ते हैं । अकबर की टक्कर का व्यंगमय कविता लिखनेवाला कवि हिन्दी में शायद कोई नहीं हुआ है, इस बात की भी चर्चा बापू आज सुबह कर रहे थे ।

२१ नवम्बर '४२

कल रात में थोड़ी देरतक पढ़ने को बंद गई । नींद नहीं आई थी । दिन में काफ़ी सोई थी । बिस्तर पर पड़े इधर-उधर के विचार आ रहे थे । मुझे लगा कि समय का उपयोग क्यों न कर लूँ । पढ़ने को बंद गई । इस पद बापू नाराज हुए । बोले, "सोने के समय सोना ही चाहिए ।"

शाम को डा० शाह, नेत्र-चिकित्सा-विशेषज्ञ डा० पटवर्धन को लेकर आए । भाई की आंख दिखानी थी । ऊपर डार्क रूम बनाया था । सरकार ने भाई को अस्पताल में ले-जाने की अनुमति नहीं दी । बापू ने पूछा कि क्या वे ऊपर आसकते हैं ? डाक्टर ने इन्कार कर दिया । मैंने समझा—मुझे तो आने ही देंगे । पूछा तो उसके लिए भी मना कर दिया । डा० शाह बार-बार कह रहे थे, "आशा है, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे । यह मेरे हाथ की बात नहीं ।"

बाद में बापू कहने लगे, "बात यह है कि सरकार नहीं चाहती कि डाक्टर मुझसे मिले । मिलेगा तो वह मेरे असर के नीचे आसकता है । और ऊपर न जाते देने का दूसरा कारण यह भी है कि कहीं कोई बुर से मुझे देख न ले ।"

करीब एक घंटा आखें देखने में लगा । देखकर बाहर से ही डाक्टर चले गये ।

बा की तबीयत अच्छी है । सरोजिनी नायडू की अच्छी नहीं मालूम होती, मगर वह तो हिम्मतवाली है । बीमारी की उपेक्षा करके उसे दबा देना चाहती है ।

लाई हेलीफ़ैक्स के लड़के की मृत्यु पर बापू के समवेदना के संदेश की पहुंच का आज वाइसराय की तरफ से समाचार मीठी भाषा में आया ।

भाई ने बताया कि रात को प्रार्थना के बाद बापू अकबर की कविता—'कहो करेगा हिकाजत मेरी खुबा मेरा—' की नकल करते रहे । उन पर उसकी गहरी छाप पड़ी है । कह रहे थे कि गीता की तरह इसे घोलकर पीजाना चाहता हूँ । कल रात सोते समय उसे जबानी याद करने की कोशिश कर रहे थे । एक पद याद नहीं आता

था। भाई से पूछने लगे। उन्हें भी घाद न था। पद बहुत सुंदर हैं। बापू के भाव की पूरी-पूरी प्रतिध्वनि उसमें से आती है।

: २५ :

## सतयुग की कल्पना

२२ नवम्बर '४२

आज सबेरे घड़ी देखने में भूल हुई। इसलिए प्रार्थना के लिए ३-१० पर उठ गए। मगर सुबह उठने का वक्त हुआ तो बापू को लगा कि उनकी घड़ी पीछे होगई है। सो सवा पांच बजे उठ गए। इतने में भाई ने आकर बताया कि अभी तो सबेरा है, सो फिर सो गए और सबसे आखिर में जागे।

घूमते समय बापू पहले तो उर्दू के कवियों की बातें कहने लगे। भाई उन्हें गालिब की कविता के बारे में बताते रहे। ऐसे ही इकबाल, जौक, अकबर बगैरा की बातें चलती रहीं। बाद में बात चली कि कैसे अब अंग्रेजी बोलनेवाले प्रदेश पूर्वी अफ्रीका की तिजारत को अपने काबू में रखने की योजना में लगे हैं। बापू कहने लगे, "इस योजना में इंग्लैण्ड ही अकेला नहीं, अमेरिका भी इसके साथ है। अमेरिका आज इतना पैसा लड़ाई में उड़ारहा है कि जिसका हिसाब नहीं; क्योंकि न उड़ावे और जर्मनी जीत जावे तो अमेरिका को तो वह निगल ही जावेगा। अमेरिका जब इतना खर्च करता है तो उसे और पैसा चाहिए ही। अमेरिका के पास आबादी तो है; पर उसकी वास्तविक शक्ति उसके पैसे में है। मगर मैं मानता हू कि अमेरिका पर हिन्दुस्तान का असर इतना है कि अमेरिका हमें लूटने में नहीं शामिल होगा, और हो भी तो भले हो। योद्धा को जैसे सामना करनेवाले को देखकर ज्यादा जोश और उत्साह आता है, वही मेरा हाल है। मैं चाहता हू कि जर्मनी और जापान को जीत न हो। जिस शत्रु को हम जानते हैं उसके साथ निपटना ज्यादा आसान है। जर्मनी और जापान के पास नया कुछ भी नहीं है। पुराने ढंग की भी जो चीजें हैं वे भी सड़ी-गली हैं। उन्हींको उन्होंने अपना आवश मान लिया है। दूसरी ओर अभी रूस है। उसके पास भली-बुरी, कंसी ही हो, कुछ नई चीज है। अगर रूस आज मिट जावे तो गरीबों के पास कौनसी आशा रह जावेगी? रूस ने पाशविक बल का बहुत इस्तेमाल किया है, तो भी वह बल और सत्ता जनता के हाथ में है न। यह चीज आजकल के मेरे पढ़ने से मुझ पर और स्पष्ट होरही है। किस बहादुरी से वे लोग आज लड़ रहे हैं। अगर अंग्रेज जीतेंगे तो रूस की बहादुरी के कारण। अब मैं जवाहर-लाल की चिन्ता को समझ सकता हू। वह मुझसे कहता है, "गरीबों के लिए तो वो ही चीजें हैं, या तो तुम्हारा रास्ता या रूस का। तुम्हारा प्रयोग तो जब सफल तब देखेंगे, मगर रूस ने तो सफल कर दिखाया है।" रूस मटियामेट होजावे,

सहन होसकता है ? मैं भी इसे मानता हूँ । होसकता है कि मेरा तरीका सचमुच मेरी अपनी मूर्खता का ही चिह्न हो, होसकता है कि मैं कल्पना के स्वर्ग को देख रहा हूँ । अगर ऐसा हो तो भी मुझे फिकर नहीं । मैं इस बारे में बुद्धि चलाना ही नहीं चाहता । जो चीज बुद्धि से निकली नहीं, उसमें मैं बुद्धि को क्यों चलाऊँ ? क्यों बुद्धि के प्रपंच में पड़ूँ ? यह नहीं कि मैं बुद्धि चला नहीं सकता, मगर बुद्धि चलाकर मैं अपनी श्रद्धा को हिलाऊँ क्यों ? बस मुझे मेरी श्रद्धा का सेवन करते हुए कल्पना के स्वर्ग में रहना भी पंसब है ।”

भाई कहने लगे, “इतिहास के विस्तार को देखें तो उसमें कोई नैतिक हेतु विकसित होता है, इस बारे में शंका होने लगती है । इतिहास की वार्ताकिक क्रिया नीति-अनीति के आधार पर निर्मित नहीं लगती ।” बापू कहने लगे, “वह ठीक है, मगर इतिहास को नैतिक स्वरूप देने का प्रयत्न हो रहा है ।”

पीछे भाई कहने लगे, “काकासाहब की बह्यवेद की यात्रा का एक पुराघ्राफ मुझे याद रह गया है—पर्वत की चोटी हमें बहुत लुभाती है । ओ हो, वहाँ कंसा भव्य दृश्य होगा ! एक पर से दूसरी पर चढ़ते हैं । आखिर ऊपर पहुंचकर देखते हैं तो बस कुछ खास नहीं मिलता । मुझे लगा करता है कि जीवन में सभी चीजों के बारे में क्या ऐसा ही नहीं होगा ? अर्थात् प्रयत्न में ही सब कुछ है । अंत क्या होगा, उसके विचार में कुछ नहीं ।” बापू कहने लगे, “हमारी लड़ाई में ऐसी बात नहीं है । यहाँ तो हमें निश्चित और प्रत्यक्ष परिणाम अन्त में मिलने ही बाले हैं ।” भाई कहने लगे, “वह तो है ; परंतु वार्ताकिक द्वन्द्व की क्रिया तो अनन्त और अनादि है न । इसलिए सतयुग की स्थापना तो कल्पना जगत में ही रहेगी । उत्साह को बढाने या कायम रखने के लिए वह भले ही उपयोगी हो ; परन्तु उसको सचमुच एक साध्य हेतु मानकर बँठ जाना क्या मात्र भोलेपन का चिह्न नहीं है ? इसीलिए ब्रेन्सफोर्ड ने एक जगह कहा है न कि सतयुग (यूटोपियाज) की कल्पनाएं आनेवाली स्थिति की इतनी सूचक नहीं होतीं जितनी कि किसी युग में प्रजा किस बर्जितक पहुंच चुकी है, उसकी सूचक है । मानव-समाज की प्रारंभिक अवस्था में प्रगति की ओर लेजाने के लिए ऐसी दंतकथाओं की आवश्यकता होती है ; परन्तु आज जब कि विज्ञान और इतिहास के अनुभव के कारण मानव-समाज तरुण अवस्था को पहुंच चुका है तब ये दंतकथाएं बहुत हदतक गंजरूरी-सी होगी हैं ।” बापू कहने लगे, “इस किस्म के सतयुग को, चूँकि वे आदर्श जगत में ही सम्पूर्णतया मिलते हैं, इसलिए उन्हें हम एक मिथ्या दंतकथा का वर्ज नहीं वेसकते । यूक्लिड का रेखा-बिन्दु तो सचमुच आदर्श जगत के बाहर नहीं मिलता ; परन्तु इसलिए वह कम सच्चा नहीं । एक आदर्श की हैसियत से तीनों काल में वह सत्य है । उसका आधार न हो तो भौतिक विज्ञान के तौर पर यूक्लिड का सिद्धान्त आगे नहीं चल सकता । इसलिए यद्यपि इतिहास का वार्ताकिक द्वन्द्व अनन्त और अनादि है तो भी सतयुग कोई भ्रमणा नहीं ; परन्तु सत्य पदार्थ है और इस सापेक्ष जगत में उसका उतना ही स्थान है जितना कि किसी भी सत्यता को ।”

शाम को डा० पटवर्धन भाई को ऐनक का नम्बर ब कुछ सूचनाएं देवाए ।

डा० लाञ्जरस को उत्तर लिखा। बापू ने उसमें सुधार किया। कल साफ़ नकल करके भेजुंगी।

शाम को बाबल थे। हवा में वर्षा-आगमन का आभास था। सामने पहाड़ सुन्दर खीखरहे थे। बापू कहने लगे कि यह दृश्य चित्र उतारने लायक है। भाई मीराबहन से कहने लगे कि उस दृश्य का रंगीन चित्र बनाओ।

महादेवभाई की समाधि पर शिला लगाकर समतल प्लेटफार्म-सा बना लिया है। अभी मिट्टी की लिपाई की जाएगी, बाद में उस पर शंखों का ऽ बनावेंगे। करीब एक हफ्ता ऽ के बिना चलाना पड़ेगा। आज उसमें जगह-जगह दरारें पड़ गई थीं। दो-तीन बार लीपने से ठीक होगा।

: २६ :

## भंसालीभाई का उपवास

जिमूर के फौजी अत्याचारों के बारे में जांच करने से सरकार ने इन्कार किया है, इस कारण भंसालीभाई ने सेवाग्राम में निजंल उपवास शुरू किया है, ऐसी खबर पत्रों से मिली। सबको इससे काफ़ी चिन्ता हुई। बापू पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ११ तारीख से उपवास शुरू है। अखबार में लिखा था कि पानी पीना भी छोड़ दिया है। कबतक निभेगा, भगवान जाने! भंसालीभाई के लिए तो चिन्ता होती ही है। मगर इसकी बापू पर क्या प्रतिक्रिया होगी, उसकी सबको और भी चिन्ता होरही है।

शाम को बापू जल्दी घूमकर लौटे। कह रहे थे कि प्यारेलाल के साथ कुछ बातें करनी हैं। पंद्रह मिनट बात की। सवा छः बजे कातने को बैठे। कातते समय रोज की तरह मंने बाइबिल पढ़कर सुनाया।

२३ नवम्बर '४२

आज बापू का मौन था। भंसालीभाई की कोई और खबर शायद मिले, इस आशा से सबने अखबार एक सिरसे दूसरे सिर तक देख डाले, मगर खबर कोई थी ही नहीं। भाई ने सरोजिनी नायडू की मालिश की। पीछे सो गए। बा को अखबार सुनाना रह गया। अतः बा गुजराती अखबार लेकर मेरे पास आईं। मंने पढ़कर सुनाया।

डा० लाञ्जरस को पत्र लिखा, मगर भाई ने कुछ और बातें बढ़ाने को कहा। अह साफ़ नकल कल तैयार करुंगी।

२४ नवम्बर '४२

आज भाई ने मेरा लाञ्जरसवाला पत्र देखा। बापू कह रहे थे कि कल तो जाना ही चाहिए।

शांतिकुमार को भेजी हुई कुछ किताबें आज भाई को मिलीं । उन पर कागज चढ़ाया और उनकी सूची बनाई । माताजी इत्यादि के पत्र मिले । बहुत अच्छा लगा ।

शाम को घूमते समय बापू बात करने लगे, “मैं शूद्र आदमी हूँ तो मेरे साथ घनिष्ठ सम्बंध में आनेवाले लोगो को दिन-प्रतिदिन उन्नति करना ही चाहिए । कोई चीज इस जगत में स्थिर नहीं रह सकती । उसे आगे बढ़ना है या पीछे हटना है । मेरे सम्पर्क से कोई पीछे हटे, यह कैसे सहन होसकता है? मेरे संपर्क में आनेवालों का अनिष्ट हो तो मेरा इष्ट कैसे होसकता है? किसीको झूठ सिखाकर मैं सत्य थोड़े ही सीख सकता हूँ । इसलिए यह पक्की बात है कि मेरे सम्पर्क में आनेवाले उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ें, तभी मेरा प्रयोग सफल हुआ कहा जासकता है ।”

बापू ने एक तार भण्डारी को भेजा और भंसालीभाई के साथ तार से सम्पर्क करने की सरकार से इजाजत मांगी, ताकि होसके तो उनका उपवास छुड़ा सके । भंडारी ने तार को टेलीफोन द्वारा बम्बई सरकार को सूचित किया । आशा थी कि जवाब शायद आज ही आजावे, मगर राततक नहीं आया ।

सुबह घूमते समय भंसालीभाई की ही बातें होती रहीं । मेरे मन में उनकी साधुता के प्रति बहुत मान रहा है । बापू के बाद मेरी नजर में भंसालीभाई ही साधु है । बापू कहने लगे, “मैं उसे अपने से ऊचा समझता हूँ । वह तीनो काल निर्भय रहता है । यह साधु का लक्षण है । वह जो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता ।” मैंने पूछा, “भंसाली-भाई को क्या लगता होगा ?” बोले, “कुछ नहीं, वह तो महाभारत को भी घोटकर पीगया है । महाराष्ट्रियों में धर्म-ग्रंथो में से अद्भुत नतीजो निकालने की विलक्षण क्षमता है ।” मैंने कहा, “और महाराष्ट्र में से कितने सत निकल चुके हैं ।” बापू कहने लगे, “इसीलिए मैंने महाराष्ट्र से अभीतक आशा नहीं छोडी । विनोबा को ही देखो ।” मैंने कहा, “आपके पास से भी मत काफी निकले हैं । आश्चर्य नहीं अगर महादेवभाई भी भविष्य में संत की तरह पूजे जावे ।”

बापू कहने लगे, “मैंने तो कहा ही है कि महादेव की समाधि तीर्थस्थल होने-वाली है ।” मैंने कहा, “ऐसे ही ईश्वर न करे, भंसालीभाई जावे तो वे भी सत माने जाने-वाले हैं ही, और विनोबा तो आज सत हो ही चुके हैं । उनके तो लेख भी महाराष्ट्र में फैल चुके हैं । ‘गीताई’ घर-घर में गाई जा रही है । तुकाराम की तरह विनोबा के काव्य महाराष्ट्र के बच्चे-बच्चे के मुंह पर चढ़नेवाले हैं ।” बापू कहने लगे, “यही चीज मुझे आश्वासन दिलाती है कि मेरा काम निष्फल नहीं जावेगा । मेरी श्रद्धा अधश्रद्धा नहीं है । जो मैं कहता हूँ, उसमें सचमुच कुछ सार है ।”

भंसालीभाई पर प्रभाव डालनेवाला आज आश्रम में कोई नहीं है— किशोरलालभाई नहीं, काकासाहब नहीं, इसकी चर्चा हुई । बापू ने तो भंसालीभाई को तार करने का सोच ही लिया था, साथ ही मन में तटस्थता भी थी । बापू ने कहा, “मेरी मानसिक तैयारी है कि अगर इजाजत न मिले तो इस वक्त एक भंसाली नहीं, हमें

अनेक भंसाली खोने की तैयारी रखना है।" मगर ईश्वर न करे, भंसालीभाई सबमुच चले जावें! यह मानसिक तैयारी उन्हें जबबंस्त आघात से बचानेवाली नहीं है।

२५ नवम्बर '४२

आज सबेरे घूमते समय बापू व्यवस्थित तरीके से काम करने के महत्त्व की बातें सुनाते रहे। मैं आज सुबह प्रार्थना के पश्चात् सोई नहीं थी—डायरी लिखने लगी थी। उसमें उन्हें अव्यवस्थित वृत्ति लगी। हर रोज प्रार्थना के बाद आधा घंटा तो सोना ही चाहिए, ऐसा उनका मत था। उन्हें कुछ काम भी था और मैं दूसरे कमरे में बैठी थी, इससे सुबह कह नहीं सके। बोले कि तुम्हें ऐसी बातें खुद सोचनी चाहिए। भाई की बात कहने लगे, "उसके जैसा उदार आदमी मैंने देखा नहीं। जिसकी सेवा करना स्वीकार करेगा, पूरी तरह तन्मय होकर करेगा। मैं उसको पूरी तरह अनुकूल होना चाहता हूँ ताकि उसमें जो सुवर्ण-जैसे गुण हैं, वे खिल सकें।"

दोपहर को आधा घंटा सो गई। अखबार में भंसालीभाई की आज भी कोई खबर नहीं थी, मगर होमीतारपुरवाला नाम के एक लड़के ने उनके बारे में एक छोटा-सा लेख 'बाम्बे फॉनिकल' में लिखा था। अच्छा था। यह लड़का एक गरीब पारसी है। मैंडम सौफिया वाडिया उसकी पढ़ाई का खर्च उठारती हैं। कलिज में पढ़ता है। एक वक्त सेवा-ग्राम आश्रम में एक महीने रह गया था। ईश्वर कहीं-कहीं से सबदगार भेज देता है, यह चकित करनेवाली चीज है। किसको कल्पना थी कि यह लड़का भंसालीभाई के पक्ष में अपनी आवाज उठायेगा! भले उसका कोई नतीजा न निकले, मगर उस लड़के ने तो अपनी तरफ से अपना फर्ज अदा करके पुण्य ले ही लिया।

बापू ने भण्डारी को एक पत्र लिखा था कि बम्बई सरकार को टेलीफोन या तार से मेरी तरफ से कहो कि मेरे तार का शीघ्र उत्तर दे; क्योंकि ऐसे मामलों में समय बहुत कीमत रखता है।

लाजरसवाला पत्र सुबह ही बापू ने सुधार दिया था। आज वह गया।

२६ नवम्बर '४२

आज सुबह भाई घूमने आए। बापू दक्षिण अफ्रीका के अपने कुछ अनुभवों की बातें करते रहे। फिर निजी बातें करते हुए बोले, "मैं चाहता हूँ कि तुम हरएक चीज में नियम-बद्ध रहने लगे। तब तुम जो करना चाहते हो, वह कर सकोगे।"

दोपहर अखबार में भंसालीभाई की खबर थी। ११ नवम्बर से उनका उपवास था। १६ को उपवास में पंवल चलकर दोबारा ज़िमूर गए, २२ को पहुँचे, ६८ घंटों में ८० मील की यात्रा की। उसमें सिर्फ पंद्रह घंटे आराम किया। पुलिस फिर उन्हें पकड़कर बर्धा छोड़ गई है। वे अब फिर ज़िमूर जाने का विचार कर रहे हैं।

शाम को घूमने के बाद मीराबहन के साथ पक्षी देखने नीचे गई। वे बतारही थीं

कि मानों घड़ी को देखकर कुछ पक्षों बारी-बारी से आकर नीचे तार पर बैठते हैं। उनमें दो उल्लू हैं। वे शाम के ६-१० पर आते हैं।

मीराबहन आज यह विचार कर रही हैं कि सारी दुनिया में कैसे क्रांति होसकती है। उनकी मान्यता है कि पहले कुछ नेता रुस जावे, फिर हर गांव से कुछ किसान वहाँ भेजे जावें, वे आकर बाकी लोगों में प्रचार करे। मीराबहन का विभाग आज रुस और मार्क्स से ही भरा हुआ है। बापू कह रहे थे, “यह एक छोटी-सी मिसाल है कि कैसे उनका मन एक बालक की भांति कल्पना के घोड़े पर सवार होकर कहां-से-कहां पहुंच जाता है, नहीं तो आज इस जेल में बंटे हुए रुस जाने का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है? और फिर क्या हम इतने कंगाल हैं कि रुस जाने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकते?”

२७ नवम्बर '४२

प्रातः घूमते समय बापू भाई के साथ फिर इतिहास और ऐतिहासिक प्रक्रिया की चर्चा करने लगे। चर्चा मार्क्स के शिक्षण पर आई। बापू कहने लगे, “मार्क्स का कहना है कि पांच इंद्रियों से जिसे पहचाना न जासके उसको मानने की जरूरत नहीं, मगर मैं कहता हूँ कि इन्सान कितनी ही होशियारी से काम करे तो भी कुछ-कुछ छिद्र रह जाने-वाला है। यह अज्ञात तथ्य मनुष्य के हिसाब को गलत सिद्ध कर सकता है। इसे ही गीता ने ‘दंब’ के नाम से पुकारा है—‘दंबचंबात्र पंचमम्’। मार्क्सवादी उत्तर देंगे कि आज हमने कुदरत पर पूरी तरह काबू नहीं पाया, मगर कभी नहीं पाएंगे, यह मानने का आपको अधिकार नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि जब पाओगे तब की बात तब, मगर आज आपको इस अज्ञात तथ्य को अपने सामने रखना ही होगा।”

फिर रुस की बात करने लगे, “रुस ने इतना किया है तो भी मैं कहता हूँ कि रुस का काम तबतक टिक नहीं सकता, जबतक कि उसके साधन शूद्र नहीं होते। मेरे सामने तो एक ही चोख है—‘सत्य’, वह भी पूर्ण सत्य—भले ही वह पांचों इंद्रियों के द्वारा न अनुभव किया जासके। तो भी वह है, जैसे कि यूक्लिड की लाइन भले ही कल्पना में रहे तो भी उसका अस्तित्व तो है ही। सो सत्य है और उसे हमें दूढ़ना है। उसे दूढ़ने का एक ही साधन है—अहिंसा। उसमें हमें चाहे हजारों वर्ष लग जाय; लेकिन हम उसे प्राप्त करेंगे तो हमारा काम पायदार होगा—टिकनेवाला होगा।” पीछे मार्क्सवाद की पुस्तक की बात चली। बापू कहने लगे, “उसने अच्छी किताब लिखी है, तो भी उसमें कई त्रुटियां हैं। वह पुस्तक आज अमर होगई है; क्योंकि लेनिन ने उसमें बताए सिद्धांत पर अमल कर दिखाया। पूर्णतया तो वे भी नहीं कर पाए, तो भी उन्होंने काफी कर लिया है। इसी तरह हमें भी अब करके दिखाना है।”

भाई पूछने लगे, “प्रकृति के नियम स्वतंत्र, सनातन और शाश्वत हैं। उनका स्रोत मनुष्य का मस्तिष्क नहीं। इसी तरह आज पूंजीवाद का कानून जो मार्क्स बताता है, वह भी सत्य माना जाता है। क्या वह उपरोक्त अर्थ में ठीक है? या यह कहा जाय कि ऐसे

कानूनों की उत्पत्ति मनुष्य की कल्पना में से होती है और उसका समर्थन करनेवाली ऐतिहासिक युक्ति इन्सान बाद में ढूँढ़ लेता है ? अर्थात् ये सब कानून मनुष्य के बनाए हुए हैं और मनुष्यों से अलग इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ?" बापू कहने लगे, "कुदरत के कानूनों का तो स्वतंत्र अस्तित्व है। मनुष्य हो या न हो, सूर्य की गति कायम रहेगी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती रहेगी, मगर पूंजीवाद के कानून का तो आधार ही मनुष्य है। मनुष्य के अनुभव, मनुष्य के मन पर जो प्रतिक्रिया हुई, उसमें से वह कानून निकाला गया है। इसलिए उसकी मैं कुदरत के कानून से तुलना नहीं करता हूँ। उसको इस तरह तीनों काल में सच्चा नहीं मानता हूँ।"

आज शुक्रवार था, इसलिए कलक्टर और डा० शाह आए। शिष्टाचारवश पूछकर चले गए कि आपको कोई शिकायत तो नहीं है ?

रात को बापू के लिए एक नई बकरी आई। बहुत सुन्दर है। मीराबहन बड़ी खुश हैं। उसे बापू के पास लाई। कहती थीं, "बहुत अच्छी नस्ल की बकरी है। इसकी नाक रोमन है।" भगवान जाने, बकरियों के रोमन नाक कौसी होती होगी।

२८ नवम्बर '४२

आज सुबह घूमते समय बापू से भाई ने कहा, "लोग पूछते हैं कि अहिंसा के द्वारा तुम लोग धनवानों के फंदे में से धनहीनों को कैसे छुड़वा सकते हो ?" बापू कहने लगे, "मैं तो इसके उत्तर में यह कहूंगा कि अगर धनहीन को अपनी शक्ति का ज्ञान होजावे तो फंदे में फंसा नहीं रह सकता। मैं तो खुद धनहीनों में से हूँ। मुझसे कोई भी जैसे चाहे, काम नहीं करवा सकता। माना कि पहले तो मैं नौकरी करके रोटी कमाता था, फिर मुझे ज्ञान हुआ कि नौकरी क्यों ? मेरे पास चर्खा है। मैं कातूंगा और उसकी कमाई से गुजारा करूंगा। किसी के सामने लाचार नहीं बनूंगा। जो मैं कर सकता हूँ, वह सब कर सकते हैं।" इस विचार-श्रेणी पर ही समाज-क्रांति की मंने अपनी कल्पना की नींव रखी है।

भाई ने बताया कि कुछ लोगों ने उनसे चर्चा करते हुए पूछा था, "युवक वर्ग तो उत्साह और आवेश पर ही चलता है। उनके सामने हम अपनी कल्पना की एक पूरी तस्वीर रख सकें तो अच्छा हो।" इसका भाई ने क्या उत्तर दिया था, यह भी बताया तो बापू ने कहा, "तो यह चीज तुम लिख डालो। उसमें अपूर्णता रह जायगी तो उसे देख लेंगे।" भाई ने चर्चा करनेवालों से कहा था कि हम बाद में इस काम के लिए शासन-संघ की मदद भी लेंगे, इत्यादि। बापू ने कहा, "इस उत्तर में विचार-बोध है। आज हमारे पास सत्ता नहीं है। सत्ता इस्तेमाल करने की बात क्यों करना ? वे लोग तुम्हें जबाब देंगे कि ऐसे तरीके से तुम्हें सत्ता मिल नहीं सकती। कांग्रेसी मिनिस्ट्री (मंत्रिमण्डल) आगई। वह तो एक संयोग की बात थी— ऐसा समझो। बाइसराय भी इस बात पर तुले थे कि समझौता करना है। वह खुद १९३५ के कानून के निर्माता हैं। उन्हें लगा कि यह चल जावे तो अच्छा है। ऊपर से भी उन पर



दबाव था कि कुछ करो। सो मिनिस्ट्री आई। मगर बाद में वे लोग उसके गर्भित अर्थ को समझे। ऊपर से तो गबनर तारीफ करते थे, मगर खुफिया-रिपोर्ट में जाता होगा कि ये लोग खरीबे नहीं जासकते। इनके साथ हमारा काम नहीं चल सकता। सब मंत्रिमण्डल केन्द्रीय कांग्रेस पार्लमेण्टरी बोर्ड के द्वारा चलाए जाते थे। सो वह बहुत दिन चलनेवाली चीज नहीं थी। आज तो युद्ध के कारण हम मिनिस्ट्री में से निकले, बरना कौन जाने, कौसी परिस्थिति में निकलना पड़ता। सत्ता हाथ में आजावे फिर तो ऐसे सुधार करने में कुछ कठिनाई नहीं आती और फिर इन चीजों के बारे में शंका करनेवाले भी नहीं रहेंगे। राजकोट एक छोटी-सी जगह थी। बहा जब हमें सफलता मिली थी, उसके बाद गड़बड़ नहीं होगई होती तो काठियावाड़ का तो रूप ही बदल जाता और सारे हिन्दुस्तान पर उसका असर पड़ता। मगर आज सत्ता हमारे पास है नहीं।”

आज महादेवभाई को गए पत्रह हफ्ते होगए। समाधि पर एक हफ्ते से ३० नहीं बनाया। लिपाई बगैरा होरही है। पत्थर लगाए हं, सो हम फूल रखकर ही चले आते हं।

श्रीमती नायडू और मि० कटेली के लिए आज पूरियां बनाई, मोराबहन और बा के लिए मेथी के परांठे। शाम को मोराबहन की तबियत बिगडी। पेट खराब था। सिर में दर्द और ९९.६ बुखार, ऊपर से मचली होती थी। सुबह ही वे कहरही थीं कि जी आज अच्छा नहीं हं। बाद में खाना बगैरा खाया तो उससे जी और बिगड़ गया।

२९ नवम्बर '४२'

आज सुबह भण्डारी और शाह आए। कटेली साहब ने बात की कि सरोजिनी नायडू की लड़की को हमने टाँफो बनाकर भेजी थी। वे लोग मजाक करने लगे, “हमें क्यों नहीं दो ?” श्रीमती नायडू मुझसे कहने लगी कि अब फिर ये लोग आवे तो उनके लिए टाँफो तैयार रखना।

सुबह घूमते समय भाई के साथ खुराक बगैरा के बारे में बातें होती रहीं। उनकी खुराक काफी नहीं और सो बहुत ही कम पाते हं।

शाम को घूमते समय भाई के साथ कलवाले प्रश्न पर आगे चर्चा करते हुए बापू बोले, “मैं मानता हू कि अहिंसा के द्वारा सब प्रश्न हल होसकते हं। यह भी मस्रिता हू कि अगर कोई देश तैयार होसकता है तो हिन्दुस्तान ही इस तरह से प्रश्न हल करने को तैयार होसकता है।

“मनुष्य-स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, क्योंकि मैं जानता हू कि मेरी दलील को काटने का काफी सामान मनुष्य-समाज की आज की परिस्थिति में पड़ा है। सब-के-सब त्यागी नहीं बनने वाले। जापान के चियडे अगर आज उन्हें मुफ्त मिले तो सब लेंगे। उनमें अनेक श्रुटियां हं। मार्क्स पूंजीवाद की चर्चा करता हू और कहता हू कि आखिर ये लोग जाबेंगे कहां ? ऐसे ही मैं कहता हू कि आज का मनुष्य-स्वभाव हमें लेजायेगा कहां ? अगर अहिंसा को न अपनावें तो लड़ाई-पर-लड़ाई होती ही रहेगी। सुधरा हुआ मनुष्य-समाज इस

चीज को कैसे सहन कर सकता हूँ ? और धनवानों के वर्ग में से मार्क्स-पद्धतिवालों ने बड़े-बड़ों को मार डाला। छोटे-छोटे धनवान तो उन्हें भी रखने पड़े; क्योंकि उन्हें भी मारने जाते तो उनकी अपनी पार्टी में बहुमत और अल्पमत के बीच झगड़ा उठ खड़ा होता। सो जैसे हमारे यहां पार्टीवार पड़े हूँ, ऐसे उनके यहां कूलाक पड़े हूँ। सत्ता तो उनके हाथ में ही नहीं। अहिंसा-पद्धति के द्वारा हम बड़े धनवानों को भी मार नहीं डालते, अगर उनकी सत्ता धनहीन वर्ग पर से उठ जाती है।”

भाई कहने लगे, “आप इसे एक दर्शन का रूप देकर इस पर एक पुस्तक लिख डालिए।” बापू कहने लगे, “मुश्किल यह है कि यहां पर मार्क्स भी मैं हूँ और लेखक भी मैं हूँ। पुस्तक तो मेरे मस्तिष्क में पड़ी है। जब मौका आता है तब मैं उसमें से मतलब की बात निकाल लेता हूँ।” भाई कहने लगे, “आप तो परिस्थिति देखकर क्या करना है इसका निश्चय कर लेते हैं। आपके मस्तिष्क में वह सब है, मगर आपके बाव लोगों का मार्ग-दर्शन कौन करेगा ? आज तो मौका आने पर आपकी ज्ञानेन्द्रिय जाग्रत होजाती है और आप काम कर लेते हैं। मौका न हो तो बरसोंतक चुप ही बैठे रहते हैं।” बापू कहने लगे, “हां, वह ठीक है। मौका आने पर मेरी छठी ज्ञानेन्द्रिय जग उठती है और बाव में फिर सोजाती है। मगर तुम जो कुछ कह रहे हो वह मैं कर नहीं सकता। वह मेरी शक्ति से बाहर है। काका ने भी यही कहा था। मैंने कहा, ‘काका, मैं स्मृतिकार नहीं हूँ।’ कुछ प्रेरणा हुई तो कह दिया। जबतक परिस्थिति मेरे सामने आकर खड़ी न होजावे, मैं निश्चय नहीं कर सकता कि क्या करूंगा। तो मैं स्मृति कैसे लिखूँ ? अभी इस लड़ाई में ही मैंने पहली लड़ाइयो से उल्टा किया है। पहले यह था कि कंदियों की तरह का बर्ताव अमलदारों के साथ करना है, उनका हुक्म मानना है। वह अहिंसा में से निकला था। आज उसी अहिंसा में से उससे उल्टा निकला है; मगर इन दोनो का विरोध मात्र ऊपर का विरोध है, सच्चा विरोध नहीं। सो यह अहिंसा की कार्य-पद्धति तो धीरे-धीरे विकसित होरही है और होती रहेगी। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं स्मृति नहीं लिख सकूंगा।”

पीछे मिल के कपड़े की बातें होने लगीं। बापू ने कहा, “सब जानते हैं कि मैं तो मिलों का खात्मा चाहता हूँ, मगर आज मैं उसके लिए वायुमण्डल तैयार कर रहा हूँ। जो खादी नहीं पहनते, वे भी जानते हैं कि असल चीज तो खादी ही है। मगर वे अपना शौक नहीं छोड़ सकते या कुटुम्ब में महगी खादी खरीदने की शक्ति नहीं रखते; पर उनमें से अधिकतर का मन खादी के लिए तैयार है। इस तरह वातावरण तैयार होरहा है। समय आने पर बाकी काम कानून से होजायगा।”

शाम को ७-२५ पर बापू ने मौन लिया। मीराबहन आज भी बीमार ही है। ज्यादा लम्बी बीमारी न चले तो अच्छा है।

३० नवम्बर '४२

आज बापू का मौन था। सो धूमते समय भाई ने कल की बात के सिलसिले में ही कुछ प्रश्न बापू के विचारार्थ उनके सामने रखे। उनमें से दो तो ये थे : (१) सत्याग्रही

जड़बल क्यों लगते हैं ? (२) चर्खा और दूसरे ग्रामउद्योग हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए काफी हैं, भले ही वे दुःख से लोगों को बचाने में समर्थ न हों ? प्रेस ने जो उत्तर दिया है, वह संतोषजनक नहीं है ।

धी कटेली ने कुछ सज्जियां बोई हैं । शाम को हम उनका साग-भाजी का बगीचा देखने गए । गोभी बोई है, मगर उसके तैयार होने में अभी दो महीने और लगेंगे । तबतक छः महीने के हिसाब से तो हमारे यहां से जाने के दिन आजावेंगे । मन में आता है कि चार महीने के करीब तो गुजर गए, अब दो महीने में क्या एकाएक कोई चमत्कार हो उठेगा कि परिस्थिति बदल जायगी ? मगर बापू की श्रद्धा है कि कुछ होगा और हम दो महीने में जेल से निकल जाएंगे । कहते हैं, विश्वास से पवंत भी हिल जाते हैं ।

मीराबहन आज अच्छी हैं । आशा है कि कलतक बिलकुल चगी होजावेगी ।

बा के नाम आज पासल आया । उसमें जमीकंद था, काला ग्राह और खजूर । नक्षत्र-मण्डल पर एक पुस्तक भी थी । सब चीजें शांतिकुमारभाई ने भेजी हैं । पहले भेजी थीं तो सरकार ने यह कहकर कि बा ने ये चीजें नहीं मंगवाई हैं, पासल लौटा दिया । पीछे शांतिकुमारभाई ने पुछवाया । अब पासल फिर वापस आया है । बा खुश है ।

भंसालीभाई की कोई खबर नहीं । बापू का तार और पत्र बगैरा सब सरकार हजम कर गईं लगती हैं ।

बापू रात को १२ बजेतक सो नहीं सके । बहुत थके-से थे । विचार भी चलते थे ।

सर्दी काफी पड़ने लगी है । रात को और सुबह ठंड होती है । बाद में दिन भर सर्दी भाग जाती है । बादल दो-एक रोज आए और बिना बरसे चले गए । आज आकाश बिलकुल खुला है ।

पुराने फूल करीब-करीब खतम हो गए हैं । माली नए फूल लगा गया है । कोई महीने भर में नए फूल निकल आवेंगे ।

महादेवभाई की समर्पण पर ३० आज भी नहीं बना सके । एक-दो लिपाई और होगी, तब जगह तैयार होगी ।

: २७ :

## ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त

१ दिसम्बर '४२

आज महीने के शुरू का दिन बुरा गया । शाम को घूमते समय बापू ने भाई के इन प्रश्नों का उत्तर दिया—“राजनैतिक प्रश्नों में तो हमें वैधानिक अंकुश चाहिए तो फिर आर्थिक क्षेत्र में हम संरक्षकों की दया पर क्यों रहें ? क्यों न इन पूंजीपतियों पर

भी कानून का बंधन हो और सबको कानून से ट्रस्टी बनना पड़े ?”

उत्तर में बापू ने कहा, “मैंने ऐसा नहीं कहा कि आगे जाकर वैधानिक अंकुश नहीं होगा। आखिर कानून से उनका भी कमीशन—वेतन बंधेगा। सिर्फ इतना ही है कि मैं उनका हनन नहीं करना चाहता। उनकी शक्ति का उपयोग कर लेना चाहता हूँ, जैसे कि जमनालालजी थे। उनकी सम्पत्ति का उपयोग समाज के लिए हो तो भले ही वह सम्पत्ति जमनालालजी की कहलाए। रूस में पूंजीपतियों का सर्वनाश किया गया और उनसे कहा गया, “आपको यहां रहना है तो किसान बन जाओ।” मगर मैं कहता हूँ कि तुम्हें किसान बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारे हृदय का परिवर्तन होजाय तो मेरे लिए बस है।” भाई कहने लगे, “सच्ची ट्रस्टीशिप की स्थिति न आए तबतक इस बीच के समय में क्या हम सिद्धान्त में ढील नहीं देवेंगे?” बापू कहने लगे, “अहिंसा में समझौते को हमेशा स्थान रहा है। समझौता अहिंसा का शरीर है—ऐसा कहा जा सकता है। मगर इस चीज में समझौते की बात नहीं आती। ट्रस्टीशिप कोई आरजी चीज नहीं है। वह तो स्वयं एक आदर्श है। पूंजीपतियों के लिए ट्रस्टीशिप की यह मेरी बनाई अंतिम स्थिति है। इससे आगे जाने की गुंजायश नहीं। हमारी (कांग्रेस की) संस्था स्वतंत्र इच्छा से संघटित लोगों से बनी है। हम पूंजीपतियों से स्वतः अपने हकों का त्याग करने को कहते हैं। हम आज उनके सामने यह नहीं रख सकते कि तुम पांच सैंकड़ा कमीशन लो या दो सैंकड़ा। जितना त्याग वे स्वयं करें उससे मुझे संतोष होजायगा मगर कोई ऐसा निकले कि वह दो सैंकड़ा लेना चाहे तो मैं उससे यह थोड़ा कहूंगा कि नहीं, तुम दस सैंकड़ा लो। इस तरह अच्छा वातावरण पैदा होजाएगा। मानो कि एक पूंजीपति टेढ़ा निकला। कहने लगा कि जाओ, मैं कुछ नहीं छोड़ता। तो मैं कहूंगा कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा—कानून से मजबूर होकर छोड़ना पड़ेगा। आखिर पूंजीपति अल्पमत में है। उन्हें बहुमत के सामने झुकना ही है। मुझे उनसे बहुत-सी चीजें छीननी होंगी, जैसे कि खिताब है, वर्ग-भाव है। मगर मैं उनकी पूंजी छीनना नहीं चाहता। उसका समाज के लिए उपयोग चाहता हूँ।”

आज मीराबहन अच्छी हैं। डा० शाह आए थे। देखकर चले गए। श्रीमती नायडू के हाथ को रात में पोस्त का सेंक बिया। बा को त्रिफला लेने से बहुत फायदा हुआ है।

२ दिसम्बर '४२

आज सुबह घूमते समय भाई ने बापू से कहा, “हमें यह हिसाब निकालना चाहिए कि सामान्य मनुष्य की आवश्यकताएं क्या-क्या हैं, उन्हें पूरी करने के लिए मेहनत की कितनी इकाइयों (Man-hours of labour) की आवश्यकता है? हाथ से काम करके वह पूरी होसकती है या मशीन का आश्रय लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा तो किस हदतक?” बापू कहने लगे, “इस बारे में काफी विचार होचुका है। पूरा काम नहीं हो पाया, इतना मैं मान लेता हूँ, मगर मैंने विनोबा, कुमारप्पा, कृष्णदास,

प्रभुवास और नारायणवास से काफी हिस्सा करवाया है। वह हिस्सा 'हरिजन' में समय-समय पर छप भी चुका है। एक बात के बारे में मैंने पूरा विचार नहीं किया। वह है जमीन। जमीन के बिना अकेले चर्खें और अन्य ग्राम-उद्योगों से लोगों की गरीबी दूर नहीं की जा सकती। जमीन का प्रश्न कैसे हल होगा, यह मैं पूरी तरह से आज जानता नहीं हूँ।"

भाई कहने लगे, "माक्स के सिद्धांत का बहुत-सा हिस्सा ज्यों-का-त्यों स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, जहाँ वे हिंसक बल के उपयोग की बात बताते हैं, वहाँ हम अहिंसक बल रखें। लोग क्यों मान लेते हैं कि अहिंसक बल उतना काम नहीं दे सकता? आज का अनुभव हमें इससे उलटा सिखाता है। मरने की तैयारी तो दोनों में चाहिए ही। इतना ही तो अहिंसक का आत्म-बलिदान सामने के पक्ष को हिंसा की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावित कर सकता है।"

बापू बोले, "मरने की तैयारी तो आवश्यक है ही, मगर आज तुम देखोगे कि मरने की तैयारी भी उन लोगों की अहिंसावादियों से ज्यादा है। और केवल मरने की तैयारी से काम नहीं चलता। जापान के 'हाराकिरी' (आत्मघात) करनेवालों को देखो। वे लोग मरने को कोई चीज नहीं समझते; साथ ही उन्होंने हिंसा को धर्म बना रखा है। जब दोनों के मरने की तैयारी एक-सी होजायगी तब हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकेंगे कि अहिंसक बल हिंसक से बहुत आगे बढ़ जाता है। आज तो कबूल करना होगा कि हिंसकों में मरने की तैयारी और शक्ति बहुत अधिक है।"

भाई कहने लगे, "हिंसा से वे लोग जो परिणाम लाना चाहते हैं, वे उनके साधनों के आंतरिक दोष के कारण स्थायी नहीं हो सकते, पूर्ण नहीं हो सकते और अंत में समय भी ज्यादा लेते हैं। रूस को लीजिए। उसकी मान्यता है कि शासन-तंत्र (State) को आखिर अनावश्यक होकर निकल जाना है, मगर वास्तविक परिस्थिति उससे उलटी है। वहाँ शासन-तंत्र तो दिन-प्रतिदिन ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। स्टालिन इसका कारणभूत नहीं माना जा सकता। एक भी साम्यवादी के मुँह से यह उत्तर नहीं निकल सकता; क्योंकि इन लोगों की फिलॉसफी में व्यक्ति को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता। जो हो रहा है, जो हुआ है, वह उनके साधनों के दोष के कारण हुआ है। ये दोष उनके साधनों के गर्भ में रहे हैं।"

बापू ने कहा, "किसी कच्चे माक्सवादी पर ऐसी बातों का प्रभाव पड़ सकता है, मगर पक्के जयप्रकाश-जैसों पर नहीं, जो आज सत्ता को बलपूर्वक छीनने की तैयारी कर रहे हैं।"

भाई कहने लगे, "आप ठीक कहते हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम उनका हृदय पलट नहीं सकते। हमें उनके साथ मिलकर काम करना होगा और उनकी विचार-धारा में अहिंसा को जिस हद तक दाखिल किया जा सकता है, करना होगा। क्या इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जो आदर्श वे हमारे सामने रखते हैं, वही सच्चे हैं?"

बापू बोले, "मैं यह नहीं कहना चाहता। कारण साफ है। वे लोग अपने अनुभव से कहते हैं कि अहिंसा चलनेवाली चीज नहीं। वे हमारी अहिंसा को भी आखिरी हिंसा की तैयारी के रूप में ही देख सकते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि मुझे आप लोगों की मान्यता से कुछ लेना-देना नहीं है। मेरे सामने एक चीज आ गई है। उसकी कितनी शक्ति है, वह क्या-क्या कर सकती है, यह बतौर एक वैज्ञानिक के मुझे देखना है। क्यूरी ने जब रेडियम की शोध की थी तो पहले उनके पास रेडियम प्रत्यक्ष नहीं आया था। उनके प्रयोगों से उन्हें पता चल गया था कि रेडियम-अंसी कोई चीज है सही, मगर जगत कहता था, "जबतक तुम रेडियम हमारे हाथ की हथेली पर रख नहीं देतीं, उसके लक्षण और गुणों का ठीक-ठीक वर्णन नहीं कर सकतीं, तबतक हम नहीं मानेंगे।" सो वह काम करती गई। आखिर थोड़ा-सा रेडियम उन्होंने तैयार किया, उसके गुणों की भी शोध की। तब जगत माना। पीछे दुनिया को उसी चीज का गुणाकार करके आवश्यकतानुसार रेडियम तैयार कर लेना पड़ा। वही बात अहिंसा के साथ भी लागू होती है। जगतके सामने जबतक एक सम्पूर्ण प्रयोग नहीं आजाता तबतक उसे वह शंका की दृष्टि से देखेगा। शंका रखने का जगत को हक है। मैं इस प्रयोग को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। परिणाम क्या होगा, यह मैं नहीं जानता।"

बीपहर को भंसालीभाई की खबर गुजराती अखबार से मिली। बीस रोज उपवास को हो चुके हैं। श्री मुंशी उनसे चिमूर के रास्ते पर जाकर मिले थे। बापू कह रहे थे, "यह कंसी दुःख की बात है कि अंग्रेजी अखबारों में दम ही नहीं है; नहीं तो भंसाली-भाई की खबर छापे बिना वे कैसे रह सकते हैं? आज अखबारों में जो चल रहा है, वह लोकमत को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए नहीं, सरकार का मुंह रखने के लिए ही हो रहा है।"

शाम को घूमते समय कुछ दिन पहले के इस प्रश्न के उत्तर में कि सत्याग्रही जड़-वत-से क्यों लगते हैं, बापू ने कहा, "सत्याग्रही जड़वत लगते हैं, यह मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इसके कारण को ढूँढो तो पहली याद रखनेवाली बात यह है कि किस वर्ग में से मेरे पास सत्याग्रही आए। लेनिन के पास काम करनेवाले धनहीन थे; क्योंकि वह उनके लिए काम कर रहा था। कुछ भी हो, लेनिन को उनसे संतोष मानना था। इसी तरह मेरे पास जो कार्यकर्त्ता हैं उनसे मुझे भी संतोष मानना है। दूसरी बात यह है कि जबतक वे लोग मेरे अंकुश के नीचे रहकर काम करते हैं, उन्हें जड़वत लगना ही है। कारण यह है कि सत्याग्रह का संचालक मैं रहा। मुझे आगे उनमें से कोई कंसे जासकता है? वे लोग अपनी बुद्धि चलाने लगे तो उनका राजाजी-अंसा हाल होगा। मैंने राजाजी से कहा था कि जबतक मैं हूँ, तुम मुझे समझाने का प्रयत्न करो। न समझा सको तो अंत में तुम्हें मेरी बात मानकर चलना चाहिए। वे कहने लगे, "कभी नहीं।" तो मैंने कहा, अच्छी बात है। ऐसे ही कह तो जवाहरलाल भी बेता है कि 'कभी नहीं' मगर पीछे करता वही है जो मैं कहता हूँ। ये सत्याग्रही भी दूसरे विषयों में तो जड़-से नहीं हैं। एक सत्याग्रह

के विषय में हूँ। मोतीलालजी-जैसे भी जबतक मेरे साथ काम करते थे, अपनी नहीं चल सकते थे। के० टी० शाह को देखो, मेरे साथ था, तो हर बात मुझसे पूछकर लिखता था। उसका तेज बंका रहता था। मेरा विरोधी बना तो एकदम लोगों को वह एक महान् अर्थशास्त्री और तेजस्वी आदमी लगने लगा। ऐसे ही कुमारप्पा हैं। आज वह मेरे साथ जड़बत लगेगा, अलग होजावे तो घमकने लगेगा। आर्यनायकम क्या कर सकता है ?' गुलबेव के पास वह बड़ा विद्वान था, मगर मेरे पास आकर वर्षा शिक्षण-प्रणाली में पड़ा। वहाँ उसे मुझसे पूछ-पूछकर काम करना है; क्योंकि वर्षा शिक्षण-प्रणाली की उत्पत्ति मेरे मस्तिष्क में से हुई।" इस प्रकार की दो-चार मिसालें बापू ने और दीं, जहाँ बापू को छोड़ देने के बाद लोग एकदम ऊपर चढ़ गए-से लगते थे। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि सत्याग्रहियों की जड़ता देखने में जड़ता-सी लगती है; पर यह वास्तविक जड़ता नहीं है।

आज सरोजिनी नायडू के विवाह को ४४ वर्ष हुए। वे आइसक्रीम बनाना चाहती थीं, मगर मैं और भाई नहीं खानेवाले थे, इसलिए उन्होंने भाई से सबके लिए फलों के रस का एक पेय तैयार करवाया। सबने बड़ी प्रसन्नता से पिया।

३ दिसम्बर '४२

आज इस दिन के बाद भसालीभाई के विषय में बापू के तार का सरकार ने उत्तर दिया, "आपको प्रो० भंसाली के साथ तार या पत्र-व्यवहार करने की इजाजत नहीं दी जासकती, मगर मानवता की दृष्टि से आप उनका उपवास छुड़वाना चाहें तो आपकी सलाह उन्हें सरकार की तरफ से पहुंचादी जावेगी।" बापू की तो ऐसा उत्तर पाने के लिए तैयारी थी ही। तो भी अच्छा तो किसीको नहीं लगा।

आज 'हिन्दू' अखबार में प्रो० भंसाली के उपवास की छोटी-सी खबर थी। उसमें से नई बात यह मिली कि उपवास के शुरू होते ही श्रीमती जानकीदेवी बजाज ने बापू को उनके उपवास के बारे में पत्र लिखा था। वह पत्र सी. पी. सरकार की माफत दिल्ली सरकार के पास गया। उसने उसे बापू के पास भेजने से इनकार किया। खबर सुनकर बापू कहने लगे, "इस वक्त सरकार चाहे जो करे, मेरे मन में निराशा तो आती ही नहीं है। जो जहाँ पड़ा है, अपना-अपना काम अपनी शक्ति के अनुसार पूरी तरह मन से कर रहा है। मुझे इससे बहुत सन्तोष होता है।"

आज सुबह घूमते समय फिर ट्रस्टीशिप पर चर्चा छिड़ी। भाई कहने लगे, "आप कहते हैं कि पूंजीपतियों के हृदय का परिवर्तन होगा और उससे आज की सारी अर्थ-व्यवस्था बदल सकेगी, मगर समाजवादी कहते हैं कि पूंजीवाद और निजी मिल्कियत की प्रथा मिटेगी तथा वातावरण बदलेगा तभी एक वर्गविशेष के रूप में पूंजीपतियों का हृदय भी बतौर एक वर्ग के बदलेगा। जब आप भी कई बार कहते हैं कि वलील से ये लोग नहीं समझेंगे, परिस्थिति इन्हें अपनेआप समझा देगी तो आप मार्क्सवाद के उस सिद्धांत

का समर्थन नहीं करते कि भौतिक वातावरण मूल वस्तु है। विचारप्रणाली और आदर्श-वाद उसका फल है, उसकी प्रजा है।”

बापू कहने लगे, “मैं इसे स्वीकार नहीं करता कि पंच महाभूत-जगत से परे कोई तत्त्व ही नहीं है; परन्तु इतनी बात है कि उस पर तत्त्व का अस्तित्व पांच इन्द्रियों द्वारा सिद्ध नहीं होसकता। वह स्वयंप्रमाण है। मनुष्य के आंतरिक अनुभव द्वारा उसका साक्षात्कार किया जासकता है। जबतक हम यह चीज मानते हैं तबतक हम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते कि मनुष्य का आचरण और स्वभाव उसके बाह्य वातावरण पर ही निर्भर है।”

मैंने पूछा, “ट्रस्टी बनने पर भी उन लोगों के मन में घमंड तो रह जावेगा न कि हम धनपति हैं, हमने इतना त्याग किया है, और धनहीन उनकी दया और उनका धन दान-रूप में स्वीकार करें तो क्या अपने स्वमान की हानि न करेंगे ?”

बापू बोले, “दान का सवाल ही नहीं उठता। ट्रस्ट के ट्रस्टी थोड़े ही ऐसा समझते हैं कि उन्होंने दान किया ! मैंने दक्षिण अफ्रीका में अपनी सब जायदाद का ट्रस्ट किया था, मगर न मेरे और न किसी के मन में भी कभी आता था कि मैंने दान किया है।”

मैंने कहा, “मगर आज हमारे पास ट्रस्टीशिप का कोई नमूना है तो जमनालाल-जी का है। जमनालालजी की बहुत चीजें सेवा के काम में इस्तेमाल होती थीं। कितनी ही जायदाद उन्होंने दे भी डाली। तो भी उनके मन में यह तो था ही कि वे देते हैं—दान करते हैं।”

बापू कहने लगे, “जमनालालजी ने महा प्रयत्न किया, मगर वह पूरी तरह से ट्रस्टी बन नहीं सके। वह उनकी अपूर्णता का नतीजा था।”

भाई बोले, “एक व्यक्ति जिसके पास इतने साधन रहे, सत्सग रहा, अच्छा अनुकूल वातावरण रहा, उसके लिए अपने-आपको बदलना इतना कठिन सिद्ध हुआ तो सारे-के-सारे पूंजीपति वर्ग का बदलना कितना कठिन होगा ?”

बापू कहने लगे, “नहीं, शुरू में रास्ता निकालनेवालों को मुश्किल आती है, मगर बाद में उसका अनुकरण करनेवालों के लिए वही चीज सरल बन जाती है। मैं मानता हूँ कि मनुष्य-स्वभाव उध्वंगामी है। मैं डाबिन के सिद्धांत को नहीं मानता कि मनुष्य बंदर में से निकला है।”

भाई ने कहा, “तो क्या आप यह मानते हैं कि सब जीव अलग-अलग (Separate Creation) बने ?”

बापू ने उत्तर दिया, “मैं नहीं कह सकता कि मैं क्या मानता हूँ, मगर बंदर से मनुष्य का विकास हुआ है, यह नहीं मानता।”

मैंने कहा, “तो अगर डाबिन का सिद्धांत सही है तो आपके उसको न मानने से हानि होसकती है; क्योंकि गलत जगह से शुरू करने से हमारे नतीजे भी गलत होंगे।”

बापू कहने लगे, “वह होसकता है।”



इस पर भाई इसका उभय पक्ष सामने रखकर बोले, “वह तो तब न, जब हम मानें कि साइंस ने जो कहा है वह अंतिम वचन है। आज तो साइंस का आधार ही बदल रहा है। हम क्या जानते हैं कि अन्त में क्या रह जावेगा, क्या नहीं ?”

बापू ने कहा, “इसका अर्थ यह होता है कि जबतक हमारी मान्यता गलत सिद्ध नहीं होती, इस श्रद्धा से चलें।”

: २८ :

### गोलमेज परिषद के कुट्ट संस्मरण

दोपहर और शाम को बापू से भाई गोलमेज परिषद के बारे में कुछ बातें पूछते रहे। हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के लिए क्या-क्या कोशिशें हुईं, कैसे हिन्दू-मुस्लिम को एक-दूसरे से समझौता करने को कहकर दूसरी तरफ से सरकार चुपके से साम्प्रदायिक निर्णय तैयार कर रही थी। एक रोज बापू को मुसलमानों ने अपनी सभा में बुलाया। वहां पर सब बापू की चापलूसी करने लगे, “आपके लिए क्या मुश्किल है साहब, आप श्री जिन्ना की १४ मांगें पूरी कर दें।” आगाखानों ने शुरू किया, “आप बड़े महात्मा हैं। आपके लिए इतना कर देना एक खेल है...” बर्गरा-बर्गरा। बापू ने कहा, “आपको इस तरह मेरी हंसी उड़ाना शोभा नहीं देता। मैं कौन हूँ? आपके तो इतने अनुयायी हैं। मेरे पीछे कौन है? मुझे कांग्रेस ने एक काम के लिए भेजा है। दूसरा काम करने का मुझे कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिया। इसके लिए डा० अन्सारी को मदद की मुझे जरूरत है।”

शौकतअली भी कहने लगे, “सरकार, आप इतना कर दें। आपके लिए यह कौन-सी बात है?” बापू कहने लगे, “शौकतअली, तुम्हारे लिए यह मुनासिब नहीं है। तुम आज कहां मेरे पीछे चलते हो? फिर मैं तुम्हारा ‘सरकार’ कैसे रहा?” वह कहने लगे, “नहीं सरकार, आप इतना कर दें, फिर हम आपके पीछे ही हैं।”

बापू ने आगे बात चलते हुए कहा, “श्री जिन्ना तो पूरे राजनैतिक तरीके से पेश आए। एक बार उन्होंने मुझे अपने निवासस्थान पर बुलाया था। अंगीठी के सामने मेरे साथ जमीन पर बैठ गए। कहने लगे, “आप तो बड़े महात्मा हैं। ये तो मामूली चीजें हैं। आप इनको मंजूर कर लें।” मैंने कहा, “मैं यह सब जबतक नहीं कर सकता जबतक डा० अन्सारी से पूछ न लू। हिन्दू-मुसलमान के मामले में बही मेरा रहनुमा है। उसके बिना मैं एक कदम नहीं उठा सकता।” उन्हें वह मंजूर न था। फिर मजलिस में आए। बेगम शाहनबाज भी वहां थी और वे भी उसी रंग में रंगी हुई थीं। उसी तरह मुझसे कहने लगीं, “आप महात्मा हैं। इतना कर देने में क्या मुश्किल है?” तब मैं रो पड़ा। मैंने कहा, “और सब तो इस रंग में पूरी तरह रंगे जा चुके हैं, भगर औरत होकर तुम भी इसमें हिस्सा लेती हो—यह मुझसे सहन नहीं होता।” हिन्दू-मुसलमानों के समझौते की बातचीत टूटी

और दूसरे रोज सुबह ही सरकार का साम्प्रदायिक निर्णय हमारे हाथों में आगया । वह रातोंरात थोड़े ही तैयार हुआ था । वह तो तैयार पड़ा हो था । ऊपर से मुंह-दिल्लावे के लिए हम से कहा जाता था कि आपस में फंसला करो, और ऐसा किया जाता था कि आपस में फंसला हो ही न सके । विलायत से आने से पहले में लॉयड जार्ज, बाल्डविन आदि से मिला था । ”

लॉयड जार्ज से मिलने बापू जब गए थे तब का एक मनोरंजक किस्सा उन्होंने कुछ दिन पहले सुनाया था । बापू वहां रात के १२-१ पर गये । एक पालतू बिल्ली, जिसके गले में एक पट्टा पड़ा था, आकर बापू की गोद में बैठ गई । बापू वहां करीब दो घंटे बैठे । सारा समय बापू उसकी पीठ पर हाथ फिराते रहे और वह बंठी गुर्राती रही । लॉयड जार्ज ने कहा, “दो रोज पहले यह बिल्ली एकाएक यहां आपहुंची । मैंने सब मित्रों से पूछा कि किसकी है ? लेकिन पता नहीं चला । ” दूसरे रोज लॉयड जार्ज के यहां से आबमी पूछने आया, “क्या वह बिल्ली आपके साथ आई है ? ” बापू ने कहा, “नहीं । ” बिल्ली बापू के आने के बाद एकाएक गायब होगई थी । बड़ा प्रयत्न किया गया; परन्तु कुछ पता नहीं चला कि वह कहां चली गई ।

बापू कहने लगे, “लॉयड जार्ज ने सब बातें धीरज से सुनीं, पूरी सहानुभूति दिखलाई । कहने लगे, “आपका केस तो सम्पूर्ण है । जब आयरलैण्ड का सवाल चलता था तब सत्ता मेरे हाथ में थी । आयरलैण्ड की मांग का विरोध किया, मगर बाद में मैंने देखा कि अब उनके साथ समझौता होना ही चाहिए और बंसा ही किया । यहां भी एक-दो हफ्ते में फंसला होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है । मगर आज मेरे पास सत्ता नहीं । मैं किसी का नुमाइन्दा नहीं हूं । मेरी आवाज अरण्यारोदन के समान है । मैं किसी चीज में दखल नहीं देता । ”

बापू ने आगे कहा, “बाल्डविन तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था । सर सिमु-एल होर ने उनसे मिलने का प्रबंध कर दिया । वह भी लार्ड लिन्लिथगो की तरह बाह्य शिष्टाचार खूब बरतता था । बाल्डविन के पास तो मैं पत्रहू मिनट भी नहीं बंठा । मैंने अपना केस रखने की कोशिश की । बताया कि हम तो ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजी राज्य में हिन्दू का हमेशा अहित ही रहा है । आप लोगों से हमने कुछ सीखा है, मगर वह आप लोगों के सम्पर्क में आने के कारण । आप राजा न होते और हम आपके सम्पर्क में आते तब भी सीखते—तब शायद ज्यादा सीखते । आपके पास सुन्दर भाषा है । उसमें इतना काम किया गया है, इतना साहित्य लिखा गया है । उसकी हमें कदर है । हम हिन्दुस्तान में सीमित होकर नहीं रहना चाहते । सारे जगत के साथ सम्बंध रखना चाहते हैं, मगर आजाद होकर । हमें स्वतंत्रता चाहिए । अंग्रेजी भाषा में ‘इन्डिपेन्डेन्स’ शब्द का जो अर्थ है, वह स्वतंत्रता हमें चाहिए, किसी खास तरह की नहीं; क्योंकि हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज बुरी चीज है । वह कहने लगा, “इसमें हमारा मतभेद है । मुझे तो अपनी कीम का और भारत में अपने शासन का गर्व है । ” मैंने कहा, “ऐसा है तो मुझे आपसे और

कुछ नहीं कहना ।”

“वेजवुड बेन उसी समय हिन्द-मंत्री के पद से हटा था । उससे मंने पूछा, “यह अल्पमतवालों के प्रतिनिधि आपने किस तरह चुने हैं ? मुसलमानों में डा० अंसारी को कैसे छोड़ा जासकता था ? यह हुआ कैसे ? मैं समझता था कि हिन्द सरकार ने अन्सारी के रास्ते में रुकावट डाली होगी; क्योंकि बर्लिंगडन से जब मंने कहा कि अन्सारी को जाना चाहिए तो उसने कहा था कि मैं उन्हें नहीं जाने देसकता ।” मगर वेजवुड बेन ने कहा, “इस बारे में मुझे कबूल करना चाहिए कि भूल मेरी हुई । मुसलमानों ने कहा कि अन्सारी को नहीं बुलाना चाहिए । वह आवेगा तो हम नहीं बँटेंगे । मंने उनकी बात मानली, मगर अब मैं देखता हूँ कि वह मेरी भूल थी । लेकिन अब हो क्या सकता है ?” वेजवुड बेन ने भी स्वीकार किया कि मेरा केस सही था । उन्होंने मेरे साथ खुलकर बात-चीत की ।

“सर सेमुएल होर से तो बहुत बार मिलता था । इतना मुझे कहना चाहिए कि वह मेरे साथ साफ बिल से बात करता था । यह नहीं था कि मेरे साथ एक बात और दूसरे के साथ दूसरी बात । सबके साथ उसने एक ही बात की । वह साफ कहता था, “सत्ता तो हमारे हाथों में है । तुम लोग मुझे सलाह देसकते हो । उस पर अमल करना न करना हमारे हाथ की बात है । वह तुम्हें हम पर ही छोड़ना होगा ।” मंने कहा, “आजादी तो जब आवेगी तब, मगर आज इतना तो ही कि उस आनेवाली आजादी की कुछ झलक आपके कामों में दिखाई दे । कानून चाहे कुछ भी हो; लेकिन प्रथा तो ऐसी बने की हमारे कामों में हमारी सलाह से आप चलें । अभी घनश्यामदास और पुरुषोत्तमदास हमारे अर्थ-शास्त्री हैं । अर्थशास्त्र में वे हमारे नुमाइदे हैं । हिन्द के अर्थशास्त्र के मामलों में आप उनकी सलाह से चलें ।” मगर वह कहने लगा, “यह तो हो नहीं सकता ।”

“सैंकी तो बिलकुल अथसरवादी आवमी था । जयकर-सप्रू बगैरा उसकी तारीफ करते थे । मुझे इससे आश्चर्य होता था ।”

भाई कहने लगे, “कई लोग आजतक टोका करते हैं कि क्यों अकेले आप गोल-मेज परिषद में गए । वे नहीं समझते कि वहाँ का काम कितना कठिन था । अगर आप अकेले नहीं होते तो सब बिगड़ने ही वाला था ।”

बापू बोले, “इसमें तो शक ही नहीं । इतना कठिन काम था कि अगर मैं अकेला न गया होता तो हमारी धज्जियाँ उड़ गई होतीं । ऐसे मौकों पर अकेला आवमी ही काम कर सकता है ।”

भाई कहने लगे, “अल्पसंख्यकों के बारे में जब समझौते की बातचीत टूटी तब जेम्स मिल्ज तो करीब रोने जैसा होगया था । कहने लगा, “ये लोग कहते हैं कि अब हमने गांधी का खात्मा कर दिया है ।” मगर जब आपने साम्प्रदायिक निर्णय पर भाषण दिया तब वह खुश होगया, नाचने लगा और कहने लगा, “अमेरिका से तार आते हैं कि हम अब समझे ।” और इबेब ने तो यहाँतक कहा था कि इस्लाम कबूल करने के सिवा बापू ने जो

कुछ उनकी ताकत में था, वह सब उन लोगों को संतोष देने के लिए किया। मगर कुछ फायदा न हुआ। और सच्ची बात तो यह है कि अगर बापू मुसलमान होने को तैयार होजाते तो भी मुझे यकीन नहीं कि वे लोग उन्हें स्वीकार कर लेते।”

: २६ :

## चर्खा और ग्रामोद्योग

४ दिसम्बर '४२

सरकार के पत्र का बापू ने उत्तर दिया कि उन्हें पहले भंसालीभाई के उपवास का सच्चा कारण जानना चाहिए। जबतक उन्हें यकीन न होजाय कि भंसालीभाई का उपवास गलत है, वे उन्हें उपवास छोड़ने की सलाह नहीं देसकते। अखबारों की रिपोर्ट सही मानी जावे तो उनके उपवास का खास कारण है। इतने महत्त्व के तार का जबाब सरकार ने दस दिन बाद दिया। इस पर बापू ने अफसोस जाहिर किया।

सुबह घूमते समय चर्खे और ग्रामोद्योग के बारे में चर्चा चल पड़ी। बापू कहने लगे, “अकेले चर्खे और ग्राम-उद्योगों से शायद हम यह नहीं कर सकेंगे। साथ में जमीन का सवाल भी हल करना होगा। जमीन के बारे में मेरा ज्ञान अपूर्ण है। सिर्फ पशु और मनुष्यों की मेहनत से ही हम जमीन में से कितना धन पैदा कर सकते हैं, यह हिसाब हम आजतक नहीं निकाल सके। मगनलाल होता तो बहुत-कुछ होगया होता। खेती के साथ-ही-साथ गोरखा का भी सवाल पड़ा है। मेरे पास रायबहादुर गंगाराम के खत आया करते थे। वह बड़ा इंजीनियर था। उसने मुझसे कहा, “मुझे मशीन वाखिल करने दो। देखोगे कि कितनी जल्दी मैं साबरमती को नफा देनेवाली संस्था बना देता हूँ। मैं आपका विशेषज्ञ बनूंगा। पीछे मैं आपकी शक्ति का उपयोग कर लूंगा। मैंने ना की; क्योंकि मैं जानता हूँ कि पशु और आदमी की मजदूरी से यह काम होसकता है, मगर उसे सिद्ध करने के लिए वह करके बताना चाहिए। सरकार ने बारडोली में मशीन एक हवतक वाखिल की है। मैं अपने प्रयोग सब उनसे नहीं करवाना चाहता, मगर मुझे तो यह खुद करके देखना ही है।”

भाई कहने लगे, “यही तो मैं आपसे अगले रोज भी कह रहा था कि हमें अपनी आवश्यकताओं का माप निकालना चाहिए और फिर हिसाब लगाना चाहिए कि क्या अकेले मनुष्य और जानवर की मेहनत से वे पूरी होसकेंगी या हमें मशीन की मदद लेनी होगी। मशीनें लेनी ही होंगी तो हम उन छोटी-छोटी मशीनों को पैदा करेंगे जो मजदूरों की जगह न लें, बल्कि उनकी मजदूरी की शक्ति बढ़ाएं।”

बापू बोले, “हिसाब एक हवतक मैंने लगाया है। सबको पूरा अन्न चाहिए, आधा सेर दूध और फल, साग-भाजी, घी, तेल, खांड—सबको मिलनी चाहिए। कपड़ा

तो चाहिए ही, साथ ही घर भी अच्छे होने चाहिए। सो इतनी कम-से-कम जरूरतों की मैंने हब बांधी हैं। यह पूरी होनी चाहिए। अमेरिका की तरह मैं हरेक के लिए मोटर पंदा करने का ध्येय नहीं रखता; सबके पास खाली समय भी चाहिए ताकि वे अभ्यास करके अपनी बुद्धि का विकास कर सकें।”

मैंने कहा, “यह तो आपकी कम-से-कम मर्यादा है। अगर बाद में इतनी मजबूरी और समय हमारे पास रहे कि हम मोटर बना सकें तो क्यों न बनावे ?”

भाई कहने लगे, “हमें कोई मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी। हम बड़ी मशीनें वालिल करेंगे, तो वे पीछे हाथ की मेहनत, छोटे उद्योगों और छोटी मशीनों को खाजाएंगी।”

मैंने कहा, “मैं तो यह समझी हूँ कि जीवन के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, जैसे रोटी, कपडा, उनके लिए हमें हाथ की मेहनत का ही आश्रय लेना है। बाद में दूसरी चीजें रह जावेगी। उनके लिए मशीन इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी आवश्यकता है, जैसे कि डाक्टरी सामान की बात लें, सूक्ष्मदर्शक यंत्र हैं, शीशे का नाजुक सामान है, यह सब हम हाथ से ही थोड़े बना सकते हैं। उन सबको छोड़ना अथवा विज्ञान की प्रगति का त्याग करना शक्य नहीं, योग्य भी नहीं।”

बापू कहने लगे, “यह ठीक है।” भाई कहने लगे, “नहीं, हमें इनमें से कई चीजों का त्याग करना ही पड़ेगा। विज्ञान के विकास से प्रगति ही हुई है, ऐसा भी हम कैसे निश्चय कर सकते हैं? डाक्टरी ने लोगों का स्वास्थ्य सुधारा नहीं है।”

मैंने कहा, “जहां डाक्टरी ने सच्ची प्रगति की है, वहां उसने कई बीमारियां जड़ से उखाड़ दीं। लोगों की आयुष्य बढ़ी है; मृत्यु-संख्या कम हुई है।”

भाई कहने लगे, “विज्ञान से जितनी बीमारियां का इलाज हुआ है, अस्वाभाविक जीवन के कारण उनसे अधिक बीमारियां पंदा होगई हैं।”

शाम को घूमते समय फिर ट्रस्टीशिप पर चर्चा चली। भाई कहने लगे, “धनवान अपने-आप अपने धन का त्याग कर दें और समाज के सेवक बन जावें तो अच्छा है, मगर वह तो बिल्ली के गले में घंटी बाधने-जैसी बात हुई। बिल्ली के गले में घंटी हो तो चूहे अपने-आप बच जावे, मगर सवाल यह कि बांधे कौन ?”

बापू कहने लगे, “ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें धनिक वर्ग मिटाना है। उसके लिए धनवानों को मार डालने की आवश्यकता नहीं। उनके धन, उनकी कला और शक्ति का उपयोग हम लोगों के लिए कर लेते हैं। यह आसान-से-आसान और सस्ते-से-सस्ते रास्ते हैं।”

भाई बोले, “इसका अर्थ यह हुआ कि आखिर कारबार चलाने के लिए शासनतंत्र को कोई-न-कोई एजेंट चाहिए ही। दूसरों को ढूंढ़ने के बदले हम उन्हीं धनवानों को लेलेते हैं। उनसे कहते हैं कि आजतक तुमने अपने लिए पंसा इकट्ठा किया, उसे सम्भाला। अब वही काम तुम शासनतंत्र के लिए करो। फर्क इतना होगा कि अब पंसा तुम्हारे नाम नहीं जमा होगा, बल्कि शासनतंत्र के नाम होगा। तुम्हारे नाम भी हो तो ट्रस्टी की

हेसियत से। तुमको आत्म-रक्षा के साथ-साथ नई समाज-रचना में हिस्सा लेने का अनमोल अवसर मिलता है। इससे तुम्हें संतोष होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें मिटना होगा।”

बापू कहने लगे, “यह बात तो ठीक है, लेकिन अहिंसा के बारे में जिनकी अश्रद्धा है, वे इन दलीलों को स्वीकार नहीं कर सकते। मैं भी ठीक, उनकी जगह में भी ऐसा ही करता।”

भाई ने कहा, “यह ठीक है, आज पक्के साम्यवादियों का तो एक छोटा-सा गिरोह है, मगर एक बड़ा गिरोह ऐसे लोगों का है जो समाजवादियों के और हमारे बीच में है। उन्हें अहिंसा में अश्रद्धा नहीं, मगर उनके सामने हम शुरु से अंत-तक एक पूरी तस्वीर नहीं रख सके कि हम किस प्रकार की समाज-रचना करना चाहते हैं, वह कैसे बनेगी और कैसे उसे सफल बनाने की आशा रखते हैं। इसलिए वे लोग डांढा-डोल हैं। यह सवाल-जवाब उनकी मवद के लिए है, जो काम तो करते हैं, मगर कच्ची बुद्धि से।” बापू ने इस दलील के साथ अपनी सहमति बताई।

आज बापू को बहुत कब्ज था। स्नान से पहले उन्होंने एनीमा लिया। बंसे तबीयत ठीक थी।

५ दिसम्बर '४२

आज महादेवभाई को गए १६ हफ्ते पूरे हो गए हैं। जब वक्त जाने लगता है तो बस भागने लगता है। इस जेल में बंटे हुए भी पता नहीं लगता कि कब हफ्ता खतम हो-जाता है। शाम को महादेवभाई की समाधि पर शंखों का ॐ बनाया। करीब सारा समय उसीमें गया। घूमने को बस ही मिनट मिले। मैंने बापू से कहा, “आज सवा छः बजेतक घूमिए।” मगर वे नहीं माने। ऐसा करने से उनका सारा कार्यक्रम बिगड़ता था। वे यत्रवत समय पर चलते हैं। कल ही सुबह कह रहे थे, “मैं अपनेआपको पूरी तरह नियम में रखता हूँ। यहां पर नियम की कोई आवश्यकता नहीं, मगर तो भी मेरा सारा कार्यक्रम घड़ी की तरह चलता है। अहिंसक व्यक्ति के लिए व्यवस्थित चिन्त और व्यवस्थित कार्यक्रम अत्यावश्यक है। इसके सिवा अहिंसा काम नहीं कर सकती।”

आज सुबह घूमते समय भाई ने पूछा, “कांग्रेस मिनस्ट्री के पास तो सत्ता नाममात्र की ही थी। तो भी जितनी थी, उससे हम पंजीपतियों को तो छू भी नहीं सके। पूरी सत्ता मिल जावेगी तब भी अहिंसक मर्यादा में रहकर हम क्या कर पायेंगे? यह समझ में नहीं आता; क्योंकि देश में और स्वयं कांग्रेस में धनवानों का स्वार्थ इतना फैला हुआ है कि उन्हें उखाड़ फेंकना बहुत कठिन काम है।”

बापू ने उत्तर दिया, “अहिंसा के द्वारा यह चीज निकाली जा सकती है, ऐसी मेरी मान्यता है। शुरु-शुरु में जब सत्याग्रह की लड़ाई यहां छिड़ी, सारे देश में एकबल कंसी जागृति की लहर फैल गई थी। मोतीलालजी-जैसों को भी लगा कि बस सब्बी साहबी त्याग में ही है। उन्हें लगता था कि अब आजाबी आरही है, मगर जब नहीं

आई और मैं अंकुश रखता ही गया तब वे लोग कुछ पीछे भी गए। दूसरा आनंद भवन बना और पहले से भी ज्यादा शानदार बना। उसमें जवाहरलाल भी शामिल हुआ। खादी तो रही, मगर खादी की आत्मा चली गई।

“पीछे कांग्रेस के चुनाव के समय लोगो में इतना उत्साह भर आया था कि कांग्रेस का चुनाव में ऐसा कहना चाहिए कि कुछ खर्च ही नहीं हुआ। कई लोगों ने मन में शंका की थी कि कांग्रेस इन चीजों में सफल नहीं होगी। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ है, मगर जब लड़े तो सब हँरान रह गए। सब जगह जबर्दस्त बहुमत से कांग्रेस जीती, और उड़ीसा-जैसी जगह में, जहाँ हमारा काम सुव्यवस्थित नहीं था, जोरदार जीत हुई। तो तात्पर्य यह कि हरेक इन्कलाब के साथ एक खास जागृति और उत्साह की लहर आती है, जो बहुत काम कर लेती है। इसके असर के नीचे लोग अपनेआप खुशी से त्याग कर सकते हैं। आम जनता को जागृति को देखकर उसके दबाव और प्रवाह के सामने पूंजी-पति खड़े नहीं रह सकेगे। साथ ही पूंजीपतियों का बल आज कांग्रेस सरकार की बन्दूक पर निर्भर है। जब वह बन्दूक नहीं रह जावेगी तो उन्हें जनता की मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। वे समझ जावेंगे कि अब इसके सिवा और चारा ही नहीं।

“वे अपनेआप त्याग न करे तो दूसरा तरीका गृह-युद्ध का है। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि जब सच्ची आजादी आवेगी तब हिन्दुस्तान को गृह-युद्ध की मंजिल में से गुजरना पड़ेगा, मगर गृह-युद्ध के डर से थोड़े ही हम समाज-सुधार के कामों को रोक सकते हैं! गृह-युद्ध की नीबट आई और लोगो में अहिंसा है जैसा कि मैं मानता हूँ, तो अराजकता आई तो भी वह नाममात्र को होगी। दस-पंद्रह दिन में फिर से देश में अमन-चैन होजावेगा। मगर हम में अहिंसा नहीं है तो लम्बे गृह-युद्ध का संकट आसकता है। प्रलय के बाद अगर मेरा कोई प्रतिनिधि जिन्दा रहा तो वह फिर से अहिंसा का राज्य खड़ा करने का प्रयत्न करेगा।”

भाई कहने लगे, “अगर सत्ता हमारे हाथ में आजावे तब तो क्रांति का जोश काम कर सकता है। मगर क्रांति हमेशा रहनेवाली चीज नहीं है। लोगो का उत्साह हमेशा रहनेवाली चीज नहीं है। लोग फिर से सोजाते हैं। इसलिए सत्ता अगर एकदम से हमारे हाथ में आवेतब बहुत कुछ काम क्रांति का जोश कर लेगा। बाकी का लोकमत कानून द्वारा करवा लेगा; लेकिन अगर सत्ता धीमे-धीमे आवे तो यह चीज काम नहीं दे-सकती। पूंजीपति नए वातावरण में अपने पांव धीमे-धीमे जमा लेंगे और फिर उन्हें हिलाना कठिन होगा।”

बापू ने कहा, “यह ठीक है। सत्ता धीमे-धीमे आवे तब तो गृह-युद्ध भी आने ही वाला है, ऐसा समझो।”

भाई कहने लगे, “... इस चीज को क्यों नहीं समझते ?”

बापू बोले, “तुम्हें समझना चाहिए कि ... ने अहिंसा को छोड़ दिया है।”

भाई ने कहा, “अहिंसा को नहीं, उन्होंने क्रांति को भी छोड़ दिया है।”

बापू कहने लगे, “वह तो होना ही था। हिंसक क्रांति... मानते नहीं हैं, और अहिंसा को छोड़ा तो अहिंसक क्रांति को भी छोड़ना ही था।”

भाई बोले, “अप्रेज जावें तो एक तो यह होसकता है कि सत्ता प्रजा के हाथों में आजावे। दूसरे यह होसकता है कि निजाम का-सा कोई भी राजा, जिसने हवाई जहाजों और टैंकों के बनाने की फैक्टरियां खोल रखी हैं, टीपू सुलतान की तरह दक्षिण में तो कम-से-कम अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश करे ही।”

बापू कहने लगे, “यह सब होसकता है। मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि यद्यपि यह सम्भव है, मगर ऐसा बनेगा नहीं। अप्रेजों के पास आज कुछ नहीं है। मात्र अपने नाम से वे काम चला रहे हैं। निजाम के अलावा दूसरे राजाओं के पास ‘नाम’ तो कुछ नहीं, मगर कांग्रेस के पास है। पचास वर्षों से कांग्रेस देश की सेवा कर रही है। जब कांग्रेस बंधानिक नीति पर चलती थी तब भी उसकी नीति खुली थी। पिछले बीस वर्षों से तो कांग्रेस ने अहिंसा की ही नीति अख्तियार की है और जनता को अहिंसा की तालीम दी है। दूसरी ऐसी कोई संस्था नहीं जिसने इतने समय से जनता की ऐसी अनन्य सेवा की हो। सो कांग्रेस के पास नाम है। यह ठीक है कि राजा लोग गुंडों को डकट्टा करके रखते हैं। उनके द्वारा अपना काम करवाते हैं, मगर समय आने पर गुंडे भी कांग्रेस के साथ लड़े होनेवाले हैं।”

सुबह चार बजे बापू ने अण्डी का तेल लिया। कल के एनीमा से भी कब्ज मिटा नहीं था।

६ दिसम्बर '४२

आज सुबह और शाम को घूमते समय फिर वही चर्खें और ग्राम-उद्योग का पुराना सवाल उठा। बापू कहने लगे, “मैं पहले मानता था कि यह जरूर होसकता है। मगर जैसे-जैसे गहरा विचार करता हूँ, कठिनाइयाँ सामने आती हैं। अगर आदमी को मात्र कपड़ा ही पैदा करना हो तो वह खुद कातकर जरूर कर सकता है, मगर हिसाब लगाने पर पता चला है कि कपड़ा मनुष्य की आवश्यकताओं का बहुत छोटा हिस्सा है। चर्खें पर दिन भर मेहनत करके मजदूर को उसकी आवश्यकता के लिए काफी पैसे नहीं मिलते। हम मजदूरों का मेहनताना बढ़ाना चाहते हैं, मगर सब जगह बढ़ा नहीं सकते। इस पर से विनोबा तो इस नतीजे पर आया है कि सब अपने हाथ से काते, तकली पर कातें और अपना कपड़ा तैयार करें। आज जो हम दूसरों से कतवाते हैं, वह ठीक नहीं है। उससे आगे बढ़कर अब वह तुनाई पर आया है। विनोबा का प्रोग्राम कब पूरा होगा, यह मैं नहीं जानता। सब लोग तुनाई करके तकली द्वारा अपना कपड़ा तैयार करने लगेंगे, इसमें मुझे शक है; लेकिन विनोबा ने अपनी कल्पना के समाज में तकली व तुनाई से बस्त्र-स्वावलम्बन के प्रश्न को हल किया है।

“पहले हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अकेले चर्खें से तो काम नहीं होसकता। तब ग्राम-उद्योगों को साथ लिया, मगर उनको साथ लेने पर भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। अब



मंने सोचा हूँ कि जमीन को साथ रख सकें तो काम निपटेगा। जमीन में से कितनी उपज मनुष्य और पशु की मेहनत से निकल सकती है, इसका हिसाब लगाने का रहा। आज सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। जमीन को कैसे हाथ में लेना और बांटना होगा, इन प्रश्नों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए मैं तो आज जानता नहीं हूँ कि अंस में मैं कहां जाकर खड़ा हूँ।”

भाई बोले, “यह दुःख की बात है कि हिन्दुस्तान में इतने ढ़ड़े-ढ़ड़े अर्थ-शास्त्रियों के होते हुए भी उनमें से एक भी अच्छी तरह चर्खे और ग्राम-उद्योग के अर्थ-शास्त्र में गहरा नहीं उतरा।”

बापू कहने लगे, “उसका कारण है। के. टी. शाह को लो। जब वे आए तो ऐसा लगता था कि वे हमें काफी देसकेंगे। वे ग्राम-उद्योग की भावना से उस वक़्त भरे थे। एक हवतक तो आगे बढ़े, मगर पीछे रुक गए। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना के समय जवाहरलाल मुझे उसमें खींचना चाहते थे। मगर मैं नहीं खिंचा। मंने देख लिया कि इसमें मेरा स्थान नहीं है। हमारी चीज का उस योजना के साथ कोई मेल नहीं था। कुमारप्पा भी अपनेआप भांप गया कि इसमें से कुछ फायदा नहीं निकलेगा और अलग रहा, मगर सतीश बाबू उसमें गए। सतीश बाबू ने मेहनत की, मगर जो रिपोर्ट लिखी वह मुझे फड़वानी पड़ी। फिर से लिलवाई। मामला वहीं पर रुक गया। बाकी के अर्थशास्त्रियों में से एक ही था, जिसने हमारी चीज की समझने और समझाने की कोशिश की, मगर वह भी बहुत आगे नहीं बढ़ सका। बात यह है कि वे लोग अपने ढांचे को नहीं छोड़ सकते। अपने ढांचे में इस नई चीज को ढालना चाहते हैं। सो प्रगति अपनेआप रुक जाती है। यह चीज मुझे सोच में डालती है। क्या मेरी कल्पना में ही कोई आंतरिक दोष है? क्या चर्खे और ग्राम-उद्योग से सारे देश का काम चलाने, मशीन की जगह हाथ की मेहनत से काम निकालने की कल्पना ही मूर्खता से भरी है? अगर ऐसा सिद्ध हो तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर लूंगा। आज तो मैं श्रद्धा से चल रहा हूँ। हाथ से हम कितनी हवतक अपना काम पूरा कर सकते हैं, यह देख तो लूँ। पीछे जो होना होगा, वह होगा। यह सब मैं बतार रहा हूँ यह समझाने के लिए कि मैं कितना जाग्रत हूँ और मेरा मन नए विचारों के प्रति कितना खुला है। मगर मैं इन विचारों से अपनी श्रद्धा को डगमगाने नहीं देता। मैं तो इसी श्रद्धा से चल रहा हूँ कि हाथ की और पशुओं की मेहनत से हम अपना सब आवश्यक काम निकाल सकते हैं। अगर मैं इस श्रद्धा से न चलूँ तो मैं जिन संस्थाओं को चल रहा हूँ वे भी उलड़ जावे। मशीनों की मैं चिन्ता नहीं करता। इनकी चिन्ता करनेवाले दूसरे पड़ें हैं। मंने कहा है कि रेल का नाश होजावे तो मेरी आँख से एक आंसू नहीं निकलनेवाला, बेलगाड़ी से काम चलावेंगे। मगर आज मैं हिन्दुस्तान को यह समझा सकूँ कि रेल का त्याग करो, इसमें मुझे शक है। सो मैं अपना काम किये जाता हूँ। परिणाम जो आना होगा वह आवेगा।”

भाई ने कहा, “ग्राम-उद्योगों को सफल बनाने के लिए एक खास तरह का

आर्थिक ढाँचा चाहिए। एक खास तरह की समाज-रचना चाहिए। उसमें हमें कितनी ही चीजों का त्याग करना होगा। अपनी जरूरतों की मर्यादा बांधनी होगी। आपको जो ग्राम-उद्योगों के सफल होने में शंका है वह आज के प्रतिकूल वातावरण में है कि अनुकूल वातावरण में भी यह चीज सफल नहीं होसकती ?”

बापू कहने लगे, “मेरे सामने यह सवाल ही नहीं उठता। मेरे सामने तो प्रतिकूल वातावरण पड़ा है। इसमें से मुझे रास्ता काटना है। वह मैं श्रद्धापूर्वक कर रहा हूँ।”

भाई बोले, “हम जरा समझें कि हम कहाँ तक जासकते हैं, तो हमारा रास्ता साफ होजावेगा। रेल को हम निकालना चाहते हैं तो इसीलिए कि वह माल को खींचकर हमारा शोषण करती है। शीघ्र सफ़र करने के साधन हम रेल को निकालकर भी रख सकते हैं, जैसे मोटर, हवाई जहाज। वे सार्वजनिक नहीं हैं। माल ढोने के लिए नहीं हैं—इसीलिए उनसे हानि कम-से-कम होगी।”

बापू कहने लगे, “मोटर और हवाई जहाज रखोगे तो अपनी योजना की अपनेआप जड़ काटोगे मगर जैसे तुम कहते हो ऐसा कुछ हो भी तो आज तो मेरे सामने वह चीज नहीं आती।”

भाई ने कहा, “समुद्र-किनारे हम पवन-चक्की का उपयोग कर सकते हैं। पर्वतों के इलाकों में पन-चक्की का, गरम प्रदेशों में सूर्य-चक्की का उपयोग कर सकते हैं। ये सब हमारी योजना में आसकते हैं न ?”

बापू कहने लगे, “हां और नहीं। एक तरफ तो मैं पवन-चक्की से बहुत आगे बढ़ गया हूँ। मैंने कहा, आवश्यकता हो तो अबसर आने पर हम गांव-गांव में बिजली लावेंगे। वल्लभभाई बारडोली आश्रम में बिजली लाए। मुझसे कहा था कि मैं साबर-मती में बिजली दाखिल करनेवाला हूँ। मैंने कहा, करो, तुम्हें छुट्टी है। मैं खुद नहीं कहूंगा। मुझे मेरे रास्ते जानेदो। मुझे १९०८ के साल से दो चीजें विरासत में मिली हैं। हाथ की मेहनत और पशुओं की मेहनत। मैं अपनी श्रद्धा और अपनी चलाई हुई संस्थाओं की श्रद्धा को अटल रखकर उन्हीं पर मेहनत करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। विभाग में कई खयाल भरे हैं, मगर मैं उन्हें ऊपर नहीं आने देता। जिन विचारों का आज उपयोग नहीं, उन्हें बाहर निकालकर क्यों अपनेआप को तकलीफ दूं और दूसरों की बुद्धि को चक्कर में डालूं ?”

भाई बोले, “आपके विभाग में तो विचार हैं, मगर दूसरों के विभाग में नहीं हैं। वे समझते हैं कि आप तो चर्खे से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते और इससे आगे विचार, किया ही नहीं जासकता।”

बापू कहने लगे, “भले ऐसा सोचें, मगर काम तो करते हैं न, वह काफी है।”

भाई ने कहा, “काम करनेवाले तो काम करते हैं, मगर दूसरे कितने ही ऐसे भी हैं कि जो हमारी विचार-प्रणाली में दाखिल होना चाहते हैं, इसे स्वीकार करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता लगे कि आप किस हद तक मौका आने पर आगे जासकते हैं

तो वे उत्साह से आगे बढ़ें और आपके साथ चलें। आज वह निदस्ताह होकर पीछे हट जाते हैं।”

बापू कहने लगे, “उसमें भी कोई हर्ज नहीं। हम कुछ कर सकते हैं, यह सिद्ध होगा तो उनकी निराशा अपनेआप दूर होजावेगी। आज तो मैं हाथ की मेहनत और जानवर की मेहनत इन दोनों से क्या शक्य है, इसीमें उतरना चाहता हूँ। इससे आगे विचार करने की इच्छा ही नहीं होती।”

रात को ७-२५ पर बापू ने मौन लिया। खुराक में आज बावाम बढ़ाए हैं। इनसे कब्ज दूर होगा, ऐसा लगता है।

७ दिसम्बर '४२

आज बापू का मौन था। घूमने के समय बातें नहीं हुईं। दोपहर के समय बापू के सोने के लिए बिस्तरा धूप में लगाया। लकड़ी की जाली के कारण पूरा धूप तो आती नहीं, तो भी काम चल गया।

महादेवभाई की समाधि पर परसों सफेद शंखों का ॐ बनाया था। मगर किसी बकरी या गाय को लगा होगा कि सफेद मूली का खेत है। कल आकर सब तोड़ गई। आज शाम को फिर नए सिरे से बनाया। घूमने को बस ही मिनट बचे।

रात में सरोजिनी नायडू को फिर पोस्त का सेक दिया और गरम पानी में उनकी बांह रखली। वे कहती हैं कि इससे उन्हें लाभ हुआ है।

मोराबहन की तबीयत अच्छी है। दो-तीन रोज से उम्होने भैंस का दूध छोड़कर गाय और बकरी का दूध लेना शुरू कर दिया था। आज कहने लगीं कि गाय का दूध पतला है और बकरी के दूध से बू आती है। घर की गाय ही तो अच्छा दूध मिल सकता है। बकरी का दूध फौरन ही पिया जाय तभी अच्छा होता है। यह तो यहां ही नहीं सकेगा। फिर भैंस का दूध ही उम्हें लेना पड़ेगा।

८ दिसम्बर '४२

आज सुबह घूमते समय फिर ग्राम-उद्योगों और चलेंवाले सवाल की चर्चा आगे चली। देश की जहरतों का माप निकालने के सिलसिले में बापू कहने लगे, “तुम्हीं यह हिसाब क्यों न करो? माना कि मुश्किल है, मगर जो आदमी ठीक दृष्टि-बिन्दु से काम करता है, वह उन्हें हल कर लेता है। मार्क्स के सिवा पश्चिम में और बहुत-से अर्थशास्त्री होगए हैं। मगर मार्क्स ने सारे प्रश्न को नए ढंग से देखा। उसने सारे मनुष्य-समाज को एक कुटुम्ब के रूप में देखा; इसीलिए वह कुछ नई चीज जगत को देसका।”

भाई बोले, “नहीं, इस काम के लिए तो अर्थशास्त्रियों की टोली चाहिए। सारे हिन्दुस्तान के साधन-सम्पत्ति का हिसाब लगाना आसान बात नहीं। आप खादी का हिसाब करते-कराते हैं। उसीमें कितनी उलझन पंदा होती है। तब इस इतनी बड़ी चीज का तो कहना ही क्या!”

बापू कहने लगे, “उलझन आती है तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई दूसर

यह काम मुझे अच्छा कर लेगा। हिन्दुस्तान की पूरी साधन-सम्पत्ति का हिसाब तो एक नहीं, सौ अर्धशास्त्री भी नहीं लगा सकते। कौन कह सकता है कि हिमालय में से ही कितनी शक्ति हमें मिल सकती है? कोई बताने का दावा करे तो मैं उसका विश्वास न करूँ; मगर तुम्हारे जैसा आदमी यदि मन लगाकर काम करे तो कुछ कर सकता है।”

बापू ने बात आगे चलाई, “मैं क्यों किसीके पास जाऊँ? फिर यह काम भी मेरा नहीं। मेरा काम तो हाथ और पशुओं की मेहनत से होनेवाले काम का हिसाब निकालना है। जब इसमें असफल होजाऊंगा तब ज्ञात होजाएगा कि हिन्दुस्तान की ज़रूरतें इस प्रकार पूरी करने की आशा रखना मेरी मूर्खता थी। तब दूसरी चीज का विचार करने का समय आवेगा।”

भाई कहने लगे, “चीन में तो खेती में जानवर भी इस्तेमाल नहीं किये जाते।”

बापू बोले, “हां, दक्षिण अफ्रीका में मवेशी भी हाथ से ही खेती करवाई थी। काफी काम हुआ था, मगर मुझे लगता है कि पशु का और आदमी का इतना निकट का संबंध है कि पशु को मर्द हमें लेनी चाहिए। इससे पशुओं को रखा भी होता है। गो-रक्षा का सवाल तो खेती और ग्राम-उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है ही। मुझे विश्वास है कि पशु और आदमी की मेहनत हिन्दुस्तान की ज़रूरतें पूरी कर सकती है। मैंने अनेक जन्म लिये हैं और लूंगा; पर इससे मेरे विश्वास पर आंच नहीं आसकती। ऐसे ही ग्राम-उद्योगों और चरखों के बारे में भी मेरा बड़ा विश्वास है।”

भाई कहने लगे, “आप मानते हैं कि पहले मनुष्य की जिन्दगी सादी थी, बीच में उसने अनेक रंग देखे, मगर उन सबसे थककर उसने फिर सादी जिन्दगी अख्तियार करली। मगर अंतिम स्थिति पहली स्थिति को पुनरावृत्ति नहीं है। उससे ऊपर की मंजिल है। पहली सादगी अज्ञान की थी, दूसरी ज्ञान की।”

बापू ने कहा, “यह ठीक है।”

: ३० :

## भावी समाज-रचना का आधार

६ दिसम्बर '४२

आज बापू को यहाँ आए चार महीने पूरे होगे। बापू कहा करते हैं कि यहाँ हम छः महीने से अधिक नहीं रहनेवाले हैं। मगर दो महीने में छूट जाने की कोई सूत्रत मजर नहीं आती। रात को बा कह रही थीं कि अभी छः महीने नहीं, बल्कि एक वर्ष लगेगा।

आज सुबह घूमते समय युद्ध की और युद्ध के बाद क्या होगा इसकी बातें चल रही थीं। भाई कह रहे थे, “आप मानते हैं कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा ही आवेगा, मगर मुझे इसमें शंका है। सामान्य नियम यह है कि जिन देशों की जीत हो वहाँ कांति

फासिज्म की बिशा में और पराजित देशों में क्रांति साम्यवाद की ओर होती है।" बापू कहने लगे, "मुझे तो शंका होती ही नहीं है कि परिणाम अच्छा आवेगा।" इसके बाद यह चर्चा छिड़ी कि राजा लोग हर तरह के आदिमियों को खरीद लेते हैं। बापू ने कहा, "इन लोगों ने तो अभ्यास ही इस चीज का किया है कि मनुष्य-स्वभाव कहां तक नीचे जासकता है। कहां तक ऊपर जासकता है, इसका अभ्यास करने में उनका क्या प्रयोजन था, यह अभ्यास मैं कर रहा हूँ।"

शाम को घूमते समय भाई कहने लगे, "आप इस चीज को नहीं मानते कि भौतिक वातावरण के असर से मनुष्य के विचार बदलते हैं। आप मानते हैं कि मनुष्य के विचारों का वातावरण पर असर पड़ता है और वह बदलता है। ऐसे ही आप कहते हैं कि पांचवी शक्ति बंध को हम बाहर नहीं कर सकते। मार्क्सवादी कहते हैं कि व्यक्ति भले बदलें, मगर वर्ग की चाल नहीं बदलती। यह इतिहास हमें सिखाता है और ऐतिहासिक प्रक्रिया में देव भी आजाता है।"

बापू बोले, "नहीं, मानलो कि हिटलर आज बीमारी से मर जावे तो वह बंधयोग ही होगा न, मगर उसका असर इतिहास पर पड़ेगा। ऐसे ही मानो कि सब पूंजी-पति क्लतम होजावें या भूचाल आवे और उसमें दफन होजावें तो बड़े शहर ही न होंगे। सब वर्ग-विग्रह का प्रश्न दूसरा रूप धारण करेगा या नहीं?"

इसके बाद 'मन पहले कि प्रकृति' इस पर चर्चा हुई। बापू ने कहा, "प्रकृति और पुरुष—दोनों अनावि है। इसलिए कौन पहले था, यह नहीं कहा जासकता। प्रकृति पुरुष के विचारों को बनाती है, यह मैं नहीं मानता।"

१० दिसम्बर '४२

कल भंसालीभाई के बारे में मुशी का लेख था। उसमें उन्होंने भंसालीभाई की साधुता का वर्णन किया था। साथ ही बताया था कि कैसे एक समय वे नीम के पत्ते खाते थे, एक समय अपना मुंह सी लिया था और एक नली से पेट में खुराक पहुंचाते थे। मुझे लगा कि यह सब कहना आज अनावश्यक था। इससे भंसालीभाई को कोई फायदा नहीं पहुंच सकता था। उल्टा लोगों को लग सकता था कि यह तो कोई पागल है। उनके उपवास की कीमत उससे कम होसकती है। भाई कहते थे कि वह कहना आवश्यक है। बापू से हमने पूछा। वे बोले, "आवश्यक भी होसकता है और अनावश्यक भी।" मैं यह नहीं समझ सकी। मैंने पूछा, "आप लिखें तो क्या करें?" वे कहने लगे, "मैं एक काल्पनिक चीज के बारे में कुछ कह नहीं सकता। मुझे भंसाली के साथ पत्र-व्यवहार करना चाहिए। उसकी मनोवृत्ति जानकर ही मैं लिख सकता हूँ।" मैंने कहा, "अल्लबारों की बात को सही मानकर आप क्या लिखेंगे?" बापू ने कहा, "मैं इस तरह विचार ही नहीं कर सकता।"

मीराबहन को अपने कमरे में बंदू आती है, इसलिए उन्होंने खाने के कमरे के एक हिस्से को खड़े पर्वों से अलग कर लिया है।

शाम की घूमते समय भाई बापू से चर्खे के बारे में फिर पूछते रहे । कहने लगे, “क्या आपने अपने पुराने मत में केरफार किया है ?” बापू कहने लगे, “मेरा मत आज भी वही है जो बीस बर्ष पहले था । मगर मेरी कल्पना और प्रयोग आज जगत् को विश्वास दिला सकें, इस हदतक वे सिद्ध नहीं हुए । जितना हम कर पाए हैं, उससे मुझे तो पूरी तस्वीर की झांकी मिल ही जाती है । मेरी भ्रष्टा उससे पक्की होती है । चर्खे और ग्राम-उद्योगों का उलटा उद्योगीकरण है । उससे तो लोगों का कल्याण हो ही नहीं सकता, यह बात सिद्ध है ; मगर चर्खे के द्वारा कल्याण होसकता है, यह जगत् के सामने रख सकूँ, इस हदतक सिद्ध नहीं कर पाया । एक ओर पूंजीवादी पद्धति का उद्योगीकरण, दूसरी ओर साम्यवादी पद्धति के उद्योगीकरण का प्रयोग । वह प्रयोग भी आज अबूरा है । उसमें से क्या निकलेगा, यह देखना है । मुझे लगता है कि अन्त में वह भी निष्फल होगा, मगर मैं खुले मन से उसको देख रहा हूँ और पूरी भ्रष्टा से अपना प्रयोग आगे चला रहा हूँ । कौन सफल होता है, यह समय आने पर सिद्ध होजावेगा ।”

११ दिसम्बर '४२

आज सुबह घूमते समय भाई बापू से कहने लगे, “दंब पांचबा है तो सही, मगर दंब तो सदा था । वर्गों का स्वभाव भी दंब में आजाना चाहिए । इतिहास हमें सिखाता है कि व्यक्ति का हृदय भले ही पलट जाये, मगर जबतक समाज की आर्थिक रचना न बदलेगी तबतक एक वर्ग की हंसियत से पूंजीपति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकेंगे ।” बापू बोले, “व्यक्ति और वर्ग में भेद करना भूल है । जो एक व्यक्ति कर सकता है, वह सारा समाज कर सकता है ।”

भाई ने कहा, “मगर यह तो आपने भी कहा है न कि व्यक्ति की मनोगति (Psychology of the Individual) और समाज की मनोगति (Mass Psychology) में फर्क होता है ।” बापू कहने लगे, “वह ठीक है, मगर व्यक्ति समाज को विचार-प्रणाली को बदल सकता है । अहिंसक इन्सान इस चीज को समझ लेगा कि सामाजिक रूप में अहिंसा की क्या शकल होगी और अपना काम करने में इस चीज का उपयोग करेगा ।”

भाई कहने लगे, “मार्क्सवादी मानते हैं कि भौतिक वातावरण को बदल देने से, उदाहरणार्थ निजी जायदाद रखने की प्रथा को मिटा देने से, पूंजीपति वर्ग के विचार अपनेआप बदल जावेंगे । मैं समझता हूँ कि इसमें काफी सत्य भरा है । आपकी वर्धा-शिक्षण-योजना भी क्या ज्ञान के प्रकृतिसूल होने के सिद्धांत (Materialistic theory of knowledge) का समर्थन नहीं करती ?”

बापू बोले, “वर्धा-योजना हाथ की मार्फत विभाग को विकसित करना चाहती है । यह तो अलग बात हुई, मगर मार्क्स के अनुयायी और मार्क्स खुद भी हाथ को शिष्ट-समाज के जीवन में कोई स्थान ही नहीं देते । उनके पास तो मशीन हाथ का स्थान लेती

हैं। उनके मत से मशीन के बिना मनुष्य-समाज सुखी हो ही नहीं सकता। हाथ पर आधार रखकर तो उसे गुलामी में ही रहना है, यह मार्क्स की मान्यता है। मेरी मान्यता उससे बिल्कुल उलटी है और इसी शोध में मैं लगा हुआ हूँ कि देखूँ तो सही कि हाथ से क्या-क्या होसकता है।”

भाई कहने लगे, “मार्क्स की शोधें बड़े महत्त्व की हैं। मार्क्स ने समाज की व्याधि का जो निदान किया है, वह सचोटे है; मगर उसका जो इलाज बताया है, वह ठीक नहीं। उसके सामने हिंसक बल ही था। अहिंसक बल का उसे पता ही नहीं था। आपने गीताजी को अहिंसा के समर्थन की पुस्तक बताया है, यद्यपि सामान्यतया इससे उल्टा माना जाता है। इसी तरह हम मार्क्स की शोधों का उपयोग अहिंसक समाज-रचना के लिए नहीं कर सकते? आखिर तो उसने गरीब का पक्ष लिया है। वह तो अहिंसक काम ही है न?”

बापू ने कहा, “आज जो दलील हम करते हैं वह मार्क्सवादियों की बुद्धि पर असर डालने के लिए है; क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनमें बहुत अच्छे-अच्छे आदमी भरे हैं। जैसे जवाहरलाल है, आचार्य नरेन्द्रदेव है, जयप्रकाश है। हम क्यों इन लोगों को खोएँ? अगर हम उन्हें खींच सकते हैं तो खींचें। इसके सिवा इन चर्चाओं का कोई अर्थ ही नहीं है, और मैं कहता हूँ, उन लोगों पर तुम मार्क्स के साथ अहिंसा के समन्वय का प्रयत्न करके कोई असर नहीं डाल सकोगे। गीताजी की जो टीका मैंने लिखी है, वह गीताजी में से हिंसा का पाठ लेनेवालों के लिए नहीं है। जो अहिंसा का पाठ लेते हैं उनके लिए भी इतनी नहीं, मगर दोनों के बीच के बर्ग के लिए वह लिखी गई है।”

भाई बोले, “दूसरे मार्क्सवादियों की बात छोड़दे। मैं कहता हूँ कि मैं भी पक्का मार्क्सवादी हूँ। जो मार्क्सवादी कहलाते हैं, उनसे अधिक मैं मार्क्स को मानता हूँ। मगर मैं देखता हूँ कि मार्क्सवाद को हम पूरा-पूरा सफल बना सकें तो भी मुझे उससे संतोष नहीं होगा। मैं तो देखना चाहता हूँ कि मार्क्स ने जो बताया है, उसे हम कहांतक अपने ढाँचे में डालकर उसका उपयोग कर सकते हैं।”

बापू कहने लगे, “मैं मार्क्स को इस तरह नहीं देखता। मैं यह भी नहीं मानता कि उसने बिल्कुल कुछ नया दिया है। उसके पहले रस्किन ने भी वही-काम किया। मार्क्स और रस्किन की विशेषता यह है कि उन्होंने सारी मानव-जाति को अपने सामने रखा। वे बर्ग की कंब से निकल गये और गरीबों का पक्ष लिया। इसलिए मार्क्स का समाज-व्यय का पृथक्करण पुराने अर्थशास्त्रियों के मुकाबले में इतना तेजस्वी बना, मगर तुम मुझे बताओ तो सही कि मार्क्स की कौन-सी बात तुम्हें इतना मुग्ध करती है?”

भाई बोले, “मार्क्स ने समाज की व्याधि के जो निदान किये हैं उनमें और मार्क्स से पहले जो निदान किये गये थे, उनमें उतना ही फर्क है जितना कि ज़रगरी (Alchemy) और रसायनशास्त्र (Chemistry) में। उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि आर्थिक घातावरण हमारे जीवन के हर पहलू—कला, साहित्य, कानून, नीति, यहांतक कि धर्म, को भी किस प्रकार डालता है और इन्द्रात्मक भौतिकवाद

(Dialectical Materialism) की क्रिया द्वारा कैसे समाज का विकास होता है। एक तरह से रस्किन ने भी यही काम किया है—उसने भी गरीबों का पक्ष लिया। मैं मार्क्स को रस्किन का पूरक मानता हूँ। युद्ध की क्रिया को ही लीजिए। उसके लिए अनेक जाड़ू-टोने के-से उपचार बताए जाते थे। मगर युद्धों की जड़ में जो आर्थिक कारण प्रबिष्ट हैं, उसे कोई नहीं देखता था। 'सम्पत्ति या शांति'\* (Property or Peace) का हमें आगे स्पष्ट ज्ञान हो नहीं था। हम इनमें अब परस्पर स्पष्टतः बंध देखते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अनिवार्य फल है, यह मार्क्स ने हमें दिखाया है।"

बापू कहने लगे, "मैं इस तरह आर्थिक उलझनों को सब पापों का मूल नहीं मानता और युद्ध का कारण आर्थिक उलझनें हैं, यह कहना भी ठीक नहीं है। गत युद्ध का क्या कारण था ? निकम्मे कारण थे। इस दफा जब युद्ध छिड़ा तो चम्बरलेन प्रधान मंत्री था। वह युद्ध को टालने का प्रयत्न कर रहा था। एक रात में वह क्यों बदल गया ? उसे डर लगा होगा कि अब युद्ध को टालने से अपनी पार्टी का साथ खोना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि उसकी जगह कोई अच्छा राजनीतिज्ञ होता तो युद्ध टल जाता। मैंने तो अंग्रेजों को कहा ही है कि उन्हें क्या करना चाहिए और हेलन क्या ट्राय के युद्ध का कारण नहीं थी ? बुर क्यों जावें। राजपूत-युद्ध तो आधुनिक इतिहास में आजाते हैं। उनका कारण आर्थिक कदापि नहीं था।"

भाई बोले, "किसी एक युद्ध का कारण आर्थिक भले न हो मगर पूंजीवादी समाज में जो लाक्षणिक युद्ध होते हैं उनको लें तो उनकी जड़ में आर्थिक कारण मिलेगा। कुछ भी हो, हम मार्क्स के निदान से लाभ उठाकर उसकी दवा छोड़कर उन्हीं रोगों की दवा अहिंसक उपायों से करने की पद्धति क्यों नहीं अखितयार कर सकते ? मार्क्स के सामने अहिंसक बल रहता तो शायद वह भी यही करता।"

बापू ने कहा, "ये तो तुम्हारे मार्क्स के बारे में मौलिक विचार हुए। तुम जो कुछ मानते या समझते हो उसे लिख डालो।"

बापस लौटते समय भाई कहने लगे, "आपने तो भरी सभा में १२४ वर्षतक जिन्दा रहने का वचन दे दिया है न ! उस पर आपको कायम रहना होगा। अगर आप ऐसा करें तो ट्रस्टीशिप की आपकी बात सब सिद्ध होगी, नहीं तो हवा में उड़ जायगी।"

आज दो दिन के बाद बाजार खुला। रघुनाथ सामान लेने गया। वह दो दिन बाजार नहीं गया तो ऐसा महसूस करता था, मानों किसीने उसे पिजरे में बंद कर दिया हो। खबर लाया कि बिस्कुट नहीं मिल सकते। आटा नहीं है। थोड़े दिनों में डबल रोटी भी आनी बंद होजाएगी।

\* अंग्रेजी लेखक ब्रेसफोर्ड की एक पुस्तक का शीर्षक।



शाम को घूमते समय भाई कौशिक आख्यान की बात करने लगे कि कैसे एक कसाई केवल माता-पिता की सेवा के लिए ही कसाई का धंधा करता था। बरअसल वह जानी था। तब मैंने बोस्तोवस्की के 'फाइम ऐंड पनिशमेण्ट' ('अपराध और बण्ड') को लेकर कहा कि कैसे सोनिया नाम की एक लड़की अपनी सौतेली मा के बच्चों और शराबी पिता के भरण-पोषण के लिए वेदया का धंधा करती है। मगर उसकी आत्मा अलिप्त रहती है। बापू इस पर कहने लगे, "उपन्यासों को छोड़ो। जापान में आज यह सब हो रहा है।" भाई तब फाबर सर्जियस की टालस्टाय-कथा पर आए और बताया कि कैसे वर्षों की तपस्या के बाद उसे अपनी तपश्चर्या और पवित्रता का घमण्ड होता है और उसका पतन होता है। फिर उसे प्रेरणा होती है कि एक औरत के पास जाओ और नम्रता सीखो। वह बिन-रात अपने बच्चों की और शराबी पति की सेवा करती है, मगर उसे खयालतक नहीं आता कि वह त्याग कर रही है।

इससे ताईस (Thas)\* की बात निकली कि कैसे आध्यात्मिक अभिमान वहां भी पतन का मूल बनता है। बापू कहने लगे, "यह तो है ही। घमण्ड आया और सारी मेहनत बेकार गई।" भाई बोले, "मैंने कहीं पर आपका वाक्य देखा है। वह कभी नहीं भूलता। 'हजारों वर्ष की अखण्ड साधना तथा लाखों वर्षों की अखंड तपश्चर्या को एक क्षण का आध्यात्मिक अभिमान नष्ट कर देता है।'"

चौर-फाड़ की बातें होती रहीं। भाई कहने लगे—डा० शाह कहते थे कि पता नहीं, लोग हिरन का शिकार कैसे करते हैं। उसकी आंखों में तो इतनी कण्ठा होती है कि देखातक नहीं जाता। इसी तरह घायल पक्षी की बात है।

बापू कहने लगे कि छुटपन में वे डाक्टर होना चाहते थे, मगर पिताजी का विरोध था और मा का भी। पिता तो मर गए, मगर मा के कारण उन्होंने डाक्टरी छोड़कर बैरिस्टरी ली। बाद में जब बैरिस्टर होने के बाद १९०६ में विलायत गये तब उन्होंने फिर डाक्टरी सीखने का विचार किया। पता चला कि चौर-फाड़ के बिना वह हो नहीं सकता। सो छोड़ दिया। डाक्टरी सीखनेवाली दो छात्राओं ने भी चौर-फाड़ के कारण ही कॉलेज छोड़ दिया था। उस बारे में एक मुकदमा चला था। बापू ने वह सब पढ़ा था। उसकी बात बताते रहे। बापू एक समय डाक्टर होने की इतनी आकांक्षा रखते थे, यह मुझे डाक्टरी के धंधे के लिए गर्व की बात लगी।

रात को सोने के समय बापू का रक्त-चाप बढ़ जाता है। आज से विचार किया कि प्रार्थना के बाद वे मौन लें और इसका असर देखा जाये। आज तो मौन ठीक नहीं चल पाया। आशा है कि कल से ठीक चलेगा।

१२ दिसम्बर '४२

आज शनिवार है। महादेवभाई को गये अठारह हफ्ते पूरे हुए। सरोजिनी नायडू

\* अनातोले फ्रांस का उपन्यास

सुबह समाधि पर आई। बापू ने कहलाया था कि न आये; क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। मगर वे कहने लगीं, “नहीं, मुझे जाना ही है; नहीं तो मुझे लगेगा कि मेने अपना फर्ज अदा नहीं किया।”

कासवर्ड प्रतियोगिता (Crossword Puzzle) के बारे में बापू कहने लगे, “यह एक तरह का जुआ है। बिना मेहनत पैसे बटोरने के लिए ही यह आडंबर है। इसमें से खूब लोग पैसे कमाते हैं।”

इस पर बीमा और जुए की बाबत भाई ने कहा, “बीमा और जुए में फर्क यह है कि बीमा अनिश्चित को निश्चित और जुआ निश्चित को अनिश्चित बनाता है।” बापू से उन्होंने पूछा, “आप क्या समझते हैं कि राष्ट्रीय सरकार अगर राष्ट्रीय बीमा को सर्वव्यापी और अनिवार्य करदे तो आप उसका समर्थन करेंगे? बृद्धावस्था का बीमा, प्रसूतिकाल और रूग्णावस्था के संबंध में सहायता (Maternity and sickness benefits), इस प्रकार के कार्य अच्छे हैं?”

बापू कहने लगे, “अनिवार्य बीमा करने की बजाय सरकार इसके लिए मुफ्त में ही व्यवस्था करे तो मुझे उच्च नहीं होगा। आज काम करनेवालों को तो पता भी नहीं चलता कि सरकार अपनेआप उनकी तनखाह में से कुछ काटकर उन्हें प्रॉविडेंट फंड का लाभ देती है। वह करने जैसी चीज होसकती है; लेकिन सोचने की है।” भाई बोले, “रूस के बारे में और चाहे जो कहा जाय, पर इतना तो अवश्य है कि कितनी ही चीजें रूस ने ऐसी कर दिखाईं, जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कब हम गरीबों को देसकेंगे। सबके लिए खाना-पहनना, डाक्टरों की सहायता, बृद्धावस्था में पेन्शन, प्रसूतिकाल में सरकारी सहायता तथा अन्य कितने ही सुधार रूसियों ने तेजी से कर दिखाए हैं।”

बापू कहने लगे, “हां, वह तो ठीक है, मगर मैं तो देख रहा हूँ कि यह चलेगा कितने दिन? सामान्य नियम है कि जो चीज तेजी से आती है वह तेजी से चली भी जाती है।”

भाई ने पूछा, “आप जिस तरह की समाज-रचना करना चाहते हैं, वह बाकी जगह दूसरे ढंग से चले तब भी टिकी रह सकती है या कि आप यह मानते हैं कि जगत को हम उस प्रकार का न बना लेंगे तो जगत हमें हजम कर जावेगा?”

बापू कहने लगे, “दोनों बातें संभव हैं। हम इस प्रयोग में सफल होने पर उसे अपने यहां चला सकेंगे। रूस को देखो। उसने विरोधी जगत में नए समाज की रचना कर दिखाई है न।”

भाई ने कहा, “रूस का प्रयोग अवूरा है। उसका कहना है कि शेष जगत के साम्यवादी न बनने के कारण उसका प्रयोग अधूरा है। वह सम्पूर्ण जगत को साम्यवादी बनाने का ध्येय रखता है।”

बापू बोले, “जो हो, रूस का भी युद्ध के बाद क्या बचता है, यह देखना

हैं। परन्तु मैं तो आज यह देखता हूँ कि जगत में जो सभ्यता कायम हुई है, उसका नाश हो रहा है। वह चल नहीं सकती। मेरा प्रयोग उस प्रपंच में से निकलने का एक रास्ता दिखाता है; मगर इस प्रयोग को अभी हम पूरी तरह आजमा नहीं सके। दूसरे देशों में भी मेरी जो कीमत है वह इसी कारण कि वे देखते हैं कि मेरे पास कुछ नई चीज है। वे हमारी ओर आँख लगाकर बैठे हैं। अगर हम अपना प्रयोग सफल कर दिखाएँ तो वे अपने-आप इसे अपनावेंगे।”

भाई कहने लगे, “रूस ने उद्योगीकरण के आधार पर अपना नया समाज खड़ा किया है। उसे देखकर दूसरों के मुँह में पानी आया। मगर हम सादी जिन्दगी के आधार पर अपना नया समाज खड़ा करें तो भी हमारे प्राकृतिक धन पर दूसरे क्या नहीं ललचाएंगे? वे यह भी कह सकते हैं कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत नहीं, जिसका तुम उद्योगीकरण द्वारा उपयोग नहीं करते हो, उसको हमें इस्तेमाल करने दो और इस प्रकार अंत में वे हमें हजम कर सकते हैं। इस भय से बचने का आपकी सम्मति में क्या उपाय है?”

बापू ने कहा, “जब ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तब इसके बारे में हम विचार कर सकेंगे। आज से कल्पना के आधार पर वह नहीं किया जा सकता।”

रात को बापू ने प्रार्थना के बाद मौन लेकर कुछ काम किया। भाई का लिखा हुआ सुधारने की दृष्टि से पढ़ा। पढ़ने के बाद रक्तचाप बढ़ गया, सोने के समय उतर गया। हर रोज काम के बाद रक्तचाप रहता था। बाद में बापू बातें किया करते थे। सोने के समय रक्तचाप बढ़ जाता था। इसका अर्थ यह निकलता है कि प्रार्थना के बाद बापू को बहुत मगज-पच्ची के काम में अथवा किसी चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए।

: ३१ :

## सत्ता और अहिंसा

१३ दिसम्बर '४२

आज सुबह घूमते समय बापू से भाई ने पूछा, “आप कहते हैं कि सत्ता लोगों के हाथ में आजानेगी तो ट्रस्टीशिप को हम कानूनन वाखिल कर देंगे। हमें यह काम लोकमत और प्रजातंत्र के द्वारा करना होगा। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हम उसी दज्जतक अमल में लासकेंगे जहाँतक हम पूँजीपतियों को इसके लिए तैयार कर सकेंगे? क्या इसका मतलब यह है कि आर्थिक सुधार किशतों के रूप में आबेंगे? इसके द्वारा हम जनता को उस तरह उत्साहित न कर सकेंगे जिस तरह रूसियों ने निजी मिल्कियत की प्रथा को एकदम मिटाकर किया है। इसीलिए तो एकसत्तावाद (Dictatorship) की आवश्यकता मानी गई। सुधारक जनतंत्रवादी नहीं होसकता। सवाल यह है कि

हम निजी मिल्कियत की पद्धति को रलकर सामाजिक अग्याय को जिवा रहने देंगे या एकसत्तावाद का कड़वा घंट भरकर उसकी जड़ निकाल देंगे ?

“अगर अहिंसा द्वारा, जैसा कि आपने कहा था, हम प्राण की आहुति भी मांग सकते हैं तो पूंजीपतियों से निजी मिल्कियत के अधिकार को ही क्यों नहीं एकदम उड़वा देंगे ? हम उन्हें नए तंत्र में सम्मानित स्थान दें; परन्तु पूंजीपति की हंसियत में नहीं, प्रतिभासम्पन्न समाज-सेवी की हंसियत में। क्या अहिंसा की शक्ति की कोई मर्यादा है ?

“आप मानते हैं कि सत्ता हमारे हाथ में किशतों में आवे तो क्रांतिमूलक जोश मर जावेगा। परिणाम-स्वरूप हम्म बड़ा भारी परिवर्तन आसानी से नहीं कर पावेंगे। यही बात क्या आर्थिक क्षेत्र में भी लागू नहीं होती ? ”

बापू कहने लगे, “रूस में पूंजीपतियों के जाने से जनता की आमदनी बढ़ी। इससे उनका उत्साह बढ़ा। हमारे यहां भी आर्थिक सुधार के नीचे मजदूरों की आमदनी तो बढ़ेगी ही। रूस में तो जनता को पूंजीवादी वर्ग की सम्पत्ति पर ही अधिकार मिला; पर यहां तो सम्पत्ति के साथ उनकी बुद्धि, अनुभव और कार्य-कुशलता, सब उनको मिला। यह तो उससे भी बड़ी क्रांति की बात हुई। पूंजीपतियों ने वर्षों से धन-उपाजन की कला सीखी है। वह कला जब जनता की सेवा में लगाई जावेगी तो जनता की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरेगी। जबतक हमारे पास सत्ता नहीं तबतक तो हम जितना पूंजीपति वर्ग को समझा सकें उतना ही उनसे करवा सकते हैं, मगर जब सत्ता हमारे हाथ में आजाती है तब भी जितने के लिए लोग तैयार हो उतना ही सुधार हम कानून की मार्फत भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज सफाई के कानूनो पर कौन अमल करता है ? जनता तो उन कानूनो के लिए तैयार नहीं है। ”

मैंने पूछा, “तो तैयारी पूंजीपतियों की होनी चाहिए या जनता की ? जनता तो तैयार है ही। रहे पूंजीपति, सो वे अपनी पूंजी छोड़ने को क्यों तैयार होंगे ? ”

बापू कहने लगे, “दोनों की तैयारी होनी चाहिए। पूंजीपति भी स्वयं ही समझदारी के साथ त्याग के लिए तैयार होसकते हैं और नहीं तो उन्हें लोकमत के सामने झुकना पड़ेगा। आज लोकमत यहांतक सगठित नहीं हुआ है। ”

भाई ने कहा, “सत्ता लोगों के हाथ में आवे, इसका अर्थ क्या ? सत्ता का अर्थ क्या ? ”

बापू बोले, “बोटिंग की ताकत। इतना व्यापक बोट लोगों के पास होगा कि वे बहुमत में होकर जो चाहेंगे करवा लेंगे। मिसाल के तौर पर वे चाहेंगे तो कानून भी बनवा सकेंगे। ”

भाई कहने लगे, “वह सत्ता लोगों के हाथ में आवे किस तरह ? मार्क्स के अनुयायी कहते हैं कि अन्धकाल का पालमिष्टरी तरीका इस चीज के लिए निकम्मा है। ”

बापू बोले, “इसकी तालीम लोगों को बीस वर्ष से मिलरही है। हमारा शस्त्र है अहिंसक असहयोग। यह शस्त्र बीस वर्ष से घड़ा जा रहा है। ”

भाई कहने लगे, "पूरी सत्ता हमारे हाथ में यानी जनता के हाथ में आवे तब तो यह सब शक्य है। मगर आज की परिस्थिति में तो ऐसा लगता है कि पूरी सत्ता कांग्रेस के हाथ में शायद न भी आवे। कांग्रेसी मिनिस्ट्रियों को ब्रिटिश सरकार के साथ काम करना पड़ता था। शायद हमें मुस्लिम लीग के साथ सत्ता बांटनी पड़े। यह भी होसकता है कि हमारे हाथ में सत्ता आवे ही नहीं।"

बापू ने कहा, "हम इस सवाल में आज न उतरें कि सत्ता लोगों के हाथ में आसकती है या नहीं। मैं मानता हूँ कि हमारे यहां ऐसा प्रजातंत्र पंदा होगा जिसमें पूरी सत्ता लोगों के हाथ में ही होगी, मगर वह मेरी भूल होसकती है। आज हम दलील की खातिर यह मानलें कि ऐसा राजतंत्र पंदा होगा। इसके बीच वह किस तरह काम करेगा— इसका हमें विचार करना है।"

भाई कहने लगे, "साम्यवादी कहते हैं कि हम आपकी सब बातें समझते हैं, मगर जब सत्ता छीनने का विचार करते हैं तब समझ में नहीं आता कि अहिंसा के द्वारा सत्ता पर कब्जा कैसे जमाया जासकता है? फिर आपने तो एक बार कहा भी था न कि होसकता है कि अहिंसा के द्वारा सत्ता पर कब्जा न लिया जासके!"

बापू ने कहा, "हां, परन्तु शासन-तंत्र से बाहर रहकर अहिंसावादी लोग सत्ता पर असर डाला करें। वह काफी है। मानो कि सत्ता विरोधियों के हाथ में है तो भी अहिंसावादी उनसे काम लेसकते हैं। कांग्रेस में ही अपने से मतभेद रखनेवालों के हाथ में सत्ता है तो भी वही परिणाम लाया जासकता है। यही तो अहिंसा की विशेषता है।"

बापू ने आगे कहा, "और सत्ताधारी को हिंसा का उपयोग करना ही पड़ता है, यह मैं नहीं मानता।"

भाई कहने लगे, "आखिर राज्य के मूल में ही दण्ड-सत्ता (Coersive Power) का भाव निहित है।"

बापू बोले, "मगर किस तरह की दण्ड-सत्ता? मानो कि एक परिवार में पिता को सत्ता दीजाती है। वह बच्चों को थोड़ी चुभेगी? सत्ता भी फूल की सी होसकती है, जिसका दबाव किसी पर पड़े ही नहीं।"

"कांग्रेस की सत्ता लोगों ने खुशी से स्वीकार की। बाद में नरीमन और खरे-जैसे व्यक्ति भी निकले। और बिहार को लो। वहां के लोगों को समझाने में मुश्किल आती ही नहीं। कांग्रेस की सत्ता किसीको चुभनेवाली थोड़े ही है। लोग अपनी खुशी से मुझे सत्ता देते हैं, मेरी मानते हैं। आज न मानना चाहें तो मैं अलग होजाऊंगा। आज मैं बिहार चला जाऊं तो लोग अपनेआप मेरे पीछे चले आवेंगे। उन लोगों में एक तरह की भक्ति और श्रद्धा रही है। यह आम जनता का भाव रहा है। इसीलिए धनिक वर्ग भी उसी तरह से चलता है। खिलाफत के जमाने में कांग्रेस की अथवा मेरी सत्ता किसको चुभती थी? अली भाइयों को क्या इसका तनिक भी बोझ लगता था? इसीसे तो मैं उनका 'सरकार' बना न? ऐसी ही राजतंत्र की सत्ता भी होसकती है।"

भाई कहने लगे, “उसके लिए बड़ी उप तपश्चर्या चाहिए। भागवत के एकादश स्कन्ध में समाज का जिसे कानून बनानेवाला बनना है उसके लिए तैयारी का वर्णन है। उसे सारे कौटुम्बिक सम्बन्ध तोड़कर खानप्रस्थी बनना है, भयंकर कष्ट उठाकर शरीर को शून्यवत् बनाना है, फिर संन्यास लेकर राग-द्वेष-रहित बनना है। मान, अपमान, स्तुति और निन्दा में समभाव रखकर अनिकेत और मीनी बनना है। यदि शरीर इतना कष्ट न सहन कर सके तो उसे अग्नि में जला देने का व्रत लेना है। तब ऐसा संन्यासी सत्ता का अधिकारी होगा। स्वार्थ जैसी चीज वह जानता ही नहीं है। उसका कहा कोई टाल ही नहीं सकता। मतलब यह कि सत्ता का सच्चा अधिकारी पंदा होना चाहिए। पीछे सत्ता अपनेआप आवेगी और वह किसीको चुभेगी भी नहीं। किसीको तपश्चर्या का चित्र उरावना लगे तो मैं कहूंगा कि हिंसा-पथ पर क्या कम कुर्बानी की आवश्यकता है? रुस को देखिए। बर्फ जमने की सर्दी से भी ४० डिगरी नीचे की सर्दी में वे लोग आज लड़ रहे हैं। खाना, पीना और सोना सबका त्याग कर रहे हैं। अहिंसा-पथ पर तो शायद इससे कम ही कुर्बानी करनी पड़े।”

बापू बोले, “यह होसकता है, मगर तैयारी उससे ज्यादा कुर्बानी की होनी चाहिए। इस मामले में कोई छोटा रास्ता है ही नहीं, होना चाहिए भी नहीं। यह वर्णन ठीक है। समाज में जागृति आनी चाहिए, मगर सारी जनता को इतना त्याग करने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि एक आदमी की भी साधना पूरी होती है तो काम निपट जाता है। मुहम्मद या ईसा रोज-रोज थोड़े पंदा होते हैं। एक बफा आए और काम शुरू होगया। पीछे लोग अपनी शक्ति के अनुसार उनकी मदद करते रहते हैं और काम चलता रहता है।”

मैंने पूछा, “तब तो ऐसे आदर्शमय राजतंत्र को ईसा या मुहम्मद जैसा महान् व्यक्ति ही चला सकता है। वह कहाँ से मिले ?”

बापू ने कहा, “तुम विचार करो तो ऐसे सवाल अपनेआप हल होजावेगे। ईसा ने अपने बारह शिष्य तैयार किये थे। उसके पीछे काम अपनेआप चलने लगा। आदर्शमय प्रजातंत्र को चलाने के लिए हमेशा महान् व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। लोगों को अपनी ताकत का आभास होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, क्यों मानते हो कि सोना-चांदी ही पूंजी है? मजदूरी भी पूंजी है। सोना-चांदी से भी बढ़िया पूंजी है। यह ज्ञान मजदूर वर्ग को होजावे तो काम निबट जाता है। वह होसकेगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता। यही बात अहिंसक प्रजातंत्र पर लागू होती है।”

भाई कहने लगे, “ठीक है, युग-कर्ता तो कभी-कभी ही आता है। वह सिलसिला चला देता है। पीछे युग अपनेआप चला करता है। यह भी बात है कि युग का भी अंत होता है। आलसी और स्वार्थी पंदा होजावें तो वे सत्ता को सम्भाल नहीं सकेंगे, खो बैठेंगे; मगर वही चीज हिंसा के आधार पर खड़ी हुई सत्ता पर भी लागू होती है।”

शाम को घूमते समय भाई ने बापू से पूछा, “शासनतंत्र की संज्ञा क्या है ?”

बापू कहने लगे, “किसी विशेष शासनतंत्र संज्ञा को पूछो तो मैं बता सकता हूँ। सामान्य अर्थ तो शासनतंत्र का यह है कि वह कानून बनानेवालों और उन पर अमल करानेवालों का समूह ही होता है।”

भाई अराजकवादियों की बात करने लगे, “वे लोग राज्य को नहीं मानते, मगर समाज-व्यवस्था को मानते हैं। देखा जाय तो शासनतंत्र दरअसल है वण्ड का साधन ही।”

बापू बोले, “माक्स का तो यह कहना है ही कि जब साम्यवाद पूरी तरह सफल होजावेगा तो शासनतंत्र का कुछ काम नहीं रह जावेगा। वह अपनेआप सूख जावेगा। अराजकवादो का तो अर्थ ही यह है कि हरेक आदमी जो चाहे कर सकता है।”

मैंने पूछा, “क्या आप भी मानते हैं कि आदर्श समाज में शासनतंत्र की जरूरत नहीं रहेगी?”

बापू कहने लगे, “मैं मानता हूँ कि शासनतंत्र तो रहेगा ही; मगर वह शासन-तंत्र यही कहो न कि ऋषियों की हकूमत होगी। प्राचीन काल में तो लोग ऋषियों को मानते ही थे न। आधुनिक काल में ऋषि का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सबसे अधिक सुशिक्षित, सेवाभावी, सेवा की योग्यता रखनेवाला हो। ऐसा पुरुष अपनेआप सत्ता लेकर नहीं बँठ जावेगा, मगर लोग स्वयं समझ लेगे कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। वे स्वयं उसे चुनकर सत्ता उसके हाथ में सौंप देंगे।”

आज दोपहर भंसालीभाई की अखबारों में खबर थी। डा०मनु त्रिवेदी की उनके बारे में रिपोर्ट थी। अणे साहब ने उन्हें उपवास छोड़ने का तार दिया था और कहा था कि वे अपनी जगह से चिमूर के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल कराने की कोशिश कर रहे हैं। भंसालीभाई ने उत्तर दिया था, “आप सफल हों, मगर मैं इस तरह उपवास नहीं छोड़ सकता। आप आर्ये और हम चिमूर जाकर लोगों को आश्वासन दें।” अणे साहब ने फिर तार दिया, “इसका कोई फायदा न होगा, मगर आप उपवास छोड़ें तो मैं आऊँ।” भंसालीभाई ने उत्तर दिया, “आप आर्ये, हम साथ जाकर चिमूर के लोगों की फरियाद सुनेंगे। मैं उपवास छोड़ूँगा।”

परिणाम क्या होगा, यह तो ईश्वर ही जानता है। भंसालीभाई बच जायें तो बड़ी बात होगी। डा० मनुभाई लिखते हैं, “तबीयत कमजोर बहुत है। उठकर बँठ भी नहीं सकते। जल्दी ही हालत ऐसी होजावेगी कि उपवास छोड़ने पर भी वे न बच पाएँगे।”

१४ दिसम्बर '४२

आज सोमवार था। बापू का मौन। उन्होंने भाई के एक-दो प्रश्नों का उत्तर लिखा। बाकी के बारे में फिर लिखेंगे। चर्चा नहीं हुई, मगर भाई धूमते समय कह रहे थे, “हमें चर्च और ग्राम-उद्योग के प्रयोग के साथ पूर्ण न्याय करना है तो उसके लिए एक ऐसा छोटा-सा इलाका चाहिए कि जहाँ मिल और उद्योगीकरण का विरोधी प्रभाव न

पहुँच सके। तब हमें पता चलेगा कि कहांतक हम मशीनों के बिना लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इन प्रयोगों से काम न चल पाएगा तो फिर ऐसी छोटी-छोटी मशीनों का खिल्ल कराने का सवाल उठेगा जो घर-घर में रह सकें।”

शाम को बापू का रक्तचाप ठीक था; परन्तु सोने के समय कुछ बढ़ गया।

सुबह भंडारी आए थे। बापू स्नानघर में थे। उन्हें नहीं मिल सके। कलकत्ते से सर्पगंधा का ऐलकोहॉलिक एक्स्ट्रैक्ट दो औंस आया है। वह भी भंडारी साथ लाए थे। मैंने आठ औंस मंगाया था।

सुबह बड़ी ठण्ड थी। बापू की मालिश अंगीठी पास रखकर की गई। सरोजिनी नायडू ने भंडारी के साथ बातें कीं और बिजली का एक रेडियेटर भेजने को कहा। उनके अपने घर में सेंक को किरणें देने का यंत्र था, जो उन्होंने अपने कमर के दर्द के लिए मगवाया था। उन्होंने वहीं भेज दिया। सरोजिनी नायडू ने ग्रामोफोन मांगा था, वह भी आगया।

घूमते समय एक कुत्ता पड़ा मिला। मोराबहन ने देखा कि उसे चोट आई हुई थी, सो उसके घाव धोकर मरहम लगाया। कुत्ता इतनी अच्छी तरह से वह सब करवा रहा था कि क्या कहना! बस फिर तो वह मोराबहन के पीछे-पीछे ही लंगड़ाता फिरता था। रात को सिपाही उसे नीचे लेगये।

भंसालीभाई की खबर थी कि श्री मुंशी बम्बई से वर्षा गए हैं। उन्होंने भी अपने साहब को तार दिया था, “आप आबें, भंसालीभाई का उपवास छुड़ाने में मेरी मदद की आवश्यकता होगी तो मैं भी आजाऊंगा। आशा है, हम सफल होंगे।” बम्बई से कुछ बहनें भंसालीजी के दर्शनार्थ वर्षा गई हैं।

१५ दिसम्बर '४२

बापू ने दो-तीन दिन से उर्दू का अभ्यास कम कर दिया है। ‘आरोग्य की चाबी’ लिखने में ज्यादा समय देने लगे हैं। इस महीने में उसे पूरा करना चाहते हैं। रविवार के ‘बाम्बे क्रानिकल’ में “जोड़ ईश्वर की ओर लौट आते हैं” शीर्षक लेख था। उस पर से मोराबहन को विचार आया कि उन्हें पत्र जोड़ साहब को लिखना चाहिए। सो एक पत्र में उन्होंने लिखा— “मैं आप-जैसी विद्वान तो नहीं हूँ, मगर आपके साथ मेरी सहानुभूति है। मैं भी आपकी-सी मानसिक दशा में से गुजर चुकी हूँ। मुझे हिन्दू दर्शनशास्त्र से शांति मिली है। आप भी अनुकूल वातावरण होने पर हिन्दुस्तान आबें। यहाँ की नदियाँ, हिमालय-जैसे पहाड़ और अन्य प्राकृतिक साधन आपको नया संदेश सुनाएंगे। यहाँ आकर मेरा बाहरी और भीतरी जीवन बदल गया है।”

बापू का रक्तचाप आज बहुत अच्छा था। १४०। ६०। शाम को प्रार्थना के बाद एक घंटा काम किया। बाद में शौचादि से निवृत्त होने गए; पर रक्तचाप बैसा ही रहा। कारण का विचार करने लगे। कहने लगे, “आज बहुत दिनों बाद मूली खाई थी। यह कारण होसकता है, मगर उससे अधिक सम्भव यह है कि आज तेरी डायरी पढ़ते



समय मँने देखा कि मुझे काफी अनावश्यक विचार आया करते हैं तो मँने मन को समझाया कि अनावश्यक विचार आने ही न पाएँ। इसका असर रक्तचाप पर पड़ा होगा।”

: ३२ :

## विविध चर्चाएं

१६ दिसम्बर '४२

आज बापू ने बताया कि डायरी के बारे में उन्होंने कल जो नोट लिखा था उसका अर्थ क्या था। कहने लगे, “मँने तुमसे कहा था कि मैं भंसाली के बारे में लिख नहीं सकता; क्योंकि मेरे पास पूरी सामग्री नहीं है। वही चीज राजाजी के बारे में लागू होती है। मैं क्या जानूँ कि राजाजी के मन में क्या है। वे मेरे परम मित्र हैं। उनकी बुद्धि के लिए मेरे दिल में बहुत मान है। वे इस चीज को इतनी दृढ़ता से कर रहे हैं तो इसमें अवश्य ही कुछ होगा, ऐसा मुझे मानना ही चाहिए। उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती तो उनसे पूछूँ, उनके साथ लड़ूँ; झगड़ूँ मगर इस तरह यहाँ बँठे अखबारों की रिपोर्टें पढ़-पढ़कर मुझे कोई राय नहीं कायम करनी चाहिए। मेरे मन में भी इस बारे में कोई विचार न आवे तो अच्छा। मगर यहाँ तो अक्सर बोलते-बोलते विचार-मंथन (Loud thinking) होता है। तुम लोगों के सामने कहदूँ तो कम-से-कम वह लिखा नहीं जाना चाहिए। यह डायरी या तो मेरी जिव्दगी में अथवा मेरे बाद किसी रोज प्रकट होनेवाली है। इसमें काट-छांट होगी; मगर तो भी यह महत्व की चीज है। यहाँ हम आगए, इतने दिन रहे। हमने यहाँ कैसे समय बिताया, यह जानने की सबको उत्सुकता होसकती है। तो हम उसमें कच्चे और अधूरे विचार न रखें।

“राजाजी सोचते हैं कि इस तरह से वे मुसलमानों से पाकिस्तान की भांग ही छुड़वा देंगे। मुझे उन्होंने कहा कि हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के टुकड़े न हों। मैं कहता हूँ कि उनका तरीका गलत है। वह अहिंसक नहीं है। हम यदि पाकिस्तान को बुरी चीज मानते हैं तो हमें साफ-साफ ऐसा कहना चाहिए। आखिर मुसलमान भी हमारे भाई हैं। उनमें कोई बुरी बात पँदा होजावे तो हमें उसे छुड़वाना है। उन्हें भी हमें सुधारना है। कल के अखबार में एक मुस्लिम भर्षे ने लिखा है न कि और चाहे जो हो, अगर पाकिस्तान आया तो मुसलमानों का नाश है। जगत के किसी भी हिस्से में मुसलमान इतने कट्टर नहीं हैं जितने कि यहाँ। उनके सामने और कहीं भी हिन्दू धर्म की-सी सहिष्णुता नहीं थी; मगर उस सहिष्णुता का यह अर्थ आवे कि वे हिन्दुओं का देश छीनना चाहें तो हिन्दू कह सकते हैं कि इनके प्रति अब सहिष्णुता नहीं रहनी चाहिए। दूसरे देशों ने जो किया वही हम भी करेंगे। वे कहेंगे, आखिर हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है और मुसलमान बाहर से आए, तो कितने? यहीं से ही तो ये लोग मुसलमान हुए। किसीका

लड़का मुसलमान होजावे और भाइयों से झगड़े कि पंतुक सम्पत्ति में हिस्सा दो तो वह जेशर्मी की हव हुई। या कोई आवमी मुसलमान होजावे और अपनी औरत से भी कहे कि मेरे साथ तू भी मुसलमान हो जा, नहीं तो तुझे मार डालूंगा, वह भी बेशर्मी है। . . . को ही लो। वह मुसलमान हुआ था तो इतना ही कर सकता था कि अपनेआप ही को लेकर निकल जावे। मगर सच तो यह है कि मुसलमानों में भी वर्ग-विभाग तो है ही। जिन्हें मुसलमान बनाते हैं, उन्हें अपने बराबर का नहीं समझते। . . . के साथ भी कई इकरार तो किये, मगर उन्हें पूरा नहीं किया। तो वह भागा और आर्यसमाजी बना। वहां हिन्दू का हिन्दू रहा और मांस-शराब लेने की छूट मिली। बस, और क्या चाहिए था ! आर्यसमाजी रहकर ही वह मरेगा।'

दिन में बापू ने 'आरोग्य की चाबी' का काफी हिस्सा लिखा।

बा को तबीयत खासी अच्छी है। शाम को बगीचे के एक-दो चक्कर मीराबहन के साथ लगा ही आती है। कौन जाने उन्हें दिल का दौरा कब होजावे। मेरे पास इसकी दवा इस समय नहीं है। कई बफा मंगाई है, मगर डा० शाह कहते हैं कि मिलती ही नहीं।

बापू का रक्तचाप आज कल का-सा तो नहीं था; मगर खासा अच्छा था।

मने चर्खा कातने का समय प्रार्थना के बाद से हटाकर दोपहर को रख लिया ताकि रात को बापू के लिले का अनुवाद कर सकूं। बापू का बिस्तर लगाना, बा को दवा वगैरा देना—यह सब पंद्रह मिनट लेलेता है। पौन घटा बच जाता है। बा को पहले प्रार्थना के बाद ही दवा का लेआना अच्छा नहीं लगा। पीछे बापू ने समझा दिया तो समझ गईं।

१७ दिसम्बर '४२

आज मुबह घूमते समय बापू और भाई इतिहास की किताबों की बाते करते रहे। बापू बताने लगे कि जब बंरिस्टरी पास करके वे विलायत से लौटने लगे तब बहुत निराश थे कि वापस जाकर करेंगे क्या ! जबान तो खुली ही नहीं थी। हिन्दुस्तानी कानून के बारे में वे कुछ जानते नहीं थे। इसलिए बहुत घबराहट में थे। उन्होंने बताया, "वापस आने से पहले मैं श्री एम. पिन्कट के पास चला गया। वे मद्रास के सिविल सर्विसके आदमी थे। कंजरबेटिव पार्टी के थे, मगर भले थे। मने उन्हें अपनी उलझन बताई। वे कहने लगे, "तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वकील का धंधा फठिन नहीं है। कानून का खपाल न करो। अपनी सामान्य बुद्धि को इस्तेमाल करो तो तुम्हारा काम चले जावेगा। मनुष्य-स्वभाव पहचानने की योग्यता भी कुछ होनी चाहिए।" इस दृष्टि से उन्होंने मुझे श्रीमती सेमल पेनिक (Mrs. Semmel Penick) और लवाल (Laval) का मुखमुद्राशास्त्र (Physiognomy) पढ़ने की सलाह दी। लवाल की पुस्तक मिल गई। पहली नहीं मिली। उन्होने के और मेलेसन (Kay and Malleson) की 'सिपाहीविद्रोह का इतिहास' को भी पढ़ने की सलाह दी। यह इतिहास बहुत रसपूर्ण था।"

बापू फिर बताने लगे, “जब विलायत गया तब मैट्रिक कर चुका था। पोरबंदर के शासन-प्रबंधक के पास मैं छात्रवृत्ति मागने गया। उन्होंने कहा, “बी० ए० पास करके जाओ तब कुछ समझने लायक होंगे। तब तुम्हें छात्रवृत्ति भी दूंगा।” मैंने कहा, “मैं इतने धर्य कैसे खोजूँ ?” सो छात्रवृत्ति के बगैर ही गया। १९०६ में जब मैं दक्षिण अफ्रीका से शिष्टमण्डल लेकर विलायत गया तब वहाँ जितने प्रसिद्ध आंग्ल-भारतीय थे, जो हिन्दुस्तान में आकर काम कर गए थे, सबके पास गया। सबने मदद की। उस समय मैं कांग्रेस के रंग में रंगा नहीं था। इसलिए उन लोगों को मेरा कोई डर नहीं था। दक्षिण अफ्रीका के विषय में उन्हें कुछ विरोध करने जैसा नहीं था। ईश्वर ने उस समय काफी लोगों की मदद मुझे दिलाई।”

भाई कहने लगे, “इसके सिवा ब्रिटिश उपनिवेशों में रहनेवालों के प्रति सिविल सर्विसवालों का एक तरह का मुरब्बीपन का भाव होता है कि यह हमारी प्रजा है, जैसे कि जेल में कोई पुराना कर्मचारी मिल जाए तो जो पुराना कैदी पहले उसके साथ रह चुका हो, वह उसका कैदी कहा जाता है, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता।”

दोपहर में एक दुःखद घटना होगई। बापू के पैर की मालिश पूरी की तो बापू कहने लगे कि वे सोकर उठेंगे तो मुझे नहीं जगावेंगे; क्योंकि क्या पता, मैं कब सोऊँ। मैंने कहा कि अभी सोजाऊंगी तो मान गए। मैं भीतर हाथ धोने आई तो भाई के साथ बातों में लग गई। मुझे लगा कि बापू एक घंटा सोने हैं। मैं पाच मिनट में जाकर सो-जाऊंगी तो काफी है। मगर आज बापू पंद्रह मिनट में ही उठ गए। उसी वकत मैं सोने गई। इससे उन्हें कुछ आघात लगा। कहने लगे, “अगर कोई कहकर न करे तो मेरा पारा चढ़ जाता है। यह चीज मुझसे सहन नहीं होती।”

मैंने कहा, “मगर यह चीज तो इतनी छोटी थी कि मैंने उसको ‘वचन’ का महत्त्व ही नहीं दिया था, बरना बातों में न लगती।”

बापू कहने लगे, “तो बड़ी चीज कौनसी होती है? हमारा स्वभाव ही ऐसा बन जाना चाहिए कि मुंह से जो बात निकले, उसे करना ही है; नहीं तो वह बात मुंह से निकले ही न।”

मीराबहन ने आज अपने चाचा एलेक (Alec) को पत्र लिखा। सरोजिनी नायडू को बहुत पसन्द आया।

भाई बापू का खाना तैयार करते थे। नतीजा यह होता था कि उन्हें खुद खाने को बहुत देर होजाती थी। आज से वह काम मैंने लेलिया है। ब्रुलार आने से पहले तो मैं ही करती थी, मगर ब्रुलार में कम बदला और बैसे ही चलता रहा। आज से फिर पुराना क्रम शुरू होता है।

१८ दिसम्बर '४२

आज सबेरे भाई बापू से पार्क्स (Parks) की पुस्तक ‘मार्क्सवाद—एक पोस्टमार्टम’ की बातें करते रहे। बापू कहने लगे, “पार्क्स मार्क्स की टीका भले करें, मगर मार्क्स ने बड़ा

काम किया है, इसमें शक नहीं। उसका समाज-व्यवस्था का निदान ठीक हो या न हो; इतना अवश्य है कि उसने कुचले जानेवाले गरीब वर्ग के लिए कुछ करने की सोची। मार्क्स के अर्थशास्त्र को मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि समाज की सभी कठिनाइयों का हल अर्थशास्त्र में है; लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि गरीब कुचले जा रहे हैं। उनके लिए कुछ करना चाहिए। यह बात मैंने बचपन से देखी है। इसे समझने में मुझे कठिनाई आई ही नहीं। मेरे लिए वह स्वयंसिद्ध-सी चीज रही है। छुटपन में ही मैं अपनी माँ से दलील करता था—भंगी को छूने से हम क्यों अपवित्र होजाते हैं? उस दिन से मैं भंगियों का बना। मार्क्स ने जो देखा उस पर उसने विचार किया। वह प्रतिभाशाली आदमी था, विद्वान् था। सो प्रतिभाशाली भाषा में अपने विचार लिख सका है।”

भाई बोले, “वह विद्वान् था, साथ ही दार्शनिक और अर्थशास्त्री भी था। इसी कारण वह सफल होसका।”

भाई जल्दी बापस चले गए। बाद में बापू कल शाम की एक घटना की चर्चा मेरे साथ करते रहे। कहने लगे, “अगर हम अपनी घरेलू समस्याओं का हल अहिंसा द्वारा नहीं निकाल सकते तो जगत् में कुछ भी नहीं कर पाएंगे।”

शाम को घूमते समय फिर भाई ने खादी के बारे में सवाल उठाए, “हमारा अर्थ-शास्त्र, हमारी समाज-रचना कंसी हो कि जिससे हम खादी को सफल बना सकें?”

बापू के मन में अभी तक कल शाम की घटना का विचार चल रहा था। कहने लगे, “मुझे अर्थशास्त्र से कुछ नहीं पड़ी है। मैं मानता हूँ कि कार्यकर्ता यदि योग्य होंगे तो प्रतिकूल वातावरण में भी अपना रास्ता निकाल लेंगे और वह तभी होसकता है जब हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में अहिंसा का इस्तेमाल हो और हमारा जीवन सुख्यवस्थित हो चले। मैं चाहता हूँ कि हम सब बाकी समय इस चीज की साधना में लगाएं। अगर हम अपनी समस्या हल कर सकते हैं तो जगत् की समस्याओं का हल भी निकाल सकते हैं। उसके सिवा अहिंसा द्वारा हम समाज पर कोई असर नहीं डाल सकते। अगर मैं इस काम में असफल होता हूँ तो समझूंगा कि मैंने अपना दिवाला निकाल दिया है।”

मीराबहन ने त्रिफला छोड़ दिया है। कहती है कि त्रिफला से मुझे नुकसान हुआ है। बा ने भी आज त्रिफला नहीं खाया।

शाम को महादेवभाई की समाधि पर नया ॐ बनाया। मोटी मिट्टी की तह में घोंघे गाड़ दिए। ॐ का चित्र कागज पर बनाकर लगाए थे। इससे घोंघे लगाने में कम समय लगा। घूमने के लिए आधा घंटा मिल गया। बा आज कह रही थीं, “मैं रोज अलबार पढ़ती हूँ। लोग भूखें मर रहे हैं। हम क्यों ज्यादा चीजें मंगाते हैं? यहां तो सरकारी आदमी हैं। हुक्म चलाया कि इतना लाओ और उतना ही आगया, भले दूसरे भूखें मरें। जेल से यदि सामान आए तो वहां कंदी भूखें मरते हैं।” मुझे विचार आया कि यदि सब लोग इस चीज का ध्यान रखें तो खुराक-संबंधी आधी उलझन तो एक दिन में सुलझ जावे।

१६ दिसम्बर '४२

आज शनिवार है। महल्लेवभाई को गए १६ हफ्ते होगए। आवमी जाता है तो पीछे समय बौड़ता ही जाता है। सुबह समाधि पर सरोजिनी नायडू और मीराबहन आईं। सुन्वर ही दिखता है। मिट्टी का पलस्तर फटने लगा है।

बा ने एक तुलसी का गमला बरामदे में मंगवा रखा है। उस पर रोज विया जलाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। दशहरे और दिवाली के समय उसकी मंगनी-ब्याह भी किया था। पीधा अब सूखने लगा है। मीराबहन कहने लगीं, "एक दूसरा पीधा भी है। मैं वह लेआऊंगी।" बापू बोले, "नहीं, यह ६ फरवरीतक चलेगा। ६ फरवरी हमारी यहा की आखिरी तारीख है। उसके बाद हम यहां रहेंगे तो एक दूसरी ही हालत में रहेंगे।" क्या नई परिस्थिति पंवा होगी, यह तो भगवान जानें मगर ऐसी बातों से काफी चिंता होजाती है।

गर्मी बढ़ने लगी है और रात को एक या दो शाल ओढने से काम चल जाता है।

आज सरोजिनी नायडू और श्री कटेली के लिए रोटी बनाई। बा ने भी खाई और दोपहर को सोगई—चर्खा रात को काता। कपड़े भी नहीं धोए।

बापू की 'आरोग्य की चाबी' आज पूरी होगई। अब उसे फिर से पढना और उपसंहार लिखना बाकी है। इस समय पुस्तक बहुत छोटी है। बापू कह रहे थे, "इस समय मैं अपने अनुभव से बाहर गया ही नहीं हू।"

३३ :

## भूटे आरोप

२० दिसम्बर '४२

आज सुबह घूमते समय बापू कहने लगे, "मैंने तुम्हारी डायरी के बारे में प्यारे-लाल के साथ बात की थी। क्या उसने तुम्हें बताया ? तुम्हारी डायरी पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में आया कि इसमें बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए। इस डायरी को किसी बिन प्रकट होना है। उस समय कई चीजों का दुरुपयोग होसकता है, जैसे कि व्यक्तियों की टीका। वह टीका करने का मुझे अधिकार नहीं है। माण्टेग्यू ने अपनी डायरी में उन सभी लोगों की टीका की है जिनसे वह मिला था और जिन पर उसकी छाप पड़ी थी। यह टीका क्या थी, उन सब की हंसी थी, उपहास था। मेरी दृष्टि में यह भट्टी चीज है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

"अपनी लड़ाई की चर्चा जो कुछ भी मैं करूं, वह भी नहीं लिखना चाहिए ; क्योंकि मेरे विचार तो बन रहे हैं। मैं खुद बन रहा हूँ। तब ऐसे अधूरे विचार लिखने से क्या लाभ ?

“तीसरी चीज है प्यारेलाल के प्रश्न और मेरे उत्तर। वे भी नहीं लिखे जाने चाहिए। मेरे विचार वहां भी कई बार पक्के नहीं होते।

“फिर डायरी पढ़कर जब मैं उस पर अपने दस्तखत देता हूँ तो वह भी पक्की खन जाती है। मुझे यह ठीक नहीं लगता।”

मैंने कहा, “डायरी पढ़ने के लिए आप ही ने मांगी थी। आप जैसा कहें, मैं करने को तैयार हूँ। कहें तो लिखना बन्द करवूँ। जो कुछ आपने छोड़ने को कहा है, उसे छोड़कर यहां लिखने को रहा क्या? ऋतु का वर्णन, पक्षियों का बयान भी अच्छा होसकता है; मगर मुझे इसमें रस नहीं। डायरी मैंने आप ही के कहने पर आरम्भ की थी। भाई के आनेतक संक्षिप्त थी। उन्होंने विस्तार में लिखने को कहा तो मैंने वैसा किया। आपके विचार भले अधूरे हों, मगर किस तरह उनका विकास हुआ, इसका लेखा रहे तो अच्छा है। छापने की दृष्टि से नहीं, मगर आपके लिए, हमारे लिए। अगर आप यह उचित समझें तो न छापने लायक सामग्री को एक लकीर से और अनावश्यक या गलत सामग्री को अच्छी तरह काट सकते हैं।”

बापू कहने लगे, “तुम दोनों विचार करके मुझे बताना कि क्या करना ठीक होगा। मैंने अपने विचार तुम्हारे सामने रख दिये हैं। उनका प्रभाव तुम दोनों पर क्या हुआ है, यह जानकर ही जो करना होगा, कलंगा।”

साढ़े बस बजे डा. शाह आए। दोपहर में भंडारी भी आए। बेचारों के लिए इस प्रकार आना-जाना घोस-सा होजाता है।

अखबारों में बापू के प्रति झूठा प्रचार तो चलता ही है। अंग्रेज इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं, यह समझ में नहीं आता।

शाम को बादल आए। पहाड़ी पर वर्षा हुई होगी, क्योंकि हवा में नमी थी; मगर यहां पानी नहीं बरसा। रात को इतनी गर्मी थी कि मोटी सूती चादर भी ओढ़ना कठिन था।

भाई बापू से कहने लगे, “आरोग्य की किताब पूरी होगई है तो आप आश्रम का इतिहास हाथ में लेले। आपने बहुत पहले ही कहा था कि आश्रम का इतिहास लिखेंगे और जैन धर्म के बारे में भी कुछ-न-कुछ लिखेंगे।”

बापू बोले, “जैन धर्म के बारे में तो रायचन्दभाई के सहयोग से कुछ लिखने का विचार किया था; मगर वह बात बहुत वर्षों से मेरे मन से निकल गई है। मुझे लगता है कि मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे जैन धर्म के विषय में ज्ञान ही क्या है? उसके लिए खूब अभ्यास करना चाहिए, जैन शास्त्र पढ़ने चाहिए, दूसरों की टीकाएं भी देखनी चाहिए। यह सब देखकर ही मैं उसे उठा सकता हूँ। आज वह मेरे बस की बात नहीं। आश्रम का इतिहास लिख सकता हूँ, मगर वह भी ६ फरवरी के बाद। आज मेरा मन घोड़े की रफतार से चल रहा है। नवीं फरवरी यहां की आखिरी तारीख है। तबतक मैं अपना काम पूरा कर लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी सब प्रवृत्तियों को समेट रहा हूँ। ‘आरोग्य

की चाबी' पूरी हुई, अब इतने दिन इसके दोहराने के लिए मिलेंगे, यह मुझे अच्छा लगता है। नया शुरू करना तो अगर नवीं फरवरी के बाद ही यहां रहने का हो और मेरी सम्पूर्ण मनोवृत्ति बदल जाय तभी होसकता है।"

मैंने हंसी में कहा, "फरवरीतक कुछ होनेवाला नहीं है। यहीं आराम से पड़े होंगे।" बापू कहने लगे, "यहां पड़े-पड़े यदि हमारा एक-एक विचार, एक-एक काम, खाना-पीनातक स्वराज्य के निमित्त हो तो खैर है, भले ही यहां पड़े रहें।"

मैंने कहा, "आप फरवरीतक का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें भी वही करना चाहिए।"

बापू कहने लगे, "आज तो मैं ३१ दिसम्बरतक का ही प्रोग्राम बनारहा हूँ। ६ फरवरीतक भी मेरा मन नहीं जाता। तुम्हें भी वही करना चाहिए।"

२१ दिसम्बर '४२

आज सोमवार था। भाई एक दिन मुझसे कह रहे थे कि सोमवार को एक रेखा-चित्र बना दिया करो। आज महादेवभाई की समाधि पर गए तो सामने की पहाड़ियों पर सूर्य का प्रकाश बावलों से निकलकर सुन्दर छटा दिखा रहा था। मैं पेस्टल रंग लेकर जा बैठे। आज पहली ही बार पेस्टल हाथ में लिये थे। तस्वीर बनाने में कुछ समय लगा। सरोजिनी नायडू को तस्वीर पसंद आई। उन्होंने वह लेली।

दोपहर में खूब बावल थे। शाम को पानी बरसने लगा। बापू दिन में अपनी आरोग्यवाली पुस्तक दोहराते रहे। शाम को वे बरामदे में घूमे।

मीराबहन ने वाइसराय को पत्र लिखा है। इसमें सरकार के झूठे आरोपों का, जैसे कि 'गांधी जापानियों के साथ मिला हुआ है' या 'मीराबहन गांधी और जापान के बीच सलाहकार है', उत्तर था। पत्र के साथ उन्होंने उस पत्र की नकल भी भेजी जो उन्होंने उड़ीसा से बापू को लिखा था। उस पत्र-व्यवहार में उन्होंने जापानी हमले के मौके पर जो प्रश्न उठ सकते हैं, बापू से पूछे थे। उन्होंने उसका उत्तर दिया था। यह पत्र बंबयोंग से मीराबहन के पास यहां था। आज काम आया।

रात को सोने के समय भाई वाइसराय के भाषण के बारे में बात कर रहे थे। बापू को वह बहुत खराब लगा था। बापू कहने लगे, "वे मानते हैं कि अब तो हम जीतने ही वाले हैं। उनके अपने धन-उपार्जन के साधन मर्यादित हैं और हमारे अमर्यादित हैं। उन्हें हिन्दुस्तान पर कब्जा रखना ही है, पहले से भी ज्यादा पक्की तरह। अगर हिन्दुस्तान एक ही तब उन्हें फायदा होसकता है; इसलिए अब वे भौगोलिक ऐक्य की बात करते हैं और ऐसा कहने में उन्होंने अपने बारे में कई-एक छिद्र रख लिये हैं।"

भाई कहने लगे, "आप ठीक कहते हैं, मगर हमें क्या पता कि ईश्वर किन-किन साधनों का उपयोग करके हमारा काम कर रहा है। अखंड हिन्दुस्तान की बात भले ही किसी हेतु से करें, मगर हिन्दुस्तान के दो टुकड़े न हों, यह हम भी चाहते हैं।"

बापू ने कहा, "वह तो है ही। सत्य, अहिंसा और ईश्वर में बिन-प्रतिबिम्ब

मेरी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है।”

शाम को वर्षा हुई। भाई के कमरे की छत चूने लगी। ऐसा लगता है कि घर का वह सिरा बाद में बनाया गया है। इसलिए जहाँ वह मुख्य महल के साथ लगता है, वहाँ से छत चूने लगी है। कमरा पानी से भर गया। दरी धरंगा उठानी पड़ी।

२२ दिसम्बर '४२

आज दिन भर वर्षा रही। सुबह घूमने के समय पानी बन्द होगया था। भाई वेर से सोकर उठे। इसलिए महादेवभाई की समाधि पर से ही वापस चले गए, घूमे नहीं। उन्हें तैयार होना था। बापू बा की बातें करते रहे। पीछे बरसात में निकर पहनने की सलाह देते रहे। कीचड़ में मेरी सलवार के पाँचों भर गए थे।

वोपहर को भाई मेरी डायरी देखते रहे। उस बारे में मुझे कुछ हिदायतें दीं। शाम को घूमते समय बापू के साथ डायरी की बात हुई। मैंने कहा, “आप देखते जावें। मुझे जो लिखना होगा, वह लिखती रहूँगी। आपको जो अनावश्यक लगे, आप काट दें।”

भाई कहने लगे, “आप इसे भाषा और रिपोर्टिंग की दृष्टि से देखें।”

बापू मीराबहन के बाइसरायवाले पत्र को सुधारते रहे। मीराबहन यह नहीं कहना चाहती थीं कि उन्हें एक अंग्रेज की हँसियत से यह सब झूठ देखकर दर्द होता है; क्योंकि वे अपनेआपको अंग्रेज मानती ही नहीं हैं। बापू ने समझाया कि अंग्रेज की हँसियत से नहीं लिखना चाहती तो उनके पास बाइसराय को लिखने का कोई हक ही नहीं है। अंत में मीराबहन ने लिखा, ‘अंग्रेज माता-पिता के घर जन्म लेने के कारण मुझे यह देखकर दुःख होता है कि अंग्रेज सरकार इतना झूठ बोलरही है।’

प्रार्थना के बाद अनुवाद करती रही। पीछे भाई के पास बंठी रही। सोने को खासी देर होगई, दस बजे गए। यहाँ दस बजे देरी लगती है। बाहर तो दस से पहले शायद ही कोई सोता हो!

२३ दिसम्बर '४२

सुबह खूब धुंध थी। दिन भर बादल आते-जाते रहे, मगर पानी नहीं बरसा। रात को आकाश खुल गया।

सुबह समाधि से लौटते समय बापू महादेवभाईवाली गीताजी के पन्ने उलट-रहे थे। आखिरी पन्ने पर ‘आउज बिल्ला’वाली आयत लिखी हुई थी। पूछने लगे, “ये किसके अक्षर हैं? महादेव के या प्यारेलाल के?” मैंने बताया कि १ अगस्त को बम्बई से चलते समय महादेवभाई ने भाई को वह आयत लिख देने को कहा था, सो भाई के अक्षर हैं। बापू कहने लगे, “बस छः दिन उसने यह आयत गाई।” फिर थोड़ा ठहरकर बोले, “लगता ही नहीं है कि महादेव सदा के लिए गया। कल रात को स्वप्न में वह लड़की... कहती है, ‘महादेवभाई कहां हैं?’ मैं उत्तर देता हूँ, ‘बहन, मैं तो उसे श्मशान में छोड़ आया हूँ।’ पीछे वह पागल-सी होजाती है। कहती है, ‘लाओ महादेवभाई को! उसे वहाँ क्यों छोड़ आए?’”



कल और आज बापू ने बिजली के गरम किरण-यंत्र से मालिश करवाई; क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं था। बरामदे में बंठा नहीं जासकता, इसलिए भीतर ही बंठते हैं। बादल होते हैं तो बूँदें भीतरतक आने लगती हैं।

आज मीराबहन के पत्र को बापू ने फिर देखा। एक-दो वाक्य वे बदलना चाहती थीं। एक था—‘मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ।’ इसके बदले में वे चाहती थीं—‘मैं ऐसा कहने की स्थिति में हूँ।’ बापू ने समझाया कि दूसरा पहले से कम वजनदार है। वे उससे उल्टा मानती थीं। आखिर समझ गईं।

दोपहर को मैं सोमवारवाले रेखाचित्र को सुधारती रही। इससे आज दोपहर के और सब काम छूट गए। प्रार्थना के बाद अनुवाद किया। थोड़ी डायरी लिखी। सुबह भी प्रार्थना के बाद अनुवाद किया था। इसे इस महीने में पूरा करना चाहती हूँ।

रात को मीराबहन अपने पत्र की और पुराने पत्रव्यवहार की साफ नकल जो भेजनी हैं, बापू को दे गईं। बापू ने उसे नई फाइल में रखवाया ताकि बिगड़ न जावे। बापू के सोने के बाद मीराबहन भाई के साथ बंठकर अपने इसी पत्र की नकले सुधारती रहीं।

आज पानी नहीं बरसा, मगर सर्दों भी नहीं हुईं। इससे लगता है कि शायद पानी फिर आजावे।

२४ दिसम्बर '४२

आज सुबह ६ बजे उठी। बहुत बुरा लगा। सुबह का साग वक्त बर्बाद होगया। मीराबहन का वाइसराय के नाम पत्र आगया। उसमें काप्रेस वकिंग कमेटी पर लगाये गए आरोपों का जवाब भी था। सरोजिनी नायडू ने आपत्ति की कि कमेटी को मीरा का या कितोका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बापू ने समझाया, “मीराबहन दूसरा नहीं लिख सकती हैं। उसने पत्र में यह लिखा है कि ‘मेरे और काप्रेस के विषय में जो झूठ चल रहा है, उसका मुझे दुःख हुआ है।’ बाद में काप्रेस का नाम ही न ले तो उसका अर्थ होजाता है कि मैं ही एक भला आदमी हूँ।” इस बारे में सरोजिनी नायडू की भाई के साथ भी कुछ चर्चा हुई।

सुबह ज्यादा सोई थी। इसलिए दोपहर को नहीं सोई, मगर उस समय काम बहुत कम कर पाई। कोई-न-कोई पास आकर बात करने लगता था। बापू ने बाद में कहा कि दोपहर को साढ़े बारह बजे से एक बजेतक नियमपूर्वक आंख मीचकर बिस्तर पर पड़े ही रहना चाहिए।

शाम को खाने के समय भंसालीभाई की बात चली। मीराबहन के पास आशा-देवी का पत्र आया था। उन्होंने लिखा था, “बच्चों के शिक्षक का शरीर कमजोर है, मगर मन प्रफुल्लित है। उनके पास जाकर मन खुश होजाता है, शांति मिलती है।” बच्चों के शिक्षक यानी भंसालीभाई। बाकी सबके समाचार थे। बापू खुश हुए। आज सुबह ही घूमते समय वे बात कर रहे थे, “भंसाली की मृत्यु की खबर आवेगी तो मेरा हृदय कांप

भले ही उठे, मगर खुशी से नाचेगा भी। ऐसी सम्पूर्ण अहिंसक मृत्यु आज तक हुई ही नहीं है। भंसाली को मैं जानता हूँ। उसके हृदय में बैरभाव का लेश भी नहीं है। हमारे लोगों में इतना मेल भरा है कि उसे निकालने के लिए कड़ियों को तो जल मरना होगा।”

२५ दिसम्बर '४२

आज क्रिस्मस का दिन है। कल शाम को बापू मीराबहन से कह रहे थे, “कोई क्रिस्मस का भजन आता हो तो गाओ।” उन्हें कोई याद न था। रघुनाथ आज स्तोत्र संग्रह (Hymn Book) ढूँढ़ने गया। आखिर, यरबदा जेल की बड़ी नर्स से ‘मुक्ति फौज स्तोत्र संग्रह’ (Salvation Army Hymn) नामक पुस्तक मिली। शाम की प्रार्थना में मीराबहन ने उसमें से एक भजन गाकर सुनाया जिसकी पहली पंक्ति थी—“जब गड़रिये रात को भेड़ों के झुंड की रखवाली करते हैं।...” (When shepherds watch their flock by night)

श्री कटेली और सरोजिनी नाथडू के लिए पुलाव पकाया। बा को मेथी की रोटी। उन लोगो ने भी एक-एक रोटी ली। सुबह ११ बजे तक रसोई के काम में रही।

खाने के बाद शाम को सोने के समय मीराबहन ने ‘जब मैं अद्भुत सलीब को देखता हूँ’ (When I survey the Wond'rous Cross) गाकर सुनाया। बापू को यह गीत बहुत प्रिय है। मुझसे कहा था कि मैं मीराबहन से उसे सीख लूँ। मैंने उनसे तीन-चार बार कहा है, मगर वे आज तक सिखा नहीं पाईं।

२६ दिसम्बर '४२

आज बापू मीराबहन से कह रहे थे, “नया वर्ष तो ईसा के जन्म के साथ संबंध रखता है। इसबी साल कहलाता है। तो वह ईसा के जन्म-दिन ‘क्रिस्मस डे’ से क्यों नहीं शुरू होता?” वे नहीं जानती थीं। कहने लगीं, “हां, नए वर्ष और क्रिस्मस डे के बीच में इतने दिन क्यों रखे गए, सो समझ में नहीं आता। और आश्चर्य है कि आज तक यह प्रश्न हम लोगो के मन में नहीं उठा!”

पोछे बापू ‘बाक्सिंग डे’ का अर्थ पूछने लगे। मीराबहन ने बताया कि ‘बाक्स’ का अर्थ ‘बाक्स’ नहीं, बल्कि ‘रुपए-पैसे की भेंट’ है जो नौकरों को देते हैं। दूर के रिश्तेदार जो क्रिस्मस की भेंट नहीं देते, ‘बाक्स’ देते हैं।

दोपहर को इतनी गर्मी थी कि बापू बाहर नहीं बंठ सकते थे। एकाएक तूफान आया। जोर की वर्षा आरम्भ होगई। दरवाजे बगैरा बन्द कर लिये, मगर दस-पंद्रह मिनट में ही सब शांत होगया। फिर गर्मी शुरू होगई।

भंसालीभाई की कोई खबर नहीं, मगर ‘बंदे मातरम्’ में ‘हि देवी जेनी रक्षा करो’ नामक प्रार्थना थी। आगे भी दो-चार बार निकली है। स्पष्ट है कि वह भंसालीभाई के लिए है। इसका अर्थ यह है कि वे अभी तक हैं।

आज मीराबहन ने पिछली तरफ से प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनाया है। उसमें

महादेवभाई की समाधि भी छोटी-सी दिखाई है, सुंदर है ।

आज दारला\* के गोली से मारे जाने की खबर से सब चकित थे ।

: ३४ :

## उपवास के बादल

२७ दिसम्बर '४२

आज इतवार है । इतवार को फिर लग जाती कि शाम को बापू का मौन शुरू होगा । बाहर भी मौन चुभता तो है ही, मगर यहां तो बहुत ही बुरा लगने लगता है ।

बापू स्नानघर से निकले तो भंडागे आए । बेलगांव जेल में कितने ही लोग पेट के दर्द से मर गए हैं । अखबार में था कि ग्यारह मरे हैं, मगर दरअसल ज्यादा मरे हैं । भंडारी से पूछा तो कहने लगे कि उनके पास रिपोर्ट नहीं आई ।

आज सबेरे सूर्योदय का दृश्य बहुत सुंदर था । मैं चित्र बनाने जा बैठी, मगर चंद्र मिनटो में दृश्य बदल गया । दिन में भी अविकांश समय चित्र में ही लग गया । शाम को उसे पूरा किया । महादेवभाई की समाधि का और आसपास का दृश्य था । उसमें एक छोटी-सी चिता जलती हुई दिखाई थी । आग बगैरा दिखाने के लिए मीराबहन की मदद ली । सुबह भी आकर वे सलाह दे रही थीं । चित्र सबको अच्छा लगा, मगर बापू इसे देखकर बहुत विचार में पड़ गए । घूमने का समय भी हो गया था । मैंने अभी तक कुछ भी खाया न था । बापू इस पर नाराज थे कि मैं कार्यक्रम के अनुसार नहीं चली । समाधि पर पहुंचे तो कहने लगे, "खाकर नहीं आई न ?" मैंने कहा, "जाकर खाऊंगी ।" बोले, "ठीक है, मैं कितने दिन का मेहमान हूँ तुम लोगो को टोकने के लिए !" मैं उल्टे पांव वापस खाना खाने आ गई । विचार आने लगे, "बापू के इतना गम्भीर होजाने का कारण क्या मेरा समय पर खाना न खाना ही था अथवा उनके मन में और कुछ चल रहा है ?"

आजकल रात को मच्छर बहुत होते हैं । बापू पीने आठ बजे ही उठकर सोने की तयारी करने लगे । मच्छरों के कारण कुछ काम करना कठिन था, मगर बापू उस समय बड़े विचार में पड़े दीख पड़ते थे । मैंने शाम को पूछा, "क्या आज आप बहुत विचार में हैं ?" कहने लगे, "विचार तो हमेशा आते हैं । आज कुछ और ज्यादा होमे ।"

रात में बा की तबीयत ठीक नहीं रही । छाती में दर्द होआया, नाँव अच्छी नहीं आई ।

भाई की तबीयत भी अच्छी नहीं थी । उनके मन में भी क्या जाने क्या-क्या विचार चल रहे थे । रात को प्रार्थना के बाद बाहर खाट पर जाकर पड़े थे । बाद में भी बड़े चुपचाप-

से थे। मंने सोते समय आधा-पौन घंटेतक उनका सिर वगैरा दबाया, मगर जब गई तब-तक सोए नहीं थे। रात में भी शायद नींद अच्छी नहीं आई।

दोपहर को कुछ समयतक अनुवाद किया; परन्तु काम अधिक नहीं होपाया।

बापू ने रात को पौने आठ बजे ही मौन लेलिया।

२८ दिसम्बर '४२

आज बापू का मौन था। मुझसे सरकार के साथ का पत्र-व्यवहार मांगा। पीछे वाइसराय के नाम एक पत्र लिखते रहे। रात को पौने आठ बजे मंने और मीराबहन ने पत्र मांगा। बापू ने टालते हुए कहा, “अब कल सुबह पढ़ना।”

भाई से कहने लगे, “इसमें सबसे ज्यादा बोझ तुम पर पड़नेवाला है।” मं तो कुछ समझी नहीं, मगर भाई कुछ भांप गए-से लगते थे। बापू सोए। पीछे भाई मुझसे पूछने लगे, “तुम्हारे अन्दाज से बापू कितने दिन का उपवास सहन कर सकते हैं ?” मंने पूछा, “क्यों ? क्या पत्र में ऐसा कुछ है ? मीराबहन तो कहती थीं कि जितना उन्होंने पढ़ा है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी।” कहने लगे, “नहीं, यों ही पूछरहा हूं।” मंने कहा, “राजकोट में तो पांचबें रोज तबीयत बिगड़ गई थी। उसे देखते हुए तो लगता है कि बहुत नहीं चला सकेंगे।” भाई पीछे बम्बई कांग्रेस महासमिति का और इससे पहले कार्यसमिति का प्रस्ताव लेकर ध्यान-पूर्वक पढ़रहे थे। सारा-का-सारा वातावरण कुछ भारी-सा लगरहा है। बात-बात में बापू कहने लगे, “पहली तारीख से मैं ईश्वर में लीन होना चाहता हूं।” मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मगर बापू ईश्वर में लीन होना चाहते हैं तो भले हों, मेरी दृष्टि में तो वे हमेशा ईश्वर में ही लीन रहते हैं—और लीन होना चाहते हैं तो अच्छा है।

दोपहर में थोड़ा-सा चित्र का काम किया। उसमें जो वृक्ष था, वह बदल दिया।

शाम को मीराबहन ने मुझे वह भजन अच्छी तरह सिखाना आरम्भ किया है। इसमें समय तो लगेगा मगर अच्छा लगेगा।

२९ दिसम्बर '४२

सुबह पौने छः बजे उठी। बापू ने जो पत्र रात को लिखा था, वह पढ़ने के लिए लेनेको आई, मगर भाई पढ़रहे थे। स्नानादि के बाद आकर पत्र लिया। इतने में बापू उठ गए थे। उनके लिए फल का रस निकाला। पीछे पत्र पढ़ा। उसमें उपवास की बात आ ही गई थी।

जब मं उठकर आई तब भाई बापू के पत्र के बारे में अपनी टीका लिखरहे थे। घूमते समय बापू ने उनकी एक-एक बात को लेकर उसका उत्तर दिया।

सुबह साढ़े दस बजे बापू ने भाई से कहा कि सरोजिनी नायडू को भी पत्र पढ़ा देना चाहिए। भाई ने उन्हें यह पढ़ सुनाया। सुनते-सुनते उनकी आंखों में पानी भर आया। कहने लगीं, “पत्र बहुत ही अच्छा है। उसमें बड़ी करुणा भरी है, दुःखी हृदय को पुकार है; मगर पत्र गलत है। बापू के उच्चतम बलिदान का समय अभी नहीं आया।”

दोपहर को बापू ने फिर अपने पत्र के बारे में कई प्रश्नों का उत्तर दिया। मीरा-बहन ने, मैंने और भाई ने कुछ प्रश्न किये। २१ दिन की अवधि के बारे में भी कुछ चर्चा हुई।

बा कहने लगी, "बाइसराय को पत्र लिखें; परन्तु उसमें उपवास की बात न लिखें।"

बापू कहने लगे, "उपवास के बारे में ही तो लिखना चाहता हूँ, वह कैसे छूट सकता है? जानती हो न कि इससे पहले एक पत्र ऐसा ही लिखकर मैंने उसे फाड़ डाला था।" फिर कुछ रुककर कहने लगे, "मेरा तो दिन-प्रतिदिन यह विश्वास बढ़ता ही जाता है कि हम सब ईश्वर के हाथों में खिलौने हैं।"

सरोजिनी नायडू कहने लगी, "उपवास की बात करना ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि अपनेआपको ईश्वर में खो देने का प्रयत्न करे, जिससे आप अपने स्वयं से कह सकें: "हमारा काल उसके हाथ में है जो कहता है कि इस सारी योजना का मैं स्रष्टा हूँ।"\*"

रात को प्रार्थना के बाद रक्त-चाप लिया तो २००/११२ था। बापू बा को रामायण समझाकर सोने चल दिये। रात को साढ़े दस बजे से एक बजे तक लगातार जागते रहे। विचारधारा चलरही थी।

रात को बापू के सोजाने के बाद मीराबहन मुझसे और भाई से आकर कहने लगी, "हम सबका धर्म है कि हम अपने शरीर को अच्छा रखें। अपने स्वास्थ्य को हमें पहला स्थान देना चाहिए। उपवास आये या न आये, कुछ-न-कुछ अवश्य आनेवाला है और हम सब बापू की जो भी थोड़ी बहुत मदद करने लायक हैं, वह तभी कर सकेंगे जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। निराशाभरे भावों को मन से निकाल देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि उपवास यदि आया भी तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। मृत्यु की आशंका को तो हमें कदापि स्थान न देना चाहिए।" यह सब वे भाई को देखकर कहरही थी। भाई कल से चिंता के कारण बिल्कुल थके-मांड़े-से लगते हैं। चिंता सबको है; मगर भाई की तो मारे चिंता के नींद ही उड़ जाती है। इससे उन पर चिन्ता का असर ज्यादा देखने में आता है।

३० दिसम्बर '४२

बापू ने अपने पत्र में काफी फेरफार किये। मुझसे कहने लगे, "सुबह उठकर तु हमारे साथ घूम लेना, तब पत्र की नकल तैयार करना।"

\*"You should try to be lost in God, so that you are able to say to yourself—

'Our times are in His hands  
Who saith a whole I planned'."

दोपहर में अनुबाव करती रही। तेरह पन्ने रह गए हैं। कल पूरा होना ही चाहिए, होजाएगा।

मीराबहन से आज भी बही भजन पंद्रह-बीस मिनटतक सीखा।

सरकार ने मीराबहन के दोनों पत्र हवाई डाक द्वारा बिलायत भेज दिये हैं। पौने दो रुपया खर्च लिया है।

३१ दिसम्बर '४२

आज इस वर्ष का अंतिम दिन है। बापू ने सुबह साढ़े पांच बजे ही उठकर बाइसराय के नाम लिखा गया अपना पत्र, जिसमें हेरफेर किये गए थे, पढ़ना आरम्भ किया। पढ़कर कहने लगे, "अब तो नया पत्र लिखने-जैसी बात होगई है। जल्दी नहीं की जासकती।" प्रातः चार बजे भाई से कहने लगे, "कितना अच्छा हुआ कि तुमने वह वाक्य पकड़ा। मुझे आश्चर्य है कि सुरोजिनी नायडू को वह क्यों नहीं सूझा! मगर मैंने कहा था न कि सबसे ज्यादा बौद्ध तुम पर पढ़नेवाला है। तुमने पूरी तरह महादेव का स्थान लिया है।" मुझसे कहने लगे, "तू सुबह ही घूमले। मैं नाश्ते से पहले ही पत्र सुधार लूंगा। जब मैं घूमने जाऊंगा तब तुम उसकी साफ नकल तैयार करना।" मगर जब पत्र पढ़ा तब कार्यक्रम बदला। राजाजी को बापू के साथ मुलाकात करने की इजाजत देने से इन्कार करते समय जो बयान सरकार ने निकाला था, वह भाई से मांगा। भाई ने निकालकर दिया। फिर एमरी के कामन्स सभावाले भाषण की कतरन मांगी।

घूमने के समय बापू की मीराबहन से निजी बातचीत होरही थी। मैं और भाई वापस आगए। अच्छा हुआ कि मैंने पत्र के बहाने सुबह घूम लिया था। आकर मैं अनुबाव करने लगी। भाई अखबार की फाइल में से वह कतरन निकालने में लग गए।

दोपहर सोने के बाद बापू ने पत्र लिखा। छोटा-सा था; मगर बहुत ही अच्छा था। सबको बहुत पसंद आया। वह बहुत व्यक्तिगत था, इसलिए बापू ने उसे अपने हाथ से नकल करके भेजा। भाई बोलते गए और बापू लिखते गए। साढ़े चार बजे तैयार होगया और डाक में गया। आज नए साल के शुरू होने से पहले इतना अच्छा पत्र गया, इससे सबको खुशी हुई। सब कहते थे कि यह पत्र बापू के अपने निजी ढंग का है।

मीराबहन से बापू ने पुराना साल खतम होने के साथ पुरानी बातें भूलकर नए साल में नया युग शुरू करने को कहा और कहा कि सबके साथ एक परिवार के रूप में रहें।

आज बा की साड़ी की किनारी बनाना खतम किया, 'आरोग्य की चाबी' का हिन्दी अनुबाव पूरा किया और मेकमार्डी की पुस्तक में से बाइबिल में से उतारे हुए अंशों को पूरा पढ़ लिया।

कल से बापू ज्यादा ध्यानावस्थित होना चाहते हैं। यथासम्भव बातें नहीं करेंगे। मन को बुनिया से खींचकर एकाग्र करलेंगे। कहते थे, "मुझे अग्निपरीक्षा की तैयारी करना है। मैं समझू तो सही कि ईश्वर मुझसे क्या चाहता है?"

शाम को सरोजिनी नायडू के साथ बा बातें कर रही थीं । सरोजिनी नायडू ने कहा, “आप चिंता न करें । ईश्वर बापू से उपवास करने को नहीं कहेगा और बिना ईश्वर के आदेश के वे उपवास करेंगे नहीं ।” बा कहने लगीं, “यह तो मैं जानती हूँ कि ईश्वर नहीं कहेगा; मगर बापू मानलेंगे कि ईश्वर ने कहा है तो फिर क्या होगा ?” सरोजिनी नायडू कहने लगीं, “नहीं, ऐसा नहीं होसकता ।”

बापू का रक्त-चाप आज रात को बहुत अच्छा था—१६०/१०० । कहने लगे, “यह न समझना कि मन का बोझ हल्का हुआ है, इसलिए रक्त-चाप कम है । मैंने खुराक में हेरफार करके इसे कम किया है ।” बापू ने दूध कम करके नाश्ते में दूध की जगह गरम पानी पिया था ।

१ जनवरी '४३

आज नया साल शुरू होता है । बापू ने कल अपने पत्र में लिखा था, ‘नया साल हम सबको शांति देनेवाला हो ।’\* यही ध्वनि सबके मन से निकलती है; मगर क्या आने-वाला है, यह तो भगवान् ही जाने !

सरोजिनी नायडू सुबह की प्रार्थना में आईं । मैंने सुबह प्रार्थना से पहले स्नानादि कर लिया । यह क्रम चल सका तो रोज ऐसा ही करने का विचार है ।

धूमते समय बापू कह रहे थे, “हमें धूमते समय या तो गीताजी-जैसी चीज का अभ्यास करना चाहिए या मौन रखना चाहिए ।”

बापू बिन भर अपने अभ्यास में लीन रहे । स्लोकमवाली पुस्तक पढ़ रहे थे; कुछ उर्दू पढ़ी । मौन नहीं था; मगर पहले कहते थे कि अनावश्यक बात नहीं करना चाहते ।

मीराबहन ने एक गत्ते पर नया कलेण्डर लगाकर उसके एक तरफ हिमालय का और एक तरफ गंगाजी का दृश्य बना दिया । सुन्दर लगता था । ऊपर लिखा था ॐ और उसके नीचे ‘हे राम’ । गत्ते के किनारे पर भी पेस्टल से हल्का-सा काम कर दिया था । सब सुन्दर लगता था । बापू के बैठने की जगह के सामने वह टांग दिया ।

सरोजिनी नायडू ने मेरी पहली तस्वीर आज टांगली है । अच्छी दीखती है । बा की तबीयत अच्छी है । आज सब लोगों का दिन अच्छा गया । सोने के समय मीराबहन ने बापू को वही प्रिय भजन गाकर सुनाया ।

बापू के कलवाले पत्र की नोटबुक में नकल की । मेरी क्यूरीवाली किताब का अनुवाद शुरू किया । दो-चार वाक्य ही किये । काम जरा कठिन है । थोड़ा व्याकरण किया । ‘आरोग्य की चाबी’ का अंग्रेजी अनुवाद बीच में ही पड़ा है । उसे फिर से नहीं शुरू किया । एक-दो दिन में होजायेगा ।

बापू को स्लोकम की पुस्तक बहुत पसन्द आई है ।

अखबार में चिमूर के विषय में आज सरकार का बयान निकला है । बहुत खराब

\*“May the New Year bring peace to us all !”

हैं। कहते हैं कि वहाँ पर जांच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं। वहाँ तो सारी जनता में सामूहिक रूप से झठी सौगंध लाकर गवाही दी है, लोगों की साजिश है। सबको बहुत दुरा लगा। भाई का तो खून खोहरहा था।

दोपहर का बापू ने कल की तरह सारा समय अखबार देखने में और स्लोकम की किताब पढ़ने में लगाया। थोड़ी देर तक अनुवाद भी देखा। मीराबहन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि बापू अखबार आदि पढ़ते हैं। वे अपने मौन के दिनों में न अखबार पढ़ती थी, न किसीसे बात करती थीं। केवल बेबादि हो पढ़ती थीं। वे समझती थीं कि बापू भी वसा ही करेगे। बापू से मैंने पूछा तो कहने लगे, "मैं मीराबहन की तरह नहीं करना चाहता। मगर सामयिक (Topical) बातों की चर्चा भी नहीं करना चाहता; क्योंकि इससे मन में उद्वेग उठता है। मन दौड़ रहा है, अंधा बन जाऊँ, आलें बंद कर लूँ, मौन ले लूँ, तो पढ़ना भी छूट जावेगा। मन को शून्य में स्थिर कर सकूँ तो बड़ी बात है।"

भाई कहने लगे, "इसके दो असर होते हैं। सामान्य आदमी तो पागल हो जाता है, मगर जाग्रत रहते हुए शून्य में जिसका मन स्थिर होजाय, उसका विचार ही कर्म हो जाता है।"

३ जनवरी '४३

आज सुबह महादेवभाई की समाधि से लौटकर बापू कहने लगे, "गीताजी के पाठ में ठीक जगह पर वजन नहीं आता। इससे पाठ उतना मधुर नहीं होपाता जितना कि होना चाहिए।" मैंने कहा, "या तो हम आपके सामने जब पढ़ें तब आप बतावें अथवा स्वयं बतावें।" कहने लगे, "बताएंगे। और फिर तुम मुझसे आगे बढ़ जाओगी। ऐसा हो चुका है। जिन्हें मैंने सिखाया है, वे मुझसे आगे बढ़ गए हैं।" फिर बताने लगे कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में कैलेनबंक की जूते बनाना सीखने भेजा। उन्होंने बापू को सिखाया। बापू ने दूसरे सब लोगों को सिखाया और वे सब बापू से अच्छे जूते बनाने लगे।

मैंने कहा, "मगर आपके प्रमुख विषय 'बौद्धिक क्षेत्र' में तो कोई भी आपसे आगे नहीं बढ़ सका।" बापू ने कहा, "बड़ा है, महादेव को लेलो। वह गुजराती अनुवाद मुझसे अच्छा कर लेता था।" भाई कहने लगे, "आपकी गुजराती बहुत अच्छी होती है—भावपूर्ण और संक्षिप्त।" बापू कहने लगे, "हाँ, वह है। कारण, मैं भाषा का प्रेमी हूँ। मैं अपनेआप को साक्षर (विद्वान) नहीं मानता; मगर भाषा का प्रेम मेरे मन में हमेशा रहा है। इसलिए भाषा का सहज संगीत अपनेआप आगया है, जो कि गुजराती के लिए ही नहीं, बल्कि सब भाषाओं के लिए है। अंग्रेजी के लिए भी मेरे मन में उतना ही प्रेम है। यह चीज ग्रहण करने के लायक है। पोलक तो अंग्रेज था, मगर उसने अंग्रेजी मुझसे ली है। मुझसे यह नहीं होता कि भाषा को बिगाड़ा जाय। महादेव तो जब आया तब अपने क्षेत्र में सम्पूर्ण था, मगर मैं मानता हूँ कि और कहीं उसकी भाषा नहीं खिलनेवाली थी।"

इतनी बात करने के बाद कहने लगे, "प्रसंगवश इतनी बात आज होगई।



आगे से इतनी चर्चा भी नहीं करने दूंगा । ”

भंडारी आए । बापू के साथ थोड़ी बात की । बेलगांव जेल में २१-२२ व्यक्ति मर गए थे, पर अब वहां शांति है । मृत्यु का कारण समझ में नहीं आता । क्ल-बस्त होते-थे, फिर ज्ञान-तंतुओं पर असर हुआ । चेहरे में और गले में सुइयां चुभने लगती थीं । बाक-में सांस लेना भी बन्द होजाता था और रोगी मर जाता था । सब लोग एक साथ-एक जगह बीमार नहीं पड़े थे । बापू सोचते हैं, “बाहर खुराक की तंगी से लोगों की बुरी हालत होरही है । ऐसे समय पर गरीबों की सेवा कौन कर सकता है, सिवा कांग्रेस के ? गरीबों से परिचय ही कौन रखता है ? मगर कांग्रेस तो पड़ी है जेल में । तब फिर खाने के लिए फसाव उठ खड़ा होगा तो आश्चर्य नहीं होगा । ”

दोपहर में सोने के बाद बापू ने मौन लिया । शाम को खाने के समय छोड़ा । रोज ऐसा करने का विचार कर रहे हैं ।

आज मीराबहन ने थोड़े समयतक फिर वही ‘अद्भूत सलीब’ (Wond'rous Cross) गीत सिखाया । आज उन्होंने सरोजिनी नायडू के लिए एक और चित्र बनाया है । पेंसिल से बनाकर ऊपर थोड़ा-सा रंग लगा दिया है । अच्छा बना है ।

रात को मने काफी रेकार्ड बजाए । दो-तीन भजन बापू को पसंद हैं । उन्हींसे शुरू किया । करीब घंटा भर बजाती रही ।

४ जनवरी '४३

सुबह ही मीराबहन ने कहा, “आज बादल है । ” मने उन्हें बादलवाले दिन एक चित्र बनाकर देने को कहा था । सो रंग उठाकर चल पड़ी । सुबह घूमने का पौन घंटा चित्र में लगाया । पीछे दोपहर में कुछ समय दिया । आज दूसरा कुछ काम न हो-सका । कुछ थकान-सी भी लगती थी । कुछ करने को मन नहीं होता था । एक कर्ज सिर पर से उतरा । सोमवार चित्रकला के लिए स्थिर करने का विचार किया था ; मगर दूसरे दिन का दृश्य सुंदर होगा तो सोमवार का ही दिन स्थिर करना कठिन होजायगा ।

क्यूरीवाली पुस्तक का अनुवाद भाई ने मुस्तबी करने को कहा । कहने लगे, “अब नए युग में ही शुरू करना । ” सो अभी तो ‘आरोग्य की चाबी’ का अंग्रेजी अनुबाव और व्याकरण, ये दो चीजें हाथ में हैं । इन्हें इस महीने में पूरा होना चाहिए ।

बापू का मौन साढ़े सात बजे खुला । बा को रामायण समझाकर वे सोने को चले गए ।

कई अलबारों ने नए वर्ष की ‘उपाधिवितरण-सूची’ नहीं छापी । इस पर मद्रास सरकार ने चिढ़कर मद्रास के कुछ अलबारों से कहा है कि उन्हें सरकारी विज्ञप्ति आदि लेने जाने की जरूरत नहीं ।

मुंशी का बड़ा अच्छा बयान निकला । सरकार द्वारा चिमूर के विषय में निकाले गए बयान का उत्तर है । सरकार ने चिमूर की खबरों को अलबारों में छापने की मनाही करबी है । लेने वहां कोई जा भी नहीं सकता ।

५ जनवरी '४३

आज मीराबहन ने फिर चित्र बनाना शुरू कर दिया; परन्तु शाम को रोशनी अच्छी न होने के कारण ठीक बना नहीं। दृश्य अच्छा है। रंग ठीक होजावेंगे तो अच्छा लगेगा। शाम को वे भजन नहीं सिखा सकीं।

रोज की तरह सारा दिन निकल गया। बापू दोपहर में मौन लेते हैं। वातावरण में एक तरह की अनिश्चितता है, भारीपन है। जितना समय निकल जाय उतना ही अच्छा है।

रात को बापू मुझे महाभारत की दो कथाएं सुनाने लगे। दोपहर में बा को भी सुनाई थीं। कहने लगे, "पक्षी की आंख पर अर्जुन की एकाग्रता और युधिष्ठिर का क्रोध करना—इन पाठों को याद रखना। दोनों का अर्थ गूढ़ है। अभी से ये अर्थ तेरी समझ में आजाए तो जीवन की बहुत सी समस्याएं हल होजाएँ।"

सुबह घूमते समय बापू भाई से पूछने लगे, " 'ऐन्डिअंट मैरिनर' का संदेश क्या है ?" उन्होंने बताया। फिर कवियों की बातें होती रहीं—कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ इत्यादि की कविता, उनकी शैली, उनका जीवन—इसकी चर्चा हुई।

६ जनवरी '४३

सुबह घूमते समय बापू भाई को महाभारत की वही दो कथाएं सुनाने लगे, फिर स्लोकम की किताब की बात करने लगे। कहने लगे, "उसमें जो ज्ञान है वह ग्रहण करने योग्य है, मगर भाषा की दृष्टि से किताबें पढ़ते रहने से मनुष्य भाषा का गुलाम बन जाता है। भाषा तो मनुष्य की दासी है। एक बार इतना पता होना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, पीछे भाषा तो अपनेआप आजाती है।"

दिन फिर रोज की तरह गया। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' का पहली तारीख का अंक आज पाया। उसमें भंसालीभाई की काफी खबरे थीं। उपवास को तो ५० रोज हो गए थे। उनकी हालत खराब थी। बेसुधी थी और पेशाब में खून वर्ग्रा आता था। अब क्या हाल होगा—भगवान जाने। जीवित भी है या नहीं, यह भी नहीं कहा जासकता। बापू के प्रति उनका संदेश बहुत हृदय-स्पर्शी था—“बापू से जब कह सको तब कहना कि उन्होंने मुझे जीवन में भी उबार लिया है, मृत्यु में भी उबार लगे।”

७ जनवरी '४३

दोपहर में थोड़ा अनुवाद किया। फिर एक चित्र बनाने बंठी। उस पर करीब दो घंटे लग गए। मुझे ड्राइंग का थोड़ा अभ्यास कर लेने की आवश्यकता है। ड्राइंग कच्ची होने के कारण चित्र बनाने में अधिक समय लगता है।

शाम को घूमते समय बापू कहने लगे, " 'ऐन्डिअंट मैरिनर' को रहस्यवादी कविताओं में गिन सकते हैं क्या ?" भाई ने उत्तर दिया, "हां।" तब रहस्यवादी की व्याख्या पर बात चली। पीछे चर्चा उठी कि हमारे कवियों में रहस्यवादी कौन-कौन थे। भाई कहने

लगे, “मीरा तो रहस्यवादी थी ही। उसमें और सेंट धेरेसा में क्या फर्क था !” बापू ने कहा, “तब तो हमारे लगभग सभी कवि रहस्यवादी कहे जा सकते हैं।” बाद में दूसरे अंग्रेज कवियों की बातें होने लगी। भाई ने एक वाक्य बोला, जिसमें अधिकांश अंग्रेजी के शब्द थे और बाकी गुजराती के थे। बापू कहने लगे, “आज से इस बात का नियम बना लेना चाहिए कि अंग्रेजी शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह भट्टी बात है।”

मीराबहन ने आज से मुझे ‘लीड काइडलो लाइट’ गीत सिलाना आरम्भ किया। कल रात से सर्दी फिर आरम्भ होगई है। कुछ दिनतक रह जाय तो बड़ा अच्छा हो।

कटेली साहब प्रार्थना से पहले आए। उन्होंने बापू को बताया कि नया चांद निकला है। सब देखने को चले।

८ जनवरी '४३

आज भी खूब सर्दी है। बापू बाहर घूप में बैठने को निकले हैं।

मीराबहन ने कल शाम के चन्द्रोदय के दृश्य का एक काल्पनिक चित्र बनाया है। अच्छा है।

शाम को पंद्रह-बीस मिनटतक पेंसिल से पहाड़ियों का चित्र खींचा।

९ जनवरी '४३

आज यहां आए पूरे पांच महीने होगए। बापू को वाइसराय को पत्र लिखे दस दिन होगए हैं। बापू ने कटेली साहब को पत्र लिखा कि उस पत्र की आजतक पहुंच भी नहीं आई। जरा पता लगाए कि बम्बई से पत्र कब आगे गया।

आज शनिवार था। ६ दिन बाद महादेवभाई को गए भी पांच महीने होजावेंगे।

शाम को मीराबहन ने समाधि का एक चित्र बनाया। एक और बनावेंगी।

सरोजिनी नायडू ने आज फिर खाना बनवाया। ढाई घंटे लगे। काफी थकान होगई। मन में आया करता है कि आखिर समय और जीवन का क्या उपयोग होरहा है ?

: ३५ :

## निश्चय और तैयारी

१० जनवरी '४३

भाई ने बताया कि कल रात मीराबहन बापू से आकर कहने लगीं कि अगर सचमुच उपवास आना हो, तो क्या यह उचित न होगा कि वे अमुक-अमुक तैयारियां

करलें ? जवाब में बापू ने कहा कि उन्हें जो तैयारियाँ करनी हों, करलें ।

आज सुबह धूमते समय बापू भाई से कहने लगे, “मैं देखता हूँ कि उपवास तो आ ही रहा है । मैं इतने बिनौं से भले ही ऊपर से सब कामों में भाग लेता रहा होऊँ, मगर बरअसल भीतर अपने ध्यान में ही लगा रहा हूँ । मुझे अभीतक अंतरात्मा की स्पष्ट आवाज नहीं सुनाई थी कि कब उपवास करूँ । लेकिन अंतरात्मा इतना तो कहती है कि तुम इसमें से निकल नहीं सकते । सब तरह से इस बारे में विचार करके इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जब शुरू में सेवाग्राम में उपवास की बात निकली थी तब वह अंतरात्मा का ही नाद था । मैंने काफी चर्चा की, काफी समय दिया, काफी डील की ; मगर देखता हूँ कि उपवास तो नसीब में है ही । तुमसे यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि तुम अपनी मानसिक तैयारी करलो । पहले सोचा था कि जबतक समय नहीं आता, किसीसे बात न करूँ ; मगर फिर विचार किया कि अगर तुम स्वस्थ बन सको और मौका आने पर काम करने के लिए तैयार होसको तो अच्छा है । सेवा और देखरेख की तो मुझे उपवास के समय आवश्यकता पड़ेगी ही । भँसाली की तरह मैं नहीं रह सकता । भँसाली की तपश्चर्या भी मेरे पास कहा है ? इसलिए अगर तुम लोग स्वस्थ होसको तो अच्छा है, नहीं तो मेरा काम अधिक कठिन बन जावेगा । मुझे डर है कि इस समय बा हिम्मत नहीं रख सकेगी, वैसे तो बा बहादुर है । समय आने पर धीरता से काम लेसकती है । मोरा कहती है कि सरोजिनी नायडू मेरे कारण अभी से बीमार-सी होगई है । इस तरह अगर तुम सब हार जाओगे तो भी समय आने पर मुझे तो उपवास करना है ही । आज जो कुछ भी बाहर हो रहा है, उसकी हमें कुछ खबर नहीं मिलती । इसके अर्थ दो होसकते हैं । एक तो यह कि हिंसा के फलते रहने पर भी आम जनता अहिंसक है और उसी ढंग से काम कर रही है ; मगर उसका उलटा मानने के लिए भी काफी सबूत देखने में आता है । होसकता है कि जो मानसिक स्थिति आज बा की है, वह बाकी देश की भी हो । सम्भव है कि हिंसावाले ही अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं और उसमें कुशलता का परिचय भी दे रहे हैं । इसके विपरीत अहिंसक लोग अयोग्य होकर बैठ गए हैं । इसका प्रतिकार भी मैं उपवास द्वारा ही कर सकता हूँ । मन में यह भी उठता है कि क्या मेरा जीवन कार्य समाप्त होगया है ? मैं देश की प्रगति को रोक तो नहीं रहा ? मेरे पास जो कुछ था, वह दे चुका । अब पुरानी चीज ही दोहरा सकता हूँ । भँसाली जाएगा तो मेरी वृष्टि में सत्याग्रह की सम्पूर्ण मिसाल छोड़कर जाएगा । सोचता हूँ कि मेरे संदेश की पूर्णाहुति में उपवास की आवश्यकता क्या नहीं है ? क्या मुझे अब सत्याग्रह की एक सम्पूर्ण मिसाल देश के सामने रखकर अपना जीवन-कार्य पूरा कर लेना चाहिए ? ”

भाई बोले, “आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए । इससे तो मस्तिष्क में उलझने पैदा होजाती है । शुद्ध अंतर्निवि के सुनने में भी कठिनाई आती है । जीवन-कार्य पूर्ण होजाएगा तब प्रभु अपनेआप उठा लेगा । ”

बापू कहने लगे, “यह ठीक है । मैं विचार करता भी नहीं । यह बुद्धि का विषय

नहीं; हृदय का विषय है। यह तो मैंने यों ही तुम्हारे सामने विचार रख दिया है। मैं अंतर्नाब को सुनने का प्रयत्न कर रहा हूँ।”

भाई ने बताया कि पूर्णाहुति के बारे में बापू के साथ उनकी कुछ और भी दलील हुई थी। भाई ने उनसे कहा था, “आपको इस तरह विचार ही नहीं करना चाहिए। इस तरह पूर्णाहुति की बात को पकड़लें तो जीवन में पुरुषार्थ को स्थान नहीं रह जाता। पूर्णाहुति का विचार मन में आना स्वाभाविक है; मगर मैं देखता हूँ कि आपने जो छः महीने की अवधि की बात की थी, वह आपके विचारों पर प्रभाव डालरही है। यह चीज मुझे अशांत बनाती है। अगर आपको ईश्वर का स्पष्ट आदेश होता कि उपवास करो तो मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना था; मगर आज ऐसा नहीं है। आज आप उपवास करे तो ईश्वर आपसे पूछ सकता है कि ‘अपनी निश्चित की हुई अवधि में मेरे आदेश को स्थान दिया है क्या? जब आवश्यकता थी, मैंने तुम्हें जगाकर जेतावनी दी थी। तब तूने आज क्यों कानून अपने हाथ में लेलिया है? मैंने जो विषय का प्याला भेजा था, उसे अमृतवत् पीकर सतोष क्यों नहीं माना? उससे आगे क्यों बढ़ा? आत्मा का प्रतिदिन सूली पर लटकना क्या आहुति नहीं?’ मुझे काफी बातें कहनी हैं, मगर फिर कहूंगा।”

इस सब का बापू का उत्तर था, “मैंने जो कुछ करने का निश्चय किया है, उसे तुमने छुआतक नहीं है, इसीलिए इस तरह की दलीले करते हो। बरना, ऐसी बातें करते ही नहीं।”

११ जनवरी '४३

आज बापू का मौन था। कल शाम को मौन शुरू होने के बाद मोराबहन बापू से आकर कहने लगी, “आप उपवास का विचार करने से पहले एकांत में कुछ दिन इस विषय पर विचार करे तो क्या अच्छा न होगा? आध्यात्मिक बातों पर भला मैं आपको क्या सलाह देसकती हूँ; परन्तु एकांतवास का कुछ अनुभव अवश्य लिया है। उस अवस्था में मुझे कुछ शांति मिली थी और चाहती हूँ कि आप भी उसका कुछ अनुभव लें तो अच्छा है। मुझे डर-सा लगता है कि आप अपनेआप में अतिशय आत्मविश्वास का आभास तो नहीं पाते? इसके कारण किसी गलत निर्णय पर तो नहीं पहुंच जाएंगे?”

बापू ने लिखकर उत्तर दिया, “मैं जो कुछ कर रहा हूँ या करूंगा, वह हृदय से जयावा आत्मविश्वास का परिणाम नहीं होगा। अंतरात्मा की धीमी-सी आवाज ही मेरा पथ-प्रदर्शन कर रही है। अब रही एकांत और शांति की बात। जितनी शांति और एकांत पिछले दिनों में मुझे मिला, वह मेरे लिए काफी था। मगर मुझे एकांत या मौन का डर नहीं है। मैंने तो लम्बे असें तक मौन लिया है और मुझे वह अच्छा भी लगता है। रही एकांतवास की बात। दक्षिण अफ्रीका के जेलों में मैंने उसका अनुभव किया है और मुझे वह भी अच्छा लगता था। मैं अब दोनों को आजमाने की तैयारी में फिररहा हूँ। तुम सबसे बातचीत करलो और वे मान जावें तो तुम प्रबंध करलो।”

मोराबहन खुश होगई। मुझसे और भाई से बातें करने लगीं, “बापू कहें तो

उनके लिए बागीचे में आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाएँ।”

जिस कमरे में मीराबहन पहले रहती थीं, उसमें बापू की बैठक का प्रबंध करने का विचार किया। बापू का कमरा गुसलखाने के करीब होने के कारण मीराबहन को लगता था कि बापू को एकांत नहीं मिलता। बा को परिवर्तन पसंद न था। सरोजिनी नायडू भी इसके विरुद्ध थीं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था; पर भला मैं इन बातों को क्या समझती? मैंने सोचा कि बापू को इसमें फायदा हो तो क्यों न ऐसा करें।

दिन भर बापू का मौन था। शाम को साढ़े सात के करीब मौन पूरा होजाने के बाद बापू ने बा से बातें कीं। उन्होंने सारी योजना को रद्द किया, मगर बापू कहने लगे, “इसमें से जितना पचा सकूंगा उतना अमल में लाऊंगा। मीराबहन की सूचना को मैं फेंक देना नहीं चाहता।”

सरोजिनी नायडू बहुत खूश हुईं। कहने लगीं, “मीरा समझती नहीं है कि एकांत मन का होता है। बापू को बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। वे तो भीड़-भड़के में रहकर भी एकांत-सेवन कर सकते हैं और करते हैं।”

थोड़ी देर पेंसिल से चित्र खींचा। पेंसिल पर रंग लगाने का प्रयत्न किया, मगर कुछ अच्छा नहीं बना। उसे पूरा रंगदार बनाना होगा।

आज सरोजिनी नायडू के कमरे में सफाई हुई। कल शाम से सामान निकाला जा-रहा है। आज दोपहर १२ बजेतक पूरा हुआ।

१२ जनवरी '४३

आज सुबह डिव्बे में नई टॉफी भररही थी। यह ताड़ के गुड़ की बनाई गई थी। बापू मजाक करने लगे, “यह तो तू भी खासकती है।” मैंने कहा, “जिस दिन आप कहेंगे कि उपवास टल गया, उसी दिन खूब अच्छी टॉफी बनाकर हम जलसा करेंगे।” बापू गम्भीर होकर कहने लगे, “उपवास तो आया ही समझो।”

सुबह धूमते समय फिर वही बात चली। बोले, “कल रात में बारह बजेतक नहीं सोया।” भाई कहने लगे, “क्यों?” बापू ने उत्तर दिया, “मुझे जागना ही था, मगर मैं देखरहा था कि तुम कब सोने आते हो। टाइप करने की आवाज आती थी और मुझे गुस्सा आता था कि इस वक्त क्यों टाइप कराया जाता है। वह तो चार बजे उठ जानेवाला है। तुम भले कहो कि शरीर ने आजतक काम दिया है तो आशा रखें कि आगे भी काम देगा। ऐसी आशा बही मनुष्य रख सकता है जिसने स्वास्थ्य के नियमों का सतत् पालन किया हो। तुम्हारी तरह सदा उल्लंघन करके भी ऐसी आशा का पल्ला पकड़ना तो घमंड की बात हुई। यह एक विचार था, मगर मैं तो अपना ही विचार कर रहा था। देखता हूँ कि उपवास का विचार मन में उठता ही रहता है कि मैं इससे बच नहीं सकता। बाइसराय का उत्तर क्या आता है, यह देखना है। यह तो नहीं कह सकता कि वह निराशाजनक होगा। मगर इस उपवास को टालने का एक ही उपाय है। वह यह कि बाइसराय का बहुत ही अनुकूल उत्तर आजावे। मगर मेरी मानसिक

तैयारी इससे उलटे की होनी चाहिए ।”

भाई ने कहा, “आपके उपवास के क्या कारण हैं और उनका निवारण कैसे होगा—यह मैं समझना चाहता हूँ ।”

बापू कहने लगे, “लोग भूखों मर रहे हैं, यह क्या कम कारण है ? मेरे जैसा आदमी ऐसी परिस्थिति में आराम से बैठकर कैसे खासकता है ? मानो कि आज एक लाख आदमी इसीलिए उपवास करने लगें कि लाखों-करोड़ों का भूखो मरना उनसे सहन नहीं होता तो मैं कहता हूँ कि परिस्थिति एकदम बदल सकती है और साथ ही भुखमरी भी बहुत कुछ कम होजावेगी। मगर मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं हो-सकता। मेरी तरफ देखकर कोई मेरा अनुकरण करे तो मूर्खता होगी, मगर तुम सबको मुझसे अलग रहकर यह जान पड़ने लगें कि नहीं, हम यह नहीं देख सकते, तो दूसरे भी उपवास कर सकते हैं। परन्तु आज वह शक्य नहीं है। तब, मुझे क्या करना चाहिए ? मैं तो अपना धर्म-पालन करूँ। बाद में जो होना होगा सो होगा। जीवन रहने का संकल्प करके मैं यह करना चाहता हूँ। आमरण उपवास जैसी चीज भी मेरे पास है; मगर यह उपवास वैसा नहीं है।”

मैंने पूछा, “आपने बाइसराय को जो पत्र लिखा था, उसमें आपने लोगों के भूखो मरने की बात तो लिखी थी; मगर वह बाब पत्र में मुख्य नहीं थी। मुख्य तो था आपका अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में सत्य और अहिंसा को आत्मसात कर लेना। इसका पालन कैसे हो, यह भी पत्र में था। अगर उसको अमल में लाने का दूसरा कोई साधन न हो तो जेल में बंटे-बंटे आपके पास उपवास के सिवा चारा नहीं था। आपको लगता था कि उपवास द्वारा ही अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर अभी आप उस बड़ी चीज के लिए नहीं, बल्कि भुखमरी के लिए उपवास करने की बात करते हैं। दोनों में कुछ विरोधाभास नहीं होता क्या ?”

बापू कहने लगे, “नहीं, भुखमरी को अहिंसक कैसे सहें ? बड़ी समस्या तो है ही, मगर इसी बीच एक नई चीज पैदा होगई है। जनता के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। गेहूँ नहीं, ज्वार नहीं, चावल नहीं, बाजरा नहीं। लोग खाएँ क्या ? करे क्या ? और मेरे जैसा आदमी भी क्या करे ? चुपचाप बैठकर क्या देखा करे ? इस परिस्थिति में अहिंसा मूर्त रूप में खड़ी होगई है। अहिंसा इसी तरह अपना काम करती है। अव्यक्त अहिंसा की पूजा अव्यक्त ब्रह्म की पूजा की तरह कठिन है। मगर अहिंसक एक-एक परिस्थिति का उपयोग करता जाता है तो दूसरा कदम अपनेआप उसके सामने आ-जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने सत्याग्रह शुरु किया तो एक छोटी-सी चीज को लेकर किया था। ट्रांसवाल के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के सामने वह था। मित्रों ने कहा भी कि इतनी छोटी-सी बात के लिए क्या लड़ना था ! मगर मैंने कहा कि जो बुराई देखता है, उसके विरुद्ध मुझे लड़ना ही चाहिए। वह चीज धीरे-धीरे अपने-आप बिस्तर होती गई और अंत में सारे दक्षिण अफ्रीका में फैली।”

भाई ने कहा, "इसका अर्थ यह हुआ कि अनाज की लूट या देश से अनाज बाहर भेजना फौरन बंद होजावे तो आपका उपवास टल सकता है।"

बापू कहने लगे, "बह एक चीज है।" भाई ने पूछा, "और कौनसी चीजें हैं? उपवास के और क्या-क्या गृह्य अर्थ हैं? निवारण के क्या-क्या साधन हैं? यह सब मैं अपना मस्तिष्क साफ़ करने के लिए समझना चाहता हूँ।"

बापू बोले, "यह मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं अपनी शक्ति का संचय करना चाहता हूँ। मेरा पत्र तैयार होगा तो सभी देखेंगे। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए कि भुखमरी अकेली ही उपवास करने के लिए सबल कारण है।"

सरोजिनी नायडू ने बापू से दो-तीन दिन से कहा था कि वे उनसे बात करना चाहती हैं। आज दो बजे बापू ने उन्हें बुलाया। उन्होंने शुरू किया, "बापू, आप गुस्ताखी क्षमा करना, मगर मैं आज आप से साफ़-साफ़ बातें करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपका उपवास करना गलती है। १९२४ के हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के लिए किये गए आपके उपवास की मेरे दिल में पूरी कदर है। मगर राजकोटवाला उपवास मेरी समझ में नहीं आया। यह भी नहीं आता और आपको याद रखना चाहिए कि आपके कहने से हजारों जेलों में बंठे हैं। आप आँखें बंद करलेंगे तो उनका क्या होगा? आपके साथी जेल में हैं। उन्होंने आपको सारी सत्ता सौंप दी है। कई लोग आज लडाई करने के पक्ष में न थे तो भी वे आपके पीछे चले। उनकी पीठ पीछे क्या आपका उपवास करना उचित है? आप आज स्वतंत्र नहीं। बाहर निकलकर आप सब जिम्मेदारियों से मुक्ति लेकर उपवास कर सकते हैं, मगर यहां नहीं। मैं जानती हूँ कि किसी रोज आपकी मृत्यु उपवास में होगी, मगर अभी अंतिम बलिदान का समय नहीं आया। जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आप उपवास करने का निश्चय करना चाहेंगे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगी। उस समय यदि आप मृत्यु का भी आवाहन करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगी।"

बापू हसने लगे, "उपवास में भी साथ दोगी?" सरोजिनी नायडू ने उत्तर दिया, "हां, उपवास में भी, यद्यपि मुझे उपवास में विश्वास नहीं।"

बापू मजाक करते बोले, "हां, और दो दिन बाद खाना मांगने लगोगी!"

वे बोली, "नहीं, मैं महंगी, मगर खाना नहीं मांगूंगी। मैं मानती हूँ कि ईश्वर इतना निर्दय नहीं कि आपसे उपवास कराके लोगों को मश्रुत में छोड़ देने की प्रेरणा करे। इस दृष्टि से आपको सत्य और अहिंसा को सामने रखकर उपवास का विचार करना चाहिए। इस समय उपवास करना जनता के प्रति हिंसा होगी। बाहर जाकर यदि आप किसी और को अपना चार्ज सौंपकर उपवास करेंगे तो आपकी मृत्यु सम्भवतः देश को तारनेवाली बने।" इतना कहकर सरोजिनी नायडू बिना उत्तर की प्रतीक्षा किये ही चली गई।

शाम को मैंने थोड़ी देर चित्र बनाया, फिर घूमने चली गई। बापू ने सूचना दी है कि बा को छोड़कर वे और सबके साथ मौन बरतेंगे। गीताजी सीखना ही तो



पंद्रह मिनट घूमते समय उसके लिए मीन छोड़ेंगे ।

रात को प्रार्थना के बाद मीराबहन के साथ भी वही बातें होती रहीं । बापू कहने लगे, “कल से मैं तबतक पूर्ण मीन धारण करूंगा जबतक कि मुझे वाइसराय का उत्तर नहीं मिलता अथवा उन्हें भेजने के लिए मेरा दूसरा पत्र नहीं तैयार होजाता । जहांतक मेरा संबंध है, उपवास जरूरी होगया है । इसके निवारण का केवल यही उपाय है कि मैं वाइसराय का अनुकूल उत्तर पाऊं । लेकिन उनसे ऐसे उत्तर की सम्भावना बहुत कम है । मैं जानता हूँ कि उपवास करने की शक्ति मुझमें नहीं है और न मुझे उपवास करने की बड़ी इच्छा ही है । मैं अमर शहीद बनने का स्वप्न नहीं देखता और न इसका यश ही मुझे प्राप्त है; पर यदि इसकी आवश्यकता मुझे जान पड़ी तो मैं इससे कैसे हट सकूंगा ? इससे अधिक स्पष्ट आत्मा की आवाज और क्या हो-सकती है ? इतना ही मेरे लिए काफी है । मेरे मन में इसके बारे में भांति-भांति के विचार उठते हैं । कल रात को मैं १२ बजेतक जागता रहा । यही विचार मुझे बार-बार सजग करता रहा कि मैं उपवास से नहीं बच सकता । इसलिए मुझे इसके लिए तैयारी रखनी चाहिए ।”

मीराबहन कहने लगीं, “आप दूसरा पत्र यह मानकर लिखेंगे कि वाइसराय ने पहले पत्र का उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि यदि उत्तर प्रतिकूल आता है तो पत्र फिर लगभग ज्यो-का-त्यो होगा ।”

बापू बोले, “हा, मुझे तैयार रहना चाहिए । उत्तर यदि प्रतिकूल आता है और मैं उसका उत्तर देने में दो-तीन दिन पत्र तैयार करने में लगाऊंगा तो मुझे इससे बड़ी उलझन होगी । होसकता है कि ईश्वर मेरी सबसे कड़ी परीक्षा लेरहा हो और अंत में मुझसे उपवास न करवाए ।”

मीराबहन कहने लगीं, “हा, बापू, ईश्वर आपको अब्राहम के बलिदान की अवस्थातक ले जासकता है, या आपसे एक-दो दिन का उपवास करा सकता है । उपवास इससे आगे नहीं जाने का ।”

बापू ने कहा था कि पानी न लेसकने पर फल के रस में पानी मिलाकर उपवास के समय उन्हें दिया जायगा । इस विषय में मीराबहन पूछने लगीं, “क्या आप फल के रस से उपवास शुरू करेंगे ?” बापू ने उत्तर दिया, “नहीं, पानी से; मगर बरसों से मैंने खाली पानी पिया ही नहीं । दक्षिण अफ्रीका में बरसोतक केवल फल ही खाए । पानी की गुंजाइश ही न रह जाती थी । इस कारण पानी के प्रति अरबि होगई है । आज मैंने दबा के तौर पर थोडा पानी पिया । सो शुरू तो पानी से करूंगा, मगर पानी जब न पी सकूं, जब मिचली होने लगे, तब पानी में थोड़ा रस डालूंगा । पानी इतना नहीं लूंगा कि जिससे शरीर का पूरा पोषण होसके । मानलो कि दिन भर में सौ संतरे छाऊं तो उम अवस्था में तो उपवास महीनों के लिए बढ़ाया जासकता है ।” फिर बापू बताने लगे कि साबरमती आश्रम में कैसे एक लड़के ने इसलिए प्रायश्चित्त करने

की बात सोची थी कि उन्होंने दूध न पीने का व्रत लेकर भी बकरी का दूध पीना आरम्भ कर दिया था। वे तो जेल में थे। वह लड़का छः महीनेतक फलों के रस पर वहाँ रहा, अंत में मर गया। ऐसे ही एक दूसरे भाई श्री हनुमंतराव ने लाल-पीली, रंगबिरंगी बोतलों का पानी पीने का प्रयोग किया था। वे मानते थे कि विज्ञान की प्रगति इसी प्रकार होसकती है कि उसके प्रयोग करते-करते लोग मरनेतक के लिए तैयार हों। सो वे भी अंत में मरे। ये दोनों मृत्युएं उनकी दृष्टि से अलौकिक थीं।

बाद में बापू ने कटेली साहब को अपने निश्चय की सूचना देवी कि कल से उनका मौन-व्रत आरम्भ होगा। कलक्टर आवेंगे तो उनके साथ बापू मौन नहीं रखेंगे। रात सोने में थोड़ी देर होगई।

१३ जनवरी '४३

बापू ने सुबह से ही मौन शुरू कर दिया। उठने के बाद बोले ही नहीं। खाने के बाद बा को महाभारत पढ़कर सुनाया, उन्हें भूगोल सिखाया, फिर मौन ले-लिया। सोकर उठे तो कटेली साहब अखबार लाए। उसमें भंसालीभाई के उपवास छोड़ने की बात थी। सब बहुत खुश हुए। मैं भाई को बताने गई। मैंने उनसे पूछा, "आप क्या खबर सुनना चाहते हैं?" कहने लगे, "भंसालीभाई के बारे में कुछ अच्छी खबर।" मैंने बताया। भाई खुश होकर बोले, "मगर सरकार का बयान साथ नहीं छपा, इससे चिंता होती है।" सरोजिनी नायडू तो खबर सुनकर कहने लगी, "अब बापू को विश्वास और धीरज से ही काम लेना चाहिए।" मैंने कहा, "भंसालीभाई के उपवास छोड़ देने की खुशी हम कैसे मनानेवाले हैं?"

सरोजिनी नायडू ने मुझे मिठाई बनाने की आज्ञा देदी। कल भकर-संक्रांति भी है। तिल, बादाम, पिस्ता, काजू आदि डालकर बेसन के साथ गुड़ और खांड की मिठाई तैयार की। सब सिपाहियों और कैदियों को कल दीजावेगी।

मैंने बापू से कहा, "आप जब बा को रामायण समझाने के लिए मौन छोड़ेंगे, तब यह अवश्य बताएं कि आज की खबर का आपके मन पर क्या असर हुआ।" भाई कहने लगे, "मैं तो अभी से बता सकता हूँ कि बापू क्या कहेंगे।" बापू ने इशारे से कहा, "बताओ।" भाई ने एक कागज पर लिखकर दे दिया। बापू ने बिना पढ़े रख लिया। रामायण के बाद कहने लगे, "भंसाली की खबर पढ़कर मुझे लगा कि इस जगत में ईश्वर है। उसका यह प्रत्यक्ष सबूत है।" भाई का कागज निकाला। उस पर लिखा था— "तू मन में शंका को स्थान ही क्यों देता है? यह ईश्वर की सत्ता की निशानी नहीं है तो क्या है?"

शाम को जब मैं मिठाई बनारही थी तब देखा कि बापू आंखें बंद करके ध्याना-वस्थित होकर बैठे थे। भाई कहने लगे, "यह 'या निशा सर्वभूतानां' का प्रत्यक्ष चित्र है। सब तो सोचते हैं कि भंसालीभाई और बापू के सिद्धांत की जीत हुई और प्रसन्न होते हैं; मगर बापू भविष्य की बात सोच रहे हैं। आगे क्या? अगला कदम क्या?"

: ३६ :

## वाइसराय को पत्र

१४ जनवरी '४३

आज एक नया कलेण्डर आया। उस पर हिन्दुस्तान का नक्शा है और बापू का चित्र है। बापू बा को भूगोल सिखाने के समय नक्शों का उपयोग कर सकते हैं। बापू का चित्र अच्छा नहीं। उस पर मोराबहन ने कागज लगा दिया। बा अब नक्शों की सहायता से भूगोल सीखने लगीं। आज बापू ने बा को पूरी बाल महाभारत सुनाने का काम पूरा कर लिया। कल से क्या शुरू करेंगे, यह सोचने लगे। मैंने 'बलिवान' शुरू करने की बात कही। भाई ने 'शरणापति-रहस्य' पढ़ने को कहा।

बापू कल से वाइसराय को पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जबतक पूरा न होजाय तबतक उसे कोई न पढ़े। भाई का टाइप करने का काम लगभग पूरा होगया है। मुझसे उन्होंने कहा है कि मैं अपना सारा समय उन्हें दूं। मैंने स्वीकार किया है; मगर नतीजा यह हुआ कि आजतक न तो मैं अपना ही कुछ काम कर सकी हूं और न उन्होंने ही मेरे समय का उपयोग किया है।

आज भंसालीभाई द्वारा उपवास छोड़ देने के विषय में सरकारी बयान और डा. खरे ने इस संबंध में जो हिस्सा लिया था आदि सब देखा। सार्वजनिक जाच-पड़ताल की मांग छोड़ देनी पड़ी, इसका मुझे दुःख हुआ, मगर भाई कहने लगे, "इस विषय में हमें कोई निर्णय करने का अधिकार नहीं है। वहां के लोगो को संतोष हुआ, इतना ही काफी समझना चाहिए।"

बापू से मैंने पूछा, उन्होंने भी कहा, "हमें यहां बंटे-बंटे इस बारे में कुछ भी फंसला करने का अधिकार नहीं है।"

एक-दो रोज से कूने स्नान (Kuhne bath) का प्रयोग हो रहा है, मगर मुझे कुछ अधिक जंचा नहीं।

१५ जनवरी '४३

शाम को मैं बंटी स्केच बनारही थी कि इतने में भाई बापू का पत्र लेकर पहुंचे। वही उपवास की बात थी, जो पहली फरवरी से इक्कीस फरवरीतक चलने-वाला था। बापू ने कहा है कि हम सब इस पत्र को पढ़कर अपना-अपना स्वतंत्र मत लिखकर उन्हें दें।

शाम को घूमते समय बापू कहने लगे, "मैंने कहा था कि वाइसराय को दूसरा

पत्र भेजने के समय या पहले पत्र का उत्तर आने पर मैं मौन छोड़ूंगा। सो आज पत्र लिखना पूरा होने पर मौन छोड़ा।”

डा. लाजरसवाले पत्र की बात करते-करते बापू बाइसरायवाले पत्र की चर्चा करने लगे, “सभ्य लोगों का एक तरीका यह भी है कि ऐसे पत्र का उत्तर न देना चाहिए। उनके काम से जो हमें समझ लेना हो, समझ लें।” मैंने कुछ कहने की इजाजत लेकर कहा, “बाइसराय को पत्र मिले मुश्किल से दस दिन हुए होंगे। आपके पहले ही पत्र का उन्हें खूना-सा उत्तर देना था तो भी उन्होंने पंद्रह दिन लिये थे। इस समय अगर वे कुछ करने का विचार कर रहे होंगे तो आपका यह दूसरा पत्र पाकर चिढ़ न जावेंगे? क्या आपको उन्हें और समय न देना चाहिए?”

बापू कहने लगे, “मानलो दस ही दिन हुए। तब भी कम-से-कम पहुंच तो आनी चाहिए थी। इन लोगों का यह तरीका है कि यह तो पहुंच है, बाकी उत्तर फिर देंगे और फिर इस पत्र से चिढ़ना क्या था? उपवास की बात तो पहले पत्र में ही थी। यह तो उसीके सिलसिले में लिखा जाता है।”

मैंने कहा, “तो भी इससे नुकसान होसकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे पत्रों की भांति यह हृदयस्पर्शी नहीं है।”

बापू कहने लगे, “इसे हृदयस्पर्शी बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह तो ठंडे कलेजे से पहले पत्र के सिलसिले में लिखा हुआ पत्र है।”

घूमकर आए तो सरोजिनी नायडू आईं। हाथ के दर्द के कारण वे पत्र पर अपना मत जबानी सुना गईं। उनका भी कहना था, “बाइसराय को और समय देना चाहिए। भसालीभाई के उपवास छोड़ने की घटना से भी पता चलता है कि सरकार कुछ हिली तो है। उन्हें अपने रास्ते चलने देना चाहिए। दूसरे, इस पत्र की भाषा आपकी हमेशा की भाषा नहीं। यह कुछ रक-रककर लिखा गया है और अपूर्ण लगता है। लगता है कि आपने ज्ञात चित्त से पत्र नहीं लिखा। आप यह क्यों लिखते हैं कि आप नमक और पानी लेंगे। आप उपवास करनेवाले हैं। जो ठीक लगे सो लें। किसीसे कहने की क्या जरूरत है? इसके अतिरिक्त यह क्या लिखना कि वे आप पर दया न करें? दया करके जो कुछ किया जाता है, कई बार गलत होता है। आपकी भाषा मेरी ही समझ में नहीं आती तो बाइसराय कैसे समझेगा?”

बापू कहने लगे, “तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आती है। दया न करने की बात लिखने की जरूरत इसलिए है कि मेरी इस बारे में हरिजनों के लिए उपवास के समय टीका होवुकी है। अम्बेडकर ने कहा है कि उसने वह फार्मूला मेरी जान बचाने की खातिर स्वीकार किया था।”

सरोजिनी नायडू बोलीं, “हां, मगर बाइसराय यह सब क्या समझेंगे? मैं कहती हू कि उपवास ही करना है तो महादेव की समाधि पर जाना बंद कर दीजिए। वहां जाने से क्या फायदा? मैं जानती हू कि उन्होंने आपकी खातिर प्राण-त्याग किया।

इसे मैं अदालत में साबित तो नहीं कर सकती, मगर बात सही है। अगर आप अब उपवास करते हैं तो महादेव का बलिदान बेकार गया। अगर आप उपवास करनेवाले हैं तो उस समाधि पर रोज फ्रास बनाने का क्या अर्थ है? मैं फिर कहती हूँ कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपको उपवास करने का हक नहीं है।”

बापू ने कहा था कि होसके तो पत्र कल जाना चाहिए। भाई कहने लगे, “आप कहते हैं कि पत्र अंतर से निकला है। ऐसा होते हुए भी आपको उसे लिखने में चार दिन लगे। हमें आप कुछ घंटों में राय देने को कहते हैं! यह कैसे हो?”

बापू बोले, “करीब २४ घंटे हैं।” भाई ने कहा, “तो हम रात भर जायें!” बापू बोले, “वह तो तुम करने ही वाले हो।”

मगर कल शनिवार है। पत्र ग्यारह बजे जाना चाहिए। तबतक शायद तैयार न होसके और जा न सके। मीराबहन बापू को अपना मत लिखकर देगईं। उन्होंने सुबह पढ़ने को तकिये के नीचे रख लिया। भाई तो दो बजेतक या उससे भी देर से सोए।

बापू ने फिर मौन लेलिया। जबतक इस पत्र का फंसला न होजाए तबतक मौन रखेंगे।

१६ जनवरी '४३

मीराबहन की टीका सुबह बापू ने पढ़ी। उन्होंने लिखा था कि वाइसराय को पहले पत्र का उत्तर जल्दी भेजने के लिए लिखिये। अभी उपवास की बात न लिखिये। बापू ने लिखकर उत्तर दिया कि अब जो पत्र जावेगा, उसमें उपवास की बात तो आनी ही चाहिए। पत्र को दो-चार दिन रोककर भेजा जावे, यह मैं समझ सकता हूँ; मगर बीच में दूसरी तरह का पत्र नहीं जासकता।

पीछे भाई ने अपना अभिप्राय लाकर दिया। उन्होंने बापू के लिए पत्र का एक मसविदा भी बनाया था। लिखा था कि पत्र भेजना ही होतो इस तरह का भेजिये। इस मसविदे का भाव भी वही था जो मीराबहन का था, मगर एक नए ढंग में लिखा गया था। साथ ही उसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि उपवास बगाल की भुखमरी की खातिर नहीं है। उस भुखमरी की जड़ में जो है, उसकी खातिर कर रहे हैं।

घूमते समय बापू से भाई इसी बारे में बातें करते रहे। बापू मौन थे, सुनते रहे। बाद में भाई कहने लगे, “सब कुछ बिकने घड़े पर पानी डालने-जैसा था।”

बापू ने अपने पत्र को फिर से पढ़ा। ‘कोई मुझ पर दया न करे’ आदि वाक्य काट डाले। ‘क्यों उपवास करते हैं,’ यह बतानेवाला भाग निकाल दिया। भाई को लगता था कि यह स्पष्टीकरण तो रहना ही चाहिए। तब बापू ने कहा कि तो फिर रहनेदो। भाई के मसविदे में से बापू ने दो वाक्य लेलिये। वे वाक्य इस चीज को स्पष्ट करते थे कि भुखमरी तो परिस्थिति को और अधिक असह्य बनाती है, वह उपवास का मूल कारण नहीं।

मंने बापू से पूछा था, “आप भुखमरी को इतना महत्त्व क्यों दे रहे हैं? सरकार कह सकती है कि ‘भुखमरी मिटाने के काम में आपकी मदद सहर्ष स्वीकार की जाती है; मगर छूटने के बाद ‘भारत छोड़ो’ की हलचल न मचाना।’ तब आप क्या करेंगे?”

बापू ने उत्तर दिया, “हम ऐसे मदद नहीं कर सकते। मदद करने का या भुखमरी मिटाने का एक ही उपाय है कि सरकार सत्ता लोगों के हाथ में रखवे।”

बापू ने भाई का मसविदा लौटाया। उसके नीचे लिखा था, “मैं तो ऊपर लिखा हुआ सब हजम कर गया हूँ। फाड़ने के बवले तुम्हें वापस दे रहा हूँ।”

‘शरणागति-रहस्य’ में बापू को कुछ बहुत तथ्य न मिला। उन्होंने वह भी वापस लौटा दी। लिखा, “‘शरणागति-रहस्य’ में मैं कुछ पाता नहीं हूँ। निरा पांडित्य है।”

भाई ने पूछा था कि वाइसराय का उत्तर न आने का अर्थ ‘उसकी कुछ न करने की नीयत का सूचक’ मानकर आप उसके साथ अन्याय तो नहीं करते? इसका इससे उदार अर्थ करना क्या शक्य नहीं? उपवास की चर्चा किये बिना आप उत्तर के लिए फिर क्यों न लिखें? जवाब में बापू ने एक नोट लिखकर भाई को दे दिया। उसमें लिखा था—“मैं ऐसे समझा हूँ कि वाइसराय के मौन का मंने जो अर्थ किया है, उसे तुम जानना चाहते हो। अप्रेज अमलदारों की यह नीति है कि जब किसीको सख्त जवाब न देना हो तो उनके काम में से उसका जवाब समझ पड़े। यह नीति बहुत बार तो सभ्यता का रूप धारण करती है। याद करने पर ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। इस अनुभव का अवलम्बन करके मंने यह वाक्य लिखा है। मानो कि उन्होंने जवाब देने का विचार किया ही है तो मेरा ऊपरवाला वाक्य मुझे बचा लेगा और वाइसराय को भी। अगर वह सचमुच संतोष देना चाहे तो मेरे उस वाक्य के आधार पर मुझे मेरा पत्र वापस लेने को कह सकता है और मुझे वह वापस लेना पड़ेगा। अगर उसका विचार मुझे संतोष देने का न हो तो मेरा यह वाक्य उसे बिकट परिस्थिति में से बचा लेगा।”

दोपहर खाने के बाद मीराबहन बापू से कहने लगीं, “आप अभी पत्र न भेजें। २६ जनवरी को स्वतंत्रता के अवसर पर भेजें और उपवास की तारीख हमारे यहां ६ महीने पूरे हो जाने पर ६ फरवरी को रखें।”

बापू मान गए। वा से कहने लगे कि अब तो सबका आशीर्वाद मिल गया है। मंने कहा, “हरगिज नहीं, मगर और कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा समय और मिल सके तो अच्छा है, इस विचार से मीराबहन ने बात की है।” इतने में सरोजिनी नायडू आ गईं। कहने लगीं, “किसीने आपके उपवास में सम्मति नहीं दी। उपवास करना गलती है। आपको यह नहीं करना चाहिए।”

बापू हंसने लगे।

सरोजिनी नायडू मुझसे कह रही थीं, “मेरी आत्मा कहती है कि बापू को

उपवास नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा था न कि भंसाली मरेगा नहीं, बही हुआ।” मैंने कहा, “इस समय भी आपकी अंतरात्मा की यही आवाज निकले, यही प्रार्थना है।”

शाम को घूमते समय बापू भाई को अपनी बात फिर समझाते रहे। जो सुबह नोट में लिखकर दिया था, चीज बही थी।

रात को मोराबहन ने सोने से पहले ‘लीड काइंडली लाइट’ गाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब वे हफ्ते में दो बार प्रार्थना पर भजन गाएंगी और बाकी पांच दिन सोने से पहले बापू को अंग्रेजी भजन सुनावेंगी, यह तय हुआ है।

१७ जनवरी '४३

बापू आज गीताजी सिलारहे थे। बाद में कहने लगे, “तू चित्रों में इतना समय क्यों देती है? तुझे दूसरे कामों से छुट्टी इसीलिए दी थी कि तू प्यारेलाल की मदद करे। तेरे पास दो मुख्य काम हैं: एक तो डाक्टरों में परिश्रम करना। मैं तुझसे अलौकिक काम चाहता हूँ। बा की खांसी क्यों न जावे? ‘पुरानी छाती-खांसी की जड़ नहीं जाती’—यह सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। मालवीयजी, शिवप्रसादजी और कई दूसरों को डाक्टरों ने जवाब दे दिया था। मगर वैदिक इलाज से वे अच्छे हुए। मुझे वैदिक पर मोह नहीं। मैं उसकी त्रुटियाँ जानता हूँ। मगर तुझे समझना चाहिए कि इस तरह किसी बीमारी को असाध्य मान लेना ठीक नहीं है। बा हैं, सरोजिनी नायडू हैं—इन्हे तुझे अच्छा करना ही चाहिए और इतनी शक्ति होनी चाहिए कि रोगी को अपना कहा मनवाले और उसे अपनी ओर आकर्षित करले। दूसरा काम भाषा का है। भाषा की भी आवश्यकता डाक्टरों के लिए तो है ही, मगर उससे भी अधिक मेरे काम के लिए है। मैंने तुझे कहा है कि महादेव का काम तुझे करना है। मैं नहीं जानता कि तू कहातक कर सकेगी। प्यारेलाल तो है; मगर अकेले के लिए वह काम शायद बहुत होजावे। तुझे तैयार होना चाहिए। इसीलिए मैंने तुझसे व्याकरण पर पूरा अधिकार पाने को कहा है।”

बा बहुत उवास है। उपवास की तलवार सिर पर लटक रही है। शाम को अकेली बगीचे में जा बैठती है। मोराबहन समझारही थीं कि सरकार बापू को अधिक बिनतक उपवास नहीं करने देगी। मगर इस आशा पर हम क्या भरोसा कर सकते हैं।

भाई आज भी बापू का पत्र लेकर बैठे थे। उन्हे उससे सतोष नहीं है। विचार भी चलते हैं—‘सरकार ने उपवास को भी महत्त्व नहीं दिया तो?’

उनके दांत में कल से दर्द है। दांत खराब हैं; मगर निकलवाते नहीं हैं। क्या किया जाय? हमारे देश में अपने दांतों का बड़ा मोह होता है।

सुबह भंडारी आए थे। उनसे थोड़ी किताबें मंगा देने को कहा। उनमें से एक ‘ले मिजोरान्ड’ है। यह बापू के लिए थी। शाम को आगई। बापू ने पढ़ना भी शुरू कर दिया।

१८ जनवरी '४३

आज सोमवार का मौन था। सुबह मैं थोड़ी ड्राइंग करती रही। महादेवभाई

को समाधि का चित्र खींचरही थी। घूमी नहीं। मीराबहन आकर ड्राइंग के विज्ञान के बारे में कुछ बता गईं। मैंने ड्राइंग कभी की नहीं है। चित्रकला में यह अज्ञान बहुत बाधा डालता है।

बापू अपना पत्र और भाई के सुधारोंवाला मसविदा लेकर कुछ समयतक विचार करते रहे। सोमवार के कारण बा को भी आज सिखाना नहीं था, इसलिए दोपहर को जल्दी सो गए। उठे तो कटेली साहब बाइसराय का उत्तर लेकर आए। पत्र अच्छा था। मित्र-भाव का था। पत्र-व्यवहार का रास्ता खोलता था। शायद इस तरह कोई रास्ता निकल सके। सरोजिनी नायडू को बहुत अच्छा लगा। मीराबहन को कुछ कम और मुझे उनसे भी कम। बापू तटस्थ थे। उनका भाव था कि पत्र में शायद कुछ निकले या न निकले।

बापू ने उत्तर लिखना शुरू किया। साढ़े तीन बजे वे आधे घंटे तक रोज ध्यान में बैठते हैं। उत्तर उससे पहले तैयार करके दे दिया। सबने अपनी-अपनी राय दी। रात को बापू उसे फिर से थोड़ी देर तक देखते रहे। कहते थे कि कल उत्तर जाना चाहिए। सुबह पूरा करेंगे।

सोने से पहले मीराबहन ने दो अंग्रेजी भजन गाए—‘ओ गॉड आवर हेल्प इन एजेंज पास्ट’ और ‘व्हेन आई सर्वे दि वडरस क्रॉस’। बापू कहने लगे, “बस मुझे तो दूसरे भजन के बराबर और कोई अंग्रेजी भजन लगता ही नहीं है।”

रक्तचाप बहुत बढ़ा था। पौने आठ या साढ़े सात बजे देखा तो २०४/११६ था।

१६ जनवरी '४३

बापू रात अच्छी तरह सो नहीं पाए। सुबह प्रार्थना के बाद भी नहीं सोए। उठकर पत्र तैयार करने लगे। मुझे लिखवाते रहे। सात बजे पत्र पूरा करके नाश्ता किया। घूमने गए। मालिश, स्नानादि के बाद खाना खाकर जल्दी से पत्र की नकल अपने हाथ से तैयार करने लगे। मैं खाना खाकर आई तो एक वाक्य लिख चुके थे। बाकी मैंने लिखवाया।

बापू का मीन अब छूट गया है। अच्छा लगता है; मगर दोपहर को आधा घंटा ध्यान में अब भी बैठते हैं। दोपहर को दो-तीन घंटे मीन भी रखना चाहते हैं।

बापू का रक्तचाप सुबह खूब बढ़ा था। शाम तक कम होगया। उनका मन शांत है। न तो आशा ही लगाए बैठे हैं, न निराशा की भावना उनके मन में है। भगवान् को जो करना होगा, वह होगा—यह उनका भाव है।

मेरा गला कल से खराब है। थोड़ा बुखार-सा भी लगता है।

२० जनवरी '४३

सुबह की प्रार्थना के समय मैंने बापू से पूछा, “यहां अभी कितने दिन तक प्रार्थना करनी होगी?” कहने लगे, “बहुत दिन तक। मैं तो जितना ही विचार करता हूँ,



बाइसराय का पत्र उतना ही मुझे खराब लगता है। मेरे आज के पत्र का वह शायद सख्त उत्तर देगा।”

दिन में बापू 'ले मिजैराब्ल' पढ़ते रहे। दोपहर में बा को भूगोल सिखाया और कथा पढ़कर सुनाई। शाम को उन्हें रामायण भी रोज की तरह समझाई। घूमते समय मुझे गीताजी सिखाई, रात को भाई के साथ बातें कीं।

मैं आज भी जल्दी सोई। दिन में कलेक्टर हूलन और डा. शाह आए थे।

बा का थूक आटोबैक्सीन बनाने के लिए और सरोजिनी नायडू का मल परीक्षा के लिए भेजा।

२१ जनवरी '४३

आज सर्दी फिर से शुरू हुई है। जाते-जाते बुझते बिये की तरह टिमटिक्ता रही है।

दिन में कुछ खास घटना नहीं हुई। बापू ने भाई से कुछ बातें कीं और कहा कि मुझे डाक्टरों के अभ्यास पर अधिक समय लगाना चाहिए और व्याकरण का खूब अभ्यास करना चाहिए। पहला मेरी खातिर और दूसरा बापू के काम की खातिर। भाई मुझे आकर कहने लगे, “ये दोनों चीजें अच्छी तरह सीखलो। लिखने का भी खूब अभ्यास करो। बाहर जाकर यह अभ्यास करने का मौका नहीं मिलनेवाला।”

सर्दी काफी थी। दोपहर को बापू बाहर बैठने गए।

सिपाही शंकर को चेचक के टीके के बाद जोरों का बुखार आया। गांठें भी फूल गईं। आज सुबह चुपचाप अपने घर चला गया है।

२२ जनवरी '४३

आज शुकवार के रोज से गीताजी का नया पारायण शुरू होता है।

आज भी खूब सर्दी थी। दोपहर में सब लोग थूप में सोए।

शाम को डा. शाह आए। कहने लगे, “श्रीमती नायडू के मल में पेचिश के जंतु (*Hystolytica amoeba cysts*) काफी मिले हैं।” मैंने तो पहले से ही दबा मंगाली थी। सोचा था कि उनकी परीक्षा करके इलाज शुरू करूंगी। सुना है कि उन्हें विल की बीमारी भी है। इससे मामला और पेचीदा होजाता है।

दोपहर को थोड़ी देरतक व्याकरण का अभ्यास किया। बा को थोड़ा-सा अनुवाद पढ़कर सुनाया। साढ़े चार बज गए।

आज बंडासिटन और पिंग-पोंग की जाली लगवाने की बात चलरही थी। सरोजिनी नायडू ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, “बिचार तो अच्छा है, मगर खेलनेवाले कितने हैं?” वे कहने लगीं, “तुम, प्यारेलाल, मीरा, बापू और बा। बापू अब उपन्यास पढ़ते हैं, तो खेलेंगे क्यों नहीं!” सब हंसने लगे।

२३ जनवरी '४३

आज शनिवार था। मीराबहन और सरोजिनी नायडू महादेवभाई के समाधि-

स्थान पर आए। मगर बा नहीं आसकीं। कल रात से उनकी तबीयत अच्छी नहीं है।

घूमते समय बापू पूछने लगे, “उपन्यास का साहित्य में क्या स्थान है ?” भाई कहने लगे, “साहित्य के तीन विभाग हैं : कविता, नाटक और काल्पनिक उपन्यास-कथा। सो उपन्यास का बड़ा स्थान है।” बापू कहने लगे, “कैसी विचित्र बात है ! काल्पनिक चीजों को तो बड़ा स्थान दिया है और जीवन की असली चीजों को स्थान ही नहीं दिया !” भाई बचाव करने लगे, “उपन्यासों में आदर्श व्यक्त किये जाते हैं। उनका आधार अनुभव पर होता है। स्टो के ‘टामकाका को कुटिया’ नामक उपन्यास ने क्रांति कराई और परिणामस्वरूप गुलामी खतम हुई। अष्टन सिन्क्लेयर के ‘जंगल’ उपन्यास के कारण नया कानून बना। उपन्यासों के बहुत उपयोग है।”

बापू बोले, “सदुपयोग किस चीज का नहीं होसकता ? मगर देखना तो यह चाहिए कि सर्वाश में कोई चीज फायदा करती है या नुकसान। मेरी समझ में तो उपन्यासों ने बहुत नुकसान किया है।”

भाई ने कहा, “मगर तुलसीकृत रामायण-जंसा धर्मग्रंथ भी तो काल्पनिक ही है न ?” बापू कहने लगे, “इस तरह की बलील में मैं नहीं पड़ना चाहता। यह तो बितंडावाद हुआ। तुलसीदास को कोई उपन्यास के तौर पर नहीं पड़ता। मैं तो सामान्य उपन्यासों का स्थान समझने के लिए बात कर रहा था।”

बीच में ‘टाम काका की कुटिया’ की बात होते समय लिचिंग\* की प्रथा पर चर्चा छिड़ी। बापू ने समझाया और कहने लगे, “मुझे अफ्रीका में लिच ही करने लगे थे न ! ईश्वर ने बचा लिया।

“आखिर में चैम्बरलेन ने तार बिया कि मुझ पर हमला करनेवालों को सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे बुलाकर बजीर ने पूछा तो मैंने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन से उसके मन में और सारे दक्षिण अफ्रीका में मेरी कीमत बढ़ी।”

आज सरोजिनी नायडू के लिए कुछ पकाना था। सवा घंटा रसोई में काम किया। जा ने भी मेथी की रोटी खाई। तबीयत पहले से भारी थी। शाम को हल्का-सा बुखार आगया।

शाम को मीराबहन के साथ भाई का टाहप किया हुआ पत्र-व्यवहार मिलाया, जिससे गलती न रह जाय। एक पत्र उन्होंने मुझे लिखवाया। संगीत के लिए समय न रहा।

रात को चन्द्रमा के निकलने का दृश्य आज तीन रोज से बहुत सुंदर होता है।

\*जनसमुदाय का आदेश में आकर बगैर कानूनी कार्रवाई के किसी व्यक्ति को जगली सजा देने की अमेरिका आदि प्रदेशों में प्रचलित प्रथा। ‘लिच’ नामक न्यायाधीश के नाम पर यह शब्द निकला। उसके बारे में कहा जाता है कि वह फ्रांसीसी पर अभियुक्त को चढ़ाने के बाद फँसना सुनाया करता था।

भूल गई। याद रहती कि बापू को तैयार करके देना ही है तो पांच-बस मिनट निकाल ही लेती।

बापू का उपवास था। उन्होंने दो बार—सुबह और दोपहर—गुड़, गरम पानी और मोसम्बी का रस लिया। मैंने चाय ली। भाई ने पूरा उपवास किया—केवल पानी लिया। सरोजिनी नायडू और कटेली साहब के लिए मटर का पुलाव, शल-जम का साग और बेसन की मिठाई बनाई। सब बनाकर आई, बापू के पांच मले तब उन्होंने अनुवाद मांगा। मैंने कहा, “पांच मिनट में लिखकर देती हूँ।” बापू पांच-बस मिनट में ही सोकर उठ गए। मैंने अनुवाद तैयार कर लिया था। उसे देखने लगे। जहां सुधार की आवश्यकता थी, सुधारा। मैंने अंग्रेजी पाठ सामने रखकर अनुवाद किया, इसीलिए कहीं-कहीं शब्द छूट गए थे। अंग्रेजी प्रतिज्ञा का अनुवाद इस प्रकार है:

“हिन्दुस्तान हर माने में सत्य और अहिंसा के जरिए पूर्ण तौर पर आजाद हो, यह मेरा तात्कालिक उद्देश्य है और बरसों से रहा है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए मैं आज स्वतंत्रता-दिन को इस तेरहवीं बरसों के दिन फिर से प्रण करता हूँ कि जबतक हिन्दुस्तान अपने उद्देश्य को न पाले तबतक न मैं खुद चैन लूंगा, न जिन पर मेरा कुछ भी असर है, उन्हें चैन लेने दूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा सफल हो, इसके लिए मैं उस महान् अदृश्य दिव्य शक्ति से, जिसे हम गाँड, अल्लाह या परमात्मा रूपी परिचित नामों से पुकारते हैं, सहायता की प्रार्थना करता हूँ।

२६ जनवरी, १९४३.”

झंडा बनाने के लिए हल्दी और सोडा डालकर नारंगी रंग तैयार किया। हरा पेस्टल लगाकर बनाया। सफेद टुकड़े पर पेंसिल से मीराबहन ने चर्खा बनाया। बगीचे में आम के पेड़ के नीचे छोटा-सा स्तम्भ गाड़ा। उस पर ठीक तरह से मीराबहन ने झंडा बांधा। झंडा भी उन्होंने ही तैयार किया था।

सभा की अध्यक्षता बापू ने सरोजिनी नायडू को सौंपी। वे कहने लगीं, “आपके रहते यह स्थान कौन लेसकता है ?” अंत में मान गईं।

छः बजे बापू घूमकर लौटे। सरोजिनी नायडू ने उनसे झंडाभिवादन करवाया। पहले हमने ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा’ गाया, फिर बापू ने झंडा फहराया। झंडा-बदन गीत गाया गया। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा दोहराई गई और फिर ‘बंदे मातरम्’ का गायन हुआ। खासा अच्छा दृश्य बन गया। सरोजिनी नायडू कहने लगीं, “लाखों आदमी होते तो भी करना तो यही था न।” भाई बोले, “जरा इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे लगते !” वे कहने लगीं, “जबतक बापू हैं तबतक इन्कलाब जिन्दा तो है ही।”

प्रार्थना में ‘बंदों श्री हरि-पद सुखदाई’ गाया। आज रात को मैं जल्दी सो गई। बहुत थकी थी।

बापू को मेरा चित्रकला में अधिक समय देना पसंद नहीं। उन्होंने समझाया, मगर समय की मर्यादा रखकर चित्र बनाना जरा कठिन काम है।

रात में बापू कहने लगे, “मैंने आज विचार किया था कि सब मिलकर कातें; मगर सब काम में थे, इसलिए कहा नहीं।” मैंने कहा, “विचार तो मुझे भी आया था, मगर मैं चुप रही।” मीराबहन कहने लगीं, “अभी कातेंगे।” मगर आठ बज चुके थे। बापू को सोने को बहुत देर होजाती, इसलिए कल मिलकर कातने का निश्चय किया। बापू को यह ठीक लगा। कल ढाई से तीन बजेतक कातने का प्रोग्राम बना। बापू बोले, “मैंने तो कहा हूँ न कि सूत के धागे से स्वराज्य बघा है; लेकिन उसे माननेवाले बहुत कम हैं। पर हम तो कातें।”

: ३८ :

## उपवास के निश्चय से चिंता

२७ जनवरी '४३

आज कलेक्टर और डा. शाह आए। डा. शाह सरोजिनी नायडू के खून की परीक्षा-रिपोर्ट भी लाए थे। रक्तहीनता नहीं है। उनकी अशक्ति का कारण उनकी पुरानी पेचिश है। कलेक्टर एक मिनट के बाद पूछताछ करके चला गया। उसके पूछने से पहले ही बापू ने कह दिया, “हमेशा की तरह आज भी कोई शिकायत नहीं है।”

बा को शाम के समय कुछ थकावट लगरही थी। बुलार नहीं था। उन्होंने खुराक कम की है। शायद उसीका असर हो।

ढाई से तीनतक सबने मिलकर काता। कातते समय मैं सोचती थी कि रोज कातें तो कितना अच्छा हो। कातना पूरा होने पर बापू ने भी ऐसा ही विचार प्रकट किया, “हम लोग सिवा प्रार्थना के कुछ भी मिलकर नहीं करते। स्वराज्य एक के श्रम से नहीं; सबके श्रम से आनेवाला है। रोज मौन रूप होकर इसी प्रकार कातना अच्छा होगा।” मीराबहन को थोड़ी हिचकिचाहट थी; मगर बाद में मान गई।

आज मेरे तार १७७ निकले और मीराबहन के १७८।

२८ जनवरी '४३

दोपहर में खाने के बाद बापू बा को 'बलियान'\* पढ़कर सुनारहे थे। उसमें

\* विकटर ह्यूगो के 'नाइन्टी थ्री' का हिन्दी अनुवाद।

राजमहल में जनसभा भरने का वर्णन सुनाते समय कहने लगे, “सत्ता पाने के लिए हमें बहुत कष्ट सहने होंगे, कुर्बानियां करनी होंगी। तुम सब लोग आराम की जिन्दगी बसर करना चाहो तो सत्ता कैसे अपने हाथ आसकती है? उपवास तो एक छोटी चीज है। हजारों-लाखों आदमी इस तरह कष्ट सहन करें तो कुछ होसकता है।” बा ने बहुत शंका-भरे ढंग से सिर हिला दिया।

सोकर उठे। पानी पीरहे थे कि इतने में भाई बाइसराय का पत्र लेकर आए। बिकनी-चुपड़ी बातें थीं, कठोर न थीं। बापू इसके लिए पहले से ही तैयार थे। बा को बताया कि ऐसा उत्तर आया है। वे काफ़ी घबरा गई। “अब क्या होगा?”—बार-बार यही कहने लगीं।

ठाई से तीन बजेतक सबने (सरोजिनी नायडू को छोड़कर) मिलकर काता। शाम को बापू बाइसराय को उत्तर लिखने लगे। आठ बजे तैयार करके सबको पढ़ सुनाया और कहा कि जिसे जो कहना हो, लिखकर सुबह ही देवे। कल पत्र जाना चाहिए।

भाई को बापू के काम से छुट्टी मिल गई। मीराबहन ने और भाई ने एक-एक नकल करली। मैं बापू के पांच और सिर की मालिश बगैरा पूरी करके सह-हाथ धोकर भीतर गई तो पीने दस बजे थे।

उन लोगों ने उसी समय नकल पूरी की थी। करीब एक घटा लिया था। मीराबहन अपनी नकल लेकर अलग जा बैठों। मैंने बापूवाली पहली नकल ले-ली। भाई अपनी की हुई नकल लेकर बंठ गए। मुझे जो कुछ सूझा, वह भाई को बताकर मैं तो ग्यारह बजे से पहले सोने चली गई। बारह बजे बापू की पेशाब की बोटल साफ करने उठी तो मीराबहन और भाई बंठे थे। मैंने भाई से पूछा तो कहने लगे, “दो बजेतक सोऊंगा।” मगर बाद में पता लगा कि दो बजे सरोजिनी नायडू गुसलखाने गई थीं, उस समयतक भाई लिखरहे थे। वे उनसे कुछ बातें करती रहीं, फिर दो ताजे अजीर उनके पास रख आईं और पूछने लगीं, “कुछ गरम चीज पीने को चाहिए?” उन्हें नहीं चाहिए थी। करीब तीन बजे वे सोए। मीराबहन बारह-साढ़े बारहतक सोगई थी।

बापू अच्छी तरह सोए। मानो उन्हें कोई चिन्ता ही न हो।

२६ जनवरी '४३

प्रार्थना के लिए आज पांच बजे उठे। प्रार्थना के बाद बापू भाई और मीराबहन के मतों को लेकर अपने पत्र सहित बंठे। साढ़े दस-पीने ग्यारह बजेतक उन्होंने पूरा कर दिया।

खाने को जाने से पहले भाई उसे उठाकर देखने लगे। बापू कहने लगे, “यह पत्र मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुम्हारे पत्र के सब फेरफार मैंने लेलिये हैं। भाषा

मेरी हूँ, तर्ज मेरा हूँ। इस भूमिका के साथ अब यह पत्र पढ़ो और कहो कि क्या तुम इसमें अपना पत्र पाते हो?" पढ़कर भाई कहने लगे, "पाता हूँ; मगर मुझे अभी और फेरफार चाहिए।"

भाई और मीराबहन आदि स्नाना स्नाकर आए और पत्र देखने लगे। बापू ने लिखवाया। दोनों ने एक-एक नकल करली। मैं तीसरी नकल खादी कागज (हाथ बने कागज) पर करती गई। उन लोगों को लगता था कि अपने हाथ की नकल हो तो वे अधिक विचार कर सकते हैं। कोई खास परिवर्तन करना तो था नहीं। छोटी-मोटी तब्दीलिया की गईं। आज बापू ने पत्र लिखा, उसमें एक आवश्यक चीज लिखना भूल गए थे। वह यह थी कि, "कांग्रेस की तैयारी है कि भले सरकार जिन्ना साहब को वजारत कायम करने को कहे।" यह बात कल के पत्र में थी—आज छूट गई। भाई ने उसकी तरफ उनका ध्यान खींचा। मेरे हाथ की खादी कागज-वाली नकल बापू भेज रहे थे, सो उसी पर उन्होंने नीचे 'पुनश्च' करके छूटे हुए वाक्य को लिख दिया। छोटे-मोटे सुधारों के कारण और जल्दी में लिखे जाने के कारण इस नकल में कुछ काटे हुए शब्द थे; मगर नकल बापू ने भेजी। दूसरी नकल तैयार करने का समय न था। बापू आज की डाक खोना नहीं चाहते थे। कहने लगे, "यह नकल पुनश्च और सुधारों के साथ जाय। वे लोग तो जानते ही हैं कि मैं टाल्स्टाय का अनुयायी हूँ। टाल्स्टाय तो सुधारों समेत ही अपने लेख भेज दिया करते थे।"

पत्र भेजा तो समय १-३५ होगया। बापू पानी पीकर गुसलखाने गए। दो.बज गए। पंर मलबाये। दस मिनटतक सोए तो क्या, यों ही आख मींचकर आराम करते रहे। मैंने चर्खें तैयार किये। बापू और भाई—दोनों को डाई बजे कातना था। मीराबहन को आज बापू ने छुट्टी देदी थी। हम तीनों ने ही आज काता। मेरे तार आज १८० हुए।

आज खूब बादल छाए रहे। हवा ऐसी चलरही है, मानों फिर से सर्दी शुरू होगई हो।

शाम को मैंने नोटबुक में वाइसराय के पत्र की और बापू के आजवाले उत्तर की नकल की। उत्तर की नकल अभी पूरी करने को है।

पत्र जाने के बाद बापू बात करने लगे कि अगर जिन्ना साहब की वजारत-वाली बात रह जाती तो उन्हें बड़ा अफसोस होता। भाई ने याद दिलाया कि १९३० में दाड़ी मार्च के अल्टीमेटमवाले पत्र में नमक का कर रद्द करनेवाला पैरा टाइप करने में रह गया था। अंगद (रेजिनल्ड रेनाल्ड्स) वह मुहरबंद लिफाफा लेकर जा रहा था, मगर बिल्ली की गाड़ी चूक गई सो स्टेशन से वापिस आया। बंसे-का-बंसा मुहरबंद लिफाफा भाई के हाथ में दे दिया। रात को क्या जाने कंसे भाई को अंतर्प्रेरणा हुई कि मुहर को तोड़ डाला। अंदर से पत्र देखा तो नमक करवाली कलम न थी। दूसरे दिन नई नकल तैयार करके

भेजी। इस सारी घटना में ईश्वर का हाथ था। परिणाम भी शुभ ही आया।

३० जनवरी '४३

आज शनिवार है, महादेवभाई की समाधि पर सरोजिनी नायडू और मीराबहन गईं। फूल बहुत थे। कल रातवाले भी अभी सूखे नहीं थे। इसलिए जिन फूलों का फ्रांस बनाते हैं, उन्हें फ्रांस के सिर पर ज्योतिर्बिम्ब (Halo) के रूप में सजा दिया।

सर्वो बहुत होगई है, अच्छा लगता है।

कल बापू ने विचार किया था कि आज बाइसराय को कलवाले पत्र की टाइप की हुई नकल भेजेंगे। कल रात भाई ने टाइप किया। नकल जितनी चाहिए उतनी साफ़ न थी। भाई कहने लगे कि दूसरी साफ़ नकल करता हूँ। बापू ने नकल के साथ भेजने के लिए नोट लिखा। उसे खादी कागज पर साफ़-साफ़ लिखने बंटे; लेकिन कागज पर दो बार धब्बे पड़ जाने से तीसरा कागज लेना पड़ा। बापू ने कहा कि यह अंतिम बार है। इस बार भी बिगड़ा तो खत नहीं भेजेंगे। इतने में मीराबहन आगईं। उन्होंने दूसरे कागज का धब्बा चाकू की नोक से साफ़ कर दिया। बापू फिर लिखने बंटे। पूरा करके मीराबहन के हाथ में दिया। देखा तो वो शब्द ही छूट गए थे। बापू ने कहा, "नहीं भेजेंगे।" इतने में भाई आए। साफ़ नकल का समय न था। आज शनिवार है, इसलिए पत्र जल्दी जाना चाहिए। बापू का पत्र लेकर वही पुरानी नकल भेजने का विचार किया, मगर बापू ने कुछ न भेजने का विचार कर लिया था। सो सब रह गया।

सरोजिनी नायडू की तबीयत आज अच्छी है। बा की भी अच्छी है। बा के पास आज कनु का पत्र आया है इसलिए बहुत खुश है। बा का रक्तचाप भी आज बहुत दिनों के बाद शाम को १६२/१०० आया।

आज मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगरहा है। विविध विचार उठा करते हैं। विचार आते हैं कि कैसे लोग जेल में घबराते हैं और पागल से भी बन जाते हैं।

३१ जनवरी '४३

सरोजिनी नायडू का वजन बराबर कम होरहा है। कमजोर होती जा रही है। ६-७ वस्तु रोज़ ही जाते हैं। आंतों की पुरानी पेचिश (Chronic amoebic dysentery) है और उसके साथ उनका बिल भी कमजोर है। इसलिए आम तौर पर इस रोग में जो दवा दी जाती है, उसे बेते हुए डर लगता है। थोड़ा घूमते तो शाम को पांच में सूजन आजाती है। जिगर दबाने से दुखता है।

मैंने और डा. शाह ने उन्हें कारबोर्सोन (Carborson) दिया था; मगर उससे उन्हें मरोड़ उठने लगे। अब क्या होता? उनके चलने-फिरने और खुराक पर

हमारा कोई बस नहीं था ।

मैंने निश्चय किया कि मुझे कह देना चाहिए कि इन्हें अभी छोड़ दो। यहां और बोझ आनेवाला है। ऐसा न हो कि उसमें ये और अधिक बीमार पड़ जावें। कमजोरी की हालत में बीमार पड़ जावेंगे तो भारी खतरा उठाना पड़ेगा। सो मैंने कटेली साहब से कहा। बाबू में भंडारी और डा. शाह आए, उनसे भी कहा। डा. शाह भी कहने लगे कि उनका स्वतंत्र मत तो सरोजिनी नायडू को बिना इलाज के छोड़ देना था; क्योंकि उनका इलाज आसान न था। सरोजिनी नायडू भंडारी और डा. शाह पर बहुत नाराज हुईं। कहने लगीं, “मैं तो अच्छी हूँ। तुम्हें लोगों को आज की परिस्थिति में मुझे छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए।” मगर जब दवा की बात आई तो कहने लगीं, “मैं दवा नहीं खाऊंगी, बिस्तर पर नहीं पड़ूंगी और न खास खुराक ही खाऊंगी।”

भंडारी बापू से कहने लगे कि उन्हें कटेली साहब ने उपवास की बात बताई थी। उन्हें बहुत चिन्ता होरही थी। बापू कहने लगे, “यह तो कटेली साहब ने आपको घरेलू तौर से खबर दी है। मगर जो हो आप चिता क्यों करते हैं? आपको तो सब आवेश ऊपर से ही मिलेंगे। मेरे जैसा आदमी इन लोगों के झूठे इन्जामों का और क्या जबाब दे सकता है? मैंने उनसे कहा है कि वे इन इलजामों के लिए सबूत दें। मैं जो कहता हूँ, सब साबित करने को तैयार हूँ। मगर वे लोग सबूत नहीं देसकते। तब मैं लाचार होजाता हूँ—देश भर का दुःख, भुखमरी आदि मैं चुपचाप कहाँ तक देख सकता हूँ?”

आज भी सर्दी खूब थी। स्नान के बाद बापू बाहर जाकर बैठे। ठाई बजे कातने के लिए अंदर आए।

मैंने आज डायरी की पहली नोट बुक में से जो कुछ निकालना, काटना-छांटना था, वह पूरा किया। रात के दस बजे सोने को मिला। बापू को पेशाब की बोटल समय पर न देसकी। वे उठकर गुसलखाने गए। बुरा लगा। नींद भी काफ़ी देर से आई।

१ फ़रवरी '४३

सुबह भीराबहन कलेण्डर की तारीख बदलने आई तो कहने लगीं, “आज पहली तारीख है। लाल रंग में लिखी होगी।” मुझे विचार आया कि तारीख ही लाल रंग में नहीं, बल्कि महीने का नाम भी लाल रंग में लिखा है। यह खास महीना है। कौन जाने, यह महीना क्या-क्या रंग बिखाएगा!

बापू का आज मौन था। मैंने महादेवभाई की बाहर बिलारी हुई चीजों को एकत्रित करके बंद कर दिया। भाई की सलाह थी कि उनके कपड़े उनके बिस्तर में डालकर उनका बक्स में इस्तेमाल कर लू। बापू को भी वही पसंद था। सो उनके कपड़े उनके बिस्तर में बांध दिये। बक्स की चीजें ठीक कर रही थी कि इतने में सरोजिनी नायडू आईं और कहने लगीं, “तुम्हें ठीक तरह खाना चाहिए और तंदुरुस्त रहना चाहिए; क्योंकि उपवास में बापू की सम्भाल की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। हम सब मदद करेंगे;



मगर तुम डाक्टर हो। सब लोग तुम्हें ही पूछेंगे।”

मंने कहा, “आप मेरी इतनी चिन्ता करती हैं, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।” ठाई से तीन बजे तक मिलकर काता। दोपहर को उन आवश्यक चीजों की सूची बनाती रही जो उपवास में काम आएगी।

दिन में सर्दी कुछ कम थी; मगर रात को फिर बढ़ गई। बा की तबीयत कल शाम को भी और आज भी अच्छी न थी। बुखार-सा लगता था; मगर मापने पर बुखार न निकला। कल तो हृदय का दर्द उठा था। बापू से भी ज्यादा चिन्ता बा के लिए होती है। वे बापू का उपवास कैसे सहन करेंगी ?

शाम को भाई की करीब तीस किताबें आईं। चार महीने पहले मंगाई थीं और आज ऐसे मौके पर आईं हैं। भाई मजाक कर रहे थे, “मेरा सामान तभी बढ़ने लगता है जब मैं छूटने पर आजाता हूँ। यह शर्म चिह्न है।”

आज शाम को डा. शाह शीशे का एक बड़ा अमृतवान लाए, जिसमें शहद था। वह भंडारी की मार्फत आया था।

२ फरवरी '४३

आज सवा दो से पीने तीन बजे तक दोपहर में कातना रखा। तीन बजे सरोजिनी नायडू को बापू से बातें करनी थी। उसके लिए उन्होंने एक घंटा मांगा था। बापू ने ध्यान में बैठकर माला भी सवा दो से पहले ही फेरली थी।

घूमने के बाद कटेली साहब ने बापू से हमारे नए बंडमिन्टन कोर्ट का उद्घाटन कराया। सरोजिनी नायडू और बापू के हाथ में रॉकेट और चिड़िया दी। बापू ने तो दो-चार बार कोशिश करके चिड़िया जाली के पार भेजदी; पर सरोजिनी नायडू ने ऐसे ही छोड़दी। बाद में मीराबहन, भाई और कटेली साहब कुछ समय तक खेलते रहे। कटेली साहब के घुटने में मोच आगई। रात को खूब दर्द बढ़ा।

३ फरवरी '४३

कटेली साहब दर्द के कारण सुबह नीचे नहीं उतर सके। रात भर सोए भी न थे। घुटने का जोड़ अपने स्थान से कुछ हटा हुआ-सा लगता था। मंने उसे उचित स्थान पर बंठा दिया, मगर दर्द कुछ तब भी रह गया। मंने उन्हें माफिया (नींद की दवा) का इंजेक्शन दिया।

दिन में कलेक्टर के साथ डा. शाह आए। उन्होंने स्काट्स ड्रेसिंग (Scott's dressing) लगाने की सलाह दी। मंने लगा दिया। उपवासवाली आवश्यक चीजों की सूची उन्हें दी ताकि वे देखलें कि वे चीजें कहां से मंगाई जासकती-हैं।

शाम को भंडारी आए। इधर-उधर की बातें करके चले गए। वे बम्बई से आ रहे थे। सरोजिनी नायडू सोचती थी कि बापू के उपवास के संबंध में बम्बई गए होंगे मगर शायद ऐसा न भी हो। उपवास की विद्वस्त खबर अभी इन लोगों को मिली ही कहा है। कटेली साहब का दर्द रात में फिर बढ़ा। ठाई के करीब वे सो सके, मगर दिन

में अच्छे थे। उनके घुटने पर थोड़ी मालिश की गई और जोड़ को थोड़ा हिलाया-डुलाया गया। अब घुटना पूरा सीधा होजाता है; मगर पूरा मोड़ने में बर्ब होता है। सुजन वगैरा कुछ नहीं है।

शाम को मैं भाई और मीराबहन के साथ कुछ समयतक बंडमिन्टन खेलती रही। फिर भाई के साथ बंठकर कतरन का कुछ काम किया। काता आज भी सवा दो से पौने तीनतक।

बापू ने आज 'ले मिजेराब्ल' समाप्त की। उन्हें किताब अच्छी लगी है। उनको सबसे हृदयस्पर्शी स्थल वह लगा जहां पां बालयां (Jean Valjean) ने जेवर्ट (Javert) को छोड़ा है।

४ फ़रवरी '४३

आज सबीं कुछ कम हुई है। बाइसराय का उत्तर यदि जल्दी-से-जल्दी आना था तो आज आजाना चाहिए था, मगर नहीं आया। मीराबहन कह रही थी, "यह अच्छी निशानी है। वे लोग विचारते होंगे कि क्या करना चाहिए।" बा ने कहा, "नहीं, बाइसराय बिल्ली में था ही नहीं—ऐसा मंने अलबबार में पड़ा था।" ज्यों-ज्यों उपवास की तलवार निकट आती जाती है, वातावरण में उदासी भरती जाती है। ऐसे वातावरण में भला कोई छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान देसकता है, यह समझ में नहीं आता। मगर बापू ऐसी आशा सबसे करते हैं।

मीराबहन आज कह रही थीं कि उनकी तबीयत जितनी अच्छी इस समय है, उतनी अच्छी पिछले दस वर्षों में कभी नहीं थी।

आज अगस्त महीने की कतरने निकालना पूरा किया।

बा ने दो दिन से मेरे साथ गीताजी पढ़ना फिर शुरू किया है। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। चिन्ता के बोझ के कारण वे एकदम कमजोर हो गई है। बगीचे में जाकर बैठने की भी उनमें हिम्मत नहीं। बापू मानते हैं कि समय आने पर वे बहादुरी दिखावेंगी, मगर भगवान जाने क्या होगा! मुझे तो बापू से भी अधिक बा के बारे में चिंता हो रही है।

कल घूमते समय बापू भाई से कह रहे थे, "मैं जो कुछ कहूं, वह यदि सचमुच वजनदार लगे तो नोट करने के बजाय उसे पचाकर अपने जीवन में उतार लेना चाहिए।"

५ फ़रवरी '४३

सुबह महादेवभाई की समाधि पर मैं बेर से पहुंची। गीता-पाठ करीब आधा पूरा हो गया था। बुरा लगा।

घूमते समय मीराबहन पक्षियों की बातें करने लगीं। उन्हें पक्षियों और पौधों का बड़ा शौक है। उनको खूब ध्यान से देखती रहती है और अनेक बातें जो हम लोग नहीं परख पाते हैं, वे जान लेती हैं। बापू एक दिन कह रहे थे, "मीराबहन तो सचमुच प्रकृति की

पुजारिन है। पक्षियों, पौधों और जानवरों के बारे में जो पूछना हो उससे पूछो। इन चीजों का वे अभ्यास करती हैं और उसमें से रस के घूंट लेती हैं।”

दोपहर में डाई से तीन बजे तक काता। बापू पहले की तरह फिर रामायण में काट-छांट करने लगे हैं। कल काट-छांट द्वारा निकाला हुआ भाग ही पड़ा। तुलसीदास के रामजी की बरात के लम्बे-लम्बे वर्णन सुनते-सुनते बा थक गई थीं। इसीलिए बापू ने उनमें से बहुत-से अंश छोड़ दिये हैं।

आज वाइसराय के उत्तर की आशा थी; मगर नहीं आया।

शाम को घूमते समय मंने बापू से पूछा, “आप उपवास से क्या आशा रखते हैं?” बापू कहने लगे, “जो काम शुद्ध भाव से किया जाता है, उसका परिणाम अशुभ नहीं हो-सकता है। जो होगा, अच्छा ही होगा। बात इतनी है कि मैं राजकोट की तरह कोई गलती न कर बैठूं। वहाँ मंने वाइसराय को अपने ओर ठाकुर के बीच चलती हुई लड़ाई में ईश्वर का स्थान देबिया था। वह भारी भूल थी। इसीलिए मंने वहाँ सब मिली हुई चीजें फेंक-दीं। वह भूल न करता तो राजकोट के उपवास का अद्भुत असर होनेवाला था। उप-वास में मनुष्य का मस्तिष्क कहां तक साफ रहता है, कहा नहीं जासकता। पता नहीं कि ईश्वर ने क्या सोचा है? मैं लोप भी होजाऊं तो वह अशुभ परिणाम नहीं कहा जासकता। इसका अर्थ यह है कि भगवान दूसरी तरह से काम करना चाहता है। हमें ईश्वर के कामों की आलोचना करने का अधिकार नहीं।”

सर्वां थोड़ी कम हुई है, मगर रात को एक बजे से सुबह सूर्योदय तक फिर बढ़ी थी।

कटेली साहब आज भी रात को बहुत कम सो सके। दिन में उनका बर्द कम रहता है, मगर रात को बढ़ता है।

शाम को मैं और भाई घूमने के बाद बेंडमिन्टन खेलने गए। रघुनाथ भी हमारे साथ खेलने आया। मीराबहन ने खेलना छोड़ दिया है। हम खेल चुके तब हिपाही लोग खेलते रहे।

६ फरवरी '४३

आज शनिवार है। सुबह सरोजिनी नाथडू समाधि पर आईं। बापू कह रहे थे कि उनकी नियमितता अद्भुत है। कुछ भी हो। वे शनिवार को नहीं चूकती हैं। मीराबहन भी आईं। बा नहीं आईं। वे आजकल थकी-सी रहती हैं। उन्हें चिंता खाए जाती है।

बापू ने बाइबिल के ‘न्यू टेस्टामेंट’ का मफेटवाला अनुवाद मंगाया है। मुझे कह रहे थे, “शाम को ‘न्यू टेस्टामेंट’ पढ़ना। तू बाइबिल लेकर बैठेगी, मैं अनुवाद हाथ में रखूंगा। ‘ओल्ड टेस्टामेंट’ अब अपनेआप पढ़ना।” मगर शाम को पहले तो उन्होंने मुझे खेलने भेज दिया। पीछे रामायण की काट-छांट दिखाकर मुझे दूसरी दो रामायणों में निशान लगाने को कहा। उसमें सारा समय चला गया।

वाइसराय का उत्तर आज भी नहीं आया। शाम को घूमते समय बापू कहने लगे,



चितक बापू

"आप उपवास में क्या खाया रखते हैं ?"

"पता नहीं कि ईश्वर ने क्या माँगा है। हमें ईश्वर के कामों की आलोचना करने का अधिकार नहीं।" पृष्ठ २०८

“शायद उत्तर भेजे ही न। उत्तर की जगह उन्हें जो कुछ करना होगा, उसकी सूचना सीधी भंडारी इत्यादि के पास भेज देंगे।” भाई से कहने लगे, “मान लो, इस उपवास के कारण मैं लोप हो जाऊँ तो तुम लोगों से मैं क्या आशा रखूँगा, यह समझ लो। महादेव की मैं भाट की तरह स्तुति करता हूँ, मगर मेरा मन उसकी शिकायत भी करता है। उसकी मिसाल सम्पूर्ण या आदर्श नहीं मानना चाहिए। वह इस विचार का जप करते-करते चला गया कि ‘मैं बापू के बाद क्या कर सकता हूँ? बापू से पहले चला जाऊँ तो अच्छा है।’ मगर उसे तो कहना चाहिए था कि ‘नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है और बापू का काम करना है।’ यह बृद्ध संकल्प उसे मरने से रोक भी लेता। मैं अगर इस उपवास में लोप हो जाऊँ तो मैं अपना संदेश अधूरा छोड़ जाऊँगा। सत्याग्रह के विज्ञान को मैं पूरी तरह देश के सामने अभी नहीं रख सका। मेरे बाद मेरा संदेश जनता तक कौन पहुंचावेगा? जो लोग मेरे साथ रहे ही नहीं, मुझे जानते ही नहीं, वे लोग यह काम करेंगे या तुम लोग? मैं मानता हूँ कि वह तुम्हारा काम है। यह कहना कि हम क्या कर सकते हैं, उचित नहीं। ईश्वर पर भ्रष्टा रखोगे तो वह तुम्हें शक्ति देगा कि तुम मेरे संदेश को कैसे पूरा करो। मेरा कहना है कि जैसे मैंने किया है, जो सिद्धांत मैंने सबके सामने रखे हैं, जिन पर मैं आचरण करता हूँ, उन सबको तुम लोग अपने जीवन में धारण करो। तुम्हारा मार्ग अपनेआप तुम्हारे सामने खुलता जावेगा। तुम्हें और सुशीला को इसकी तैयारी करनी चाहिए। तुमने एक बार पूछा था कि सत्याग्रही जड़वत् क्यों लगते हैं। मैंने उस विन जो उत्तर दिया था, उसे स्मरण रखो। मेरे बाद वे जड़वत् नहीं रहेंगे। जबतक कोई रास्ता बताने वाला होता है तो सभी उसकी ओर देखते हैं और जब वह नहीं होता तो वे अपनेआप अपने पंरो पर खड़े होते हैं। सो जब हमारे लोग अपनेआप अपने पांव पर खड़े होंगे तो भगवान् उन्हें अगला कदम सुझा देगा। आज से उसका विचार भी नहीं करना चाहिए।”

भाई कहने लगे, “इतना तो है ही कि आपके काम के लिए ही जीना अथवा मरना है। इससे अधिक आज क्या कहूँ? पूछने को बहुत है, मगर आज हिम्मत ही नहीं होती। आपको कुछ और विशेष संदेश देना हो तो मुझे बता दें या लिख दें। मैं भी कुछ बातें आपके सामने लिखकर रखूँगा।”

: ३६ :

## वाइसराय का उत्तर

७ फरवरी '४३

हम सबने सोचा था कि शनिवार को वाइसराय का उत्तर न आया तो फिर सोमवार को ही आएगा। आज वस बजे डा. शाह आए। मैं उनसे बात करने को निकली तो सामने से कटेली साहब आ रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, “आपको नीचे उतरने

की इजाजत किसने दी ?” हंसकर पूछने लगे, “बापू कहां हैं ?” बापू मालिश करवा रहे थे। वहां जाकर मि. कटेली ने उन्हें एक बड़ा और एक छोटा लिफाफा दिया। बताया कि कल रात दस बजे एक एलची बम्बई से आया था। वह यह पत्र लाया था और आज सुबह ११ बजे उन्हें देने को कहा था। कटेली साहब ११ बजे के करीब बापू को पत्र दे गए। मंने बापू को सुनाया। वाइसराय का उत्तर बहुत खराब था, गुस्से से भरा था। छोटे लिफाफे में लेखवेट का पत्र था। उसने पत्र-व्यवहार छापने के बारे में लिखा था। कटेली साहब ने कहा था कि उत्तर भेजना ही तो खास एलची के द्वारा भेजने का हुक्म है। गाड़ी दोपहर दो बजे और रात को आठ बजे जाती थी। बापू ने दो बजे वाली गाड़ी से जाने के लिए एलची को तैयार रखने को कहा। खाना खाकर भाई को उत्तर लिखवाया। सब पूरा हो जाने पर केवल आधा घंटा बाकी रहा। इतने समय में साफ़ नकल नहीं हो सकती थी। एलची को आठ वाली गाड़ी से भेजने का निश्चय हुआ।

बापू आराम करने को लेटे, मगर कोई-न-कोई बात करने को आ जाता था, इसलिए वे सो न सके। भाई को लेखवेट के पत्र का उत्तर लिखवाया। भाला फेरी, चर्ला काता। कातते समय भाई और मोराबहन ने कुछ सूचनाएं कीं। सवा तीन बजे सब काम करके उठे। पहले भाई से कहा था कि वे मुझे पत्र लिखवा दें, मगर फिर बिचार बदला। भाई ने लेखवेट वाला पत्र टाइप किया। मंने फल का रस निकाला। साढ़े चार बजे बापू खाने बंटे तब मुझे लिखवाने लगे। बोलते-बोलते कई सुधार भी किये। एक घंटे में सब काम पूरा हुआ। धूमते-धूमते बापू ने उस पत्र को फिर से पढ़ा। वापस आकर मंने और मोराबहन ने अपनी नकल पत्र के साथ मिलाई। पीने सात बजे तैयार करके कटेली साहब को दिया और प्रार्थना में बंटे। बापू का उत्तर बहुत अच्छा था। अपने-आप हृदय से निकला था। एक सांस में बापू ने उसे लिखवा डाला था।

कटेली साहब कल रात इतना चले कि रात भर घुटने के दर्द के मारे सो नहीं सके। दिन में भी नहीं सोए। आज रात को उन्हें भाफिया का इंजेक्शन दिया। सो गए।

सरोजिनी नायडू बड़ी सहयोग की भावना में थीं। मुझसे कहने लगीं, “सुशीला, तुम मुझे हुक्म देने में हिचकिचाहट न करना। मैं तुमसे आदेश लेकर काम करने वाली हूँ। जिम्मेवारी तुम्हारी है। बताओ, क्या-क्या चाहिए ?” मंने बताया।

८ फरवरी '४३

सुबह भंडारी जीर डा. शाह आए। मंने उन्हें अवश्यक चीजों की एक सूची दी। सलाह दी कि उपवास से पहले बापू के खून की परीक्षा और हृदय का चित्र बनवा हो जाए। डा. शाह नाराज होकर बोले, “इससे क्या फायदा होगा ? मेरा तो इन चीजों में विश्वास ही नहीं। मैं पुरानी फंशन का हूँ। मैं लेबोरेटरी के बजाय अपने हाथ-पांव और आंखों वगैरों पर अधिक भरोसा करता हूँ।”

मैंने कहा, “आप बड़े हैं। मेरी जो बात आप चाहें, रद्द कर सकते हैं। मैंने तो सलाह दी है कि यह करवाना चाहिए।”

डा. शाह कहने लगे, “नहीं-नहीं, मैं प्रयत्न करूंगा कि तुम्हें सब कुछ मिल जाये। मगर समय लगेगा। मुझे हुकम है कि किसीते उपवास का जिक्र न करूं, इसलिए मेरी परिस्थिति जरा कठिन है।”

भंडारी भी कह रहे थे, “यह सब क्यों करवाना चाहती हो? क्या पहले उपवासों में यह सब करवाया था?”

भाई कहने लगे, “हां।”

दोनों बहुत घबराए हुए थे।

आज बापू का मौन था। सबने समय पर काता, दिन में अपना-अपना काम करते रहे। कल उपवास शुरू होगा, इससे सबके दिल बँठे हुए थे। शाम को मैं खाना ला रही थी तो मन में आया, “फिर कब इस तरह बापू के सामने खाना रखेंगे?”

भाई टाइप करने में लगे रहे। शाम को बापू को खाना देकर साढ़े चार बजे हम लोग खाना खाने बँठे। इतने में पीने पांच बजे। कर्नल भंडारी और अरविन सरकार का उत्तर लाये थे। उत्तर पढ़कर बापू ने मौन न छोड़ते हुए अरविन को लिखा— “इसमें मेरे सार्थियों का उल्लेख है, इसलिए मुझे अपने सार्थियों से बात करनी होगी। अगर आप बर्गर तकलीफ के ६ बजे आ सकें तो अच्छा होगा।” अरविन ६ बजे आने को कहकर चले गए। ६ बजे आए और बापू ने अपना उत्तर उन्हें दिया। उसे पढ़कर अरविन ने कहा, “आपने लिखा है कि यदि जरूरत हो तो आप अपना उपवास एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे। आप जरूर ऐसा करें, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी।”

बापू ने यह स्वीकार कर लिया।

: ४० :

उपवास : अग्निपरीक्षा

पहला सप्ताह

१० अक्टूबर '४३

सरकार को बिये गए नोटिस के अनुसार बापू ने आज सुबह के नाश्ते के बाद उपवास शुरू किया। उपवास शुरू होते समय हमेशा प्रार्थना की जाती है। आज भी बापू के नाश्ते के बाद हम सबने छोटी-सी प्रार्थना की। बापू का दिन का कार्यक्रम रोज की तरह चला। सुबह-शाम धूमना, समाधि पर फूल चढ़ाना, दिन में पढ़ना-लिखना, कातना—सब रोज के निश्चित समय पर बापू ने किया।

मुझे बुलाकर कहने लगे, “उपवास में मेरी सेवा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी

सुप्त पर आने वाली है। इसलिए तू लिखना-पढ़ना और डायरी लिखना इस बख्त भूल जा।" भाई को बुलाकर बोले, "इन विनों की डायरी तुम्हें रखनी हो तो रखो। सुशीला से उसकी आशा न रखना। इन विनों में डाक्टरों का काम सारा समय ले लेगा। मैं नहीं चाहता कि वह नींद बगैरह से समय निकालकर लिखने का काम करे।" मुझसे कहने लगे, "तू अगर लिखने का काम करेगी तो मैं तेरी सेवा नहीं लूंगा।" इसी वजह से उपवास की यह डायरी भाई के नोटों और डाक्टरों काफ़रोंसे वाले अपने नोटों के आधार पर तैयार की है।

सरकार ने बापू को कहलाया था कि वे अपने लिए कोई डाक्टर चुन सकते हैं। बापू ने कहा, "सुशीला मेरे पास है। मेरे लिए वह बस है। अगर उसे मदद लेनी होगी तो वह मांग लेगी।" मैं बिचारने लगी कि क्या बापू के उपवास की देखभाल की जिम्मेदारी अकेले मुझे ही उठानी चाहिए? स्थिति बिगड़े तो क्या एक लड़की की बुलेटिन को सरकार ख़जान देगी? उपवास में दवा तो देनी नहीं होती, कोई खास इलाज तो करना नहीं होता, तो भी छोटी-छोटी बातों में डाक्टरों की मदद ली जा सकती है। सबसे बड़ी सेवा तो यह होती है कि देश और सरकार को बापू की स्थिति से ठीक-ठीक वाक़िफ़ रखा जाय। मैंने अपने विचार और उलझनें बापू के सामने रखीं। वे बोले, "हां, तेरा बोझ हलका करने के लिए दूसरों को बुला लेना अच्छा होगा।"

सो मैंने सरकार को लिखा है कि वह डा० गिल्डर, डा० बिधान राय और डा० जीवराज मेहता को भेजें। पहले के उपवासों में भी वे बापू की देखभाल कर चुके थे। मालिश इत्यादि के लिए प्राकृतिक चिकित्सा-गृह के डा० बंनशा मेहता को बुलाने का विचार किया।

११ फरवरी '४३

आज सुबह बापू चलकर महादेवभाई की समाधि पर आए। बाद में मालिश इत्यादि का कार्यक्रम चला।

डा० गिल्डर को आज सुबह यरवदा जेल से आगाख़ा महल में लाया गया। डा० साहब ने जेल में आकर बाड़ी बड़ा ली थी। उसे देखकर हम सब खूब हंसे। मैंने कहा, "डा० साहब, सिनेमा में जैसे लुई पास्चर लगते हैं, वैसे ही कुछ-कुछ आप दिखाई देते हैं।"

बापू ने दिन भर पानी पिया। अभी तक पानी पीने में बहुत ज्यादा तकलीफ़ नहीं होती। मतली अभी शूह नहीं हुई, मगर कमजोरी लगने लगी है।

कनैल भण्डारी ने उपवास के दरम्यान मुलाकातो आदि के बारे में बापू को निम्नलिखित सरकारी फंसला सुनाया:

(१) किससे मिलना है, यह फंसला गांधीजी को करना होगा। वे जिसे चाहें, बुला सकते हैं।



(२) जिस विषय पर वे चाहें, बात कर सकते हैं। इस बारे में कोई बंधन नहीं होगा।

(३) मुलाकात के समय एक सरकारी अफसर हाजिर रहेगा।

(४) बातचीत की रिपोर्ट अखबारों में नहीं छप सकेगी।

इसके जवाब में बापू ने सरकार को लिखा कि मुलाकात मांगने का बोझ उन पर न डाला जाय। जो उनसे मिलना चाहें, सरकार उनसे बिना पूछे उन्हें इजाजत दे दे। जो आश्रमवासियों से वाक्यार्थ में लगे थे, जिन्होंने पहले उपवासों में उनकी सेवा की थी, उन सभी को इस उपवास में उनकी सेवा की इजाजत दी जाय। इसके अलावा श्री मधुरावासभाई की तबीयत के बारे में भी खबर पुछवाई। अखबार में खबर थी कि भंसालीभाई भी बापू के साथ उपवास कर रहे हैं। बापू ने सरकार से प्रार्थना की कि वह उनका एक संदेशा टेलीफोन से भंसालीभाई को उपवास छुड़ाने के बारे में भेज दे।

१२ फरवरी '४३

बापू की कमजोरी बढ़ रही है। वजन करीब दो पौण्ड रोज के हिसाब से घट रहा है, मगर पानी पी सकते हैं। किसी-किसी वक्त मतली तो होती है, मगर उलटी नहीं हुई। समाधि तक चलकर फूल चढ़ाने के लिए आज उनमें शक्ति नहीं थी। हम लोग फूल चढ़ाकर समाधि पर प्रार्थना कर आए।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' को आज सरकारी नोटिस मिला कि उपवास की खबर बड़े-बड़े शीर्षकों में न छापे। कोई शीर्षक दो कालम की चौड़ाई से अधिक न हो और सरकारी खबरों के अलावा उपवास के बारे में और कोई भी खबर बिना सरकार द्वारा सेन्सर कराए न छपी जाय।

वित्ली में असेम्बली के बजट-सेशन के लिए कई नेता आये हुए थे। सब लोग श्री हृदयनाथ कुंजरू के मकान पर मिले और फंसला किया कि नेताओं को एक कान्फरेन्स जितनी जल्दी हो सके, बुलाई जाय। इस बारे में राजाजी व सर तेजबहादुर सप्रू को तार बिये गए। अखबारों से पता चलता है कि सारा देश बापू के उपवास की खबर से बहल गया है।

गर्मी एकाएक बढ़ गई है। बापू की साट बरामदे में रखी थी। आज दोपहर को उसे भीतर लाना पड़ा।

अम्माजान (सरोजिनी नायडू) हम सबकी सम्हाल बहुत प्यार से कर रही है। अपनी बीमारी भूल गई है। कमर कसकर बापू की सेवा करने को तैयार है। सारा समय बापू के पास बैठती है। हमारे जेल सुपरिन्टेंडेंट श्री कटेली साहब घुटने के दर्द के बावजूद भी दिन भर ऊपर-नीचे चक्कर काटा करते हैं। कर्नल शाह और कर्नल भंडारी भी आते हैं और बापू की तबीयत का हाल पूछकर चले जाते हैं। इन सरकारी अफसरों पर दोनों ओर से बोझ पड़ रहा है। बापू के प्रति हर हिन्दुस्तानी के दिल में मुहब्बत और

इज्जत होना स्वाभाविक है, मगर साथ ही इन सरकारी नौकरों को सरकार को भी खुश रखना है। अपनी रोटी का सवाल है।

१३ फरवरी '४३

कल शाम से बापू की मतली बड़ गई है। इसी कारण रात उन्हें अच्छी नींद भी नहीं आई।

अखबारों से पता चला कि दुर्गाबहन, नारायण और कनु कल रात पर्णकुटीर आ गए हैं। शाम को कटेली साहब ने कहा, “उन लोगों ने यहां आने को अर्जों दी है। बापू बुलावें तो उनका आना आसान हो जाएगा।” बा बापू से कहने लगी, “बुलाइये न। बेचारी दुर्गा को आश्वासन मिलेगा।” बापू बोले, “मैं किसीको बुलाऊंगा नहीं, यह सरकार को लिख चुका हूं। उसे जिसे आने देना हो, आने दे।” बा जरा निराश हुईं और थोड़ी नाराज-सी हो गई। कटेली साहब से कहने लगी, “सरकार से कहो कि श्रीमती गांधी दुर्गा, नारायण व कनु को बुलाती हैं। गांधीजी की सेवा के लिए इनकी जरूरत है।” बापू से बोली, “आप चाहें तो न बुलाएं। मुझे भी तो कुछ हक है।” बापू हसने लगे। बोले, “सरकार तेरा हक माने तो चला।”

खबर मिली कि आज शाम को डा० बिधान राय अपने एक सहायक के साथ कलकत्ते से रवाना हो गए हैं।

कर्नल भण्डारी तीन बार आए। मुलाकातो के बारे में चर्चा चल रही थी।

१४ फरवरी '४३.

मतली और उल्टी के कारण बेचैनी अधिक हो गई। पानी पीने में भी कठिनाई आने लगी है। पानी में कुछ नींबू के रस की बूंदें और नमक या सोडा डालकर पीने का प्रयत्न करते हैं। बेचैनी और कमजोरी के कारण पढ़ना बगैरा भी कम हो गया है।

खबर मिली कि भंसालीभाई ने उपवास छोड़ दिया है।

सुनते हैं कि डेरोसल और तार उपवास के बारे में आ रहे हैं, मगर सरकार उन्हें कहीं जमा कर रही है। अखबारों में देखा कि डा० बिधान राय आज की जगह कब्ज यहां आवेंगे। आज शायद बम्बई में रुक गए हैं। किसी अखबार वाले ने उनसे पूछा कि क्या गांधीजी उपवास पूरा करेंगे? डा० राय ने उत्तर दिया, “१९३८ में उनका जो उपवास हुआ था, वह छोटा-सा था। आज तो उपवास लम्बा है और गांधीजी की उम्र भी ज्यादा है, सो चिंता तो होती ही है। इस समय की परीक्षा कठिन है।”

बम्बई के सर्जन-जनरल कैंडी आज पूना आए हैं। बापू के कान में दर्द है। फुंसी-सी लगती है।

कई मित्र और रिश्तेदार पूना आकर बैठे हुए हैं और मुलाकात करने के विषय में सरकार की इजाजत की राह देख रहे हैं।

सुनते हैं कि ठक्कर बापा भी आज यहां आ गए हैं ।

१५ फरवरी '४३

मतली, उल्टी और बेचैनी सता रही है । नीबू और नमक के साथ भी पानी पीने में कठिनाई आ रही है ।

सुबह जरनल कंडी, भंडारी, शाह और मजिस्ट्रेट साहब बापू को देखने आए । रात को डा० बिधान राय आए । उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई । बाहर की ताजा हवा मिली ।

आज दुर्गाबहन, नारायण और कनु को भी आगालां महल में आकर रहने की इजाजत मिल गई है । उनके आने से बहुत अच्छा लगा । उनको-महादेवभाई की समाधि पर ले जाते समय सबके दिल भरे थे, आंखें भीगी थीं । दुर्गाबहन के लिए बापू के पास आना इस समय दवा-रूप है । वे लोग उपवास पूरा होने तक यहीं रहेंगे ।

कर्नल भंडारी और शाह आज तीन बार आए । प्रार्थना में लीन हो जाने पर बापू की तकलीफ अपनेआप कुछ कम हो जाती है । प्रार्थना तो हमेशा सुबह-शाम होती ही है । इस उपवास में गीता-पारायण नहीं करवाते ।

दिन भर बापू का मौन रहा ।

१६ फरवरी '४३

सुबह डा० गज्जर बापू के रक्त व गुर्वे के काम आदि की परीक्षा के लिए आए । बापू की हालत और बिगड़ी है । अशक्ति इतनी है कि पानी का गिलास पकड़ना भी कठिन हो रहा है । उन्हें पहियेदार खाट पर मुला रक्खा है । यह खाट पेट का आपरेशन हो जाने के बाद रोगी के काम आती है । उठाने-बिठाने के समय चाबी घुमाने से खाट अपनेआप उठ जाती है ।

बापू की अशक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है । आवाज बहुत कमजोर हो गई है, मगर डाक्टर इत्यादि आते हैं तो सबसे हंसकर बात करते हैं । शांतिकुमारभाई मिलने आए थे । उनसे बापू ने कहा, "कोई ऐसा न माने कि आज जो बाहर चल रहा है, उसमें मेरी सम्मति है । बस फँकने में तो मेरी इजाजत हो ही नहीं सकती । रेल, तार, टेलीफोन आदि तोड़ने-फोड़ने के बारे में सत्याग्रह हो सकता है, मगर मेरी कल्पना आम कल्पना से बिलकुल जुदा किस्म की है, यह अगर मैं बाहर होता तो बताता । उसमें छिपी नीति की गुंजाइश है ही नहीं । वह केवल मौत का निशाना बन जाने का साधन-रूप है । जो लोग ऐसा सत्याग्रह करना चाहें, वे खुले तौर पर ऐलान कर दें कि अमुक समय पर हम तार काटने आरंभ करेंगे । आप अपनी पुलिस और फौज को बुला लें । एक-एक, दो-दो, आदमी वहां जाएं और गोली खाकर प्राण दे दें । हजारों-लाखों को जहां तैयार करना हो, वहां छिपी नीति का स्थान नहीं ।

“जो लोग छिपकर काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि वे अपनेआपको सरकार के हवाले न करें; क्योंकि हो सकता है कि उन्हें बरसों तक जेल में रहना पड़े। उन्हें अपनेआप भीतर से लगे कि यह बात ठीक है, छिपी नीति से देश को नुकसान होता है तो वे खुले तौर पर अपनेआप को सरकार के हवाले कर दें।”

शांतिकुमारभाई ने पूछा, “छिपकर अहिंसा का काम किया जा सके तो क्या वह भी नहीं करना चाहिए ?”

बापू बोले, “मेरी तो मान्यता यह है कि गुप्त नीति की जड़ में ही हिंसा है। इसलिए छिपाकर बुलेटिन निकालना भी हिंसा है। अपने मित्रों को मेरा यह संदेश पहुंचा देना।”

अखबारवालों ने डा० बिधान राय से पूछा, “क्या गांधीजी बच जाएंगे ?”

डा० राय का उत्तर था, “गांधीजी कभी-कभी डाक्टरों को चक्कर में डाल देते हैं, सो निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता।” आज बुलेटिन लिखते समय हम ६ डाक्टर मौजूद थे—जरनल कंण्डी, डा० बिधान राय, डा० गिलडर, कर्नल भण्डारी, कर्नल शाह और मैं। हमारी बुलेटिन सरकार के पास चली जाती है। पहले डा० गिलडर और मेरे दस्तखतों से ही जाती थी। अब सबके दस्तखतों से जाती है। सरकार को जो ठीक लगता है सो छापती है।

बापू का आज का दिन कल से अच्छा रहा, मगर स्थिति तो भी चिन्ताजनक है।

शांतिकुमारभाई के साथ बातचीत करते हुए बापू ने कहा, “हमारी शोभा अहिंसक मार्ग पर चलने में ही है। हमारे सामने चार आदमियों की बात नहीं, चार सौ की नहीं, चार हजार की नहीं, बल्कि चालीस करोड़ की है। मैंने तो सीधा रास्ता बताया है। कुछ भी न कर सको तो अपना कपड़ा लुढ़ा पंदा करो। विदेशी माल बिलकुल इस्तेमाल न करो। इतना समझ लो कि अंग्रेजी माल और विदेशी माल में कोई फरक नहीं है। तुम्हारे पिता बुश विदेश से मगवाते हैं। मैंने कारण पूछा तो कहने लगे, “वहां अहिंसक मिलता है—यहां अहिंसक नहीं मिलता।” मैंने कहा—तो फिर बुश छोड़कर वातुन इस्तेमाल कीजिए, मगर मेरे घर में ही बुश इस्तेमाल होता है। सुशीला और प्यारेलाल के पास बुश है और भूल नहीं करता तो महादेव का भी बिना बुश काम नहीं चलता था। इन लोगों के बक्स में शायद और विदेशी चीजें भी मिल जाएंगी, जैसे कि पेन है, घड़ी है, इत्यादि। तुम्हारे बक्स में भी होंगी। सो मेरा अपना ही घर फूटा है।

“मैंने जो अहिंसा का मार्ग बताया है, उस पर लोग न चल सकें तो अपने रास्ते पर चलें। पर मेरा नाम न इस्तेमाल करें। मैं जबतक बाहर न निकलूं, तबतक कुछ कह नहीं सकता। मैं तो जो था, वही हूँ, सरकार भले वह न पहचाने। मगर सरकार पहचाने या न पहचाने, ईश्वर तो पहचानता है। मेरा मंत्र ‘श्री राम’ नहीं, ‘हे राम’ है। वह मेरा साक्षी है। मैं जानता हूँ कि वह मुझे पहचानेगा।

“इतना समझ लो कि मेरा उपवास किसीके सामने (विपद्) नहीं है। मैं न्याय माँगता हूँ। सरकार किसी निष्पक्ष आदमी को सबूत के साथ मेरे पास भेजे। वह मुझे समझा सके या मैं उसे समझा सकूँ तो मुझे उपवास नहीं करना। बाहर जाकर मुझे यदि लगे कि इतने सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ और न होगा तो मुझे उपवास करके मरना पड़ेगा। वह अलग बात रही।

“आज हजारों लोग भूखों मर रहे हैं। मैं बाहर जाऊँ तो बहुत कुछ कहूँ और कहूँ भी, मगर इस बार सरकार की नीति अलग ही किस्म की है। उसे क्या पड़ी है। लोग मरें चाहे जियें। वाइसराय भला है, एमरी भी भला है। ये दोनों और चाँबल एक गुट्टू ही हैं। एक ही स्कूल में रहे हैं। इसलिए तो वाइसराय की मुहूत इतनी बढ़ाई गई है। इन तीनों ने निश्चय किया है कि कांग्रेस को मराना है।

“लोगों को तोड़-फोड़ करना हो तो वह भी खुले तौर पर करना चाहिए। हिंसा करनी हो तो वह भी खुले तरीके से। मारना है तो मारो। मगर याद रखो, इस रास्ते से हिन्दू कभी आजाद नहीं होगा। कभी स्वराज नहीं मिलेगा। जर्मनी-जापान हिंसा का रास्ता ले सकते हैं। वे छोटे-छोटे रास्ते हैं, मगर हमारे देश हिन्दू के चार्लिस कोटि लोग हिंसा-मार्ग ग्रहण करें तो दुनिया का नाश है। हम सीधे रास्ते पर चलें तो जगत् को भी वही रास्ता बता सकते हैं।

“मैंने सीधे-से-सीधा रास्ता बताया है। और सब छोड़ दो। धर में जो चीज बन सकती है, वह बनाओ और इस्तेमाल करो। सूत कातो और बुनो। एक-एक देहात को स्वतंत्र, स्वावलम्बी बनाओ, पोछे कोई सरकार तुम्हें बचा नहीं सकती। और आज तो सरकार को भी वह अमुकूल होगा।

“कोई ऐसा न माने कि बाहर जो चल रहा है वह सब मुझे पसंद है। मैं यह भी नहीं कह सकता कि वह अहिंसा की ढाल में आता है।”

प्रश्न—“तो जो लोग छिपकर काम कर रहे हैं, वे अपनेआपको सरकार के हथाले कार दें ?”

बापू ने कहा, “छिपकर काम करना मेरी इच्छा के विरुद्ध है। मुझे तो यह अच्छा लग ही नहीं सकता। मैंने हमेशा छिपी नीति की निन्दा की है। मगर मेरे कहने से कोई अपनेआपको सरकार के हथाले न करें। मेरे विचारों को हजम कर लें तो ऐसा करें। इसका यह भी परिणाम हो सकता है कि उन्हें कई सालों तक अंदर रहना पड़े।

“जब हम पकड़े गए तब जवाहरलाल ने मुझसे गाड़ी में पूछा, ‘अहिंसा में गुप्त नीति को स्थान है ?’ मैंने कहा, ‘नहीं।’ मैंने पकड़े जाने पर कहा था, ‘पकड़े जाने पर मेरी सरदारी पूरी हुई। अब जिसे जो ठीक लगे सो करे। इतना जरूर है कि अहिंसा की चहारदीवारी में रहकर जो हो सके, वही करना।’ जो लोग बाहर हैं, वे अपनी मति के अनुसार चलते रहें। अहिंसा को चला सकें तो चलावें। यह लड़ाई यदि अहिंसक

तरीके से चल सकेगी तो हम बहुत आगे बढ़ सकेंगे । मैं समझता हूँ कि तोड़-फोड़ का तरीका हमारे लिए नहीं है । अहिंसा के नाम पर यह सब चले तो ठीक नहीं ।”

## दूसरा सप्ताह

१७ फरवरी '४३

आज मतली थोड़ी कम हो गई है, पर कमजोरी और पानी पीने में तकलीफ बढ़ती जा रही है । बापू कभी सावा पानी पीते ही नहीं । कहते थे—सावा पानी पीने की आदत ही छूट गई है । हम लोगों को पानी का गिलास एक सांस में पीते देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ करता है । उपवास के पहले भी सामान्यतः सावा पानी पीने से उन्हें मतली-सो लगती थी । सो फल का रस या पानी में नींबू और शहब डालकर लेते थे । पर उपवास में शहब नहीं लिया जा सकता । फल का रस भी नहीं पी सकते । इसलिए उपवास का निश्चय करते समय उन्होंने ऐलान किया था कि पानी न पी सके तो उसमें थोड़ा-सा फल का रस डाल लेंगे; क्योंकि पानी के बिना आदमी २१ दिन नहीं जी सकता । बा और दूसरे लोग बापू से कह चुके हैं कि अब तो वे फल का रस पानी में डालकर लिया करे, मगर वे मानते नहीं । कहते हैं कि अभी समय नहीं आया । इधर पानी कम जाने से पेशाब कम आ रहा है । शरीर में जहर इकट्ठा हो रहा है । सबकी चिंता बढ़ रही है ।

आज बापू के हृदय की गति का चित्र (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम) लिया गया । खून इत्यादि की रिपोर्ट अभी नहीं आई । शरीर में पानी इकट्ठा न हो, इसलिए नमक और खाने का सोडा बंद किया है । उसकी जगह पोटेशियम के नमक मंगाए हैं ।

मुनते हैं, वाइसराय की कौन्सिल के तीन मेम्बरों—श्री एच. पी. मोर्दा, श्री एन. आर. सरकार और श्री अणे—ने इस्तीफा दे दिया है । इस्तीफा का कारण है बापू के उपवास के विषय में सरकार की नीति के साथ उनका मतभेद । इस्तीफा मजूर भी हो गया है । श्री एन. आर. सरकार ने एक छोटे-से वक्तव्य में कहा है, “हिन्दुस्तान के सबसे बड़े आदमी के बारे में सरकार की नीति से मतभेद होने के कारण मैंने इस्तीफा देने का निश्चय किया है । वह सबसे बड़ा आदमी हमारे स्वराज्य के ध्येय की जागती मूर्ति है । वह सामाजिक और जीवन के ऊँचे-से-ऊँचे आदर्शों को सामने रखने वालों में सबसे आगे है । उनका जीवन हिन्दुस्तान में अलग-अलग कौमों की मिश्रता के लिए और हिन्दुस्तान व ब्रिटेन की मिश्रता के लिए अत्यावश्यक है । हमारी श्रद्धाशक्ति उनका जीवन बचाने के लिए कुछ काम न कर सकी, मगर मुझे विश्वास है कि जहाँ हम निष्फल हुए हैं, वहाँ सर्वशक्तिमान ईश्वर स्वयं उनकी रक्षा करेगा और हमारे लिए उन्हें बचा लेगा । मेरी यही प्रार्थना है कि देश की सेवा के लिए वे बहुत वर्ष जियें ।”

आज टक्कर बापा, अमतुलबहन और श्रीमती टाकरसी बापू से मिलने आए । डाक्टर गिल्डर और मैं बिन-रात बापू के पास ही हैं । रात की झपटी मेरी रहती है और

बिन की डाक्टर साहब की। मुलाकातियां से ज्यादा बातें न करने देने का काम डाक्टर साहब के सिर डाला गया है। जैसे-जैसे बापू की शक्ति कम होती जाती है, कोशिश की जा रही है कि वे बोलचाल कम करें जिससे शक्ति कम खर्च हो। उद्योग करनेवाली बातें नहीं होने देते, मगर काम कठिन है। इतने पुराने-पुराने साथी—मित्र मिलना चाहते हैं। सब जानते हैं कि उपवास के बाद बापू से नहीं मिल सकेंगे। उन्हें रोकना या जल्दी चले जाने को कहना कठिन है, मगर क्या किया जाय ! डाक्टरों को तो यह कठिन काम करना ही पड़ता है।

बापू के पास जाने से पहले और पीछे बा और सरोजिनी नायडू लोगों के साथ बातें करती हैं, भाई भी करते हैं। इससे मिलने आने वालों को कुछ अच्छा लगता है। वे भी समझते हैं कि बापू को शक्ति-संग्रह करना चाहिए।

मुझे डाक्टर साहब बिन में कुछ नींव लेने के लिए भेज देते हैं। इसलिए अबसर बोपहर की मुलाकातों के बक्त मैं मौजूद नहीं होती।

ठक्कर बापा से बातें करते हुए बापू ने कहा, "किसी हकूमत ने ऐसा नहीं किया जैसे कि इस हकूमत ने किया है। इसने मर्यादा छोड़ दी है। झूठ का तो पहले से ही भरमार है। वाइसराय ने भी हब ही कर बो है।"

"मैं कहता हूँ कि मुझ पर मुकदमा चलाइए, मेरे गुनाह का सबूत दीजिए। अगर मेरी भूल मुझे मालूम पड़ेगी तो मैं माफी मागूंगा। ये लोग मुझ पर कितनी तोहमतें लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। इस में भी मुकदमा चलता है, मगर मुझे उसका भी मौका नहीं दिया जाता। मुझे न्याय चाहिए।"

ठक्कर बापा बोले, "और वाइसराय कहता है कि अपने गुनाह के परिणाम से बचने के लिए आप उपवास करते हैं।"

बापू ने कहा, "बस, ऐसे हैं ! नीचता की हब नहीं रही।" फिर कहने लगे, देवदास मुझे देखने की ही खातिर आने की सोचता हो तो उसे संयम रखना चाहिए। वहां काम कर रहा हो तो यहां आने की जरूरत नहीं।"

१८ फरवरी '४३

कल रात को नींव अच्छी आई, बेचैनी कम हो रही है, मगर डाक्टर लोग इससे खुश नहीं हैं। पेशाब कम आ रहा है। यह नींव भी शरीर में जहर इकट्ठा होने का चिह्न हो सकती है। सुबह की परीक्षा में डा० बिधान राय, डा० गिलडर, मेजर जनरल कैंपडी, लेफ्टिनेण्ट कर्नल भण्डारी, लेफ्टिनेण्ट कर्नल शाह और मैं थे। हम सबके दस्तखतों से सरकार को यह बुलेटिन भेजी गई—

"नौ घण्टे की नींव लेने के बावजूद भी गांधीजी ताजगी महसूस नहीं करते। उनका मन और दिमाग हमेशा की तरह चौकन्ना नहीं है। हृदय बहुत दुर्बल है। स्थिति ज्यादा चिन्ताजनक है।"

रक्त-परीक्षा इत्यादि की रिपोर्ट आई। शरीर में पानी और जहर इकट्ठे हो रहे हैं। खबर मिली कि बम्बई सरकार के सलाहकार ब्रिस्टो और बेववासभाई पुना आने के लिए चल पड़े हैं। बाद में किसीने बतलाया कि यह तय करने के लिए ब्रिस्टो पुना आए थे कि अगर गांधीजी की मृत्यु हो जाय तो उनके शव को किस रास्ते से इमशान ले जाना होगा। अर्थात्, सरकार की तैयारी है कि बापू को उपवास में मरने ही देना है।

किसीने कहा, “गांधीजी ने तो कहा है कि अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करेंगे। अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है, इसलिए उपवास क्यों नहीं छोड़ देते ?” बापू ने समझाया कि शक्ति के अनुसार उपवास करने का यह अर्थ नहीं कि खतरा आने पर उपवास छोड़ देना। उसका अर्थ इतना ही है कि यह उपवास आमरण नहीं।” उन्होंने उपवास से पहले अन्दाज लगाया था कि २१ दिन का उपवास करने को उनकी शक्ति है, सो २१ दिन तो पूरे करने ही हैं। ईश्वर को रखना होगा तो रखेंगे। ले जाना होगा तो ले जाएगा। अगर उनका अपनी शक्ति का अंदाज गलत सिद्ध होगा तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा।

भाई ने आज टॉटेनहम को जाने वाला खत तैयार करने के लिए और सब कामों से छुट्टी ली। दोपहर में वह खत तीन बजे गया। ठक्कर बापा मिलने आए। बापू उनसे बातें करते हुए कहने लगे, “प्यारेलाल ने एक खत तैयार किया है। उसमें मेरे शब्दों का हवाला देकर बताया है कि जो हिंसा चली है, उसमें मेरा बिलकुल हाथ नहीं।”

फिर बातचीत में कहने लगे, “बाहर जो चल रहा है, वह मुझे बिलकुल पसंद नहीं, मगर तो भी यहां बंटा तो उसकी खुली टीका या निन्दा करने को तैयार नहीं; क्योंकि उनके बारे में मुझे जो कुछ कहना है, उससे कहीं ज्यादा मुझे सरकार की नीति की टीका करना है। सरकार लोगों को इतना उकसाए, उनसे हिंसा करवाने पर ही तुली हो तो वह इसमें सफल हो सकती है। आम जनता कोई फरिश्ता नहीं है। अहिंसा का मार्ग बताने वाला कोई ही नहीं तो वह सहज ही हिंसा के प्रवाह में बह सकती है। मगर सरकार का हिंसा जनता की हिंसा से कहीं ज्यादा है। ऐसी हालत में केवल लोगों का यहाँ बँठकर टीका या निन्दा करना ठीक नहीं।

“अहिंसा के बारे में मेरे विचारों में जरा भी फर्क नहीं आया। अगर है तो इतना कि अहिंसा में मेरी अट्टा दूढ़ हुई है। हां, एक बात में फर्क कहा जा सकता है। अब मैं यह नहीं कहता कि देश भर में अहिंसा का वातावरण हो, तभी अहिंसा चल सकती है। मैंने सोचा कि अगर देश में कहीं भी हिंसा होने पर—सरकार तो किसी भी एक आदमी से हिंसा करा सकती है—मुझे अहिंसा का प्रयोग बन्द करना पड़े तो मैं अहिंसा की शक्ति को कभी सिद्ध ही नहीं कर पाऊंगा और हिंसा का जवाब तो मैं अहिंसा के प्रयोग को सिद्ध करके ही दे सकता हूँ।”

दिन बढ़ने के साथ यूरोमिया का जहर भरने के बिह्व भी बढ़ते जा रहे हैं। रात



को बापू कहने लग, “कुछ अच्छा नहीं लगता। पेट में भी तकलीफ है, सिर में भी।” ‘हे राम’ वाला चित्र सामने टंगा था। उसकी बातें करते हुए बोले, “बस यही एक आधार है। ईश्वर, तू जो करता है, जो करेगा, वही ठीक है। मैं तेरी इच्छा के अधीन हूँ, न कि तू मेरी इच्छा के। यही नाव अंदर से निकलता है।”

रात को गरम मिट्टी की पुल्टिस गुदों पर लगाई।

१६ फरवरी '४३

रात को बार-बार मुँह में राल आने से थकना पड़ता था। इसलिए अच्छी तरह सो नहीं सके, किंतु सुबह तबीयत के बारे में पूछा तो कहने लगे, “बहुत अच्छा लगता है।” आसपास की बातों में आज बहुत रस ले रहे थे। मगर कमजोरी बढ़ रही है। पानी का गिलास हाथ में लेते हैं तो हाथ इतना कांपता है कि गिलास मानों गिर जाएगा। मगर अपने हाथ से पानी पीने का आग्रह आज भी रखा।

डा० बिधान राय, डा० गिल्डर और मेरे नाम पर सब मुलाकातियों से प्रार्थना की गई कि मुलाकात करने आकर वे बापू की शक्ति का ध्यय न करें। पहले मुलाकातियों को २० मिनट देते थे। कमजोरी बढ़ने पर डा० गिल्डर ने समय आधा कर दिया। कल तो तीन-तीन मिनट की मुलाकात ही थी। आज इतनी भी शक्ति नहीं लगती।

शाम को तबीयत फिर ज्यादा बिगड़ी। कान का दर्द भी बढ़ गया। बात-बात में कहने लगे, “किसी तरह चैन नहीं पड़ता। पानी पीता हूँ तो भी शान्ति नहीं होती। गले तक खट्टा-खट्टा भरा है।”

रामदासभाई सपरिवार बापू से मिलने आए।

भाई को बुलाकर बापू ने कहा, “महादेव के काम को पूरा न्याय देना हो तो मेरी शरीर-सेवा का लोभ छोड़ना होगा। वह तो जब चाहो कर सकते हो। लोगों से मिलो, बातचीत करो।”

श्री बंकुण्ठ मेहता आए। उनसे दो-तीन मिनट बात करके बापू कहने लगे, “और जो कुछ कहना हो, प्यारेलाल से कहो।” बातचीत खादी-कार्य के बारे में थी। बापू ने उसके बारे में कहा, “अगर जनता आज भी मेरे बताए मार्ग पर चलने को तैयार हो तो हफ्ते-दो हफ्ते के अन्दर हम आजादी ले सकते हैं। अगर उसके लिए आज जनता तैयार नहीं है तो फिर बहुत धीरज रखना होगा।”

दिल्ली में आज तीन रोज से हड़ताल चल रही है।

नेताओं की कान्फरेन्स आज दिल्ली में शुरू हुई। श्री नलिनी सरकार, मोदी और अणु ने वक्तव्य निकाले, “गांधीजी के उपवास के बारे में क्या करना, इस महत्त्व के प्रश्न पर हमारा सरकार से मवभेव हुआ। इस पर हमें लगा कि हम सब सरकारी पद पर नहीं रह सकते।”

लंदन में इण्डिया लीग ने सभा कराई। लॉर्ड स्ट्रेंबोल्गी ने कहा, “ब्रिटिश सरकार”

को चाहिए कि वह समयोत्ते का रास्ता ढूँढ़ने का फिर से प्रयत्न करे।” सभा ने प्रस्ताव पास किया कि गांधीजी को बिना शर्त तुरंत रिहा कर देना चाहिए।

रात को बापू की स्थिति और भी चिन्ताजनक हो गई। पानी नहीं पी सकते थे। पानी अंदर जाए तो गुर्दे काम करने लगे, पेशाब के साथ शरीर से जहर भी निकलने लगे। कार्बोनेटेड पानी पिलाने का प्रयत्न किया, मगर वह भी बहुत कम पी सकते हैं।

२० फरवरी '४३

बापू की स्थिति और बिगड़ी है। सुबह जब जनरल कॅम्पडी आए तब बापू सो रहे थे। सरोजिनो नायडू से कहने लगे, “अगर यह आवामी दो साल और जिए तो हिन्दुस्तान के लिए कितना फरक पड़ जाएगा। यह कैसे दुःख की बात है कि ऐसे आवामी की जान खतरे में पड़े और इस कारण से कि जनता पर उसका इतना जबर्दस्त सच्चा प्रभाव है और वह प्रभाव डालने की उसमें क्षम्यता है।”

कुछ चर्चा हुई कि क्या नस में पानी और ग्लूकोज नहीं खड़ाया जा सकता? क्या ऐनीमा के पानी में ग्लूकोज नहीं डाल सकते? मैंने कहा, “गांधीजी वैसा करना कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सरकारी डाक्टर ५० सी. सी. की एक बड़ी पिचकारी ले आए। उनका रुख मुझे कुछ ऐसा लगा कि बापू की इजाजत न हो तो भी नस में या ऐनीमा में ग्लूकोज दे देना है। आखिर डाक्टर का धर्म तो मरीज को किसी प्रकार बचाने का ही है न! पर मुझे यह रुख भयानक लगा। मैंने डाक्टर गिल्डर से चुपके से कहा, “इन्हें समझा दीजिए कि बापू के साथ ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। इससे उनका मृत्यु भी हो सकती है।” डा० गिल्डर ने फौरन बात उठा ली और इस तरह जबर्दस्ती ग्लूकोज इत्यादि देने का जोरो से विरोध किया। डा० बिधान राय आ गए। वे भी हमारे विचार से सहमत थे कि बापू के साथ खोखा नहीं किया जा सकता। जबर्दस्ती भी नहीं हो सकती। हमने तय किया कि अगर सरकारी डाक्टर ऐसा कुछ करेंगे तो हम तीनों अपना लिखित विरोध सरकार के पास भेजेंगे। सरकारी डाक्टरों ने वह पिचकारी कटेली साहब से अपने पास रखने को कहा।

बापू के उठने पर हम सबने उनकी डाकटरी परीक्षा की। परीक्षा के बाद जनरल कॅम्पडी ने बापू से एक मिनट बात करने की इच्छा प्रकट की। मैं उन्हें फिर भीतर ले गई। भाई और कन्हू बापू के पास-बी। जनरल कॅम्पडी मुझे कुछ घबराहट में लगे। मैंने पूछा, “क्या आप अकेले बापू से बात करना चाहते हैं?” उन्होंने सिर हिलाकर ‘हां’ कहा। हम सब बाहर चले गए।

थोड़ी देर में जनरल कॅम्पडी पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर पिछले बरामदे की तरफ चल बिये। हम लोग उनका इन्तजार कर रहे थे। डाक्टर गिल्डर को क्षण भर लगा कि वह रास्ता भूल गए हैं। उन्होंने दो बार पुकारा, “जनरल, इस तरफ।” मैंने रोका, जनरल कॅम्पडी जानबूझकर उधर गए हैं।

उनको आँखों में आंसू भरे हैं। डा० बिधान राय शरारत करके उनके पीछे देखने गए। आबख्त बेने लगे, “जनरल, जनरल, रास्ता इधर है।” कंण्डी रुक गए। डा० बिधान ने पूछा, “उन्होंने क्या कहा?” आँखें पोंछते हुए जनरल कंण्डी ने कहा, “कुछ नहीं।” और आगे चल दिए।

बापू ने हमें बाद में बताया कि हमारे जाने के बाद जनरल कंण्डी कमरे में धूमने लगे। वे इतने उद्विग्न थे कि बोल नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद आकर बापू के पास कुर्सी पर बैठ गए, मगर बोल नहीं सके। फिर उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगे। आखिर हिम्मत करके आए और कहने लगे, “मि० गांधी, एक डाक्टर की हँसियत से मुझे आपसे कहना चाहिए कि आपकी उपवास करने की शक्ति की मर्यादा खत्म हो गई है।” बापू चुपचाप सुनते रहे। मगर कंण्डी आगे नहीं बोल सके—रो पड़े। बापू ने उन्हें आश्वासन दिया, “क्यों घबराते हो? मैं ईश्वर के अधीन हूँ। मैंने अपने आपको उसके हाथों में रख दिया है। उसे ले जाना होगा तो ले जाएगा। मैं जाने को तैयार हूँ। काम लेना होगा तो रख लेगा।”

हम लोग जनरल कंण्डी को पिछले बरामदे में छोड़कर बड़े कमरे की एक मेज के पास जा बंटे। यहीं पर रोज बुलेटिन लिखी जाती है। कर्नल भण्डारी और शाह कहने लगे, “आज की बुलेटिन बहुत जोरदार शब्दों में लिखनी होगी।” हम लोगों ने एक मसबिबा तैयार करना शुरू किया। करीब वस मिनट में जनरल कंण्डी शांत होकर वापस आए। हमेशा की तरह हमन उन्हीं के हाथ में बुलेटिन लिखने के लिए कागज और कलम ली। उन्हें कुछ विस्कत हो रही थी। करीब आधा मसबिबा तैयार हुआ था। वह उनके सामने रख दिया। उन्होंने उसमें से वाक्य ले लिये। हमारे मसबिबे के वाक्य “ऐसे चिह्न प्रकट हो रहे हैं कि शायद कुछ अवयवों को स्थायी नुकसान हो जाय” के स्थान पर उन्होंने लिखा—“खतरे के चिह्न प्रकट हो चुके हैं।” बाद में हमें पता चला कि सरकार ने कंण्डी को गांधीजी को यह बता देने को कहा था कि उनकी जान खतरे में है, ताकि अघर मृत्यु हो जाय तो सरकार अपनी सफाई पेश कर सके। सरकार का अपना रबैया बदलने का इरावा बिलकुल नहीं था। सो बेचारे कंण्डी के सिर यह आपद्-धर्म आ पड़ा। इससे वे बड़े संकट में पड़े।

देवदासभाई सपरिवार आए। ब्रेल्वी भी आए। शांतिकुमार और ठक्कर बापा से जो बातें हुई थीं, उसी डंग की ब्रेल्वी के साथ हुई। ब्रेल्वी ने पूछा, “अगर आप बाहर होते तो जनता की हिसा के बारे में क्या कहते?”

बापू बोले, “जनता के बारे में जो कुछ भी कहता, उससे बहुत अधिक मुझे सरकार के लिए कहना पड़ता। मगर वह मैं आजादी में ही कर सकता हूँ, जेल से नहीं। यह भी समझ लो कि किसी भी चीज के बारे में पूरी जांच-पड़ताल किये बिना मैं कोई राय दे ही नहीं सकता। यह चर्चा करना कि कोई खास काम अहिंसा में गिना जा सकता है या नहीं, उससे स्वराज मिलने में मदद मिल सकती है या नहीं, यह एक बात है, और खुले

तौर पर किसी चीज की टोका या निन्दा करना दूसरी बात है। ऐसा करने से पहले हर पहलू से उसकी पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए। अगर मैं आजाब होता तो जो कई बातें हुई कही जाती हैं, उनकी टोका और निन्दा करता। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें होने ही नहीं देता। उनकी जगह मैं ज्यादा असरकारी रास्ता जनता के सामने रखता। वह ज्यादा असरकारी होता; क्योंकि वह शुद्ध अहिंसा का मार्ग होता। मेरी लड़ाई की कल्पना आज बाहर भी हो रहा है, उससे अलग किस्म की थी। अगर जो लोग बरसों से अहिंसक मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें भयानक हिंसा के द्वारा कुचला जाय, यह क्या बात है? सरकार मुझे से पागल बनकर बेहियार कमजोर स्त्री-पुरुषों पर कभी नहीं हुए ऐसे जुल्म करे और परिणाम में वे लोग निराश होकर पागल बन जाएं और बिना सोचे-समझे कुछ उल्टा-सीधा कर बैठें तो इतिहास उनका हिंसा को सरकार की हिंसा के मुकाबले में अहिंसा ही कहेगा, जैसे कि मैंने 'हरिजन' में लिखा था न कि पोलैण्ड के लोगों की जर्मनी के हमले के सामने हिंसक लड़ाई लगभग अहिंसक ही कही जा सकती है।"

ब्रह्मो पूछने लगे, "अगर आप पकड़े न जाते तो क्या आपने कौमो एकता के बारे में भी कुछ करने की सोचो थी?" बापू बोले, "करने को तो बहुत-कुछ सोचा था और आशा थी कि कुछ कर भी पाऊंगा, मगर विधाता ने कुछ और ही सोच रखा था। जिन्ना साहब के साथ मुलाकात तय होने वाली थी। मैं शायद खास मुलाकात तय किये बिना ही उनसे मिलता और पता चलाता कि हमारे मतभेद किस-किस चीज पर थे और उन्हें दूर करने का कोई रास्ता है या नहीं, मगर वह सब होने का नहीं था।"

देवदासभाई ने बापू को बताया कि तोड़-फोड़ में लगे रहकर भी हमारे लोगों ने इस बात का ध्यान रखा था कि किसीका प्राण-हानि न होने पावे। उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए क्या-क्या कोशिशें की गई थीं।

बापू ने उत्तर दिया, "कुछ भी हो, अगर मैं बाहर रहता तो ऐसी चीजें भी न होने देता। जो चीज छिपी रीति से ही चल सकती है, उसका जड़ में विफलता भरी है। गुप्त नीति सत्य की विरोधिनी है, इसलिए अहिंसा की विरोधिनी भी है। इसलिए मेरी योजना में उसके लिए स्थान नहीं हो सकता। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तोड़-फोड़ के कार्यक्रम की तात्त्विक चर्चा भी मुझे नहीं चलने देनी चाहिए थी। सम्भव था कि आज जो हो रहा है, वह न होने पाता।"



नेताओं की बिल्ली कान्फेरेंस में डा० जयकर ने प्रस्ताव पेश किया कि हिन्दुस्तान के हित की और देशों की परस्पर मित्रता को खातिर गांधीजी को सुरंत छोड़ देना चाहिए। प्रस्ताव पास हो गया।

समू साहब ने अपने भाषण में कहा, "ब्रिटेन के इतिहास से एक पाठ सीखने को मिलता है। वह यह कि ब्रिटिश सरकार हमेशा बागियों से समझौता करती है, वफादारों से नहीं। गांधीजी को गृह-मंत्री ने बागी कहा है, मगर हम यही आशा रखते हैं कि

इन बागियों के साथ भी सरकार समझौता करेगी ही और जब वह दिन आवेगा तब हमारे जैलों को कोई पूछेगा भी नहीं।" अंत में उन्होंने ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्रों से अंतर्मुख होकर विचार करने की सलाह दी और कहा, "आज वे अपना धर्म भलीभांति समझ लें।"

डा० जयकर ने अपने भाषणों में कहा, "उपवास को एक तरफ रखकर भी सरकार को चाहिए कि वह गांधीजी को छोड़ दे। न्याय की खातिर और शांति की खातिर उन्हें छोड़ना जरूरी है। उपवास करके गांधीजी अन्याय के सामने अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार ने उन्हें बेकार बनाकर बैठा दिया है। गांधीजी उसके सामने शिकायत करते हैं। गिरफ्तारियों से पहले उनके लेखों और भाषणों के पढ़ने से साफ जाहिर है कि वे झट से कोई हलचल चलाने वाले नहीं थे। चलाते तो मजबूर होकर चलते। यह भी स्पष्ट है कि लड़ाई के दरम्यान वे हिन्दुस्तान का राज्यतंत्र एकदम बदलने को नहीं कह रहे थे। वे कह चुके थे कि ब्रिटिश और अमरीकी फौजें लड़ाई के अर्से में हिन्दुस्तान में रह सकती हैं। वाइसराय के साथ के पत्र-व्यवहार में गांधीजी की भाषा एक बागी की भाषा नहीं है। गांधीजी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाले छः महिने गुजर गए हैं। हुकूमत ने सिवा उसी इलजाम की बार-बार दोहराने के आज तक किया ही क्या है?"



बापू को वाइसराय का उत्तर मिला। उसमें लिखा था कि १० फरवरी को सरकार ने जो वक्तव्य निकाला था, उसमें अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी। उसके बाद कोई नई घटना नहीं हुई। उपवास की जिम्मेवारी गांधीजी की थी। उसे छोड़ने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की है, हुकूमत की नहीं।

२१ फरवरी '४३

कमजोरी इस कदर बढ़ गई है कि बापू लेटे-लेटे ही नली से पानी पीने का प्रयत्न करते हैं। नली से चूसने के लिए भी शक्ति चाहिए। सो कभी-कभी चमचे से भी पानी मुंह में डालना पड़ता है, मगर इस तरह बहुत कम पानी पिया जाता है। कल बिन भर में केवल चालीस औंस पानी पी सके। इसमें भी दो औंस खट्टे नींबू का रस था।

रात में नींबू बहुत कम आई। करीब साढ़े चार घंटे ही सोये होंगे। बिन में किसी चीज में रस लेने की इच्छा नहीं थी। यूरीमिया का नशा-सा लगता था। सांस में ऐसीटोन की बू तो थी ही, यूरीमिया की बू भी कल शाम से लगती है। हृदय और नाड़ी बहुत कमजोर हो गई है। इस कमजोरी में बजन लेने के लिए उठना कठिन है। परसों १६ तारिख तक बजन १४ पाउंड कम हो चुका था। आज की बुलेटिन में था—“यूरीमिया बढ़ रहा है। अगर अब उपवास छूटने में देर हुई तो जान बचाना कठिन हो जायगा।”

सुबह डा० शाह आए तो कहने लगे, “मे और कौण्टी कल रात को बंटे सोच रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा होगा और तुम लोगों का किसी समय भी टेलीफोन आ सकता है।”

हमने यहाँ आने की भी सोची, मगर फिर सोचा कि इससे तुम लोगों को कष्ट होगा। आखिर वस बजे पलंग पर जा पड़े। डर था कि रात को न जाने कब उठकर भागना पड़े !”

मैंने कहा, “जी हाँ, पास वालों को तो चिंता रहती ही है, मगर दूर वालों को तो और भी फिक्र रहती है।”

मेजर शाह बोले, “बेचारा कंण्डी तो बड़ी ही फिक्र में है। मुझसे कहता है कि कांफ्रेस को छोड़ो, मगर यह आवमी तो कांफ्रेस से ऊपर है। कांफ्रेस भले खतम हो जाय, यह आवमी नहीं खतम हो सकता। उसे खतम होने देना भी नहीं चाहिए। उसे बचाना ही चाहिए।”

दिन में अनुसूयाबहन, रामेश्वरदास बिड़ला, शंकरलाल बंकर इत्यादि मिलने आए। आज सबको दर्शन के लिए ही लाया जा रहा था। बापू में बात करने की शक्ति ही नहीं थी। दिन भर अधिकतर चुपचाप ही पड़े रहे।

शाम को करीब चार बजे बापू की हालत एकाएक बिगड़ी। उस समय उनके कमरे में मैं अकेली ही थी। उन्होंने पानी पीने का प्रयत्न किया। नली से खींचकर पीने में बहुत यत्न गए। मुश्किल से एक-दो घूंट ही पी सके। थककर लेट गए। एकदम जोरों की झतली आई। छटपटाने लगे, बेचैनी से हाथ-पैर पटकने लगे। आँखें करीब आधी बन्द थीं। मुझे ऐसा लगा, मानों बेसुच हो रहे हैं। नाड़ी पर हाथ रखा तो इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से हाथ आती थी। मेरा हृदय धड़कने लगा। अभी जाने क्या-क्या होने-वाला है ! महादेवभाई की भांति क्या बापू भी आँखों के सामने चले जायेंगे ? मैं जानती थी कि अगर पानी पी सकें तो बच सकते हैं। सो हिम्मत करके पूछा, “बापू, वह समय नहीं आ गया है कि जब पानी में मोसम्बी का रस डालकर आपको दिया जाय ?” कुछ देर तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया। आखिर धीरे से सिर हिलाकर ‘हाँ’ कहा। मैंने डा० गिल्डर को बुलवाया था। वे आ गए। बापू को जो हुआ था वह समझाकर मैंने दो औंस मोसम्बी का रस निकाला और दो औंस पानी में मिलाकर औंस वाले गिलास से धीरे-धीरे बापू के मुँह में डाला। इसका असर जलते कोयलों पर पानी पड़ने-जैसा हुआ। बेचैनी कम होने लगी। बापू ने आँखें खोलीं। इतने में बा कमरे में आईं। मुझे लगा कि शायद बा की प्रार्थना सुनकर ही ईश्वर ने बापू को बचा लिया। बा जब बापू के कमरे में नहीं होती थीं तो अक्सर बालकृष्ण या तुलसी माता के सामने बैठे प्रार्थना किया करती थीं। जब बापू की स्थिति बिगड़ रही थी, बा यह सब कुछ न जानते हुए प्रार्थना में बैठती थीं।

थोड़ी देर के बाद फिर बापू को मोसम्बी का रस और पानी दिया। रात तक करीब १५-१६ औंस रस और उससे तिगुना पानी भीतर जाने से बापू की नाड़ी काफी सुधर गई। रात को उन्होंने करीब साढ़े पाँच घंटे नींद ली।

बा जिस हिम्मत से मानसिक और शारीरिक श्रम बर्दाश्त कर रही है, वह स्वयंसेवा आश्चर्यजनक है।

२२ फरवरी '४३

आज बापू का मौन था। कई मित्र लोग प्रणाम कर गए। उनमें श्री मथुरादास-भाई, अमृतलबहन, श्री अम्बालाल साराभाई और स्वामी आनन्द थे। आश्चर्य की बात है कि जो बापू पूंजीवाद के कट्टर बुद्धमन हैं, उनको पूंजीपति अपना पिता मानते हैं और बापू भी उनके प्रति उतना ही प्रेम दिखाते हैं, जितना कि स्वामी आनन्द के प्रति, जिन्होंने अपना सर्वस्व बापू के अर्पण किया है। मथुरादासभाई उनके भानजे हैं और अमृतलबहन एक मुसलमान कुटुम्ब की लड़की, लेकिन बापू दोनों को समान प्यार करते हैं। बापू के पास जो आता है, वह यही अनुभव करता है कि बापू मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मेरे मित्र हैं, हितेच्छु हैं, उनके सामने मैं अपना हृदय खोल सकता हूँ।

आज भी बापू पानी में मोसम्बी का रस मिलाकर लेते रहे। कमजोरी बहुत है, मगर हम लोगों की चिन्ता कम-से-कम है। डाक्टरों दृष्टि से ज्यादा पानी भीतर जाने से खतरा कम हो गया है, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता। मोसम्बी के रस की मात्रा वे कम-से-कम करना चाहते हैं।

देश तो कल की बुलेटिन से चिन्ता में पड़ा ही हुआ है। सरकार ने गांधीजी को छोड़ देने के बारे में नेताओं की अपील अस्वीकार कर दी थी। सो सर तेज ने देश से अपील करते हुए वक्तव्य निकाला कि वह दूरे समाचार के लिए तैयार रहे और यदि बापू चले जावें तो उनकी मृत्यु की चोट को स्वाभिमान, गंभीरता और हिम्मत के साथ बर्दाश्त करे।

सावरकर इत्यादि कुछ दूसरे लोगों ने गांधीजी से प्रार्थना की कि सरकार तो नहीं मानती, आप ही देश की खातिर अपना उपवास छोड़ दें। मगर ये लोग बापू को समझते नहीं। बापू ने ईश्वर के नाम से उपवास शुरू किया है। मृत्यु की सामने देखकर उसे छोड़ेंगे नहीं। उनका एक ही मंत्र है, 'ईश्वर को मुझसे काम लेना होगा तो मुझे बचा लेगा।'

२३ फरवरी '४३

रात में बापू को अच्छी नींद नहीं आई। बिन में थोड़ा-थोड़ा करके कई बार सोए। जबान मंली, नाड़ी कमजोर, अशक्ति बहुत है। डाक्टरों का मीटिंग में अब अक्सर भीठी चर्चा हुआ करती है। बेचारे कंडी साहब नहीं समझ पाते कि बापू मोसम्बी का रस इतना कम क्यों लेते हैं। ज्यादा लें तो शरीर को पोषण भी मिले, मगर बापू को शरीर को पोषण देना ही नहीं है। उन्हें तो इतना ही रस लेना है कि जिससे पानी पी सकें।

आज सुबह जनरल कंडी पूछने लगे, "आज कैसे हैं?" डा० गिल्डर बोले, "थोड़े अच्छे हैं। प्रफुल्लित लगते हैं।" कंडी भीतर गए। नाड़ी बगैरा देखकर बाहर आए। कहने लगे, "उनकी मुस्कान तो हमारा स्वागत करने के लिए है, उनकी अहिंसा का चिह्न है। शारीरिक स्थिति में तो मुझे कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ता। नाड़ी ज्यादा कमजोर

लगती है।" कर्नल शाह बोले, "हां, मेरा भी यही खयाल है।" जनरल कंण्डी मुझसे कहने लग, "पानी में मोसम्बी का रस ज्यादा क्यों नहीं डाल देती हो?" मैंने कहा, "वह हो नहीं सकता। बापू हमेशा पूछते हैं कि कितना रस लिया और कितना पानी। वे कम-से-कम रस लेना चाहते हैं ताकि उपवास, यानी शरीर को खुराक न देना, चलता रहे। खुराक का उपवास है, पानी का नहीं। चूंकि सादा पानी पी नहीं सकते, इसलिए उसमें रस की कम-से-कम मात्रा डाल देने देते हैं।"

कर्नल शाह बोले, "फल क्यों नहीं खाते?" शाह बेचारे बहुत भोले हैं। मैंने कहा, "जब फल का रस ही कम-से-कम लेते हैं तो फल कैसे खा सकते हैं? वह लेने रुग्ण तो उपवास टूटता है।"

कंडी बोले, "मैं फल खा सकता हूं, मगर रस लेने से तो मुझे मतली-सी होती है।" शाह ने कहा, "फल लेने से जीभ भी साफ हो जाएगी।" मैंने कहा, "डा० राय ने नौबू के टुकड़े से जीभ साफ करने की सलाह दी थी, मगर बापू ने इन्कार किया। उपवास की सब ब्यथा सहने की उनकी तैयारी है। फल के रस के उपयोग की छूट पानी पी सकने के लिए ही है।"

वे लोग चुप हो गए, मगर ब्यथा बर्दाश्त करने की बात उनकी समझ में नहीं आई। वे क्या जानें कि उपवास की सारी कल्पना ही इस आधार पर है कि आप ब्यथा बर्दाश्त करके सामने वाले की आत्मा को जाग्रत किया जाय। उसको उसकी गलती बिलाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी जाय।

बापू का विभाग साफ है। सिर का चक्कर और बढ़े आज नहीं हैं। आवाज बहुत कमजोर है। वे अधिकतर चुपचाप पड़े रहे। कई मुलाकाती आए। उनमें होरेस अलेक्जेंडर भी थे। वे अनेक अप्रेज मित्रों की तरफ से शुभेच्छा और प्रेम का संदेश देने आए थे। बापू ने उनसे थोड़ी बातें कीं।

## तीसरा सप्ताह

२४ फरवरी '४३

आज बापू की स्थिति और थोड़ी सुधरी है। सुबह डाक्टरों परीक्षा के बाद कंडी कहने लगे, "आज तो हम बुलेटिन में अच्छी खबर दे सकते हैं। कल की उनकी मुस्कराहट झूठी थी, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, मगर वे कल मेहनत करके मुस्कराते थे। आज सचमुच अधिक प्रफुल्लित लगते हैं।" शाह बोले, "तो भी हमें चौकन्ना रहना होगा। खतरा गायब नहीं हो गया।" कंडी ने कहा, "हां, वह तो ठीक है। यह सुधार क्षणिक हो सकता है। बीचक का आखिरी टिमटिमाना भी हो सकता है।" फिर सरोजिनी नायडू से कहने लग, "हमने तो माना था कि गांधीजी जा रहे हैं, मगर उनकी हालत सुधर रही है। वे आश्चर्यजनक व्यक्ति हैं, चक्कर में डाल रहे हैं। आम गज से उनका माफ



नहीं लिया जा सकता।”

होरेस अलेक्जेंडर बम्बई के गवर्नर सर जॉन कार्लिबल से मिले थे। सर जॉन कार्लिबल को बापू की बड़ी चिंता थी। होरेस ने उनके साथ बैठकर एक फार्मूला तैयार किया। यदि बापू पसंद करें तो वे उसे दिल्ली सरकार के पास ले जाएंगे। फार्मूला का सार यह था कि सरकार अपने किसी नुमाइंदे को बापू और कांग्रेस पर लगाये गए आरोपों व सबूत के साथ बापू के पास भेजे। अगर बापू को संतोष हो गया तो वे अपनी भूल स्वीकार करेंगे। देवदासभाई आज यह फार्मूला बापू के पास लाए। बापू ने उसे गौर से देखा, फिर कहने लगे, “इसमें एक कमी है। इतना और डालना चाहिए कि सरकार, अगर मुझे सरकारी सबतों से संतोष न हुआ तो एक न्याय की जांच कमेटी नियुक्त करेगी और वह सब पहलुओं की जांच-पड़ताल करके अपना फैसला सुनाएगी।” यह नया फार्मूला हमारे जेल सुपरिन्टेंडेंट श्री कटेली को बताकर होरेस के पास भेजा गया। बापू की बड़ी बहन गोकीबहन आज उनसे मिलने आईं। मुलाकात का दृश्य बड़ा कण्ठ था।

२५ फरवरी '४३

बापू ने कल से मोसम्बी के रस की मात्रा और भी कम कर दी है। आज सुबह अपनेआप कहने लगे, “आज कमजोरी ज्यादा लगती है।”

कंडी आए तो उन्हें बहुत निराशा हुई। कहने लगे, “फल का रस कम क्यों कर दिया है? आज तो सुधार देखने में नहीं आता। यह बहुत निराशाजनक है।”

मंने कहा, “सुधार तो हुआ ही नहीं, कमजोरी भी बढ़ी है।” कंडी बोले, “इतवार के दिन वे मोत के मुह में थे। क्या फिर वंसी हालत चाहते हैं? मृत्यु के साथ खेलना अच्छा नहीं।”

डा० राय बोले, “हां, वे खुद कह रहे थे कि इतवार को उन्हें लगता था कि जा रहे हैं। मोसम्बी का रस डालकर पानी पीना और जिन्दा रहना या मृत्यु, दो चीजें उनके सामने थीं। उन्होंने पहली बात पसंद की। उन्होंने कहा कि वे मरना नहीं चाहते। मगर इसका अर्थ तो यह नहीं होना चाहिए कि सारे समय काल के गढ़े के किनारे खड़े होकर ही उसमें झांकते रहें।”

मंने उन्हें बापू का दृष्टिबिन्दु समझाने को कोशिश की, “उनका हेतु मृत्यु से खेलना या मृत्यु की खाई के किनारे से मडराना नहीं है। उन्होंने शुरू से कहा है कि पानी न पी सके तो उसे पीने लायक बनाने के लिए वे कम-से-कम-कम मात्रा में मोसम्बी के रस का उपयोग करेंगे। जब इतवार को मंने देखा कि वे किसी तरह पानी नहीं पी सकते तो मंने पानी में मोसम्बी का रस डालने की इजाजत मांगी, सो उन्होंने वे दीं। अब वे उसकी मात्रा कम कर रहे हैं।”

डा० राय बोले, “हां, यह ठीक है। उन्हें खुद आश्चर्य हो रहा था कि इतने थोड़े रस का उन पर इतना बड़ा असर कैसे हुआ!” आज सुबह बापू हंसकर कंडी से कह रहे

थे, “अब मैं कहां उपवास कर रहा हूँ ?” मैंने कहा, “डाक्टरों दृष्टि से आप उपवास ही कर रहे हैं। आप अपने शरीर को जलाकर शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। मोसम्बी का रस ही आपके शरीर से जहर निकालने में मदद देता है। उसके सहारे आप पानी पी सकते हैं। पानी शरीर से जहर निकालता है।”

कंण्डी ने कहा, “उपवास तो है ही। मोसम्बी के रस में रक्खा क्या है ? जहां तक मुझे याद है, उसमें ६८ प्रतिशत पानी होता है, थोड़ा-सा रंग और जरा-सा ग्लूकोज।”

मैं बोली, “यह ठीक है, लेकिन इस जरा-से ग्लूकोज की भी वे कम-से-कम मात्रा लेना चाहते हैं।” कंण्डी कहने लगे, “यह भूल है। पिछले दिन संकट का समय आ गया था। रस का असर होने में २४ घंटे लगे। अगर फिर ऐसा मौका आवे, उसी तरह हालत बिगड़े तो शायद उसमें से निकल ही न सके या पूरी तरह न निकल सकें।” डा० राय से कहने लगे, “इतवार को जो हालत हुई थी, उसके बारे में आपकी क्या राय है ? डाक्टरों भाषा में, उस दिन जो हालत बिगड़ी, वह क्या चीज थी ?” डा० राय बोले, “डा० गिल्डर मौजूद थे। वे कह सकेंगे।” कंण्डी कहने लगे, “हां, मगर उस दिन के चिह्न का विचार कीजिए। सख्त मतली, बेचैनी, नाड़ी की कमजोरी, मुझे याद आ रहा था कि हृदय को खून पहुंचाने वाली नाड़ी तो कही बन्द नहीं हो गई।” डा० राय बोले, “हो सकता है, चिह्न तो ठीक बैठते हैं।” कंण्डी कहने लगे, “मुझे तो डर लगता है। दूसरा हमला ज्यादा खतरनाक हो सकता है।” मुझसे बोले, “क्या आप उन्हें जबदंस्ती ज्यादा रस नहीं दे सकती ?” मैंने उत्तर दिया, “उनके साथ जबदंस्ती कौन कर सकता है ?” कंण्डी पूछने लगे, “क्या वे खुद नियम बांधते हैं, खुद कानून बनाते हैं ?” मैंने उत्तर दिया, “जी हां।”

वे बोले, “उनसे कहना कि वे बड़े खराब मरीज हैं। हम लोगों को मरीजों के बनाए कानून पालने की आवश्यकता नहीं।” सभी हंसने लगे।

शाह पूछने लगे, “उन्हें धोखा नहीं दे सकते हो ? चुपचाप ज्यादा रस डाल दिया करो।” मैंने कहा, “उन्होंने हम सबको हमारे ईमान पर रखा है। उनके साथ धोखा नहीं हो सकता।” कंण्डी कहने लगे, “मगर डाक्टर मरीज की जान बचाने के लिए झूठ बोले तो उसमें कौनसा बात है ! अच्छा, यह बताओ कि रस नापती कैसे हो ?” मैंने कहा, “औस वाले गिलास में।” वे बोले, “कल मैं नया औस का गिलास लाऊंगा। पुराना गिरकर टूट गया है। समझीं ?” मैंने कहा, “फायदा क्या होगा ? उसी नए गिलास से पानी भी नापा जाएगा। एक मात्रा रस और तीन या चार मात्रा पानी।”

शाह बोले, “डा० राय हमें बता रहे थे कि महाभारत में कहा गया है कि पांच तरह के मौके आ सकते हैं जब कि झूठ बोलने में दोष नहीं है। उनमें से एक है जान बचाने की खातिर।”

कंण्डी कहने लगे, “कोई और मरीज होता तो सी झूठ बोलने में हिचकिचाहट न होती, मगर ...। अच्छा, अब बुलेटिन में क्या कहना है ? यही कि ‘डाक्टरों दबाक

के नीचे उन्होंने मोसम्बी का रस लिया और हालत सुधरी । ”

मैंने कहा, “बापू नहीं मानेंगे कि डाक्टरों दबाव के नीचे उन्होंने रस लिया । ” शाह बोले, “तो कहें कि डाक्टरों सलाह से लिया ? ” डा० गिल्डर कहने लगे, “सलाह तो हमने कब से दी थी । ”

सब चुप हो गए । मैंने कहा, “एक ही बात पर उन्होंने जोर दिया है, पानी पी सकें । जब पानी नहीं पी सकें तब पानी में रस मिला लें, जैसा कि उन्होंने उपवास करने से पहले ही कहा था । बस इतनी-सी बात है । ”

बुलेटिन लिखी गई । डा० गिल्डर मुझसे मजाक करने लगे, “बहुत लूब ! आज तो बुलेटिन पूरी तुम्हारी है । ” मैंने कहा, “मैंने वही कहा है जो था । ” डा० गिल्डर बोले, “हां, होना भी यही चाहिए । ”

भूलाभाई, मुंशी और राजाजी आज बापू से मिलने आए । भूलाभाई ने बताया, “सरकार तो अकड़कर बंठी है । कोई दलील सुनने को तैयार ही नहीं । कुछ भी समझौते की बात करने से पहले वह कई तरह की शर्तें और गारंटी मांगने की बात करेगा । एक ओर आपकी आवाज जेल की दीवारों में बंद है, दूसरी ओर देश की हालत बिगड़ती ही जाएगी । ”

मुंशी ने भी भूलाभाई का समर्थन किया । कहने लगे, “उनकी तैयारी तो आपको मरने देने की है । अगर परिणाम में जनता कुछ गड़बड़ करे तो उनकी तैयारी उसे भी गोलियों से उड़ा देने की है । कई तरह के लोग आज बाहर काम कर रहे हैं । उनमें कड़ियों के नाम भी बापू नहीं जानते । मगर उन सब के कारनामों की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाली जाती है । इसका कुछ उपाय करना चाहिए । मगर मुझे इतना कहना होगा कि जहां तक मैं जानता हूँ, किसी कांग्रेस वाले ने जान-माल का नुकसान करने में हिस्सा नहीं लिया, मगर आपकी सीख के खिलाफ लोगों ने कई जगह काम किया है । अधिकतर वह अज्ञान और विचारों की गड़बड़ का परिणाम था । ”

बापू ने उनकी बातें चुपचाप सुन लीं और राजाजी से बातें करने के लिए अपनी शक्ति का संभय किये रखा । राजाजी ने बाइसराय के साथ के अपने अनुभव सुनाए और बताया कि लार्ड लिनलिथगो ने तीन बार उनसे झूठ बोला था । वे कहने लगे, “आखिरी बार जब मैं उनसे मिला तो वे पूछने लगे, “क्या गांधीजी उपवास करेंगे ? ” उस समय आपका खत उन्हें उपवास के बारे में मिल चुका था । इसी प्रकार एक बार कौर्म्य मसले पर मेरे विचारों को ‘बुद्धिमानी’ कहकर बाव में उन्होंने उससे उल्टा वक्तव्य निकाला था । तीसरा असत्य तो इन दोनों असत्यों से भी बुरा है । ”

राजाजी ने बताया कि लिनलिथगो को बापू के नाम से ही चिढ़ है । एक साहब उनसे बातें करने गए । बापू के नाम का जिक्र आते ही लिनलिथगो गुस्से में भरकर कमरे में चक्कर काटने लगे । किसने उनसे पूछा कि उनकी कार्यकारिणी सभा से तीन मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए क्या वे इस बजह से गांधीजी के प्रति अपनी नीति

बदलेंगे ? लिनलियगो ने उत्तर दिया, “जितनों ने इस्तीफा दिया है, उनसे बुगने नाम जगहें भरने के लिए जब मैं पड़े हूँ।”

इसके बाद राजाजी ने सरकार की तरफ से बापू पर लगाई गई तोहमतों की बात की। कहने लगे, “आपके लेखों को तोड़-भरोड़कर झूठी तोहमतों की मनमानी खिचड़ी तैयार की गई है।”

कांग्रेस ने बापू से देश की लड़ाई की योजना बनाने को कहा था। बापू ने पकड़े जाने से पहले कोई सूचनाएं नहीं निकाली थीं, लड़ाई की रूपरेखा नहीं बनाई थी। जो बाहर रह गए, उनमें से किसीको कांग्रेस के नाम पर हिंसक या अहिंसक लड़ाई चलाने का अधिकार न था। कांग्रेस ने कहा था कि हर एक अपना सरदार है, सो हर एक स्त्री-मुख्य अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार था। कांग्रेस स्वयं किसीके किये की जिम्मेदार न थी। राजाजी का कहना था कि उसूलन बापू या कांग्रेस किसीके किये के लिए जिम्मेदार नहीं, मगर मौका आने पर यह स्पष्ट करना होगा कि हिंसक प्रवृत्तियां कांग्रेस और आपकी नीति के विरुद्ध हैं। बापू से कहने लगे, “मैं जानता हूँ कि जेल में बैठकर बाहर की प्रवृत्तियों के विरुद्ध निदान देना आपकी जीवन भर की नीति के विरुद्ध होगा। मगर क्या आप हमसे यह नहीं कह सकते कि यह सब आपको पसंद नहीं ? जो लोग लड़ाई चला रहे हैं, वे अगर इतना स्पष्ट कर दें कि वे कांग्रेस के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पर अपनी प्रवृत्ति चला रहे हैं तो वे कांग्रेस की भी सेवा करेंगे और अपनी भी। मैं जानता हूँ कि आप यहां बैठकर उनकी निन्दा नहीं करेंगे, टीका नहीं करेंगे, मगर इसमें शक नहीं कि आज जो कुछ बाहर हो रहा है, वह बंद होना चाहिए। जिम्मेदारी किसीकी भी हो, मगर ऐसी प्रवृत्तियों से देश का भला नहीं हो रहा है।

“तीसरा है कौमी मसला। वह हल हो सकता है।” उन्होंने बापू को एक फार्मूला बताया। सर तेजबहादुर सप्रू, राजा महेश्वरीदयाल और अन्य मित्रों के साथ राजाजी ने इस प्रस्ताव की चर्चा की थी। उन लोगों को वह पसंद आया था। बापू से फिर कहने लगे, “इन लोगों में से किसीको आप इस मसले को हाथ में लेने की सत्ता नहीं दे सकते ?”

जब राजाजी सब कह चुके तब बापू ने उत्तर देना शुरू किया। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। बिलकुल पास कान रखने पर ही सुन सकते थे। बापू कहने लगे, “आज मेरी तबियत अच्छी है। मेरे मन में जो है सो सुना देता हूँ। इन छः महीनों में मैंने अहिंसा का ही मनन किया है। मैंने देखा कि मेरी अहिंसा में एक दोष है और इस युद्ध के समय अगर अहिंसा को अपना चमत्कार विखाना है तो वह दोष दूर करना होगा। वह दोष यह था, मैं कहा करता था कि अगर अहिंसा को अपना काम करना है तो देश में कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं हिंसा फूट निकली तो मैं अहिंसक लड़ाई बंद कर दूंगा। मगर मैं देखता हूँ कि आज मेरे चारों ओर हिंसा है। हिंसा की आग सारे जगत् में फैली हुई है। तब क्या मेरी अहिंसा बेबस होकर चुपचाप यह सब देखा करे ?

“मुझे कहना होगा—नहीं, आज अहिंसा को हिंसा के बीच रहकर काम करना है। इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं बाहर होता तो हमारे यहाँ हिंसा इस तरह न फूट निकलती। मैं उसे रोक लेता या रोकने की कोशिश में खतम हो जाता। मैंने अपने आखिरी भाषण में जनता से कह दिया था कि अगर उसने एक भी अप्रिय मारा तो वे मुझे जीता नहीं पाएंगे और मेरा खून उसके सिर पर होगा। आज देश में जो हिंसक कार्य हो रहा है, उसके लिए मेरे हृदय के किसी भी कोने में सहानुभूति नहीं है। रही उसकी कड़ी निन्दा की बात, सो अबतक मैं बैसे ही कड़े शब्दों में सरकार की निन्दा न कर सकूँ, तबतक जनता की निन्दा भी नहीं करना चाहता। आजकल की हमारी सरकार व्यवस्थित हिंसा का भानों एक दूसरा नाम है और हम उसे स्वीकार करते हैं, उसकी सत्ता के नीचे रहते हैं। मेरा मत है कि हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। कई साल पहले मैंने बिहार में इस बात का इशारा किया था। वहाँ पर पुरुषों ने पुलिस को स्त्रियों का अपमान करने दिया, उनका सामना करने की जगह वे भाग गए। कहने लगे कि मैंने उन्हें हिंसा करने से मना किया था, इसलिए उन्होंने पुलिस का सामना नहीं किया। मैंने कहा कि मैंने उन्हें बुजदिल बनने की कभी नहीं कहा था। उनका तो धर्म था कि स्त्रियों की रक्षा में अहिंसक या हिंसक तरीके से अपनी जान लड़ा देते। इस किस्म के अन्याय के सामने कभी न झुकते। अगर बिल्ली चूहे पर हमला करे और कोई बहादुर चूहा सामने से अपने दाँतों द्वारा अपनी रक्षा के लिए बिल्ली का सामना करे तो चूहे ने हिंसा की, ऐसा आप कहेंगे क्या? उस समय मैंने इस किस्म की दलोल की थी, मगर इस विचार का पूरा महत्त्व और उसका पूरा अर्थ उस समय आज की तरह मेरे सामने स्पष्ट नहीं हुआ था। अब मैं कहता हूँ कि अहिंसा को हिंसा के बीच रहकर अपना काम करना है। इसलिए मेरी यह मांग है कि कानून में अहिंसक विरोध को स्थान होना चाहिए। अगर अहिंसा को हिंसा के बीच रहकर काम करना है तो यह आवश्यक है। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि कानून तोड़ने वाले को सजा न हो। उसे आप चाहे जेल भेजें या फाँसी पर लटका दें। अहिंसक सिपाही समझता है कि कानून तोड़ने की सजा उसे भुगतनी होगी और वह खुशी से सजा लेने जाता है। मगर उसकी पत्नी को, कुटुम्ब को या बेहात को सजा नहीं हो सकती। आज ऐसा होता है। यह न्याय नहीं। हमें इस संगठित रूप से चलने वाली सरकारी हिंसा के सामने झुकना नहीं चाहिए। हमें मृत्यु का भय छोड़ना होगा। इस बार हमें जापानियों से पाठ लेना चाहिए। जहाँतक भ्रंश जानता हूँ, जापानी बहुत ही बहादुर कौम हैं, मगर उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें अंधा कर रही है। उन्हें साम्राज्य चाहिए। वे सारे जयत् को हजम कर जाना चाहते हैं। मेरी उनके साथ नहीं पट सकती, जैसे कि हिटलर के साथ नहीं पट सकती। हमारे विचारों में आकाश-याताल का अंतर है। मैं तो यहाँतक जाता हूँ कि इस हिंसा के सामने झुकने के बबले अगर लोग अपनेआप पर गोली चलाकर आत्महत्या कर लें तो उनका कृत्य अहिंसक होगा। मुझसे कहा गया है कि लोग थक गए हैं। सरकार ने अपनी फौजी मशीन के बल पर देश पर काबू पा लिया है। मेरा कहना है कि उन्होंने काबू

सोया ही कब था ? इन बातों का मुझ पर असर नहीं होता। मेरे मन में निराशा नहीं है। कोई कुछ भी कहे, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मैंने छूटने की खातिर उपवास नहीं किया। मुझे छूटने की इच्छा नहीं। तो भी अगर छूट जाता तो उसका उपयोग कर लेता और मैं यह महसूस करता हूँ कि परिस्थिति को सम्भाल लेता।

“आप कह सकते हैं कि यदि उपवास के बाद आपको पहले की तरह फिर जिन्दा बचन कर दिया गया तब क्या ? अगर आपको इस देश से ही ले जायें ताकि भारत की भूमि पर होने के नाते जितना आपका यहां से संबंध है, वह भी न रहे, तब क्या ? मेरा कहना है, मेरी आत्मा का संबंध तो रहेगा ही और वह और भी ज्यादा असरकारी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाहर कुछ भी हो, मगर मैं अकेला भी सच्चा रहा तो हिन्दुस्तान जरूर आजादी पाएगा। अहिंसा में विश्वास रखनेवाले मुट्ठी भर ही हैं तो क्या हुआ ? अगर अकेला मैं ही अहिंसा की सम्पूर्ण मिसाल छोड़ जाऊँ तो वही काफी होगा, कुछ काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं। मगर इस काल में कोई बहुत बड़ी आत्मा आ पहुंचेगी और सारे देश को जगा देगी। इसलिए देश के भाग्य का फंसला करने की, जो सत्ता देने की बात आप कर रहे हैं, वह मैं नहीं दे सकता।”

यहां पर डाक्टरों को बातचीत बंद करानो पड़ी। इतने श्रम से बापू की नाड़ी कमजोर हो गई थी। जब वे कुछ आराम ले चुके थे तब राजाजी ने बताया कि देश के भाग्य का राजनैतिक फंसला करने की सत्ता वे नहीं मांग रहे थे, वे तो कौमी मसले के फंसले की सत्ता मांग रहे थे।

बापू कहने लगे, “उतके लिए सत्ता मांगने की आवश्यकता ही नहीं और आप जानते हैं कि हमारा कितना ही मतभेद हो, एक-दूसरे के प्रति अविश्वास नहीं है।”

२६ फरवरी '४३

कंण्डी आज फिर कहने लगे, “मोसम्बी का रस बढ़ाने में उन्हें क्यों उज्र है, यह मेरी समझ में नहीं आता।” मैंने समझाया, “बापू ने कहा है कि पानी को पीने लायक बना लें, बस इतना ही कम-से-कम रस लेना चाहते हैं। अपनी इस प्रतिज्ञा का आत्मा और वचन से पालन करना चाहते हैं।”

कंण्डी बोले, “यह तो पानी और हवा खाने पर भी अंकुश लगाने जैसी बात हुई।” शाह कहने लगे, “वे तपश्चर्या कर रहे हैं।” मैंने कहा, “उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था कि उपवास करके वे अपने को सूली पर चढ़ाएंगे। आज वही कर रहे हैं।”

२७ फरवरी '४३

दो रोज से बापू के पेशाब की मात्रा कुछ कम है। जनरल कंण्डी को इससे चिन्ता हो रही थी। डा० बिथान कहने लगे, “पिछले इतवार को तबीयत इस कदर बिगड़ी थी। उस वक़्त भी दो-एक रोज तक पेशाब कम हो रहा था।” बापू उन्हें कुछ ज्यादा कमजोर

दिल्ली विद्ये और कंण्डी ज्यादा चिंतित लगे। बुलेटिन क्या निकालनी चाहिए थी, इस पर चर्चा चली। मैंने 'चिंतित' शब्द निकलवा डाला। कल की बातों में बापू ने स्पष्ट किया था कि उन्हें किसी बात की चिन्ता न थी। वे चिन्तामुक्त होकर भगवान् के भरोसे चल रहे थे।

अगे साहब बापू से मिलने आए। वे लेडी लिनलिथगो का संदेश लाए थे कि अगर बापू अपने उसूलों को छोड़े बिना उपवास छोड़ सकें तो जरूर छोड़ दें। अनेक दूसरे मित्र भी उपवास छोड़ने को कह चुके थे और लिख चुके थे। सर मॉरिस ग्वायर का पत्र आया। उन्होंने भी उपवास छोड़ने की प्रार्थना की थी।

आश्रम से श्रीमती आशादेवी, श्री चिन्मनलाल शाह और डा० दास ने एक वक्तव्य निकाला है कि लोग बापू से मिलने की कोशिश न करे ताकि उनकी शक्ति बची रहे और वे उपवास के शेष दिन पूरे कर सकें। सब लोग ईश्वर से उनकी दोर्घायु के लिए प्रार्थना करे।

राजाजी फिर बापू से मिले। गुरुदेव के पुत्र रघोबाबू भी प्रणाम कर गए।

आज बापू ने हजामत कराई। सबको बहुत अच्छा लगा। सूला हुआ चेहरा भी हजामत के बाद चमक उठता है।

२८ फरवरी '४३

जनरल कंण्डी ने दो-एक रोज पहले बापू को हजामत कराने की सलाह दी थी। आज यह जानकर कि बापू ने कल हजामत कराई थी, वे बहुत खुश हुए। मैंने कहा, "बापू कहते थे कि यह आपके सम्मान में है।" कंण्डी हंसकर कहने लगे, "भगर मैंने तो मोसम्बी का रस बढ़ाने को भी कहा था।"

हम सब बापू को देखने के लिए उनके कमरे में गए। कंण्डी उनसे बोले, "आज आप सुंदर युवक दिखते हैं।" बापू ने कहा, "आपका हुक्म बजाया है।" मैंने कहा, "बापू, जनरल कंण्डी कहते हैं कि उन्होंने तो मोसम्बी का रस बढ़ाने को भी कहा था।" कंण्डी बोले, "हां, पूरी सलाह क्यों न मानी जाय?" बापू कहने लगे, "ईश्वर को इच्छा हुई तो बुध को मानेंगे।"

बापू के कमरे में आकर बुलेटिन तैयार की। कंण्डी ने अपनी २५ तारीख की रिपोर्ट में सरकार को लिखा था, "राजाजी से बात करके गांधीजी बहुत थक गए थे।" सो इसका एक नया ही परिणाम हुआ। कर्नल भण्डारी को सरकारी टेलीफोन आया कि गांधीजी और राजाजी की बातचीत की पूरी रिपोर्ट भेजो। कटेली साहब को हुक्म मिला कि गांधीजी की सभी मुलाकातों की रिपोर्ट भेजो। बेचारे कटेली साहब भाई के पास आए। मुलाकातों में वे हाजिर रहते थे, मगर बापू की आवाज शीघ्र होने के कारण वे उनकी बातें बहुत कम सुन पाते थे, सो भाई से कह गए कि सब मुलाकातों की रिपोर्ट के उन्हें दे दें। बापू की सत्य और अहिंसा की नीति का यह प्रताप है कि जेलर कैदियों का इस तरह विश्वास करे। भाई ने उन्हें सब मुलाकातों की रिपोर्ट तैयार कर दी।

बापू से राजाजी की मुलाकात फिर हुई। उन्होंने कौमी मसले के बारे में अपने फार्मूले की चर्चा फिर की। जाते समय उसकी नकल देने लगे। मगर कटेली साहब ने कहा कि उसके लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। इस पर नकल रखने का विचार छोड़ दिया गया। बापू ने हमसे कहा कि फार्मूले को ध्यान से पढ़ लो और फिर स्मरण करके उसकी नकल खुद बना लेना। इस पर भाई ने उसे एक बार फिर पढ़कर सबको सुनाया। राजाजी के जाने के बाद उन्होंने नकल तैयार की। डा० गिल्डर ने बापू की खाट के नीचे हाथ करके शॉर्टहैंण्ड में कुछ नोट ले लिये थे। बाद में भाई की नकल उससे मिलाई। कुछ फर्क न था।

आज बहुत से मुलाकाती आए। उपवास पूरा होने पर जेल के दरवाजे फिर बन्द हो जाएंगे, इसलिए मित्र लोग दर्शन का लाभ ले लेना चाहते हैं।

बापू की तबीयत अच्छी रही।

१ मार्च '४३

कल राजाजी के जाने के बाद भाई बापू से कहने लगे, "आपने कौमी मसले पर राजाजी को कोरा चेक दे दिया है। क्या यह ठीक है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मसले के बारे में आपके विचारों से उनके विचार भिन्न हैं?"

बापू बोले, "यह ठीक है। मगर मैंने विश्वास रखा है कि राजाजी मुझे किसी ऐसी परिस्थिति में न डालेंगे जो मेरी अंतरात्मा की आवाज के विरुद्ध हो। और अगर कुछ ऐसी ही बातें बन गईं तो मैं आमरण उपवास करके अपनी भूल का प्रायश्चित्त करूंगा।"

सो आज राजाजी के आने पर बापू ने यह सब उनके सामने साफ किया। राजाजी कहने लगे, "मैं यह सब समझता हूँ। आप चिन्ता न करे। मैं आपको ऐसी परिस्थिति में न डालूंगा कि आपको अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ करना पड़े।"

बापू काफी पानी पी लेते हैं। खुराक न जाने से कमजोरी होनी तो जरूरी है, मगर गुदें सब जहर निकाल रहे हैं। सो चेहरे पर ताकगी और प्रसन्नता पाई जाती है, तेज बिल्लाई देता है।

२ मार्च '४३

आज आखिरी बार मुलाकातियों के लिए आगाला महल के दरवाजे खुले। लक्ष्मीबहन खरे और अन्य बहनों से बिदा लेते समय बा की आंखों में पानी आ गया। कहने लगीं, "अच्छा बहन, यह आखिरी राम-राम है!" मैंने कहा, "बा, आप ऐसा क्यों कहती हैं? हम सब छूटकर जाएंगे और सबसे फिर मिलेंगे।"

बा बोलीं, "हां, तुम सब जाओगीं!" उनकी आवाज में करुणा थी, निराशा थी।

कर्मल भण्डारी से बातें करते समय बापू को पता चला कि कल उपवास छूटने के समय रामदासभाई और देवदासभाई के सिवा और कोई नहीं आ सकेगा। इस पर बापू ने



सरकार को पत्र लिखवाया कि उनके लिए रिश्तेदार, मित्र और पुत्र, सब समान हैं। अगर उपवास छूटने के समय उनके विशाल कुटुम्ब के लोग उपस्थित नहीं रह सकते तो पुत्रों को अलग कोठि में रखना उन्हें पसंद न था। सो कल उपवास छूटने के समय उनके जेल के साथी और अफसर ही मौजूद रहेंगे। जेल के साथियों में दुर्गाबहन, नारायण और कनु भी शामिल थे। वे बापू की सेवा के लिए आगाखां महल में ही रहते थे।

गर्मी काफी बढ़ गई है। बापू की खाट हम बरामदे में ले आए थे। मुलाकातियों और दर्शनाभिलाषियों की कतारें प्रणाम करके उनके सामने से गुजरती रहीं। सबका हृदय भरा था। बापू सौम्य, प्रसन्न-मुख से हाथ जोड़कर सबका अभिनन्दन करते थे।

राजाजी और अणे साहब ने आधा-पीन घंटा फिर बापू से बातें कीं।

## उपवास की समाप्ति

३ मार्च '४३

कल रात से हम सबका हृदय ईश्वर के प्रति धन्यवाद का गीत गा रहा है। इक्कीस दिन पहले ६ तारीख की रात को हममें से अधिकतर लोग बहुत कम सो पाए थे। चिंता थी, मन पर बोझ था कि इक्कीस दिन कैसे कटेंगे? अकेले बापू रात भर गहरी नींद सोए थे। कल रात फिर सब बहुत कम सोए। बापू की अग्नि-परीक्षा पूरी होती जान पड़ रही थी। डाक्टरों मत के अनुसार बापू के लिए इक्कीस दिन का उपवास पूरा कर सकना एक असम्भव-सी बात थी। पहले दो हफ्तों में बापू की हालत को देखकर हम लोग सचमुच कांपते थे और पिछले रविवार (२१ फरवरी) के रोज तो ऐसा लगता था कि बापू अब चले, मगर उसके बाद बापू ने पानी में थोड़ा-सा मोसम्बी का रस डालकर लेना शुरू किया। इससे वे पानी पी सके। इतना ही फर्क पड़ा। आठ-नौ औंस रस से शरीर को क्या पोषण मिल सकता है? मगर इतने थोड़े-से रस का भी अद्भुत असर हुआ। बापू की तबीयत सुधरी और खून में पेशाब मिल जाने की बीमारी, यूरिमिया, के चिह्न एक-एक करके दूर हो गए। २४ से फरवरी को वजन का कम होना भी रुक गया और शक्ति बढ़ी। बापू को तो अपनी तबीयत इतनी अच्छी लगने लगी कि हंसी में एक रोज कहने लगे, "मैं तो आराम से चान्नीस रोज तक इस उपवास को चला सकता हूँ।" मगर हम डाक्टरों को निश्चितता नहीं थी; क्योंकि हृदय बुंबल था और पेशाब की परीक्षा बताती थी कि गुर्वे को अपना काम करने में कठिनाई हो रही है। किस समय फिर से परिस्थिति गम्भीर रूप धारण कर ले, यह कहना कठिन था, इसलिए कल रात को जब मंजिल पूरी होती देख पड़ी तो हम सब हर्ष के कारण सो न पाए। बापू भी बहुत कम सोए। वे कल दिन में डा० बिधान राय से कह रहे थे, "जितना विचार करता हूँ, उतना स्पष्ट नजर आता है कि इस उपवास को पूरा करने की शक्ति मुझे भगवान् से ही मिली है।" सो वे पड़े-पड़े भगवान् का दर्शन उसकी कृति में कर रहे थे।

सुबह चार बजे बापू प्रार्थना के लिए उठे। प्रार्थना के बाद वे सामान्यतः सो जाते हैं, मगर आज नहीं सो सके। कल मंने पूछा था कि उपवास छोड़ने से पहले गीताजी का पारायण करना है क्या? बापू कहने लगे कि करना अच्छा तो लगेगा, मगर कल सब डाक्टर आबेंगे, इसलिए छोटी-सी ही प्रार्थना करनी चाहिए। मगर आज सुबह प्रार्थना के बाद जब वे सो नहीं सके तब कहा कि एक-एक करके तैयार होकर आते जाओ और गीता का पाठ शुरू कर दो। भाई तो उस समय तक लगभग तैयार थे। उन्होंने पांच बजे X यानी नए हिसाब से छः बजे पाठ शुरू किया। कुछ अध्यायों के पश्चात् कनु आ गया। मैं दसवां अध्याय शुरू होने के समय पहुंची। सवा सात बजे पाठ पूरा हो गया। हम सब को बहुत अच्छा लगा।

जब पूरा होने को था तब डा० दीनशा मेहता अपनी पत्नी के साथ आए। बापू ने बिचार किया था कि आज मालिश इत्यादि जल्दी पूरी कर लेंगे, मगर श्री कटेली को कर्नल भंडारी की आज्ञा चाहिए थी, इसलिए डा० दीनशा की पत्नी को वापस भेजना पड़ा।

हम सब स्नानादि कर चुके थे। नाश्ता किया और फूल चढाने नीचे महादेवभाई की समाधि पर गए। कल फूलों के बहुत से हार आए थे। सब वहां पहुंचाए। सुंदर दृश्य था।

सबेरे सवा सात बजे स्वामी आनंद महादेवभाई की भस्म यहां से ले गए थे। जिस समय वहां ६ बजे बापू के उपवास छोड़ने की प्रार्थना चलती थी, उस समय उधर भस्म को नदी में प्रवाहित करने की विधि चलती थी। विचित्र संयोग था कि बापू के उपवास छोड़ने के समय ही यह किया हो रही थी।

यह कोई सोच-बिचारकर बनाया हुआ कार्यक्रम न था। कई दिन से दुर्गाबहन की अनुमति से सरकार की इजाजत लेकर यह निश्चय किया गया था कि भस्म का अधिकांश भाग यहीं नदी में प्रवाहित कर दिया जावेगा। अस्वियां गंगाजी में प्रवाहित करने के लिए रल ली थीं, मगर आज तक उसे नदी पर भेजने का प्रबंध नहीं हुआ।

एक आकस्मिक घटना और घटी। आज जमनालालजी का श्राद्ध था। संयोग-वश बापू को अपना उपवास १ फरवरी के बदले १० फरवरी को शुरू करना पड़ा। ऐसा न होता तो उपवास का छूटना और जमनालालजी का श्राद्ध होना, एक ही रोज न पड़ सकते थे।

प्रार्थना में बापू ने यह क्लम रलबाया था : पहले ईवावास्यमिबं... वाला श्लोक, फिर एकावश व्रत, फिर 'मैं भरोसे अपने राम के, और नहीं कुछ काम के' वाला भजन, फिर रामधुन, 'अउज बिल्ला' और अंत में 'ब्येन आइ सर्वे बि वण्डरस कांस'। मगर कल

\* X जब हम जेल में थे तब सरकारी पढ़िया एक घंटा भागे कर दी गई थी।

रात मीराबहन ने अंग्रेजी भजन नहीं गाया, इसलिए बापू ने उसे मुझसे पूरा कराया। रात को मीराबहन के साथ वह भजन पांच मिनट तक गाया। एक बार मुबह गाया। डर था कि कहीं गाने में भूल न हो जाय।

कमरा ठीक करके बापू को भीतर लाए। एक तरफ डाक्टरों इलाज के लिए कुर्सियां रखीं और दूसरी तरफ लोगों के लिए जमीन पर बंठने की जगह की। पौन बजे डा० बिधान राब आए और कहने लगे, "मैं तो जमीन पर बंठूंगा।" बापू बोले, "तो आपको फिर प्रार्थना में भी कुछ भाग लेना होगा।" बेश्चारे इधर-उधर कुछ हूँदने लगे। गीतांजलि हाथ आ गई। उसमें से दो सुन्दर अंश उन्होंने चुने।

बापू ने विचार किया था कि ८ बजकर ५० मिनट पर प्रार्थना शुरू की जावे ताकि वह ६ बजे उपवास छोड़ सकें, मगर फिर विचार बदला। सरोजिनी नायडू कहने लगीं कि जनरल कॅण्डो इत्यादि प्रार्थना में आ सकें तो अच्छा हो। उनके आने से पहले कनु और नारायण ने 'आनन्द लोके, मंगला लोके' गया। सरोजिनी नायडू ने 'बेणव जन तो...' गाने को कहा। वह भी गाया। इतने में जनरल कॅंडी इत्यादि आ पहुंचे। प्रार्थना शुरू हुई।

गीतांजलि में से डा० बिधान राय ने 'व्हेन वि माइड इज विदाउट क्रियर' और 'बिस द्रज माई प्रेयर टू बी, माई लॉर्ड', दोनों ही उन्होंने पढ़ सुनाये। अच्छे लगे। इसके बाद बापू ने प्रार्थना का जो क्रम रखा, वह एक के बाद एक चला। अन्त में 'व्हेन आइ सर्व वि वण्डरस फास' गाया गया। भजन पूरा करके मैं उठी कि रस लाऊं, मगर वहीं-की-वहीं खड़ी रह गई। बापू आंखें बन्द किये पड़े थे। उनके होंठ हिल रहे थे। आंखें भीगी थीं। यह भजन बापू को हमेशा द्रवित किया करता है। आज और ज्यादा असर हुआ। विचार आया—दूसरा सलीब (क्रास) हूँदने की क्या आवश्यकता है? वह तो हमारी आंख के सामने है। सारी-की-सारी प्रार्थना बहुत असरकारी बन गई थी। वातावरण गम्भीर, सौम्य और कश्ण था।

बापू कुछ शांत हुए। मैंने प्याले में रस डाला। बापू ने छः औंस रस में से एक औंस पानी डालने को कहा था। वह मिलाकर मैंने बा के हाथ में दिया। बा की छाट का पिछला भाग उठाया। बापू उसके सहारे बैठ गए और धीमे स्वर में बोले, "मैं डाक्टरों को धन्य-बाद देना चाहता हूँ...,"\* उनका गला रुंध गया। दो-एक मिनट तक सब सन्नद्ध में खड़े रहे। बापू ने सम्मेलनकर फिर कहना शुरू किया, "जो बड़ी सावधानी और प्रेम से मेरी देख-रेख करते रहे हैं...,"† गला फिर रुंध गया। थोड़ी बेर बाद उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया, "सफलता उन्हीं की बदीलत मिली है, लेकिन इच्छा प्रभु की थी कि

\* "I wish to thank the doctors . . ."

† "who have surrounded me with so much care and affection . . ."

में इस अग्निपरीक्षा में से जीवित पार हो जाऊँ। प्रभु ही मुझे अगला कदम सुझाएगा ॥ मेरी कल्पजोरी के लिए आप लोग जमा करें।”\*

नाड़ी बहुत कमजोर और उसकी गति तेज थी। डा० गिल्डर ने बापू को लिटाने की कोशिश की, मगर बापू ने इन्कार किया। जो कहना था, वह कहकर बा से रस का गिलास हाथ में लिया।

भाई ने भंडारी, कंण्डी और शाह को अंगूरों का गरम-गरम रस पीने की दिया और हंसकर बोले, “यह सुम्हारी शैम्पेना है।” कल श्री कंडी मजाक कर रहे थे, “क्या शैम्पेन मिलेगी?” हम लोगों ने ‘सहनाबबदु’ का मंत्र पढ़ा और बापू ने रस लिया ॥ डाक्टरों ने अपना पेश। श्री कंण्डी ने बापू की नाड़ी देखी और ‘चलो’ कहकर बाहर निकले। श्री भण्डारी बम्बई सरकार को टेलीफोन करने गए कि उपवास टूट गया है।

बाहर आकर छः जनों की सही से बुलेटिन लिखी गई। श्री कंण्डी खड़े बातें कर रहे थे। मैंने उनको धन्यवाद देते हुए कहा, “जनरल कंण्डी, विदा। आपकी सहायता के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद!” वे कहने लगे, “नहीं-नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि आपके बिना हम लोग क्या कर सकते थे।” इतने में सरोजिनी नायडू आ पहुँचीं। कंडी की बातें सुनकर उसी ढंग में वे भी कुछ कहने लगीं। मैं भीतर चली गई।

इतने में डा० गिल्डर आ गए और डा० बिधान राय की प्रेस-प्रतिनिधि भेंट का हाल सुनाने लगे। तभी डा० बिधान राय भी आ पहुँचे। वे आज जा रहे हैं। बापू के साथ कुछ बातें करके आ रहे थे। उनको उपवास के सम्बन्ध में एक चार्ट-सा बनाकर दिया था ॥ हाथ में लेकर कहने लगे, “विज्ञान आपको श्रद्धा के क्षेत्र में नहीं ले जा सकता। उपवास-सम्बन्धी हर एक बात को आप विज्ञान से सिद्ध नहीं कर सकते।” बात सच्ची थी। कल-परसों में और डा० गिल्डर चकित हो रहे थे कि आठ-नौ औंस संतरे का रस लेने से बजन कम होना कैसे रुक सकता है! डा० वीनशा मेहता भी कह रहे थे कि उपवास में संतरे लेने पर भी बजन तो एक-आध पौण्ड प्रतिदिन गिरता ही है। बापू का निवान तो निश्चित था—“ईश्वर ने ही मुझे शक्ति दी है। इसमें शंका को स्थान नहीं है।”

डा० बिधान राय चले गए। बापू की मालिश इत्यादि पूरी करके डा० वीनशा और उनकी पत्नी भी चले गए। महल सुनसान-सा लगने लगा।

बापू ने दिन में दो-तीन बार रस, शहब और पानी लिया और आराम करते समय ‘टेल आव बि टू सिटीज’ और ‘हाउण्ड आव हैबिन’ पढ़ते रहे।

\* “The triumph is theirs; but the will was God’s that I should survive the ordeal. He will show me the next step. You must forgive me for this breakdown.”

† एक प्रकार की शराब



उपवास की समाप्ति

चित्र—नवीन गांधी

“बा मे रम का गिलास हाथ मे लिया ।” पृष्ठ २६०

शाम को खाना खाने के बाद महादेवभाई की समाधि पर फूल चढ़ाकर हम लोग बेडमिन्टन खेलने लगे। इतने में देवदासभाई आए। रोज इतने लोग आते थे, मगर आज फाटक बन्द हो गए हैं। अब देवदासभाई व रामदासभाई को ही आने की इजाजत है। रात को रामदासभाई देवदासभाई को लेने आए। माताजी और बापू की बहन (फई बा) बाहर मोटर में थे, मगर हम उनको देख तक नहीं सकते थे।

रात को बापू अच्छी तरह सोए। उपवास पूरा होते ही सरकार का हल बबल गया है। फिर वही कड़ी निगरानी और बात-बात पर हुज्जत ! ऐसा लगता है, सरकार को इस बात का अफसोस हो रहा है कि उपवास क्यों पूर्ण रूप से सफल हुआ।

: ४१ :

## परिचारकों की विदाई

४ मार्च '४३

प्रातः पांच बजे प्रार्थना के लिए उठे। प्रार्थना के बाद भाई बापू के पांच दबाने लगे। बापू उपवास की बात करते हुए बोले, "मैंने ईश्वर का दर्शन जितना स्पष्ट इस उपवास में किया है, दूसरे किसी में नहीं किया। यों तो हरेक उपवास ईश्वरवत्त था और उसमें मैंने भगवान का दर्शन ही किया, मगर वह उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। मेरी शक्ति क्या थी ? ईश्वर ने शक्ति दी। मेरा दृढ़ विश्वास था, श्रद्धा थी कि मुझे इस उपवास में अधिक तकलीफ नहीं होगी और हुई भी नहीं।" मैंने कहा, "पहले दो हफ्तों को छोड़ दें तो।" बापू कहने लगे, "हां, वह तो है।"

आज भी डा० वीनशा मेहता अपनी पत्नी के साथ बापू की मालिश आवि करने आए। भंडारी और शाह भी आए। बापू सोते थे। जब जागे तब उन्हें देखकर बुलेटिन लिखी—जनता के लिए अलग और सरकार के लिए अलग—और उसके पास भेज दी।

खुराक में आज भी बापू ने फल और ग्लूकोज ही लिया। कैंलरी बेल्यू ७५० हो गई।

दोपहर को रामदासभाई आए। वह आज माताजी और फई बा को बम्बई ले जा रहे हैं। बापू के साथ कुछ समय बातें करते रहे। बापू उन्हें अहिंसक और हिंसक लड़कर का भेद समझाते रहे।

शाम को भीराबहन काफी समय बापू के साथ कविता इत्यादि की चर्चा करती रहीं।

खाने के बाद हम लोग खेल रहे थे कि इतने में देवदासभाई आए। उनसे खेलने को कहा, मगर उन्होंने इन्कार किया। जबतक उन्हें जितना चाहिए यहां रहने की इजाजत थी, तबतक वह खेला करते थे, मगर जब से उन पर साधारण मुलाकातियों के-

नियम लागू किये गए हैं, तब से वे थोड़े समय के लिए ही आते हैं। उतन कम समय में कैसे खेल सकते हैं।

घूमकर हम लौटे। देवदासभाई ने प्रार्थना में भजन गाया। प्रार्थना के बाद थोड़ा समय बापू के साथ बातें करके वे उठे और भाई के पास जा खड़े हुए। वे आज शाम को बम्बई से आए थे। मैंने उनसे कुछ खाने की कहा। उपवास के समय तो भाई किसीको पूछते ही नहीं थे; क्योंकि आने-जानेवाले बहुत थे। मगर अब तो केवल देवदासभाई ही आते हैं। सो मुझे लगा कि पूछ सकते हैं और उन्हें भी लगा कि वह निमंत्रण स्वीकार कर सकते हैं। दो-तीन मिनट में वे स्तारक उठने ही वाले थे कि बापू ने कहलाया कि देवदास जल्दी जाए। वे उठे और चल दिये। मैं दरवाजे तक पहुंचा आई। मगर बापू इस घटना से बहुत चिढ़ गए। उन्हें लगा कि इस तरह रुकने में खतरा है। देवदासभाई आज देर से आए थे, सात के बबले आठ बजे। इसलिए जाने में भी रोज से थोड़ी देर हुई। बापू को वह ठीक न लगा। मुझे बहुत दुःख हुआ। बापू क्यों इतनी छोटी-सी बात के लिए नाराज हुए? खाने में पांच मिनट भी न लगे होंगे। इस उधेड़बुन में एक बजे तक नहीं सो सकी। बापू भी एक बजे सोए। वह बहुत थक गए थे।

५ मार्च '४३

आज बापू ने थोड़ा-सा दूध लिया। सरोजिनी नायडू मजाक कर रही थीं, "नवजात शिशु तो चार औंस दूध ही ले सकता है न!"

बाबला और कनु को अंपेजी सिखाना शुरू किया है। डा० वीनशा मेहता जब मालिश आदि शुरू करते हैं तब हम तीनों अभ्यास के लिए बंध जाते हैं।

डा० वीनशा बापू के लिए कुछ फल लाए। उनमें पपीता भी था। बापू ने खाया, मगर दक्षिण अफ्रीका के फलों के बाद यहां के सामान्य फल उन्हें फीके ही लगते हैं।

भंडारी और शाह ने आकर बुलेटिन भेज दी। दिन भर घर सुनसान था। शाम को देवदासभाई के आने से काफी परिवर्तन हो जाता है। अच्छा लगता है।

उन्हें आज भी बम्बई में कुछ काम था। प्रार्थना के बाद बापू से थोड़ी बात करके वे चले गए।

श्री कटेली ने आज नये बेडमिंटन के बल्ले मंगवाए हैं। सो खूब भी खेलने की पहुंच गए। घुटने में छोट के कारण उन्हें खेलने की मनाही है, मगर उन्हें यह खेल इतना प्रिय है कि उसका सर्वथा त्याग करना उनके लिए बहुत कठिन है।

बापू की शाम के बकल बेचैनी-सी लगती थी। पेट और सिर पर मिट्टी की पट्टी रखकर सो गए। अच्छी नींद आई।

६ मार्च '४३

देवदासभाई आज मयुरावासभाई के आपरेशन के लिए मिरज जाने का विचार कर रहे थे। कल शाम कह गए थे कि मिरज जाऊं तो शायद अगली शाम को न आ सकूं।

यहां सुबह का कार्यक्रम रोज की तरह चला। भंडारी और शाह आए। भंडारी कहने लगे, “अब कल से बुलेटिन की क्या आवश्यकता है? हम लोग भी मान गए।” आज की बुलेटिन में लिख दिया कि बिना विशेष आवश्यकता के अब आगे बुलेटिन न निकाली जायगी। भंडारी कहने लगे कि कल से वे नहीं आवेंगे। डा० शाह आया करेंगे और सरकार को खबर भेजा करेंगे।

डा० दीनशा मेहता और उनकी पत्नी मालिश करके चले गए।

बापू को खाना खिलाकर मंने स्नान किया। जब खाना खाकर लौटी तो एक बच्चा चुका था। इतने में श्री कटेली आए और कहने लगे, “अखबार में आया है कि देवदास कुछ घंटों तक बापू के पास रहे थे। परिणामस्वरूप कल से उन्हें यहां आने की इजाजत नहीं मिलेगी। आज आखिरी दिन है।” बहुत बुरा लगा। कौन जाने आज वे आ भी सकेगे या नहीं। बापू से कहा गया था कि देवदास की मुलाकात बन्द करने से पहले उन्हें नोटिस दिया जावेगा, मगर आज एकाएक सब बदल गया। बापू सोते थे। उठने पर मंने उन्हें बताया। अण भर उन्हें लगा कि परसों यहां देर हुई थी, वही कारण होगा, मगर मंने याद दिलाया कि अखबार में तो पहले ही आया था कि चार दिन तक उगहे आने देंगे। आज चौथा दिन है। परसों देवदासभाई मुश्किल से दो घंटे ठहरे थे। इतने की तो उन्हें इजाजत थी ही। बापू कहने लगे, “तू ठीक कहती है, मगर मेरा स्वभाव है कि अपनी तरफ से कोई भी कारण मिल सके तो उसे पकड़ लेना चाहिए।”

बाब में बापू ने दुर्गाबहन और बाबला को बुलाकर कहा, “देवदास के लिए इस तरह एकाएक हुक्म आ गया है तो तुम लोगों को भी एकाएक यहां से जाने के लिए सरकार कह सकती है, इसलिए तुम लोगों से आज ही थोड़ी बातें कर लेना चाहता हूँ।” फिर बाबला को क्या करना चाहिए, कहां रहना है, इस बारे में बातें करते रहे।

कल से देवदासभाई नहीं आवेंगे, इस खबर से एक तरह की उदासी-सी छा गई है।

देवदासभाई मिरज नहीं गए थे; क्योंकि मथुरादासभाई का आपरेशन मुत्तबी हो गया था। वे शाम को आए। रामदासभाई भी बम्बई से आ पहुंचे। उन्हें बहां सेक्टेरियट से पता चला था कि गांधीजी की तबीयत अच्छी है, सुधार संतोषजनक है। कल से बुलेटिन नहीं निकलेगी, इसलिए मुलाकात भी कल से बन्द होजावेगी। बुरा लगा। मालूम होता तो दो-चार रोज बुलेटिन और निकालते।

प्रार्थना के बाद रामदासभाई बापू से बोले, “अब दूसरे उपवास के लिए हम पर बड़ा रखना। हम तो पामर प्राणी हैं, इसका भी आपको विचार रखना चाहिए।” बापू कहने लगे, “यह तो तू ईश्वर से मांग, मैं कौन हूँ? मुझे जो मेरा भालिक करावेगा, वह मुझे कष्टना पड़ेगा। यह उपवास भी मैंने कहां किया है? मैं तो जीना चाहता हूँ। आगे ईश्वर की मर्जी!” दोनों भाई चले गए। श्री कटेली सारा समय साथ थे। अन्त में उन्हें पहुंचाने के लिए हम लोग कमरे से निकले। श्री कटेली ने हमें बरसाती से आगे जाने की



मनाही की, इसलिए हम वहीं रुक गए ।

बापू की मालिश हो रही थी कि इतने में श्री कटेली आकर कहने लगे, “भंडारी का टेलीफोन था कि श्रीमती देसाई और उनके लड़के को सोमवार तक चला जाना चाहिए ।” यह दूसरा धक्का था, मगर इसके लिए पहले की अपेक्षा हम लोग ज्यादा तैयार थे । मैंने उन्हें खबर दी । नारायण को दुर्गाबहन से अधिक बुरा लगा । उने यहाँ बहुत अच्छा लगता था । पहले तो वह कहता था कि उसे जल्दी जाना है; क्योंकि यहाँ जितना रहे, उतनी ही अधिक सम्भावना उसके लिए यहाँ से निकलने पर तुरंत पकड़े जाने की है । महादेवभाई की अस्थियाँ भी गंगाजी पहुंचाने को रखी थीं । उस कारण भी वे दोनों जल्दी जाना चाहते थे, इसीलिए बापू ने भंडारी से कहा था कि नर्सों में कनु ही रहेगा, मगर बाद में नारायण का मन बदला । वह भी कनु के साथ रहना चाहता था । मगर अब क्या हो सकता था !

दुर्गाबहन की मैंने मालिश की और उनसे बातें भी की ।

७ मार्च '४३

महादेवभाई की समाधि पर सुबह फूल चढ़ाने बहुत दिनों के बाद आज मैं भी गई । लौटने के बाद थोड़े मिनटों में ही भंडारी और शाह आ पहुंचे । बापू ने भंडारी से बा के लिए एक नर्स का इन्तजाम करने को और मनु गांधी या मणिबहन पटेल को भेजने को कहा ।

दोपहर को बापू ने दुर्गाबहन और नारायण के साथ थोड़ी बातें की । बाद में दुर्गाबहन मेरे साथ काफी समय तक बातें करती रही । वे पुराने दिनों को याद कर रही थीं और बात-बात पर उनकी आंखों में पानी आ जाता था ।

रात को मौन लेने से पहले बापू ने मां-बेटे को फिर बुलाकर पूछा, “क्या कुछ कहना है ?” दुर्गाबहन बोली, “और तो क्या कहूं, आप जल्दी आवे और हम लोगों पर दया रखकर फिर उपवास की बात न करे ।” बापू ने उत्तर दिया, “यह उपवास भी मैंने नहीं किया । मैं तो राम के अधीन हूं । अगर मैं कर्त्तव्य-पालन की एक सम्पूर्ण मिसाल जगत् के सामने रख जाऊं तो मेरे लिए वह बस है ।”

बाबला के साथ आज बेडमिन्टन और रिंग खूब अच्छी तरह खेला । कल नहीं खेले थे । इससे वह निराश था, आज खुश हो गया ।

८ मार्च '४३

सुबह महादेवभाई की समाधि पर फूल चढ़ाकर लौटते तो दुःख हुआ था । आज नारायण की यह आखिरी पुष्पभेंट है । फिर वह यहाँ पर कब आ सकेगा, यह भगवान ही जानता है । नारायण के मन में था कि सम्भव है, किसी कारणवश उसका जाना टल जावे । कल भंडारी के साथ नर्स की बात हो रही थी तब बापू ने उससे कहा था कि अभी तक दुर्गा बा की मबर करती थी । अब वह जावेगी तो बा को दूसरे की आवश्यकता होगी । बापू ने जो नाम सुनाए, उनके अलावा किसीको बाहर से लाने की भी बात चली । दुर्गाबहन

का नाम आया। भंडारी कहने लगे, “क्या वे डहरेंगी?” बापूने कहा, “ठहर तो जावेंगी।” मंने कहा, “नारायण को उनसे अलग नहीं किया जा सकता।” भंडारी कहने लगे, “उस बेचारे को अनिश्चित समय के लिए कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए वह सजा हो जाएगी।” नारायण ने बाद में सुना तो कहने लगा, “उनसे कहो कि मेरे लिए यहां रहना कोई सजा नहीं। मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है। सेवाप्राप्त की तरह मेरा अभ्यास भी यहां अच्छा हो सकता है।” मगर भण्डारी से कुछ कहना फिजूल था। वोपहर को मां-बेटे को लेने के लिए दिलीपकुमार मोटर लाए।

दुर्गाबहन के जाने से पहले बापू ने उनको बुलाया। दुर्गाबहन ने फिर कहा, “जल्दी आना।” बा कहने लगीं, “पापो छोड़ें तब तो! वे किसीकी नहीं सुनते।” बापू का मौन था। उन्होंने लिखा, “सरकार भले न सुने, मगर सरकार के ऊपर भी एक यड़ा सरकार है। वह सबकी सुनता है। वह निर्बल का बल है।” साढ़े तीन बजे की गाड़ी पकड़ने के लिए वे लोग यहां से ढाई-पौने तीन बजे निकले। हम लोग बरसाती से ही वापस आ गए। बाहर जाने से कहीं कटेली रोके न, यह सोचकर आगे बढ़े ही नहीं। मगर बा बाहर तक गईं।

घर बहुत सूना लगने लगा है। भाई तो बहुत ही उदास हो गए। रात को बापू का काम भी नौ-सवा नौ बजे पूरा हो गया। बाद में कनु कुछ भजन सुनाता रहा, कुछ बातें करके भाई को हसाता रहा। साढ़े दस बजे सब सोने को उठे।

६ मार्च '४३

आज केवल डा० शाह आए और सरकार को खबर भेजने के लिए कुछ बातें पूछ गए।

आज बापू का वजन लिया। ६६ पौण्ड निकला।

बा की मालिश आदि आज मंने की। वोपहर में कुछ सो भी गईं। मगर तो भी रात को थकान लगती थी। दिन भर घर में उदासीनता-सी भरी रहती थी। बुरा लगता था। कनु मेरे पास व्याकरण सीखता है। आज से उसने सरोजिनी नायडू के साथ 'ट्रेजर आइलैण्ड' पढ़ना शुरू किया है।

कल से बकरी के दूध का मक्खन निकालना शुरू किया है; क्योंकि बापू की खुराक की कैलोरी वॉल्यू × बढ़ाने के लिए मक्खन की आवश्यकता है। कल तो  $\frac{3}{4}$  औंस निकला था, आज पौन औंस निकला।

डा० गिल्डर का हृदय की घड़कन का नक्शा आया। सरोजिनी नायडू का और बापू का नक्शा भी उन्होंने लिया। भाई का और बा का मंने लिया। उनसे कार्डियो-लोजी की छोटी-सी किताब भी पढ़ने को लाई, मगर आज वह शुरू नहीं कर पाई।

१० मार्च '४३

आज से बापू ने भाई को भी अपनी सेवा में हिस्सा दिया, इसलिए मेरे पास दोपहर को दो-एक घंटे, खाली बचे जिनमें अखबार और कार्डियोलोजी की किताब देखती रही।

आज भाई ने मक्खन निकाला। रोज से ज्यादा निकाला, मगर बकरी ने आज दूध बहुत कम दिया, इसलिए कल मक्खन नहीं निकाल सकेगे। आज का आधा कल के लिए रख लिया।

कनु आज खेलने के लिए आया। बहुत हंसाता रहा। रात को भाई ने बापू का सब काम किया। कनु कल मीराबहन से अंग्रेजी बातचीत और भजन सीखता रहा। मैंने कुछ पढ़ा।

गर्मी बहुत पड़ने लगी है।

बापू का रक्तचाप सुबह नहीं देखा था। शाम को प्रार्थना से पहले देखा तो १२६/८२ निकला।

शाम को बापू के लिए गुड़ बनाया। दूध नहीं डाला। था ही नहीं।

११ मार्च '४३

आज से मीराबहन ने डा० दीनशा मेहता से एनीमा और मालिश इत्यादि लेना शुरू किया है। इसका असर उनकी तबीयत पर अच्छा होगा।

आज भंडारी आए। कहने लगे, "कनु को यहां से जल्दी जाना होगा। किसी दूसरे को सेवा के लिए दे सकेंगे।" मैंने कहा, "मगर बा को तरह नहीं होना चाहिए कि दुर्गा-बहन चली गई और कोई आया भी नहीं।" वे कहने लगे, "तुम अपना मत लिख सकती हो।" इसलिए दोपहर को मैंने और डा० गिल्डर ने लिखा कि हमारी समझ में बा को रोज के लिए और बापू को एक महीने के लिए नर्स की आवश्यकता है। कनु रह सके तो सबसे अच्छा होगा; क्योंकि वह बापू की आवश्यकताएं समझता है।

बापू ने आज शाम को सब्जी नहीं ली, मगर रात को उन्हें कब्ज-सा महसूस हुआ, इसलिए कल से दोनों वक्त सब्जी लेंगे।

बापू का रक्तचाप आज सोते समय देखा। १५६/६८ निकला।

कल वाले गुड़ में नींबू डालकर उसे आज फिर गरम किया। अच्छा बन गया है। अब बापू काफी गुड़ खा सकेंगे।

१२ मार्च '४३

आज भंडारी नहीं आए। दोपहर को उन्होंने कहलाया कि प्रेमाबहन यहां हैं और उन्हें बा के लिए बुला सकते हैं। चार लड़कों के भी नाम आए। उनमें से एक बालजी-भाई का लड़का है। कनु की जगह कोई दूसरा आए, सरोजिनी नायडू को यह पसन्द न था। हम सबको भी। जितने दिन में नया आदमी काम समझेगा, उतने दिन में उसके-

जाने का समय आ जावेगा। फिर वह सबके साथ कैसे हिल-मिल सकेगा, यह भी पता नहीं। मुझे तो एक ही चिन्ता है कि कोई भी आवे या जावे, बा को और बापू को सन्तोष हो तो ठीक है।

१३ मार्च '४३

भंडारी आज फिर आए और बापू से कहने लगे कि वे उन चारों नामों में से किसीको चुन लें। कनु को तो भेजना ही होगा। दूसरे कुछ नाम उनके पास और आने वाले थे। प्रेमाबहन के सिवा किसी बहन का नाम नहीं दिया था, मगर वे कहने लगे, "कनु के बारे में लिखा है। उत्तर जल्दी आ जावेगा।" बापू की इच्छा कनु के बदले में किसीको लेने की नहीं है, मगर भंडारी आग्रह करने लगे, "प्यारेलाल और सुशीला पर बहुत दबाव पड़ेगा। आप किसीको चुन लें।" शायद सरकार को शर्म आती होगी कि इस स्थिति में भी बापू के पास कोई मवब के लिए न हो, यह ठीक नहीं। उनके जाने के बाद बापू ने मुझे पूछा, "तुम लोगों को तय कर लेना चाहिए कि किसीको बुलाना है या नहीं।" मैंने कहा, "आप अगर किसीको नहीं बुलाना चाहते तो हमारी खातिर किसीको बुलाने की आवश्यकता नहीं है।" बापू को यह अच्छा लगा। खाने के समय भंडारी को एक पत्र लिखवाया कि सरकार का इस तरह का बर्ताव उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें कनु की जगह किसीको लेना पसन्द नहीं; क्योंकि उसमें उनकी मानहानि है। पत्र श्री कटेली को दिया और उसे उन्होंने अधिकारियों के पास भेज दिया। हमें ऐसा लगने लगा कि शायद कनु को आज ही जाना पड़े।

डा० गिल्डर कहने लगे, "तुम, प्यारेलाल और मैं आठ-आठ घंटे झूटी कर लिया करेंगे।" मुझे यह अच्छा लगा। जहां तक बनेगा, हम डा० साहब को कष्ट न देंगे। उनकी इतनी सहानुभूति दिखाना ही काफी है।

शाम को खूब खेले। अच्छा लगा। थकान भी लगने लगी। कनु ने आज भजन कराने को कहा था, मगर कराया नहीं।

डा० गिल्डर के साथ दोपहर कुछ विल की धड़कन के चित्र देखे। कुछ समय बातें करते रहे।

१४ मार्च '४३

आज भंडारी फिर आए। आज वे डा० बीनशा मेहता के जाने की बात करने लगे। उनके पास एक ही रोज कनु और डा० बीनशा के बारे में आर्डर आया था, मगर वे हम लोगों को धीरे-धीरे खबर दे रहे थे। मैंने और डा० गिल्डर ने दोपहर को उन्हें एक पत्र लिखा कि डा० बीनशा को कम-से-कम इस महीने के अंत तक आने देना चाहिए। शुरू में इस बारे में बात भो हो गई थी। उस वक्त ऐसा कहा गया था कि कनु और डा० बीनशा के बारे में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है।

दोपहर को डा० गिल्डर काफी समय तक मुझे यह समझाते रहे कि गांवों और शहरों में डाक्टरों की मवब कैसे पहुंचाई जानी चाहिए। मैंने उनके सामने बापू के इस बारे

में कुछ बिचार रखें। उन्हें लगता था कि सच्चे सेवाभावी लोग मिलें तभी बापू की योजना सफल हो सकती है, अन्यथा नहीं।

कल से मंने शाम को खाने से पहले स्नान करना शुरू किया है। बहुत अच्छा लगता है। कौन जाने कबतक यहां रहना है, इसलिए व्यवस्थित तरीके से जैसा जीवन चलना चाहिए, बंसा करना अच्छा है। कल बापू कह रहे थे, "मेरे मन में अब धीरज है। जबतक रहना पड़ेगा, रहेंगे।" यह धीरज कायम रहे तो हमारे लिए बस है।

१५ मार्च '४३

आज भंडारी नहीं आए। कनु के बारे में भी कोई आर्डर नहीं आया। कल जो पत्र लिखा था, आज उसीमें कुछ सुधारकर फिर उसे भेजा। मीराबहन को डा० मेहता के न आने की बात सुनकर सबसे अधिक दुःख हुआ। कहने लगीं, "मेरा इलाज अधूरा रह जाएगा।" बात सच है। डा० मेहता नहीं आवेंगे तो इच्छा होने पर भी हममें से कोई मीराबहन की मालिश नहीं कर सकेंगे।

शामको खूब खेले। दिन में कोई खास घटना नहीं घटी।

बापू की चलने की शक्ति धीरे-धीरे बढ़ रही है।

१६ मार्च '४३

आज सुबह डा० शाह आए। बापू का वजन लिया। १०२ पौण्ड निकला। तीन पौण्ड पिछले हफ्ते में बढ़ा है। बापू खाना खा रहे थे तब कटेली साहब आए। उन्हें भंडारी ने टेलीफोन किया था कि डा० मेहता दूसरा आर्डर आने तक आ सकते हैं। हमारे पत्र का कुछ असर हुआ दीखता है।

दोपहर को डा० गिल्डर के साथ करीब दो घंटे बातें करती रही। पहले तो डाक्टररी प्रोहदो की बातें होती रही, फिर सेवाग्राम में डाक्टररी काम की योजना की बात चली। भविष्य में मेरे अपने काम की इसी सम्बन्ध में कुछ चर्चा हुई। कार्डियो-लोजी की पुस्तक थोड़े समय तक देखती रही।

१७ मार्च '४३

कनु ने करीब एक हफ्ते के बाद आज फिर मुझसे व्याकरण पढ़ना शुरू किया। शाम बा की दिल की धड़कन का दौरा हुआ। करीब दो घंटे चला। फिर अपनेआप ठीक हो गया। गले के पीछे की एक नस को बबाने से हमेशा उनका दौरा बंद हो जाता है, पर आज नहीं बंद हुआ। उनके लिए 'क्विनिडीन सल्फेट' दवा मंगा भेजी, मगर डूकान वाले ने 'क्विनीन सल्फेट' भेज दिया। कैसा दुकानदार है ! अगर कहीं किसी नुस्खे में डाला होता तो भूल का हमें पता भी न चलता। रात को डा० शाह डा० कोयाजी के पास से १२ गोली क्विनिडीन की मागकर लाए। हमारी दवा आवेगी तब इसे वापस करना होगा। यह दवा आजकल मिलती कम है।

रात को मीराबहन, कनु और मंने एक साथ 'व्हेन आइ सर्व वि बण्डरस फास्ट'





बापू और उनकी 'अम्माजान': प्रसन्न मुद्रा में  
(गोलमेज परिवर्ष के समय का चित्र)

गाया। अच्छा लगा। पीछे भाई के साथ थोड़ी देर पढ़ती रही।

बा रात को अच्छी तरह सो गई। गर्मी सख्त थी।

१८ मार्च '४३

आज सुबह भंडारी आए। कहने लगे कि मेहता और कनु २६-२७ मार्च तक चले जावे तो उचित होगा। मैंने कहा कि लगभग ठीक हूँ। बोले कि अब लगभग की बात न करो। फिर कहने लगे कि बहुत करके डा० गिल्डर अब यहीं रहेंगे। मनु आ जावेगी, मगर मनोजाभाभी और मनु गांधी दोनों में से किसको बुलाते हैं, यह उन्हें पता नहीं चलता था, इसलिए पूछ गए।

बा आज बिलकुल अच्छी थीं। सुबह आराम करने को कहा तो मुझसे चिढ़ गईं। जब उनकी तबीयत ठीक रहती है तब उन्हें बिठा रखना कठिन होता है।

दोपहर में सख्त गर्मी थी। अभी रात को कुछ हवा चली है। अच्छी लगती है।

कल डा० गिल्डर की कुछ डाक्टरों पत्र-पत्रिकाएं आई हैं। उनमें से एक आज देखती रही।

: ४२ :

## सरोजिनी नायडू की बीमारी और रिहाई

१९ मार्च '४३

आज सरोजिनी नायडू की तबीयत अच्छी नहीं है। सिर में चक्कर आते हैं। पतले वस्तु हो गए हैं। नाड़ी तेज है और कमजोरी लगती है। रात में उनके पास कनु को सुलाया। मैंने उनके पास सोने को कहा तो उन्होंने मनाही की। कहने लगीं, "तुम्हारी बापू के पास आवश्यकता होगी।" मुश्किल से कनु को वहां सोने दिया।

दिन में आज कुछ खास काम नहीं कर पाईं। खूब गर्मी पड़ती है। दिन यों ही निकल जाता है।

सुबह डा० शाह आए। सरोजिनी नायडू की तबीयत उस समय अच्छी थी, मगर तो भी वे बहुत बिनो से बीमार-सी हैं। डा० शाह कह रहे थे, "अगर वे चली जाएं तो तुम लोगों की देखभाल कौन करेगा?" मगर हमारी देखभाल के लिए उन्हें रोका थोड़े ही जा सकता है। उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें छोड़ना ही चाहिए।

२० मार्च '४३

आज भी सरोजिनी नायडू बीमार है। थोड़ा बुखार भी है। चक्कर तो आते ही रहते हैं। सुबह भंडारी और शाह आए। उन्होंने रिपोर्ट भेजी है कि सरोजिनी नायडू को बहुत बीमार समझना चाहिए। शाम को फिर आए। उन्हें अस्पताल जाने को कहने



लगे। सरोजिनी नायडू ने इन्कार किया। उन लोगों ने काफी जोर लगाया, मगर वे नः मानीं। तब वे बापू को बुलाकर ले गए। वे बोलीं, “अस्पताल के बजाय मैं घर जाना पसंद करूंगी।” मगर घर जाना तो सरकार के हाथ में रहा। आखिर इतना मानीं कि मुसलमाने उठकर नहीं जावेंगी।

मनु भी शाम को आ गई। नागपुर जेल की बातें बताती रही।

भंडारी ने आज कहा कि डा० दीनशा का जाना सोमवार से बन्द करने का विचार है। प्यारेलालजी उनकी जगह मालिश कर सकते हैं। भाई ने उन्हें दोपहर को पत्र लिखकर बताया कि वे दीनशा को जगह क्यों नहीं ले सकते।

२१ मार्च '४३

कल रात में सरोजिनी नायडू के पास सोई। वे काफी सोती रहीं। बीच-बीच में उठकर बैठ जाती थीं। बुखार तो था ही। सुबह छः बजे मापा तो १०१ निकला, दिन में फिर बढ़ा और दोपहर को १०५ तक गया। डा० शाह आए। भंडारी बम्बई गए थे। बापू ने डा० शाह से सरोजिनी नायडू के लिए एक नर्स लाने को कहा। डा० शाह कहने लगे कि साढ़े दस बजे भण्डारी बम्बई पहुंचेंगे। ग्यारह-बारह बजे उन्हें टेलीफोन करके वे पूछेंगे। मगर दोपहर को भंडारी का टेलीफोन आया कि सरकार ने अम्माजान को छोड़ दिया है। वे कहा जाना चाहती हैं, यह पूछ ले। सरोजिनी नायडू ने पर्णकुटीर जाना पसंद किया।

सुबह श्रीमती दीनशा मेहता आकर सरोजिनी नायडू की देखरेख करने लगीं। उनका बुखार तेज था। मैं और मोराबहन भी दूसरे कामों से समय निकालकर आते-जाते रहते थे। आज सुबह हमने सरोजिनी नायडू के कमरे से खाने की मेजें निकाली थीं ताकि उनको आराम मिल सके। सामान की अल्मारी निकालने की तैयारी में थे कि दोपहर को उनके छूटने की खबर आ गई। उनका सामान बाधा। मने जो तस्वीरें बनाकर उन्हें दी थीं, उन पर कोई चीज रखी जाने से धब्बे पड़ गए थे, इसलिए उन्हें ठीक किया। अम्माजान को तैयार किया। पांच बजे डा० शाह आए और एम्बुलेन्स कार मंगवाई। करीब साढ़े पांच बजे सरोजिनी नायडू रवाना हुईं। उनका बुखार १०२ पर आ गया, मगर उल्टियां खूब हो रही थीं। डा० दीनशा मेहता, उनकी पत्नी और डा० शाह उनके साथ गए। वे पर्णकुटीर जा रही थीं। उनके जाने के बाद घर सूना हो गया।

डा० दीनशा ने आज सरकार को एक खत लिखा है, जिसमें उपवास के बारे में अपने अनुभव की चर्चा की है और कहा है कि उन्हें गांधीजी की सेवा में और लम्बे असे तक रहने की आवश्यकता है।

## अहिंसा का प्रयोजन

२२ मार्च '४३

सरोजिनी नायडू के जाने से घर बहुत ही सूना हो गया है। उपवास के बाद जिस रोज माताजी पूना से गई थीं, उस रोज भी इतना सूना नहीं लगा था।

आज बापू की मालिश मंने और भाई ने मिलकर की। डा० गिल्डर भी पास खड़े थे। बोले, "बापू को कहीं यह न लगने पाए कि दीनशा गए तो अब उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। इससे तबीयत का सुधार रक सकता है।"

२३ मार्च '४३

भाई का हाथ कट गया था, इसलिए मैं मालिश कर रही थी। इतने में डा० गिल्डर ने आकर दूसरी तरफ की मालिश करनी शुरू कर दी। भाई आए और हंसते-हंसते कहने लगे, "जरा मैं भी तो देखू कि दो एम. डी. कैसे मालिश करते हैं!" बापू से पूछा, "कैसा लगा?" वे भी हंसने लगे। बोले, "चलेगा। मैं जल्दी प्रमाणपत्र देने वाला नहीं हूँ।"

शांतिकुमारभाई का कनु के लिए पत्र आया। लिखा था कि मेरी माताजी को तेज बुखार आता था। चिन्ताजनक स्थिति हो गई थी, मगर अब अच्छी है।

२४ मार्च '४३

बापू को आज करीब आधे फर्लांग तक चलाया। धीरे-धीरे चलना बढ़ा रहे हैं। मालिश आज भी डा० गिल्डर ने और मंने की।

मनु ने बा का सेवा-कार्य अच्छी तरह संभाल लिया है। बा अब घर के काम में भी रस लेती हैं। उनकी तबीयत भी अच्छी जान पड़ती है।

गर्मी बढ़ती ही जाती है। दोपहर को बापू के कमरे में करीब एक हफ्ते से पंखा चलता है।

आज माताजी की और खबर मिली। वे बहुत बीमार हैं। दस दिन से तेज बुखार आता था। दो दिन से कुछ कम है। इस खबर से बड़ी चिन्ता हो रही है। इस उमर में मधुमेह के साथ लम्बा बुखार मामूली बात नहीं।

२५ मार्च '४३

आज शाम को जब मैं कनु को व्याकरण सिखा रही थी तब देखा कि बा लेटी है। उठकर पूछने गई तो पता चला कि वही विल की धड़कन का दौरा हो गया है।

आज पीने चार घंटे तक यह दौरा चला। रक्तचाप शुरू में १४०।६० था, बाद में ६६।६६ पर जा पहुँचा। थोड़ी देर शका हुई कि सम्भवतः मस्तिष्क में खून की गांठ (कोरोनरी थ्रोम्बोसिस) होगी, मगर उसके जंसी बंचनी न थी। बा का सामान्य रक्तचाप ११०।७० था। उस हिसाब से तो रक्तचाप बहुत नहीं गिरा था। मगर तो भी चिंता काफी हो गई। डा० शाह को खबर दी। वे आए। विल की घड़कन का चित्र लेने के लिए कोयाजी को फोन किया। उनकी मोटर उन्हें उस समय नहीं मिल सकती थी, इसलिए डा० शाह उन्हें लेने गए। उनकी मोटर छोटी थी। सो घर जाकर अपनी बड़ी मोटर लाए। फिर कोयाजी के यहाँ थोड़ा रुकना पड़ा। वे दीनशा के बारे में अपना अनुभव डा० शाह को बताते रहे। नतीजा यह हुआ कि डा० शाह घड़कन का चित्र लेने की मशीन लेकर आए। उससे दो-चार मिनट पहले दौरा बन्द हो चुका था। ई. सी. जी. नार्मल निकला। अफसोस हुआ कि मशीन वक़्त पर नहीं पहुँची।

रात में बा को नींद अच्छी आई, मगर डरती थीं कि कहीं फिर से कुछ न हो जाय।

दोपहर को बा के नाम सेवाग्राम से लीलावती का पत्र आया। लिखा था कि शंकरन् और पंजाब का झगड़ा हुआ था, इस कारण दवाखाना बन्द करना पड़ा है।

२६ मार्च '४३

आज मोहनलाल का अप्रेजी में लिखा पत्र आया। वह उसने बम्बई सरकार के सेक्रेटरी के दफ्तर में बैठकर लिखा था। माताजी की अच्छी खबर थी। दो रोज़ से बुखार नहीं था, साथ ही सेक्रेटरी की ओर से सदेश था कि प्यारेलाल गुप्त ने संदेश भेजा है कि आप लोगों को मां सख्त बोमार है। दोनों पत्रों की तारीख २५ मार्च थी, मगर उन्हें सदेश पहले मिला होगा। भेजने में देर हुई होगी। मोहनलाल के पत्र की खबर ही हमने सच्ची मानी।

टॉटेंहम का उत्तर भाई को मिला। 'कॉरेस की जिम्मेदारी' वाली किताब के बारे में भाई ने उनसे पूछा था कि क्या वे उसे गांधीजी को भेजेंगे? उन्होंने लिखा कि गांधीजी चाहते हैं तो भेजेंगे।

मथुरादासभाई का पत्र आया। उन्हें पाचवां ऑपरेशन करवाना पड़ेगा।

बापू आज उपवास के बाद पहली बार शाम को महादेवभाई की समाधि पर गए। कन्नु चाहता था कि उसके जाने से पहले वे वहाँ हो आवें।

२७ मार्च '४३

आज कन्नु को जाना था। दिन का काफी समय उसके साथ बातचीत में गया। भाई की अपनी घड़ी ठोक हो कर आ गई थी। उन्होंने वह मुझे कन्नु को देने के लिए दी। जाने समय घड़ी का रक्षाबंधन मैंने उसे बांध दिया। उसका जाना अखर रहा था, क्योंकि वह बहुत हंसाता रहता था और काम भी खूब करता था। उसके जाने से बहुत सूना

लगने लगेगा। सोचा था कि जाने से पहले मुझे कुछ भजन भी सिखा देगा। मगर वह न कर सका। शाम को प्रार्थना के बाद गाड़ी उसे ले गई।

रात में काफी समय तक डा० गिल्डर, भाई, कटेली साहब और मैं साथ ही बंटे रहे। डा० गिल्डर अपने पुराने अनुभव सुनाते रहे।

सरोजिनी नायडू की खबर अच्छी है। बा अभी तक काफी अशक्त हैं।

आज शाम को भी बापू महादेवभाई की समाधि पर गए।

२८ मार्च '४३

आज मालिश के समय श्री कटेली खबर लाए कि रामदासभाई को एक मुलाकात की इजाजत मिली है। बापू ने चार बजे उन्हें बुलवाया था, लेकिन वे पांच बजे आए। बा को बहुत अच्छा लगा। हम हंस रहे थे। हफ्ते में एक बार एक पुत्र उन्हें मिल जावे तो उनकी तबीयत अच्छी रहे। मैंने डा० गिल्डर से हंसी में कहा, “आप नुस्खा लिखिए।”

रामदासभाई के जाने के बाद हम लोग खाने बंटे। इतने में बापू नीचे समाधि पर फूल चढाकर आए। पीछे हम लोग उनके साथ घूमे। आज बापू आधा घंटा घूमे।

दोपहर को भाई के साथ बातें होने लगीं। भाई बोले, “अहिंसा के असर से हिंसा की वृद्धि हो तो वह आश्चर्यजनक बात ही कही जा सकती है न! अपनी और मुस्लिम लोग की मिसाल लीजिए। जितनी आपकी अहिंसा बढ़ती है, उतना ही उन लोगों का जहर बढ़ता है। यह क्यों?”

बापू कहने लगे, “ऐसा ही होना चाहिए और यह मैं नई चीज नहीं कह रहा हूँ। दक्षिण अफ्रीका में भी वही हुआ था। वहाँ एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया था, जो मेरे खिलाफ जहर उगलता रहता था और मुझे मारने तक को भी तैयार था और वह ऐसी जगह में, जहाँ मैं बच्चे-बच्चे को पहचानता था। अहिंसा का काम ही है सब मूल ऊपर ले आना। दूसरे शब्दों में अहिंसा का काम भंगी की तरह सफाई करने का है।

“डोक जब मेरे बारे में अपनी किताब लिखकर लाया था तब मुझसे उसे नाम क्या देना यह पूछने लगा। मैंने कहा—मैं नहीं बता सकूंगा। उसने नाम पसंद किया था: ‘ए स्कंवेन्जर’ (‘एक महत्तर’), मगर उस नाम का एक उपन्यास भी था, इसलिए उसे वह नाम पसंद न था। मुझे तो पसंद था, मगर पोलक ने उसे रद्द किया। आखिर डोक की किताब को ‘एन इण्डियन पैट्रियॉट इन साउथ अफ्रीका’ (दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय देश-प्रेमी), यह नीरस-सा नाम मिला।” फिर डोक कैसे उनके पास आया, यह बताते रहे।

: ४४ :

## गुप्त नीति का विरोध

२६ मार्च '४३

आज बापू का मीन था। श्री कटेली को बखार आ गया। गला खराब है। बाका ठीक चलता है, लेकिन वह कुछ कमजोर है।

भाई ने बताया कि रात में सोते समय उन्होंने बापू से पूछा, “जनता में विचारों के समन्वय (Co-ordination of thought) के द्वारा संगठन हो सके तो सर्वोत्तम है, किंतु आज की परिस्थिति में अगर अहिंसा के मार्ग पर जनता को लाने के लिए गुप्त नीति अनिवार्य हो तो भी उसे आप क्या त्याज्य मानेंगे ?”

बापू ने उत्तर दिया, “हां।”

बापू का मत है कि यह दलील भूल से भरी है। कहने लगे, “आज चाहे गुप्त नीति व्यवहार की दृष्टि से लाभदायक लगे, मगर अन्त में यह बेखने में आवेगा कि उससे फायदे की जगह हानि अधिक होती है। इस रास्ते से हम सामुदायिक अहिंसक क्रांति के ध्येय को नहीं पहुंच सकते। उल्टे इस ध्येय के रास्ते में उससे रुकावट आ सकती है। मुझे इसमें शका नहीं। इस चीज के गर्भ में ही उसकी निष्फलता के बीज पड़े हैं।”

३० मार्च '४३

आज अखबार में खबर थी कि डा० बिधान राय को यहां आने की इजाजत नहीं मिली। बुरा लगा।

बापू को शाम को कुछ जल्दी घुमाने ले गई। थोड़ी देर घूमकर वे महादेवभाई को समाधि पर फूल चढ़ाने को गए। मीराबहन नाराज हो गई कि इतनी जल्दी बापू को घुमाने नहीं ले जाना चाहिए था।

शाम को बेंडमिन्टन और रिंग एक-एक बार खेले। अच्छा लगा।

३१ मार्च '४३

आज डा० गज्जर परीक्षा के लिए बापू के खून का नमूना लेने को आने वाले थे। सुबह उन्हें घूमने नहीं दिया। उन्होंने स्नानादि से जल्दी छुट्टी पाई जिससे कि बारह बजे तक उन्हें दो घंटे आराम मिल सके; क्योंकि खाना उसके बाद ही खा सकते थे। बारह-साढ़े बारह बजे गए, लेकिन डा० गज्जर का पता ही न था। आखिर डा० बिधान राय का श्री कटेली को टेलीफोन आया कि बापू को खाना खिला दो; क्योंकि

डा० गज्जर दो-ढाई बजे से पहले नहीं आवेंगे। वे खून की कुछ परीक्षा आज करेंगे, कुछ कल।

डा० गज्जर बार बजे आए। 'ब्लड काउन्ट'× आज किया। कल 'ब्लडकेमिस्ट्री'† करेंगे। उनके साथ एक पुरुष और एक स्त्री मदद के लिए हैं। स्त्री हाडिज कालेज की डा० डीमोन्टी की रिश्तेदार और बम्बई के एक पत्रकार मोराइस की पत्नी हैं। डा० गज्जर के साथ दो-तीन साल से पंचालोजी में काम करती हैं। कहने लगी, "मेरे पति ने गांधीजी को 'स्टोरी आव इण्डिया' किताब भेजी थी, वह मिली या नहीं?" यहां आई ही नहीं। कौन जाने कितनी किताबें ऐसे ही पड़ी रहती होंगी! सरोजिनी नायडू ने अपना बाकी सामान मंगवा भेजा है, इसलिए मैंने सब इकट्ठा करके भेज दिया।

डा० बिधान राय नहीं आ सके। सरकार ने उन्हें इजाजत नहीं दी।

शाम को बापू मीराबहन के साथ बातें करने लगे। मीराबहन ने पूछा, "आपका विचार है कि जो लोग गुप्त नीति से आंदोलन चला रहे हैं, वे अपने को सरकार के हवाले कर दें। मैं जानती हूँ कि सतयुग की आदर्श स्थिति में ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें तो आज जैसी दुनिया है, उसी के साथ चलना है। बिना नेताओं के आंदोलन कैसे आगे बढ़े?"

बापू बोले, "मेरा तो यही कहना है कि अपने को सरकार के हवाले कर देने के फलस्वरूप आंदोलन खूब आगे बढ़ेगा। हमारे साधन जितने पवित्र होंगे, उतना ही देश के और लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर मेरे बताए रास्ते पर चले होते तो वो मैं से एक बात होकर रहती: या तो सिर्फ वे लोग, जो सत्य और अहिंसा में पक्का विश्वास रखते हैं, आंदोलन में हिस्सा लेते, जिससे कि आंदोलन ठंडा न पड़ने पाता जैसा कि वह पड़ गया है; या कोई भी उसमें हिस्सा न लेता। इन दोनों रास्तों से हमें गुप्त नीति जैसे गलत तरीके से छुटकारा मिल जाता। तोड़-फोड़ के आंदोलन को हमारे सिर मढ़कर खूब प्रचार किया गया है। बेशक तोड़-फोड़ वालों ने साहस और कुशलता तो बहुत दिखाई है, लेकिन इस सबका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं जानता था कि तरीका गलत है और आन्दोलन को जल्दी-से-जल्दी बन्द हो जाना चाहिए। जब सरकार ने कहा कि उसने परिस्थिति पर काबू पा लिया है तो मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन सरकार में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह देशव्यापी आन्दोलन पर काबू पा सके। आन्दोलन तो हमेशा नया बल पाकर चलता रहेगा।"

मीराबहन बोलीं, "दुबारा जब आंदोलन होगा तो या तो पूर्ण अहिंसात्मक होगा

×रक्तकण की गिनती

†रक्त की रासायनिक जाच

या पूर्ण हिंसात्मक ।”

मैंने पूछा, “आपने तो कहा था कि इस वक्त हमारा लड़ाई का तरीका जेलें भरना नहीं हैं, फिर सरकार के हवाले अपने को कर देने को यह सलाह क्या उसके विरुद्ध नहीं है ?”

बापू कहने लगे, “नहीं, मैंने कहा था कि हम गिरफ्तारी का आवाहन न करके मृत्यु का करें। अगर हमारे काम के दौरान में हम पकड़े जाते हैं तो कोई बात नहीं है। मान लो, जयप्रकाश अपने को सरकार के हवाले कर दे तो इसमें शक नहीं कि उसे कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन उससे हमारा पक्ष मजबूत बनेगा। सरकार के हवाले अपने को करने से लोग अपने गलत कदम को वापस ले लेते हैं। उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता।”

मीराबहन कहने लगीं, “आपका यह विश्वास कि लोगों के प्रकट होने और परिणाम भुगतने से परिस्थिति सुधर जायगी, तर्क के आधार पर नहीं लगता, आपकी अतर्प्रेरण के आधार पर ही समझना चाहिए।”

बापू बोले, “बह तो है ही। सत्य और अहिंसा से किसीको हानि नहीं हो सकती।”

१ अप्रैल '४३

आज सुबह नौ बजे डा० गज्जर आए। काम करते-करते ११—११-३० बज गए। पीछे बापू ने स्नान किया। खाना खाने को बहुत देर हो गई।

वोपहर को मैं बिलकुल नहीं सोई। ‘हिस्ट्री आव. मेयो क्लिनिकस’ पढ़ती रही।

शाम को बापू मीराबहन के साथ एमरो के भाषण को बातें करते रहे। बापू हंसकर कहने लगे, “या तो मैं इन बातों पर ल्योरी चढ़ाऊ या कटु बन जाऊँ अथवा हंस दूँ। हंस देना बहुत अच्छा है।”

पीछे बापू मनु को चौथी रीडर लेकर मीराबहन को उसमें से कुछ समझाते रहे और उनसे व मुझसे किताब पढ़ने को कहा। मनु को उन्होंने इतिहास और ध्याकरण भी पढ़ाया।

वोपहर को सस्त गर्मी रही। दिल्ली के जून महीने का-सा मौसम है। शाम को ठंडी हवा चली।

प्रार्थना का समय सवा आठ हो गया है।

२ अप्रैल '४३

आज बापू को सुबह घूमते समय कमजोरी मालूम हो रही थी, कारण रात में नींद का कम आना और कल सुबह नाश्ता न करना हो सकता है। उपवास के समय पहले तीन-चार दिन तक बापू को कमजोरी सहस्र नहीं होती थी। अब एक समय का नाश्ता छूटने का भी असर होता जान पड़ता है।

दोपहर को आज भी नहीं सोई, पड़ती रही। सुबह भी प्रायंता के बाद नहीं सोई थी।

बाइसराय का राजाजी आदि को जो उत्तर मिला है, वह गजब का है। समझ में नहीं आता कि कोई ठीक दिमाग वाला आदमी कैसे इस तरह की बातें कर सकता है ! नीरो के या जार के जमाने में चाहे ऐसा होता रहा हो, मगर आजकल के जमाने में दुर्योधन की तरह सुई की नोक जितनी जमीन भी देने से इन्कार करना मनुष्य को चकित कर देता है।

३ अप्रैल '४३

बा को कल से पेशाब में जलन की शिकायत है। आज और बढ़ी है। बुखार भी आ गया। पेशाब पानी-सा साफ नहीं है। स्याहीचूस से छानने पर भी साफ नहीं हुआ। उसमें थोड़ी-मी चर्बी और पीप है। पहले बी-कोलाई X हो चुका है। वही फिर उभरा होगा। सल्फा (Sulpha) की गोली दी, बहुत फायदा हुआ, पर कमजोरी बहुत लगती है। प्रायंता के बाद बा कहने लगी, "मेरे पास बँठी रही।" मैं बँठी रही। उन्हे नीव आई तब मच्छरवानी लगाकर चली आई।

डा० गिल्डर बम्बई के मेयर चुने गए हैं।

मीराबहन बगीचे में सोने जाती हैं। बरामदे में गर्मी बहुत लगती थी।

४ अप्रैल '४३

बा की तबीयत काफी अच्छी है। कमजोरी है, लेकिन बुखार और जलन नहीं है। इतनी थोड़ी सल्फा का इतना असर !

कल से सुबह पंद्रह मिनट के लिए बेडनिण्टन खेलने जाती हूँ। अच्छा लगता है। बापू सुबह-शाम अब महादेवभाई के समाधि पर जाते हैं और आधा घंटा धूमते हैं।

गर्मी कल से कुछ कम है। बापू के कमरे में तो तीन-चार दिन से खस की टट्टी लगी है, इसलिए वहा ख़ासी ठंडक रहती है।

मेने अभ्यास का एक कार्यक्रम बनाया है। कल से ठीक तरह चलने लगेगा, ऐसी आशा है।

५ अप्रैल '४३

बा की तबीयत कुछ अच्छी है। कमजोरी काफी है। बापू का मौन है। अच्छा नहीं लगता।

मेरे अभ्यास का क्रम कुछ ठीक चला।

X पेशाब में बी-कोलाई कीटाणु आ जाने से गुदों में जलन घीर सूजन की बीमारी।



## राष्ट्रीय सप्ताह

६ अप्रैल '४३

आज वजन लेने का दिन है। बापू चार पोण्ड बढ़े। हंसकर कहने लगे, "ऐसा ही बढ़ता गया तो मुझे वजन कम करने के लिए उपवास करना पड़ेगा।"

शाम को घूमते समय मनु पूछने लगी, "हमारे लोगों ने जो आंदोलन चलाया था, वह अगर अच्छी तरह चलता रहता तो अंग्रेजों को झुकना पड़ता या नहीं?" बापू बोले, "मगर यह तोड़-फोड़ की लड़ाई अहिंसक लड़ाई न होती।"

मनु कहने लगी, "न सही। अहिंसा को ये लोग समझते कहा है?" बापू बोले, "तो भी अगर हिन्दुस्तान का इतिहास देखो तो पता चलेगा कि हिंसा के मार्ग पर चलकर हिन्द ने हमेशा मार ही खाई है।"

बापू सदा कहते आए हैं कि हिन्दुस्तान के अंग-अंग में अहिंसा भरी है। अहिंसा हिन्द के लिए स्वाभाविक है, हिंसा अस्वाभाविक।

७ अप्रैल '४३

आज याद आया कि कल से राष्ट्रीय सप्ताह शुरू हुआ है। हम लोग उसे भूल ही गए थे। छः और तेरह तारीख को सामान्यतः हम लोग उपवास करते हैं। निश्चय किया कि अब तेरह को करेगे। बापू को याद न आया तो हम उन्हें बारह को याद दिलावेंगे। मगर बापू थोड़े ही भूलने वाले थे। समाचारपत्रों में भी राष्ट्रीय सप्ताह का उल्लेख है, इसीलिए बापू ने कल उपवास करने का विचार किया। कातते तो हम सब हैं ही। इस हफ्ते में कुछ अधिक कातेंगे। मोरारबहन के सिवा कल सबका उपवास होगा।

८ अप्रैल '४३

बापू ने आज दो बार आधा-आधा घंटा करके काता। डा ० गिल्डर भी मुझसे पूनी लेने आए और तीन पूनी ले गए। वे तकली पर कातते हैं। सुना है, सूत बारीक निकालते हैं, लेकिन गति बहुत धीमी है। मनु ने भी काता। बापू ने टॉटैनहम के सेक्रेटरी के पत्र का उत्तर तैयार किया। मंने रोज से बुगनी पूनी काती।

बापू ने बाल्मीकि-रामायण का गुजराती अनुबाव पढ़ना पूरा किया। कल से संस्कृत शुरू करेंगे।

९ अप्रैल '४३

हमें जेल में आए आज आठ महीने पूरे हुए। भगवान् जाने अभी और कितने पूरे

करने होंग !

मैंने बापू के साथ बीस श्लोक वाल्मीकि-रामायण के पढ़े । भाषा सरल है । दो मालाओं में धागा डाला । काफी समय चला गया । इससे आज पढ़ाई का कार्यक्रम बिगड़ ।

१० अप्रैल '४३

आज गर्मी कम पड़ी है, इसलिए बापू ने अपने कमरे में खस की टट्टी लगाने से मना किया ।

मीराबहन थोड़े दिनों से रोज शाम को खेलने आती हैं । बहुत रस लेती हैं । रात को करम भी खेलती हैं ।

बापू 'हाफुस' ( Alfonso ) आम खाने से इन्कार करते हैं । गरीबों को ये नहीं मिल सकते, इसलिए बापू भी नहीं खाना चाहते ।

मैंने डा० गिल्डर के साथ आधा घंटा डाक्टरी चर्चा की, थोड़ा-सा पटा और मनु को सिखाया ।

११ अप्रैल '४३

आज मीराबहन के साथ डाइग करने का मेरा विचार था, इसलिए डा० गिल्डर के साथ नहीं बैठी । पढ़ाई आज भी कम ही हुई । समय जाते पता नहीं चलता ।

डा० शाह और भण्डारी आए । डा० गिल्डर से बापू की रक्त-परीक्षा की रिपोर्ट जंगरा के बारे में मत पूछा । बाद में लिख भेजने को कहकर चले गए ।

१२ अप्रैल '४३

आज बापू का मौन है, इसलिए उनके साथ रामायण और बाइबिल नहीं पढ़ी । दूसरी पढ़ाई भी बहुत कम हुई । कल कंदियों को कुछ खाना देने का विचार किया है । उसका प्रबंध करने में कुछ समय गया । पिछली वफा उपवास के दिन बापू ने कहा था कि कंदियों को दूध क्यों नहीं दिया, इसलिए मैंने निश्चय किया था कि तेरह तारीख को उपवास होगा, तब ऐसा ही करूंगी । कल दूध की चाय बनाकर साथ में गेहूँ के आटे का हलुआ सुबह दूंगी और दोपहर को खिचड़ी, सब्जी और केले । दूध तो इतना होता नहीं है कि सबको पूरा हो सके ।

१३ अप्रैल '४३

आज राष्ट्रीय सप्ताह का आखिरी दिन है । घर में सबका उपवास है । सब-का-सब दूध इकट्ठा करके कंदियों को चाय दी, साथ में हलुआ और थोड़े-थोड़े दाल-सेब । यह तो नाश्ता हुआ । दोपहर को चार बजे खिचड़ी, सब्जी और केले सबको बांटे । बापू ने उन्हें राष्ट्रीय सप्ताह क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ, यह सब समझाया ।

## सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (१)

१४ अप्रैल '४३

सरकार का पंफ्लेट 'कांग्रेस की जिम्मेदारी' आ गया है। बापू उसे पढ़ते रहे। पंफ्लेट में लाल स्याही से कई जगह सुधार किये गए हैं। सचमुच उन लोगो ने जल्दी-जल्दी उपवास में बापू की मृत्यु के साथ छपाने के लिए हो तैयार कराया होगा। बा बहुत कमजोर हैं। मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति को और बिगाड़ती हैं।

१५ अप्रैल '४३

आज भी बापू टॉटेनहम का पंफ्लेट पढ़ते रहे। अब उसका जवाब लिखना शुरू करेगे। सुबह वे डा० गिल्डर को अपने कुछ पुराने अनुभव बता रहे थे और दावाभाई नौरोजी व गोखले इत्यादि का भी उल्लेख किया। सार यह था कि बुद्धिमान लोग भला काम करने के बाद किमोको उसका पता नही लगने देते।

१६ अप्रैल '४३

बापू ने टॉटेनहम को उत्तर लिखना शुरू किया।

बा थोड़ी अच्छी दिखती हैं।

१७ अप्रैल '४३

आज शनिवार है। महादेवभाई की बड़ी याद आ रही है। क्या मृत्यु के बाद भी प्रियजन सचमुच इकट्ठे होते हैं? यह विचार मन में उठता है।

शाम को खेलते समय भाई के पैर के अंगूठे में चोट आई। शायद हड्डी टूट गई हो। बहुत दर्द था।

डा० गिल्डर के कमर और टांग के दर्द (साइटिका) के लिए रात में सोने से पहले आधा घंटा उनकी मालिश की।

१९ अप्रैल '४३

कल रात कुछ आम आए थे। उनमें से अधिकांश कंबियों को बांट दिये। बाकी घर में काम आ गये।

बापू आज भी रात में दस बजे तक लिखते रहे। मैं बैठकर 'हरिजन' में से सरकार की किताब में उद्धृत किये गए अंशों को निकाल रही थी। उनके उत्तर भी उन्हीं लेखों में भरे पड़े हैं! मगर सरकार ने अपने काम के वाक्य चुन लिए थे। डा० गिल्डर भी बंधे थे। सोने को बारह बज गए।

बापू का मौन था, इसलिए रामायण और बाइबिल नहीं पढ़ सकी।

२० अप्रैल '४३

आज बजन का दिन है। बापू का बजन एक पौण्ड कम हुआ। मेरा भी एक पौण्ड कम हुआ है। और सबका बढ़ा है।

डा० शाह सुबह आए। कल बा के रक्त की परीक्षा करावेंगे। सल्फोनो-माइड्स दो-तीन दिन से बंद की है। आज उनके पेशाब में फिर भवाव था।

२१-२७ अप्रैल '४३

सरकारी पैम्पलेट के उत्तर में बापू की सहायता करने में चार दिन लगे। उसके बाद तीन रोज उसी विषय में भाई की मदद की। बापू के उत्तर में उन्होंने जो सुधार किये थे, उन्हे अलग उतारा। एक शाम उसमें गई। डा० गिल्डर, मीराबहन और मैंने, सबने साथ बैठकर वह काम किया।

मनु घूमते समय बापू से कहानी सुना करती है।

हां, हमारा हिरण चला गया है। बापू ने कहा था कि इसे बंद देखा नहीं जाता। बेचारा अकेला फंद में पड़ा है। इसे दूसरे हिरणों के साथ कहीं रखो या छोड़ दो। छोड़ा नहीं गया; क्योंकि इतने दिनों से फंद में रहकर उसकी दौड़ने की आदत चली गई होगी। अगर छोड़े तो उसे जगली जानवर खा जावेगे। सो आठ आदमी आकर उसे पकड़ ले गए। पता चला कि उसे ले जाकर किसीके घर में बांध रखा है।

२८ अप्रैल '४३

आज रामदासभाई मुलाकात के लिए आए। उन्होंने सरकार से बहुत कहा, मगर उत्तर मिला कि मुलाकात नहीं हो सकती। सब आशा छोड़ देने के बाद कल रात श्री कटेली का उन्हे टेलीफोन गया कि मुलाकात की इजाजत मिल गई है और कल चार बजे आइए। उन्होंने डा० मेहता की क्लिनिक के बारे में अधिक बातें की व देवदासभाई और अमनुस्सलामबहन की खबरें भी दीं।

शाम को छः बजे डा० पटवर्धन डा० गिल्डर की आंख की फुंसी का आपरेशन करने आए। डा० गिल्डर पट्टी बांधे घूम रहे हैं। जिस आंख में मोतियाबिन्द हुआ था वह आंख खुली है, मगर उसमें आपरेशन के बाद फिर मोतियाबिन्द होने के कारण दीखता कम है। पढ़ नहीं सकते।

आज मनुकी आंख दुखती है।

शाम को रिग खेलते समय मेरे हाथ में चोट आई। बहुत जोर से लगी। दर्द होता है। कल बापू की मालिश नहीं हो सकेगी।

जितना समय खाली था, भाई के साथ बैठकर उनकी मदद की।

बापू आजकल हंसकर कहा करते हैं कि हमें यहां सात वर्ष तक रहना है व रामबासभाई बताने लगे कि अम्नुस्सलाम बहुत चिंता करती हैं कि बापू फिर उपवास करेंगे तो क्या होगा! बापू बोले, “हमारी तो सात वर्ष यहां रहने की तैयारी है।” रामबासभाई ने कहा, “तो आप धैर्यपूर्वक सात वर्ष तक यहां रहना चाहते हैं, इसका मैं अम्नुस्सलाम को आश्वासन देूं?”

बापू ने कहा, “अरे, सात वर्ष तो क्या, मुझमें तो जिन्दगी भर यहीं रहने का धीरज है।”

२६ अप्रैल '४३

कल शाम को खेलते समय हाथ में चोट लगने के कारण आज बापू की मालिश नहीं कर सकी। शाम को पांच मिनट बाँए हाथ से खेली। बापू नाराज हुए, “क्या दूसरा हाथ भी बिगाड़ने का शौक है?”

सुबह मालिश के समय गड़बड़ हो गई। मैंने मान लिया कि डा० गिल्डर और भाई समय पर पहुंच जावेंगे। भाई ने सुबह कहा था कि वे मालिश करेगे। मैं स्नान करने को चली गई। आकर देखा तो बापू भेज पर पड़े थे। मालिश करने वाला कोई नहीं था। डा० गिल्डर के पास गई। उनकी आल का कल आपरेशन हुआ था। पट्टी बंधी थी। इसलिए वे मालिश करने नहीं आ रहे थे। भाई को बुलाने गई। वे स्नान करने गये हुए थे। उन्हे बुलाकर लाई। साढ़े नौ बजे मालिश शुरू हुई। बापू कहने लगे, “तुम्हें देखना चाहिए या कि मालिश समय पर शुरू होती है कि नहीं।”

डा० गिल्डर को आल खोलकर पट्टी बांधी। ठीक है। शाम को डा० पटवर्धन आए। उन्होंने पट्टी खोल दी। शाम तक डा० गिल्डर चुपचाप पड़े रहे। पड़ भी नहीं सकते थे। मैंने अखबार पढ़कर सुनाया। थोड़ा समय उनके साथ कैरम खेली।

रात में मनु की आल धोई। फिर अपने हाथ को सेंका। इससे बर्द कुछ कम हो गया।

३० अप्रैल '४३

मैंने नया कार्यक्रम बनाया। उस पर थोड़ा-सा अमल भी किया है। पूरा अमल तो भाई की मदद मिलने पर ही कर सकूंगी। दोपहर और शाम को उनके साथ काम करती रही। टॉटेंहम को बापू जो जवाब लिख रहे हैं, उसीका काम है।

मालिश से आज भी मुझे छुट्टी रही। सेंक करते-करते हाथ थोड़ा जल-सा गया। बर्द कुछ कम है।

डा० गिल्डर के घर से आर्मों का पार्सल आया। आज उनके विवाह की २६ वीं सालगिरह है। बा ने सुना तो बापू से पूछने लगीं कि उनके विवाह को कितने साल हुए हैं...? बापू मजाक करने लगे, “बा भी अपने विवाह का दिन मनाना चाहती है?” हम लोग खूब हंसे।

१ मई '४३

आज कलेक्टर आने वाला था। बापू ने जल्दी मालिश शुरू करवाई। तैयार भी जल्दी हो गए। आज भाई, डा० गिल्डर और मैं, तीनों जन मालिश में रहे।

बाद में मैंने डा० गिल्डर इत्यादि के लिए मिठाई बनाई। दोपहर के बाद निश्चित कार्यक्रम चला। कुछ समय भाई के साथ बंटी। शाम को बापू साढ़े सात की जगह सात बजे घूमने निकल पड़े। पीछे वापस आ गए और आधा घंटा शाम को और एक घंटा रात को लॉर्ड सैमुएल के लिए मुझे पत्र लिखाते रहे।

२ मई '४३

आज भी बापू ने काफी समय तक लिखवाया, इसलिए भाई को नाममात्र का ही समय दे सकी। मनु को भी आज नहीं सिखाया। मगर रामायण और बाइबिल की पढ़ाई बापू के साथ हुई। लॉर्ड सैमुएल वाला खत पूरा हुआ। रात को बापू ने उसे दुबारा पढ़कर कुछ और बढ़ाया। देखने की इच्छा हो रही थी, मगर उन्होंने वह मीराबहन को दे दिया। पीछे डा० गिल्डर के पास जाएगा। अब तो एक-दो दिन बाब ही देखने को मिलेगा।

शाम को खूब आंधी आई। हवा-पानी का इतना वेग रहा कि आदमी उड़ जाये। भाई के कुछ कागज उड़े। उन्हें ढूँढ़ने नीचे गई। हवा के वेग से सीढ़ी पर से गिरती-गिरती बची।

३ मई '४३

आज बापू का मौन था। रामायण इत्यादि कुछ पढ़ना नहीं था। लगभग सारा समय भाई के साथ बंटी। शाम को फिर आंधी आई, पीछे जोर की वर्षा। बाहर तो खेल नहीं सकते थे। बरसाती में खड़े होकर थोड़ी देर तक हम लोग रिंग खेलते रहे। इतने में बापू घूमने को निकले। ऊपर बरामदे में ही घूमे। महादेवभाई की समाधि पर फूल बढ़ाने के लिए भाई चले गए। हवा का हल ऐसा बदल रहा था कि बरामदे में चारों ओर उस के साथ पानी के छींटे आते थे। आखिर मीराबहन के यानी भोजन करने के कमरे में घूमे।

रात को भाई के पास से बापू ने टॉटेनहम की किताब के उत्तर-सम्बन्धी कागज मांगे। भाई ने बुधवार की रात को देने का वचन दिया। रात को उनके साथ मैंने करीब बारह बजे तक काम किया।

बापू ने जिम्मा साहब को पत्र लिखा।

४ मई '४३

मैंने सारा समय भाई के साथ काम किया। आज आंधी इत्यादि खाली डराने के लिए ही शुरू हुई। शुरू भी नहीं हुई, ऐसा लगा कि अभी शुरू होगी। इतने में बंद भी हो गई। शाम को अच्छी तरह खेले। अच्छा लगा। भाई कल रात तीन बजे तक काम करते रहे थे, इसलिए आज रात जल्दी सो गए। मैंने ग्यारह बजे तक काम

किया। बापू लॉर्ड सैमुएल के पत्र का काम करते रहे। मुझे लिखाना चाहते थे, मगर भाई की मदद की वजह से बुलाना ठीक न लगा। मैंने कहा कि आशा है, कल मैं आपके काम के लिए खाली हो सकूंगी।

बापू ने जिन्ना साहब को जो पत्र लिखा था, वह आज की डाक में गया। डा० गिल्डर ने टाइप किया था।

५ मई '४३

भाई मुबह पांच बजे उठकर काम करने बंटे, लेकिन उन्होंने उन्हीं कागजों को लेकर काम किया जिन्हे मैं ठीक-ठिकाने रख चुकी थी। नए कागजों को संभालकर रखने का काम बाकी था। मैंने बापू से कहा था कि शाम को चार बजे मैं आपके पास पहुंचूंगी, लेकिन चार बजे काम पूरा नहीं हुआ। बापू दो-तीन बार कह चुके थे कि तू वह काम पूरा कर, पीछे मेरे पास आना। इसलिए मैं चार बजे नहीं आई। पांच बजे बापू का खाना तैयार करने आई तो बापू कहने लगे, "तूने अपना वचन तोड़ा है।" मैंने अपनी गलती मान ली। मेरी नासमझी थी। खाना तैयार करके उनके पास ही बंठ गई। जो काम मुझे करवाना था, वह उन्होंने मुझे समझाया। पीने छ. से पीने सात बजे तक वह काम मैंने किया। खत पढ़ा। कहीं क्या करना था, वह समझा। प्रार्थना के बाद बापू को उसके बारे में अपनी सम्मति दी। उन्होंने कुछ सुधारों और कुछ मुबह सुधारने के लिए कहा। मेरे हिस्से का भाई वाला काम बाकी था। बापू ने कहा, "उसे छोड़ दो।" रात के ग्यारह बजे सब कागज बापू ने ले लिये। बहने लगे, "अब मुझे मदद लेनी होगी तो मैं बुला लूंगा।" वे कागजों को तर्किए के नीचे रखकर करीब बारह बजे सोए। तीन बजे के करीब उठ बंटे। तैयार होकर प्रार्थना करने को आए तो साठे तीन बजे थे। मुझे जगाने का प्रयत्न किया, ऐसा बताते थे, मगर मैं तो उठी नहीं। भाई ने और बापू ने चुपचाप प्रार्थना की। पीछे बापू सैमुएल वाले पत्र का काम करने लगे।

६ मई '४३

मैं पीने छ: बजे बापू के नाक साफ करने की आवाज सुनकर उठी। पूछा कि क्या प्रार्थना का समय हुआ? बापू ने बताया कि प्रार्थना तो हो चुकी। अब कुछ काम करके सोने को जाते थे। मैंने तैयार होकर वह पत्र लिया। इतने में बापू ने भाई को उसी पत्र के सिलसिले में कुछ लिखवाना शुरू कर दिया। सोए नहीं। बापू ने आज मुझे मालिश से छुट्टी दे दी और मैं घूमने के बाद स्नान करके उस पत्र की साफ नकल करने बंठी। जहां कुछ सुधार की गजाइश देखी, वहां निशान लगा दिया।

दोपहर खाने के बाद बापू ने जो नया लिखाया था, उसका काम किया। जो-जो शकए मुझे हुई, उनके बारे में शाम को पूछा। खाने के बाद बापू ने वह पत्र फिर पढ़ा। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उसे पूरा किया और कुछ सुधार भी किये। फिर वही पत्र डा० गिल्डर को टाइप करने और ध्यान से पढ़ जाने को कहा।

७ मई '४३

दोपहर को थोड़ी देर डाक्टरों पत्र-पत्रिकाएं पढ़ीं, थोड़ा काता और बाइबिल पढ़ी। रामायण भी आज शुरू को और मनु को मिलाया।

घर से माताजी इत्यादि के पत्र मिले।

८ मई '४३

रौद्र का कार्यक्रम चलाने का प्रयत्न किया। डाक्टरों पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने के समय बापू को 'हरिजन' में से जो कुछ देखना था, वह बताया। शाम को अनुबाब के समय मनु का दूसरा बर्ग लिया। जितने दिन काम के कारण मनु को मिलाया नहीं, उतने दिन उसे दो-दो बार पढ़ाना होगा।

९ मई '४३

सुबह भंडारी और शाह आए। मनु को आंख की बात होने लगे। भंडारी ने मुझसे पूछा, "तुम्हारी आंख अब अच्छी है न?" मैंने कहा, "मेरी आंख को तो कुछ हुआ ही नहीं था। मनु की आंख खराब है। उसके चश्मे का नम्बर निश्चित करना चाहिए।" डा० शाह बोले, "डा० पटवर्धन कह रहे थे कि चश्मे का नम्बर निश्चित करना आवश्यक नहीं है।" मैंने कहा, "नहीं, वे तो इसीलिए यहां आने वाले हैं। डा० गिल्डर ने मुझसे ऐसा ही कहा है।" वे बोले, "मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। डा० गिल्डर ने डा० पटवर्धन से तीन बार कहा था, लेकिन डा० पटवर्धन ने कहा कि वे इसे जरूरी नहीं समझते हैं। तो भी वे चश्मे का नम्बर निश्चित करेंगे।"

मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, "झूठ बोलने का कोई प्रयत्न ही नहीं। यह बात कहा से आई। खैर...।"

१० मई '४३

आज बापू का मौन है। मैक्सवेल का भावण पढ़ गए, फिर 'डॉन' पढ़ते रहे। रात में मैक्सवेल का भावण पढ़ना पूरा किया। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने उसे पढ़ने नहीं पढ़ा जब कि भाई ने पढ़ने को कहा था।

: ४७ :

## मैक्सवेल को पत्र

११ मई '४३

आज बापू ने मैक्सवेल के नाम पत्र लिखवाया। दिन भर उसीमें गया। रामायण, बाइबिल और चरखा, सब छूट गए।

१२ मई '४३

बापूने कुछ समय कल वाला पत्र पढ़ा और बाकी समय में सैमुएल वाला पत्र।



उसकी आखिरी नकल डा० गिल्डर टाइप करने के लिए ले गए। पीछे बापू मॅक्सवेल वाले पत्र पर जुटे। आज काता, मेरे साथ रामायण पढ़ी, मनु को भी सिलाया। बाइबिल नहीं पढ़ी। मनु को सिलाने समय मैंने सॅम्युएल वाले पत्र में बापू को एक सुधार बताया। सुधार पहले बापू समझे नहीं। मैं छोड़ने को तैयार हो गई। मुझे लगा कि दलील करके उन्हें थपों थकाऊ, मगर उन्होंने आप्रह किया, "बता तो सही, क्या कहना चाहती हूँ?" तब मैंने बताया तो उन्होंने सुधारा। बाद में समझाने लगे, "मैं धीरज रखकर तुमसे न समझ लेता तो तू यह छोड़ ही देने वाली थी न? ऐसा नहीं होना चाहिए। तुझे धीरज से अपनी बात समझानी चाहिए और अपने में समझा सकने की शक्ति लानी चाहिए। भाषा पर तेरा खासा अधिकार हो जावे, इसीलिए तो तुझे व्याकरण इत्यादि कराने का आग्रह करता हूँ न।" बाइबिल के समय बापू ने मनु को भी सिलाया।

शाम को बापू की कहानी फिर शुरू हुई।

मैंने 'ट्रेजर आइलॅण्ड' फिर से पढ़ना शुरू किया हूँ। बचपन में पढ़ा था, पर कहानी भूल गई थी। बड़ा रस आता हूँ।

१३ मई '४३

आज बापू ने मॅक्सवेलवाले पत्र का काम किया। उसमें काफी सुधार कर रहे हैं। मैं 'ट्रेजर आइलॅण्ड' पढ़ती रही। सारा समय उसमें गया। थोड़ी देर तक डाक्टरी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ीं। मॅक्सवेल वाला पत्र बापू के कहने से पढ़ गई और शाम को बापू के सामने अपने विचार रखे। घूमते समय कहानी में बापू ने डाउन्स के साथ का अपना अनुभव सुनाया। समय की कोमत आकने की बात करते समय यह चर्चा चली कि डरबन में उनके मित्र डाउन्स को गिरजाघर में प्रवचन देना था। समय रखा था शाम के ७ बजे। निश्चित समय पर वहा केवल एक श्रोता था। बिना किसीकी प्रतीक्षा किये उसीके सामने उन्होंने बोलना आरम्भ कर दिया।

१४ मई '४३

मॅक्सवेल वाले पत्र के बारे में घूमते समय बापू कहने लगे, "मैंने तेरे सब विचार ले लिये हैं। खुश हूँ न?" मैंने हसकर कहा, "क्यों नहीं, खुशी से जमीन पर पांव नहीं पड़ते।" घूमते समय कहानी कहते-कहते बापू ने बताया कि कैसे उनके दक्षिण अफ्रीका जाने से गांधी-कुटुम्ब का उद्धार हो गया था।

१५ मई '४३

बापू आज मॅक्सवेल वाला पत्र बुरस्त करते रहे। सॅम्युएल वाले पत्र की आखिरी नकल आज गई। भाई ने मॅक्सवेल के पत्र को टाइप किया। बापू ने उसको इतना काटा-छांटा था कि पढ़ना कठिन हो गया था। मैंने दोपहर को डाक्टरी पत्र-पत्रिकाएं पढ़ीं।

शाम को घूमने जाते समय श्री कटेली आग्रह करने लगे कि खेलने आया करो, मेरी कसरत नहीं हो पाती।

१६ मई '४३

सुबह सो कर उठे तो बापू ने कहा, "मुझे लगता है कि तुझे खेलने जाना चाहिए। कटेली इतना कहते हैं कि उनको खेलने का शौक है। खेलने के लिए साथी चाहिए।" मुझे अच्छा नहीं लगता था, किन्तु बापू का कहना मानना हमारा पहला कर्तव्य है, इस विचार से भेने जाने का निश्चय किया। कटेली साहब और डाक्टर साहब मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने डाक्टर साहब से कहा, "आपको लगता होगा कि कल रात इन्कार करके मैं सुबह कंस आ गई?" वे बोले, "कोई अच्छी बात हो तो हम उसका कारण पूछते ही नहीं। हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहते होंगे, मगर लोग ऐसी चीजों पर गौर करते ही नहीं।" डाक्टर साहब हमेशा अनुभव और सहज बुद्धि से भरी सलाह देते हैं। बा के पाखाने की जगह में जलन होती है। देखा, जरा-सा छिल गया है। उस पर मरहम लगा दिया। उनके पेशाब में भी जलन है। डा० साहब का नुस्खा आजमाने का विचार किया है।

दोपहर को मॅक्सवेल वाले पत्र की सुधारी हुई नकल पढ़ी। पीछे रात को बापू के सामने अपने विचार रखे। दस बजे नींद ने घेर लिया। सो गई।

१७ मई '४३

सुबह पीने सात बजे उठी। चाय इत्यादि के बाद खेलने गई। मालिश से आज छुट्टी मिली। भाई ने वहाँ मेरी जगह ली। मैंने अपने कपड़े इत्यादि सम्भाले। अब अपनी डायरियाँ आदि पूरी कर लेती हूँ ताकि कल से सारा कार्यक्रम ठीक तरह चला सकूँ।

दोपहर को कातते समय भाई बापू को लुई फिज़र का एक भाषण सुना रहे थे। भाषण बहस के बाद का था। अच्छा था, इसलिए कातने में काफी समय गया। कल का अखबार भी दोपहर को पढ़ा। साढ़े चार बजे से रसोईघर में काम करती रही। पंद्रह-बीस मिनट तक बापू की 'आत्मकथा' पढ़ी।

बापू मॅक्सवेल वाला पत्र फिर से पढ़ते रहे और सुधारते भी रहे। पत्र दस बजे तैयार हुआ।

१८ मई '४३

सुबह मालिश के समय मोरारबहन ने मॅक्सवेल वाले पत्र की सुधारी हुई नकल के बारे में अपनी सम्मति बापू के सामने प्रकट की। बापू ने 'ह्यूमन्स' (humans) शब्द इस्तेमाल किया था। वे कहने लगीं, "ह्यूमन बीइंग्स (human-beings) क्यों नहीं?" उन्होंने 'ह्यूमन्स' शब्द कभी सुना नहीं था। बापू ने बताया कि वह इस्तेमाल होता है। मैंने भी कह दिया कि मैंने भी यह शब्द इस्तेमाल हुआ देखा है। लेकिन वे मानी नहीं।

आज रामायण के पढ़ने के समय मॅक्सवेल वाले पत्र की मैंने नकल पढ़ी और अपने सुझाव दिये। एक सुधार करने में काफी साहित्य देखना पड़ा। आखिर बापू ने वह सुधार स्वीकार कर लिया और उसे लेकर एक नया पैरा ही बढ़ा दिया। सुधार बापू

के उद्गार 'सब लोग अपने को आज से स्वतंत्र मानो' के बारे में था। मैक्सवेल ने वह उद्धृत किया था। बापू ने इसका उत्तर लिखा था। प्रार्थना के पहले का कातने के सिवा आज का सब समय इस काम में गया। शोध कार्यक्रम नहीं चला सकी।

प्रार्थना के बाद मैंने अलबार बेले और भाई ने ज्वालामुखी और भूकम्प की उत्पत्ति समझाई।

१९ मई '४३

आज प्रार्थना के बाद सोई नहीं। सुबह चाय के बाद आजकल खेलने जाती हूँ, मगर श्री कटेली चाहते थे कि एक-एक की ही जोड़ी रहे, सो आठ बजे महादेवभाई की समाधि पर फूल चढ़ाने के बाद फिर उनके साथ दो बार ब्रेडमिन्टन खेली। थक गई।

स्नान के बाद मैं मेकमोर्टी की व्याकरण देखती रही। बाद में दस मिनट तक रामायण की मार्गोपदेशिका देखी। दोपहर में 'दि नो ब्रेकफास्ट प्लेन ऐण्ड फास्टिंग बयोर'\* के अडतालीस पन्ने पढ़े। दूसरा डाक्टरों अभ्यास आज नहीं किया। शाम को कंदियों को आम बाटे। मरोली से श्री एम. एच. पेटिल ने करोब डंड सी आम भेजे थे। तेईस कंदियों को दो-दो आम मिले। कल सिपाहियों को बोस और बिये जावेंगे। दस-पंद्रह सड़ भी गए हैं।

शाम को तूफान आया। साथ ही वर्षा भी। शाम का सारा कार्यक्रम बिगड़ गया। खाने के बाद थोड़ी देर और कंरम खेलते रहे, पीछे बापू के साथ घूमने।

प्रार्थना के बाद भाई का कार्यक्रम हम दोनों ने ब्रंठकर बनाया। देखें, कितना चलता है।

२० मई '४३

आज मैक्सवेल के पत्र की साफ टाइप-नकल तैयार हुई। बापू ने दस्तखत भी किये, मगर देर हो गई थी, इसलिए पत्र जा नहीं सका। कल छुट्टी है। शनिवार को जावेगा।

बापू सरकार, पंपलेट के जवाब को देखते रहे। शाम को फिर वर्षा हुई।

आज मैंने आइसक्रीम बनाई है। बापू के लिए थोड़ी-सी बकरी के दूध की बनाई। उन्होंने एक ही चम्मच भर ली, बाका भाई को दे दी।

शाम को हम लोग अपना एक खेल खेलते रहे। कपड़े को गेंद बनाई और उससे खेले। पीछे डोरी फावते रहे। डा० साहब इसमें शामिल नहीं हुए। एक टांग की बौड़ में भी नहीं। पीछे एक डोरी बरामदे में बाधकर उस पर मेरी ओढ़नी को जाली के तौर पर रखकर रिंग खेलते रहे।

इतने में बापू घूमने को निकले। हम लोग भी साथ हो गए। घूमते समय

\* नाश्ता छोड़ने व उपवास का चिकित्सा-विधान

टयूनीसिया-डे की बातें होती रहीं। दूसरी इधर-उधर की बातें हुईं, लेकिन कहानी नहीं सुनाई। सुबह भी कहानी शुरू ही हुई थी कि स्वेज नहर का जिक्र आया, फिर उसी की बातें होती रहीं।

रात को प्रार्थना के बाद इतने पतले जड़ने लगे कि बापू बस रखकर काम नहीं कर सके। सो गए। करीब साढ़े दस बजे फिर वर्षा हुई। हवा चलने लगी। बापू की छाट पर पानी आता था, इसलिए जगह बदली। सोने का बक्तर हो गया था, सो गई। भाई दिन भर भाषण तैयार करते रहे।

२१ मई '४३

आज भी बादल थे। शाम को जोरो की वर्षा हुई। श्री कटेली ने बरामदे में रिंग खेलने के लिए कोर्ट बनवाया। लम्बाई ठोक है, मगर चौड़ाई ४ फुट कम है। शाम को मीराबहन इत्यादि सभी वहां खेलते रहे। मैं बापू के पास था। वे अपने कागजों में से कुछ कागज निकालकर मुझे देते रहे। घूमने के समय वर्षा बन्द हो गई। बाहर घूमे।

मैक्सवेल का पत्र आज कटली साहब को डाक में डालने के लिए सौंपा, मगर आज टयूनीसिया-डे की छुट्टी है, इसलिए कल जावेगा।

: ४८ :

## शैतान व ईश्वर

२२ मई '४३

आज शाम को बापू ने मीराबहन से शैतान और भगवान् की बात करते-करते नीचे लिखी बातें कहीं। मीराबहन उन्हें लिखकर बापू को दिखा गईं। बापू ने उसे पास किया। यह नकल मैंने देखी, तो अच्छी लगी। उसे यहां देती हूं: "शैतान कोई व्यक्ति नहीं है। वह एक उसूल है—सत्य का इन्कार, जब कि वही शक्ति सत्य का उसूल है। इसलिए वह जीवन देने वाली चीज है, जीवन है, ब्रह्म है। सत्य का इन्कार तो मृत चीज है, मगर जैसे कभी-कभी शय में जीवन का आभास होता है, यह भी इंसान को धोखे में डाल सकता है और माया से भ्रमित इंसान इस मरी हुई चीज के पीछे भागता है और समझता है कि यही जीवन का मकसद है।

"शास्त्र बताते हैं और मैं भी इसे मानता हूं कि सतयुग में पहुंचने के पहले कलियुग या शैतान के युग में से गुजरना होता है। इस में शक नहीं कि आज हम कलियुग में से गुजर रहे हैं। भले ही हम नए युग का प्रभात इस जीवन में देखें या न देखें, हमारे लिए हमारा यह पक्का विश्वास ही काफी है कि सतयुग आने वाला है और उसे लाने

के लिए हम जिन्दा रहते हैं और मेहनत करते हैं।”<sup>4</sup>

आज भी बावल थे, मगर चर्चा नहीं हुई। शाम को भाई, मीराबहन इत्यादि सब खेले। मुझे बापू टॉटेनहम के पम्पलेट का उत्तर लिखवाते रहे। रात को भी प्रार्थना के बाद वही काम चलता रहा। बापू कहते थे कि कल सब काम छोड़कर इसीमें लगेंगे।

कहानी कहते समय बापू ने स्वेज नहर की चर्चा करते हुए अरब और मित्र की बातें बताईं।

२३ मई '४३

सुबह प्रार्थना जल्दी हुई, इसलिए प्रार्थना के बाद मैं सो गई। साढ़े छः बजे उठी। चाय के बाद खेलने गई। स्नानादि के बाद बापू को स्नाना देकर खुब खाकर पीछे दोपहर को मैं बापू के साथ बेंठी। उन्होंने लिखवाना शुरू किया। एक बजे के करीब सो गई। द्वाई से चार बजे तक फिर लिखवाते रहे।

शाम को कहानी में बापू पोर्ट सईव और 'मुक्तिसेना' ('साम्वेशन आर्मी') की कथा सुनाते रहे।

२४ मई '४३

आज बापू का मीन है। दोपहर को मैंने 'नो ब्रकफास्ट प्लेन ऐण्ड फास्टिंग बयोर' पुस्तक पुरी की। कुछ और चीजें भी पढ़ीं। दोनो दक्त खेली। आकाश आज साफ है। बापू को सब स्नाना आज बिजली की मशीन में एकरस करके दिया था। कुछ तो चबाने की क्रिया के निकल जाने के कारण, कुछ फूलाव अधिक हो जाने के कारण बापू की तबीयत बिगड़ी और खट्टी डकारे आईं, इसलिए शाम को उन्होंने स्नाना नहीं खाया। खाली गरम पानी पिया।

२५ मई '४३

आज बापू ने दोपहर को रामायण नहीं पढ़ी। कहने लगे, "अगर तू कर सके

<sup>4</sup> "Satan is not a person, but a principle—the principle of negation (of Truth) whereas the divinity is the principle of Truth. It is therefore, life-giving and is itself life, God. The principle of negation is a dead thing, but just as a corpse may look like a living being so does this negation deceive man deluded by *maya*, he pursues this lifeless principle, thinking it to be the thing for which to live.

"The scriptures tell us and I believe that the reign of untruth has to be gone through (the reign of Satan in the Bible and Kaliyuga in the Puranas) before man can again rise to Satyuga. Most surely we are passing through that period. What does it matter whether we live to see the dawn of the age to come. It is enough that we have unshakable faith and live and strive for that end."

तो मैं तेरा अभ्यास कुछ समय के लिए बन्द कराना चाहता हूँ। अपना सारा खाली समय नू मुझे दे दे और मैं सारा समय इस पैम्पलेट का उत्तर तैयार करने में दूँ। मुझे जो लिखाना हो लिखाऊँ, जितनी वफा उसे फाड़ना हो फाड़ूँ।” मुझे इसमें क्या उज्य हो सकता है। बापू की सेविका बनकर यहाँ आई हूँ। जितना समय बापू को चाहिए, वे ले। उस समय दूसरा कुछ करने का विचार ही नहीं किया जा सकता। बापू मेरे समय का उपयोग करें, इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है।

सुबह घूमते समय अफ्रीका की बातें होने लगीं। बापू ने बताया कि जलू लोगों पर क्या-क्या जुल्म हुए हैं। फिर उच्च लोगों के साथ अप्रेजों की लड़ाई की बातें बताते रहे। मेफिकिंग (Maffiking) × शब्द की व्युत्पत्ति बताई, पीछे हिन्दुस्तान पर आए। बोले, “इतने बड़े देश को, जिसकी सम्भ्यता इन लोगों की सम्भ्यता से बढ़-चढ़कर है, ये लोग इस प्रकार से दबाकर बैठे हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने क्या-क्या किया! मैं तो इन सब बातों का विचार करता हू तो खून खौलने लगता हूँ। मौलाना मुहम्मद अली कहा करते थे, हम लोगों से तो आप बहुत आगे जाते हो। आप हिंसा मानते नहीं हो, वरना आप में इन लोगों को मजा चला देने की शक्ति है; क्योंकि इस विषय में आपकी भावना बड़ी जबर्दस्त है और फिर आपके पास बुद्धि भी है।”

२६ मई '४३

आज शाम को जब हम लोग खेल रहे थे, भंडारी आए और बापू को एक बन्द लिफाफा दिया। टॉटैनहम का पत्र था। लिखा था कि सरकार बापू का खत जिन्ना साहब को नहीं दे सकती और इस विषय में एक विज्ञप्ति निकालने वाली है। विज्ञप्ति को एक नकल भी साथ भेजी है। बापू ने रात को उसका उत्तर लिखवाया।

बापू ने सरकारी पैम्पलेट के काम के लिए दूसरा सब काम छोड़ दिया है। मेरा भी सारा समय उसीमें ले लिया है और लिखाया करते हैं। बंचारी वा सेवाग्राम में कभी सारा समय बापू के कमरे में नहीं बँठती थीं, इसलिए उन्हें क्या पता कि बापू कितना समय लिखने-लिखाने का काम करते हैं। यहाँ देखती हैं तो चकित होती हैं। कह रही थीं, “पहले तो कभी इतना नहीं लिखते थे। लिखते थे तो कोई किताब।” भाई ने समझाया कि हमेशा यही काम चला करता है।

२७ मई '४३

आज करीब पौन बजे टॉटैनहम को लिखे गए बापू के पत्र की साफ टाइप-नकल तैयार हुई और तुरंत ही कटेली साहब को डाक के साथ भेजने को दे दी गई। दाई बजे अखबार आये। उनमें सरकार की विज्ञप्ति आ गई थी। बापू समझते थे कि

×मेफिकिंग शहर की याद में मेफिकिंग-दिन मनाने की प्रथा शुरू हुई थी। उस दिन शराब भ्रादि पीकर जशन मनाया जाता था। उस पर मे अफ्रेजी 'मेफिकिंग' शब्द बना, जिसका अर्थ है शराब पीकर भ्रानंद मनाना।

शायद उनका उत्तर जाने तक वह नहीं छपेगी, मगर डा० गिल्डर ने कहा था, “यह सरकारी विज्ञप्ति की नकल तो आपको शिष्टाचारवश भेजी है। जैसे यहाँ आ पहुँची, वैसे ही प्रेस को भी दे दी होगी। ऐसा होगा तो आज दोपहर को पता लग जावेगा।” यही हुआ। शाम को बापू ने टॉटैनहम को दूसरा पत्र लिखवाया।

ग्यारह बजे बापू मोराबहन के साथ बाने कर रहे थे, “अप्रेजो ने क्या-क्या अत्याचार नहीं किये। सोते हुए जूलू लोगों को बच्चों-सहित गोली से उड़ा देते थे; क्योंकि उनके सरदार ने यह कहने की हिम्मत की थी कि हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। उन पर पोल-टैक्स लगाया ताकि टैक्स का पैसा पंदा करने के लिए वे लोग काम करे। हिटलर ने इससे अधिक क्या किया है?”

डा० शाह आ गए। जिस ठेकेदार के यहाँ से उनके अस्पताल में खुराक का सामान आया था, वह डा० शाह से हाथ मिलाने आया, क्योंकि वे बापू के यहाँ आते हैं।

२८ मई '४३

आज सुबह खेलने गई, मगर शाम को बापू लिखवाते रहे। जब वे घूमने गए तब मैं खेलने को गई। रात को काफी समय बिगाड़ा। एक व्यर्थ की चर्चा में मैं और भाई पड गए, इसलिए बापू सिर्फ पन्द्रह मिनट तक ही लिखवा सके।

सुबह बावल थे। खेलते थे तब बड़े पड़ने लगी थीं। ऊपर बरामदे में आकर खेलते रहे। बापू बरामदे में घूमे। सवा आठ बजे महादेवभाई की समाधि पर फूल चढ़ाने को गए। मुझे खेलने का समय देने के लिए ही इतनी देर की थी। जब हम सब फूल चढ़ाने को गए तब वर्षा बन्द हो चुकी थी।

अखबार से पता चलता है कि जिम्ना ने वाइसराय को लिखे गए बापू के पत्र को रोकने के बारे में खबर नहीं खोली, पर अखबारों ने उनके भाषण का इस हेतु का जो त्रिस्ता उद्धृत किया था कि अगर बापू उन्हें पत्र लिखें और वाइसराय उसे न भेजें तो वे देख लेंगे, उस पर नाराजी बताई है। भाई कहने लगे, “वह कह सकता है, अगर सचमुच आपका हृदय-परिवर्तन हुआ है तो अपने सत्याग्रह के आंदोलन को वापस कर लो; क्योंकि हम इसके विरुद्ध हैं। हम इसे मुसलमानों के विरुद्ध मानते हैं।” बापू कहने लगे, “हां, सम्भव है।” मगर मुझे यह अशक्य-सा लगा।

आज टॉटैनहम को दूसरा खत गया। बापू ने कल उनका पत्र छापने की मांग की थी।

२९ मई '४३

सुबह प्रार्थना के लिए देर से उठे। साढ़ पाँच बज गए थे। प्रार्थना पूरी हुई तो छः बज गए। नाश्ते का सामान तैयार किया। इतने में सात बज गए। बापू प्रार्थना के बाद सोए नहीं थे, मगर मुझे लिखवाने के लिए रोका नहीं, खेलने को भेज दिया। खेलने के बाद घूमने के लिए बापू के साथ निकली तो सही, मगर बीच में से आना पड़ा।

बापू बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। भाई ने बात की कि ये एमरी वगैरा इस तरह से झूठ बोलते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो इन्सान हैं ही नहीं। हमारे साथ झूठ इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। एमरी ने जो निवेदन भारत सरकार से किया है, वह श्वेतपत्र (ह्वाइट पेपर) में छपा है। उसमें जापान के प्रति पक्षपात का आरोप नहीं है। इसी पर बात चली; क्योंकि जापान के प्रति पक्षपातपूर्ण आरोप तो सरकार की पुस्तिका में भरा ही पड़ा है। बापू कहने लगे, “यह तो है, मगर अपने यहां ही कितने आदमी इस किस्म के पड़े हैं कि जो झूठ और सच को परखने की मेहनत करें? ... की लो। आजाद हिन्दुस्तान में अपने प्रान्त में वही सामने आयेगा न। उसको क्या पड़ी है झूठ-सच की? इस तरह के कई अवसरवादी हिन्दुस्तान में पड़े हैं।” मने कहा, “बापू, तो फिर हिन्दुस्तान का होगा क्या? आजाद होने पर ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी तो वह आजादी क्या होगी?”

बापू बोले, “यहां हम चार हैं—तू, मनु, प्यारेलाल और मैं। मनु तो छोटी है। तुझे भी ऐसी बातों का अनुभव नहीं, मगर मुझे और प्यारेलाल को तो है। मैं कहता हूँ कि अगर हम चार सच्चे होंगे तो हिन्दुस्तान का भला-ही-भला है। मैं इससे भी आगे जाकर कहता हूँ कि मैं अकेला भी आखिर तक सच्चा रहूंगा तो हिन्दू का भला-ही-भला है। महाभारत में एक बड़ा संवाद है कि कृष्ण अकेले बिना हथियारों के क्या कर सकेंगे, मगर कृष्ण के पास तो धर्म था, सत्य था, इसीलिए उनकी जीत हुई।” मने कहा, “वहां पर पांडव भी तो सत्य पर थे न?” बापू ने कहा, “तू ऐसा मानती है तो गलती करती है। कौरवों की अपेक्षा पांडव अच्छे थे, मगर उनमें भी अनेक दोष थे और मनुष्य की हंसियत से कृष्ण भी सर्वथा दोषरहित कहां थे? गीता में कहा है न : ‘अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहमाद्भिरवाप्यते’ अर्थात् देहधारी के लिए अव्यक्त बनना, सर्वथा अनासक्त बनना, कठिन है। कठिन क्या अशक्य ही है, मगर जगत में इसी तरह से काम चलता है। सब मिलाकर जिधर भलाई अधिक रहती है, उसीकी ईश्वर बचा लेता है।”

बापू टॉटेनहम की किताब का उत्तर लिखने को भाई से फिर कहने लगे, “मैं इतना तो देखता हूँ कि मैं धीमा पड़ गया हूँ। एक चीज को तुरन्त पढ़कर समझ लेने और याद रख सकने की शक्ति कम हुई है, मगर ईश्वर को जितना काम कराना होगा, उतनी शक्ति देगा। जितनी शक्ति देगा, उतना करके संतोष मानूंगा।”

सुबह घूमने जाने से पहले मुझसे भी वही बात कह रहे थे, “इस किताब (टॉटेनहम का पंप्लेट) के एक-एक वाक्य में जहर भरा है। इसका बहुत सचोटे जवाब दिया जा सकता है। अगर मैं उसे कर पाऊं तो इसमें से अनेक परिणाम भी आ सकते हैं। मगर मैं देखता हूँ कि मैं धीमा पड़ गया हूँ। ए-० बार पढ़ता हूँ तो कुछ-न-कुछ खुलता है। दोबारा पढ़ता हूँ तो फिर कुछ और खुलता है। प्यारेलाल बरे तो मुझे काफी मदद मिल सकती है। थोड़े अभ्यास के बाद तू भी कर सकेगी, ऐसा मुझे लगता



हैं।" मैंने कहा, "आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप धीमे पड़ गए हैं। यह किताब ऐसे पेचदार ढंग से लिखी है कि एक दफा पढ़कर उसे पूरी तरह समझ लेना कठिन है।"

मन में बड़ा बुरा लग रहा था। महादेवभाई का स्मरण हो रहा था। आज वे होते तो बापू की कितनी भवद दे सकते !

मालिश-स्तानादि के बाद बापू फिर लिखाने बैठे। दोपहर को सोने के बाद अखबार आए। जिन्ना का उत्तर करोब-करोब जिन शब्दों में भाई ने पहले से सोचा था, वसा ही अखबारों में था। यह चकित करने वाली बात है कि इन्सान किस हद तक जा सकता है।

सरकार ने बापू का खत जिन्ना को नहीं दिया। इस पर 'हिन्दू' में एक लेख था जिसका शीर्षक था—'भगवान हमें हमारे मित्रों से बचावे' ('गॉड सेव अस फ्रॉम अवर फ्रेंड्स')। बापू शाम को भी लिखाते रहे। रात को साढ़े नौ बजे कहने लगे, "अब मेरा विभाग खाली हो गया है। बन्द करेंगे।" बापू पर यह जवाब लिखने का बोझ बहुत पड़ रहा है।

कल मीराबहन सोने के समय बापू को गीत सुनाने आईं तो कुछ बातें होने लगीं। बापू ने कहा, "मैं इस सरकारों पुस्तिका का उत्तर लिखने में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मगर उसके पीछे हृदय से सतत यह प्रार्थना निकलती है कि मेरी कलम से एक भी शब्द ऐसा न निकले जिसमें सत्य की गूँज न हो अथवा जिसमें जरा भी हिंसा का रंग हो।"

आज रात को भी बापू के साथ उनकी थोड़ी बातें हुईं।

कुछ बादल थे। पानी के दो-चार छींटे आए।

३० मई '४३

मीराबहन ने कल रात की बातों का सार लिखकर बापू को दिया। बापू ने उसे सुधारा। सुधारी हुई नकल यह है—"मैंने (मीराबहन ने) बापू से पूछा कि जिन लोगों के विचार ईश्वर के बारे में फल्ले हैं, उनकी भवद कैसे की जा सकती है? मेरा खयाल है कि उनके सामने धर्म की रुढ़िबद्ध बातें नहीं रखनी चाहिए, उनकी जगह सन्धि-सादी भावा में परम आत्मा की बात करना और जिन आदर्शों में हम विश्वास रखते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन बनाकर जोती-जगती मिसाल खड़ी करना चाहिए।" बापू ने उत्तर दिया, "तुम्हें परम आत्मा की बात करना की कोई जरूरत नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सत्य अपने-आप काम कर लेता है। सत्य ही परमात्मा है। वह हमेशा मौजूद है और हरेक जीव में काम कर रहा है। इसलिए इन्सान उनके बीच अपना आदर्श जीवन रखे और उनकी आवश्यकतानुसार सेवा करे। लिखने-पढ़ने और सामान्य गणित जानने की भी कीमत तो है। इसलिए निरक्षर लोगों के ज्ञान को बढ़ा करमा एक खास सेवा है। यह सेवा करना पढ़े-लिखों का धर्म है। चाकी, अगर हमारे जीवन में सचाई है तो उसका असर अपने-आप उन लोगों

पर पड़ेगा। जो ईश्वर यानी सत्य को ढूँढ़ते हैं, उन्हें वह मिल जाता है। अगर हम सत्य यानी ईश्वर को अपने आसपास के लोगों से ज्यादा पहचानते हैं—इस बारे में दावे से कुछ कहना कठिन है—तो हम उन्हें अधिक दे सकेंगे, वह अपनेआप उन्हें हमसे मिलेगा।”\*

दिन में बापू लिखवाते रहे। चार बजे लिखवाना बंद कर दिया। पीछे खुद उसे दोबारा पढ़ते रहे। रात को उसे दोहराकर पूरा किया।

जिन्ना साहब ने जो बयान कल निकाला है, उसमें उन्होंने कमाल हो कर दिया है। आज रविवार को तो अखबारों में उस पर कुछ निकला नहीं। कल पता चलेगा कि उसका लोगो पर क्या असर हुआ।

३१ मई '४३

आज बापू का मौन है। उन्होंने जो कल लिखाया था, उसे मंने पढा। उसमें कुछ भरना था, वह भरा। दोपहर की भाई के साथ बँठकर फाइलें वर्गैरह ठोक कराई। सरकार का जवाब आया कि: लार्ड संमुएल को बापू का पत्र नहीं भेजा जा सकता। जिस कारण जिन्ना साहब को पत्र नहीं दिया गया, उसी कारण लार्ड संमुएल को भी नहीं भेजा जा सकता। बापू को लगा कि जिन्ना साहब और लार्ड संमुएल, दोनों को एक कारण लागू नहीं हो सकता।

डा० गिल्डर को आज छः पत्र मिले। अनेक ढंगों से उनमें लिखा था '३१ मई', 'कौनसी ३१ मई?' '१९४..' इत्यादि। वे कहा करते थे कि ३१ मई को हम छूटने वाले हैं। उस पर से किसीने मजाक किया था। करने वाले कटेले साहब थे।

१ जून '४३

लार्ड संमुएल को पत्र भेजने के विषय में आज बापू ने सरकार के पत्र का उत्तर दिया।

३ जून '४३

भंडारी ने कहलवाया कि जिन्हें चदमा चाहिए, वे अपने पैसे से ले। बापू को यह ठीक नहीं लगा। पहले विचार दिया कि जाने दे, मगर बाद में विचार बदला। कहने

\* "You should not even talk of the Supreme Soul. It is my profound conviction that Truth is self-acting. Truth which is God is ever present, ever working in all beings. Therefore one should simply live one's own life amongst them and serve them according to their needs. Three Rs have a value all their own. Therefore giving that knowledge to the illiterate is a special service and obligatory on those who have that knowledge. For the rest if we have Truth in us, it will go out to them without effort for It is self-acting. God i. e. Truth comes to those who seek Him. If we know Him more than they (of which we can never be sure), the more will go out to them."

लग कि सरकार लोगों को बन्द करके रखे, उनकी कमाई का साधन बन्द करे तो पीछे उनका सब खर्च सरकार को उठाना चाहिए ।

४ जून '४३

बापू ने भण्डारी को लिखा कि सरकार मनु को चश्मा दे, नहीं देगी तो भले वह लड़की अपनी आंख खोए ।

बा की सांस बहुत फूल जाती है ।

५ जून '४३

बा को सुबह पांच बजे हृदय की धड़कन का दौरा हुआ । दो-तीन मिनट ही रहा । आज डा० साहब की तबीयत खराब थी । मनु कहने लगी कि अण्डो का तेल पीजिए । वे कहने लगे, "तू सुबह चार बजे आकर पिलाए तो पियेगे ।"

आज मनु का सोलहवां जन्मदिन था । भंडारी का उत्तर आया कि सरकार की तरफ से चश्मा मिलेगा ।

कंदियों की आम और खजूर बांटे ।

६ जून '४३

शनिवार की रात को मनु जागती रही । डा० साहब ने कहा था कि बिना किसीके उठाए चार बजे अण्डो का तेल पिलाने आवे तो पियेगे, इसलिए बेंचारी पहले बारह बजे उठी, फिर साढ़े बारह बजे, फिर दो बजे और फिर द्वाई बजे । पीछे म्नानादि करने लगी । इतने में तीन बजे । फिर कोच पर पड़ी रही । चार के टकोरे हुए तो अण्डो के तेल को बोतल लेकर डा० साहब के पास जा पहुंची । डा० गिल्डर बिना मुंह बनाए पी गए । मनु को बहुत आश्चर्य हुआ । दिन में दो सिपाहियों को भी अंडी का तेल पिलाना था । मनु के हाथ से बिलवाया । उसे बड़ी खुशी हुई । सारा दिन हम लोग हंसते रहे ।

८ जून '४३

शनिवार को चार बजे तक अखबार पूरे कर दिये, मगर बापू का काम रात को शुरू किया । रविवार-सोमवार तक उसी काम में लगी रही । आज भी वही चल रहा है । आज सुबह तो पत्र का टाइप होना भी शुरू हो गया है । अभी काफी काम बाकी है । परिशिष्ट (अपेन्डिक्स) भी अपने-अपने स्थान पर रखने हैं । यह जवाब तैयार करने में कम-से-कम एक हफ्ता और लगेगा ।

बादल आते हैं । रोज डर लगता है कि वर्षा आवेगी और खेलना बन्द हो जावेगा, मगर होती नहीं है । हवा खूब चलती है ।

९ जून '४३

मोराबहन को गठिया का दर्द हो गया है । कंधे और हाथ के जोड़ों की मालिश मूझसे कराया करती है । मगर आज बापू ने उन्हें सलाह दी कि उपवास करके इसकी जड़ निगाल डालो । डा० गिल्डर से शाम को बातें कीं । उन्होंने उपवास के विषय में कोई

अड़चन नहीं बताई, इसलिए कल से मीराबहन उपवास करेंगी। बापू को आशा है कि तीन-चार उपवास के बाद कल देना शुरू कर सकेंगे। मीराबहन उपवास के दौरान में यहां आने के बाद के अपने विचार और अनुभव लिख डालने का विचार कर रही है।

आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं। रात को जल्दी सो भी गई। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मन में विचार उठता था—भगवान् महादेवभाई जंसों को क्यों उठा लेता है और हमारे जंसों को क्यों छोड़ जाता है ?

सरकारी पुस्तिका के जवाब के परिशिष्ट की सामग्री तैयार करती रही। उसे आज करीब-करीब पूरा कर डाला।

१० जून '४३

मीराबहन सुबह मजाक कर रही थीं कि दस तारीख को बापू का उपवास शुरू हुआ था और चार महीने के बाद ठीक उसी तारीख को उनका भी उपवास शुरू होता है। आज उन्हें कुछ खास तकलीफ नहीं हुई। शाम को भूख लगी थी। सिर कुछ भारी था। वजन आज सुबह १३३ पौण्ड है। जबान साफ है। कुछ खास कमजोरी नहीं मालूम होती। पसोना बगैरह नहीं आया। इससे बे खुश है। उनके बर्द का मुख्य कारण ही यह था कि खेलने के बाद खूब पसीना आता था। उसके बाद हवा में घूमती थीं। इस घर में हवा से तो आदमी बच ही नहीं सकता। आज वे खेलीं नहीं तो पसीना भी नहीं आया।

कल रात भाई रात भर टाइप करते रहे—एक मिनट भी नहीं सोए। दिन में भी आधा-पौन घंटा ही सोए। दोनों वक्त खेले भी खूब। सुबह खेलने के बाद ताजा हो गए, ऐसा कहते थे।

आज सरकार का जवाब आया। जिन्ना साहब को लिखे बापू के पत्र पर निकाली गई सरकारी विज्ञप्ति के विषय में बापू को सूचना देने से इन्कार किया गया था।

अनपढ़ गंवार लोगो की सेवा कैसे करनी चाहिए, इस बारे में बापू ने मीराबहन को जो लेख सुधार कर दिया था, वह बहुत संक्षिप्त था, मानो सूत्रों में लिखा गया हो। इसलिए उन्हें बापू से उसे समझना पड़ा। बापू ने कहा, \* “जब

\* “When I looked through what you had written down of our conversation, I saw that I should express what I had said in a shorter and clearer manner. I have now put it in the form of aphorisms. As a matter of fact, it was only yesterday that I fully realized the value of the three Rs. In the past I have often expressed indifference to them. But yesterday it came to me that the three Rs have a unique place and value and in serving illiterate people it is a vital part of one's duty to give them this knowledge. The man who cannot read, write or add, must remain in many ways an ignoramus whereas with this knowledge at his command he can reach out to further and further development. Of course that means that when I impart the three Rs, I

मैंने तुम्हारी लिखी अपनी बातचीत को रिपोर्ट देखी तो मैं सन्न भ्रम गया कि मैंने जो कहा था, उसे अधिक छोटा और अधिक स्पष्ट करके मुझे कहना चाहिए था। मैंने अब उसे सूत्र रूप में लिख डाला है। सच्ची बात तो यह है कि कल ही मैं पढ़ने-लिखने और सामान्य गणित को कीमत पुरी तरह समझा। आज तक मैं उनके प्रति लापरवाह रहा हूँ, मगर कल मैं समझ गया कि उनको जो कीमत है और उनका जो स्थान है, वह और किसोका नहीं। निरक्षर लोगों को सेवा करते समय हरेक का यह धर्म है कि उन्हें ज्ञान दे। जो आदमी पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, जमा और बाँटो करना भी नहीं जानता, वह बहुत चीजों के बारे में अज्ञानी रहता है। मगर पढ़ने-लिखने और गणित के ज्ञान से वह अपना विकास उत्तरोत्तर कर सकता है। इसका यह अर्थ है कि जब मैं उसे लिखना-पढ़ना सिखाता हूँ तो ऐसे तरीके से सिखाऊँ कि उसको अपनी ज्ञान बढ़ाने की इच्छा तोय बने। मेरे लिए तो यह सवाल ही नहीं उठता कि माला फेरी और चलते बने। मेरा उसको लिखना-पढ़ना सिखाने का यह मकसद नहीं कि सब तरह से उसे आगे बढ़ाना है। अगर मेरे सिखाने से उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा असल हेतु तो है उसकी आत्मा का विकास करना और उसके लिए मुझे उसको भौतिक सेवा करके उसके निकट पहुँचना है। उसका शरीर तो सामने है, मगर उसकी आत्मा को अभी वह पहचानता नहीं है। दिन-प्रतिदिन जैसे वह मेरी सेवा स्वीकार करता जाता है, उसके मन में जिज्ञासा पैदा होगी कि मेरा अपना जीवन कैसा है।

must try to do it in such a way as to whet the man's appetite for further knowledge. There can be no question for me of just counting beads and passing on. I do not impart this knowledge for all round advance. If he advances materially, all very well and good, though my concern is with his spiritual development. It is through material service that I have to approach him. His body is all there. His soul is as yet unknown to him. Day by day as he goes on accepting my material services, he will become more curious about my life. He will begin to notice something more than the physical side of my life. Why do I sometimes sit in certain postures? Why do I shut my eyes at times? What is it I am murmuring? When this curiosity leads him to ask me what it all means, I can explain it to him. How the information will affect him is not my concern. It is not for me to interfere with the working of the spirit. When I am face to face with a man in proportion as I have God's spirit in me, will it go out to him. My purpose is not to give him my religion. My purpose is to let him see God through me if I have Him and express Him in reality in my daily doings."

“फिर वह मेरे भौतिक जीवन से आगे भी कुछ है, यह देखने लगेगा। वह सोचेगा कि मैं क्यों कभी-कभी आँखें बन्द करके आसन लगाकर बैठता हूँ? मैं इस तरह बैठकर किस-की रटन करता हूँ? जब इस जिज्ञासा के वश होकर वह मुझसे पूछेगा कि इन सब चीजों का क्या अर्थ है तब मैं उसे बता सकता हूँ। इस ज्ञान का उस पर क्या असर होगा, उसकी चिन्ता करना मेरा काम नहीं। आत्मा के काम में दखल देना मेरा काम नहीं। जब मैं किसी इन्सान के आगे खड़ा होता हूँ तब जिस हृद तक ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है, उसी हृद तक वह मेरे सामने खड़े व्यक्ति में भी प्रवेश करेगा। मेरा हेतु यह नहीं कि वह मेरा धर्म स्वीकार करे। मेरा हेतु यह है कि वह मेरे द्वारा ईश्वर का दर्शन कर सके। वह तभी हो सकता है कि अगर ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान हो और अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में, कार्य में, मैं सचमुच उसको व्यक्त करता हूँ।”

: ४६ :

## सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (२)

११ जून '४३

बापू कह रहे थे कि कल से पहले का सब कार्यक्रम फिर से शुरू होना चाहिए, मगर मैं समझती हूँ कि वह नहीं हो सकेगा। टाइप-नकल को आज पढ़ना शुरू किया। कुछ समय बापू ने मेरे साथ पढ़ा और साथ-साथ सुधार कराते गए। कुछ समय मैंने अकेले पढ़ा। आज मोराबहन के साथ कुछ नहीं किया। पन्द्रह पन्ने ही पढ़ पाई। सब मिलाकर करीब ४० पन्ने हैं और परिशिष्ट अलग।

मोराबहन ने आज एक दर्जन मोसम्बो लीं। तबोयत अच्छी हैं। भूख बहुत है और कमजोरी भी है।

रात को सरकार का पत्र आया। टॉटैनहम के सेक्रेटरी ने बापू की जिज्ञा वालो विज्ञप्ति के बारे में जो दूसरा पत्र सरकार को लिखा था, उसकी और लार्ड संमूएल को पत्र न देने के बारे में भेजे गए बापू के पत्र की पहुंच थी। लिखा था कि उस बारे में सरकार को कुछ और नही कहना है। वह अपना निश्चय बदल नहीं सकती। सभी यह पत्र पढ़कर हंसने लगे। बापू भी हंसकर कहने लगे, “जवाब देते हैं, यह उनकी मेहरबानी है!” मगर उन्हें संमूएल वाले पत्र के बारे में सरकार के उत्तर से कुछ आश्चर्य हुआ। उन्हें आशा न थी कि उसका भी ऐसा ही उत्तर आवेगा। सरकार दूसरी विज्ञप्ति निकाल सकती थी। वे लोग लिख सकते थे कि आप ठोका कहते हैं। लार्ड संमूएल वाला पत्र, जिज्ञा साहब के पत्र के बारे में जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसकी श्रेणी में तो नहीं आता, मगर हम उस पत्र को दूसरे कानून से रोकते हैं।

१२ जून '४३

महादेवभाई को गए हफ्तों की जगह महीनों हो गए। क्या इसी तरह वर्षों चले जावेंगे? उनका स्मरण तो इतना ताजा है, मानों कल वे हमारे साथ ही थे। वह स्मरण इस जीवन में धुंधला थोड़े ही पड़ सकता है।

बापू आज भी मेरे साथ 'सरकारी बाइबिल'\* के अपने उत्तर की टाइप-नकल पढ़ते रहे और सुधार भी करते रहे। ३२ पन्ने आज पूरे हुए। अभी आठ-दस और हैं। कल पूरे हो जावेंगे।

मोराबहन को आज भी कमजोरी तो लगती है, मगर तबीयत ठीक है। दंत कम है।

१३ जून '४३

आज 'सरकारी बाइबिल' पूरी की। बीच-बीच में बापू ने कई जगहों पर सुधार करते समय अक्षर बढ़ाए थे। परिणाम-स्वरूप कई जगहों पर खाली जगहें छूट गई थीं। भाई को ये जगहें भरनी पड़ीं।

भाई कुछ उदास थे। जिन्ना इत्यादि की गालिया पढ़ते-पढ़ते हम लोग ऊब जाते हैं, मगर बापू के मन पर उनका कोई असर नहीं होता। वे तो अचल बंट हैं। वे जानते हैं कि आज जो भी हो रहा है, उस सबका परिणाम शुभ हो होने वाला है हिन्दुस्तान के लिए। व्यक्तियों का तो उन्हें कभी विचार भी नहीं आता। अपने-आप की, अपने मान की उन्हें कुछ पड़ो ही नहीं।

यह सब काम करते हुए बापू मनु को आधा घंटा जरूर सिखाते हैं। हर रोज थोड़ी गीता भी सिखाते हैं। दस-बोस मिनट तक एक रोज व्याकरण व एक रोज भूमिति सिखाते हैं। बापू पढ़ाने में बिलकुल लीन हो जाते हैं। कह रहे थे, "मे यह सब काम ('सरकारी बाइबिल' का उत्तर लिखना इत्यादि) तो करता हूँ, मगर मुझे इसमें रस नहीं है, भाररूप लगता है। हाँ, भूमिति में, व्याकरण में, संस्कृत में मैं लीन हो सकता हूँ।"

१४ जून '४३

आज भाई फिर कहने लगे, "मुझे लगता है कि ये लोग बापू को तबतक नहीं छोड़ेंगे जबतक वे काम करने लायक हैं। जब शरीर निकम्मा-सा हो जायेगा, तभी छोड़ेंगे।" मैंने रोका, "आप इस प्रकार का विचार भी क्यों करते हैं?" वे कहने लगे, "अगर ईश्वर का यह मंशा होता कि बापू को बाहर जाकर पहले की तरह से काम करना है तो महादेव क्यों चले जाते?" मैंने कहा, "आज भी जो काम चल रहा है, उसमें भी महादेवभाई की आवश्यकता है। इसलिए आपकी दलील व्यर्थ है।" वे बोले, "सेवाग्राम का विचार भी

\*हम लोगों ने जेल में टॉटेनहम के पैम्पलेट को मज़ाक में 'सरकारी बाइबिल' नाम दिया था।

मुझ काटता है। महादेव के बिना उस जगह में रह ही क्या गया ! एक वही जगह थी, जहाँ जाकर घड़ी भर के लिए आदमी मन बहला सकता था, हल्कापन महसूस कर सकता था । ”

इसमें शक नहीं कि महादेवभाई के बिना आज बाहर के जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, मगर भगवान् को बापू से और काम न लेना होता तो बापू को उपवास से ही क्यों बचाता ? मगर उसके साथ ही भगवान् का महादेवभाई को इस तरह उठा लेना मेरी समझ में ज़रा भी नहीं आता । उनकी जगह हममें से किसीको क्यों नहीं उठा लिया ?

आज बापू का मौन था, तो भी उन्होंने कुछ समय मेरे साथ परिशिष्ट की टाइप-नकल मिलाई । बापू के हाथ में 'हरिजन' था । मैं टाइप-नकल पढ़ती जाती थी । भूल मिलती तो बापू मेरा ध्यान खींचते थे । मैं सुधार लेती थी । बाकी समय वे संस्कृत और 'गुलीवर्स ट्रैवल्स' पढ़ते रहे । एक दिन कह रहे थे, "संस्कृत के दो वाक्य भी पढ़ लू तो वे ज्ञान में वृद्धि ही करते हैं । इसलिए मुझे वह पढ़ना अच्छा लगता है । ”

मीराबहन ने आज से मोसम्बी के साथ शहब और पानी लेना शुरू किया है । शहब पीकर आज वे खूब ही सोई ।

१५ जून '४३

वर्षा बन्द है, सो वेडमिन्टन कोर्ट सूख गया है । चूने की कमी है, इसलिए डोरी की लाइनें बनाईं । इतने दिनों के बाद बाहर खेल सके । अच्छा लगा ।

बा आजकल सब खेलों में बहुत रस लेती है । सुबह-शाम वेडमिन्टन व रिग देखने आती है । हम कुर्सी डाल देते हैं । वे बंठी देखा करती है । रात को कैरम देखती है । मीराबहन बता रही थी कि बा शाम को अकेली कैरम खेलने का अभ्यास भी कर रही थीं । मीराबहन ने प्रोत्साहन दिया । बा ने कैरम बोर्ड की पॉकेट में सात बार मोहरा डाला । रात को कटेली साहब बगैरा ने बा से खेलने को कहा । बा बहुत रस से खेलती रहीं । इन खेलों ने बा का जीवन बदल-सा दिया है । उनकी निराशा और उदासी बहुत कम हो गई है ।

इसी तरह ग्रामोफोन से भी बा का खूब मनोरंजन होता है । सुबह घंटा डेढ़ घंटा ग्रामोफोन बजता है । तब बा लीन होकर भजन सुनती रहती हैं । यह बहुत अच्छा है ।

१६ जून '४३

आज रात को बापू ने टॉटेनहम के पेंम्फ्लेट के उत्तर को दोबारा पढ़ लिया । आखिर के एक पैराग्राफ को सुधारना बाकी है, ऐसा कहते थे । सिर पर से भारी बोझ उतरा । मुझे भी ऐसा ही लगता है । पर मेरा काम तो अभी बाकी है । भाई अब उसे पढ़कर अपने सुझाव तैयार कर रहे हैं । पीछे हम सब बारी-बारी से पढ़ेंगे । फिर उसकी साफ नकल होगी । एक हफ्ता शायद इसे जाते-जाते और लग जावेगा ।



१७ जून '४३

आज सुबह बापू ४ बजे उठ गए। घड़ी एक घंटा आगे होने के कारण रोज पांच बजे उठते हैं। साढ़े चार तक बिस्तर पर पड़े रहे। सो नहीं सके। साढ़े चार पर प्रार्थना के लिए चले। बाद में सवा पाच-साढ़े पांच से लेकर साढ़े छः बजे तक सोए।

सुबह घूमते समय पंजाब के किसानों की खुराक की बात हुई। पंजाबी किसान की निडरता की बात मेरे मूह से सुनकर बापू कहने लगे, "हां, पर याद रखो, एक गोरे को देखकर वे थर-थर कांपने लगते हैं।" बात सच्ची है। पठान क्या और जाट क्या, दूसरे किसीकी परवाह उन्हें है नहीं। विशाल काया रखते हैं, मगर गोरों से थरथर कांपते हैं।"

पीछे कहानी चली। मिसेज डेनियल के यहा से कैसे निकले, अलग कमरे लेकर रहे, गाना, नाचना, भाषण देना सीखा और छोड़ा। यह सब मुनाया।

मालिश के बाद सोए नहीं। टॉटैनहम के पैम्फलेट के उत्तर की उन्हें बड़ी चिन्ता थी। आखिर का परंप्राफ फिर से लिखना चाहते थे। करीब सारा दिन उसीमें गया।

भाई के साथ बैठकर बापू के पत्र को फिर से पढ़ा और बापू की स्वास्थ्य-डायरी पुरो की। मोराबहन का उपवास आज छूटा।

१८ जून '४३

आज बहुत दिनों के बाद दोपहर को रामायण पढ़ी। थोड़ी संस्कृत व्याकरण भी की। भाई के साथ कुछ देर काम किया। बाको दिन यो ही चला गया।

मोराबहन ने उपवास के हफ्ते में ७॥ पौण्ड वजन खोया। पहले दो दिन तो दर्द कम रहा, मगर फिर बढ़ गया। परमो तो बहुत ज्यादा था।

कल से उन्होंने खाना शुरू किया है। आज २॥ पौण्ड दूध पिया और सब्जी खाई। कहती थीं कि आज ५० प्रतिशत दर्द चला गया है। देखें आगे क्या होता है।

१९ जून '४३

रामायणादि का आज फिर नागा हो गया। बापू के उत्तर के परिशिष्ट की सामग्री टाइप होकर आ गई थी। उसे देखती रही।

गेहू का आटा नहीं मिलता। आज से बाजरे की रोटी बनानी शुरू की है। बापू ने भी खाई।

आज बापू समझाते रहे कि कैदी की हंसियत से हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कहने लगे, "मेरा शरीर चल सके तो मैं इन कैदियों की ही खुराक खाऊं।" मने कहा, "मेरा तो चल सकता है। मुझे खाने दीजिए।" बापू ने उसकी इजाजत नहीं दी, मगर अम्माजान के वक्त जो कच्चा खाने का व्रत लिया था, उसमें इतना फेर करके कि 'बापू के लिए जो सब्जी बने वह लेना', उसे चालू रखने की इजाजत उन्होंने दे दी। यह फेर करने का कारण यह है कि कच्ची खाने लायक सब्जी यहाँ हमेशा नहीं आती है &

जबतक जेल में है तबतक यह व्रत चालू रहेगा ।

आज एक दुःखद घटना हो गई । बापू को ऐसा लगा कि... ने झूठ बोला है । उससे वे खिन्न रहे ।

भाई रात को तीन बजे तक काम करते रहे । 'सरकारी बाइबिल' के उत्तर में जो सुधार करने का विचार वे रखते थे, वे सब किए ।

२० जून '४३

सबरे प्रार्थना के लिए सवा चार बजे उठी । मगर शर्म के साथ कहना पड़ता है कि गीताजी के पाठ के समय नींद आने लगी । मेरा स्वर ठीक न था । भाई पढ़ने लगे और मैं चुपचाप सुनती रही । सुनते-सुनते सो गई । कल भी ऐसा हो हुआ था ।

बापू आज अपने लिखे उत्तर में भाई के किये हुए सुधारों को ध्यान में देखने रहे । मैंने दोपहर उनकी आत्मकथा पढ़ी । दो-तीन रोज मैं उसे पूरा करने का विचार है । सोच रही थी—बापू दक्षिण अफ्रीका गए, तब चौबीस वर्ष के थे । मैं पच्चीस पूरे कर चुकी हूँ । अर्थात् मुझ से छोटी उमर में उन्होंने कितने बड़े-बड़े काम करने शुरू कर दिये थे और हम लोग यहा बच्चे-से बनकर बंटे हैं । मगर यह बापू का प्रताप है । उनके पास बंठने से ही ऐसी भावना उठती है । अगर अस्पताल में बंठो होती तो ऐसा नहीं हो सकता था । जो ही, बापू उस उमर में जितनी प्रगति कर पाए थे, हमारे जैसे मारी जन्मदोष में भी कर पाएँ तो बहुत हैं । इतने पर भी बापू कहते हैं कि वे तो सामान्य आदर्श हैं । जो उन्होंने किया, वह सब कर सकते हैं ।

वर्षा धमकी देकर चली जाती है । अच्छा लगता है । सूखे कोर्ट पर हम खेल सकते हैं ।

२१ जून '४३

आज बापू का मौन है । सुबह ही लिखकर कहा कि आज मालिश से मुक्ति लेकर टॉटेनहम को 'बाइबिल' का उत्तर पढ़ना । शाम को खाने के समय वह पूरा किया । दोपहर में दूसरा काम भी रहा ही था । रात में भाई नए सुधारों को टाइप करते रहे । उन्होंने रात भर टाइप किया ।

शाम को प्रार्थना के बाद मैक्सवेल का बापू के पत्र का उत्तर आया । बापू वह सूखा-सूखा उत्तर पढ़कर बहुत हंसे ।

२२ जून '४३

आज बापू ने मैक्सवेल वाले पत्र का उत्तर लिखा । भाई ने टाइप किया । 'बाइबिल' का उत्तर आज डा० गिल्डर पढ़ते रहे । भाई ने कल रात को जो टाइप किया था, उसे मिलाने में कुछ समय गया । दोपहर दो घंटे सोई, सो कुछ खास काम न कर पाई । शाम को बापू के साथ बाइबिल (असली बाइबिल) पढ़ी ।

बापू अशांत-से लगते हैं । आज रक्त-चाप भी अधिक था । कल रात को बारह बजे सोए थे ।

रात को डा० साहब 'सरकारी बाइबिल' को पढ़ना चाहते थे। बापू ने कैरम में उनकी जगह मुझे भेजा। बा नहीं आई। उन्हें नींद आ रही थी। जल्दी सो गईं। मैं, मोराबहन और कटेली खेले। मोराबहन ने हमें तीन बार हराया। वे कैरम बहुत ही अच्छा खेलती हैं। वहाँ से आई तो मनु और भाई बातें करते मिले। उन्होंने मुझे भी बिठा लिया। हम लोग बारह बजे के बाद सोए।

२३ जून '४३

आज डा० गिल्डर मालिश करने नहीं आए। वे 'बाइबिल' का उत्तर कल से पढ़ रहे हैं। ११। बजे बापू खाना खा रहे थे। उस समय वे उनके पास अपने सुझाव लाए। बापू ने बाद में कुछ बातों के बारे में हम तीनों से फिर विचार करने को कहा। शाम को हम लोग फिर आधा घंटा यहाँ बंटे। पीछे रात को भी करीब एक घंटा लगा। दो पराप्ताफ अभी और तैयार करने को रह गए हैं।

२४ जून '४३

आज डा० गिल्डर ने 'सरकारी बाइबिल' का उत्तर पढ़कर बापू को वापस किया। कल बापू ने जो दो पराप्ताफ लिखने को कहा था, आज मालिश के बाद हम तीनों ने, मिलकर उन्हें लिख डाला। दोपहर को डा० गिल्डर ने बापू का उत्तर लौटाया, पीछे मुझे जो कुछ पूछना था, मैंने पूछा। डा० गिल्डर पहला पन्ना ले गए। आज मे वह उसे टाइप करना शुरू करना चाहते थे।

मनु को तीन दिन से कब्ज था। उसने किसीसे कहा नहीं था। आज बापू से कहा। उन्होंने एनोमाव लेने को कहा। उसने लिया। खाना न खाने का विचार किया था, मगर पीछे बा के कहने से कुछ खा लिया। परिणाम-स्वरूप उसे दो उल्टिया हो गईं।

२५ जून '४३

आज भी सरकारी 'बाइबिल' के जवाब में जिन-जिन चीजों के विषय में मुझे बापू को सुझाव देने थे या चर्चा करनी थी, वह मैं पूरी नहीं कर पाई, मगर चालीस पन्ने तक पहुँच गईं। अब बारह-तेरह पन्ने ही शेष रहे हैं। एक परा अधूरा था, उसे पूरा करना था। मालिश से छुट्टी ली और उसे पूरा किया।

मोराबहन कहती थीं कि उनका दब दस फीसदी काम है, मगर उपवास के दूसरे दिन पचास फीसदी काम था। फिर पचहत्तर फीसदी बढ़ा। इसलिए अभी से कुछ कहना ठीक न होगा। कलेक्टर आज आया।

मनु ने आज सुबह अण्डी का तेल लिया। शाम को उसके पेट में दब होने लगा। खाया नहीं—खेलने भी नहीं आ सकी। डा० गिल्डर को भी बुझार-सा था। कटेली के हाथ में दब था, इसलिए शाम को वे खेल नहीं सके।

२६ जून '४३

आज 'बाइबिल' के उत्तर के विषय में बापू के साथ चर्चा पूरी की। बापू आज उत्तर को आखिरी बार पढ़ने की आशा रखते हैं। डा० गिल्डर और भाई एक और कचची नकल टाइप करेंगे, फिर उससे साफ नकल तैयार होगी। डा० गिल्डर ने तो सात पन्ने टाइप कर भी लिये हैं। भाई अभी एक बार सब-का-सब फिर से पढ़ जाना चाहते हैं, बाद में टाइप करना शुरू करेंगे। अब इस चीज से हम सब थक गए हैं। जेल में ही इसे इतना समय मिल सकता था।

आज 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की पिछले वर्ष की पूरी फाइल आई है। वापस लौटानी होगी। बा कह रही थीं, "अखबार क्या कम आते हैं? इस फाइल की क्या आवश्यकता थी?" मगर 'सरकारी बाइबिल' के उत्तर के लिए यह मंगवाई गई थी।

रामायण में भरत-मिलाप पढ़ते-पढ़ते मैंने बा से कहा, "बाहर जाकर आपको भरत-मिलाप का सिनेमा दिखा लावेंगे।" बा कहने लगीं, "मैं अब यहां से कहां वापस जाने वाली हूँ!" मैंने और डा० गिल्डर ने समझाया तब मान गईं। कई बातों में बा बालक की तरह भोली हैं। बस शान्त मन से फॉरम खेलने को चांग दीं।

अखबार बहुत से इकट्ठे हो गए थे। मैंने काफी पढ़ भी डाले। आशा है, सोने में पहले सब पुराने काम पूरे हो जावेंगे।

मीराबहन का दर्द कम है, ऐसा वे कहती थीं। दर्द का ढंग भी कुछ बदला है।

: ५० :

## मनोरंजक घटना

२७ जून '४३

मेरे बालों में चिकना, सफेद मेल बहुत है। निकलता ही नहीं। एक दिन विचार आया कि बाल निकालकर इसका इलाज करें तो शायद साफ हो जावे। भाई ने और बापू ने इस विचार का समर्थन किया। बापू कहने लगे कि उनके सिर में भी यही स्या, जो इसी तरह अच्छा हुआ था। मीराबहन से बात की। उन्होंने बाल काटने से मनाही की। डा० गिल्डर के बालों में भी यही तकलीफ है। मेरी बात सुनी तो वे कहने लगे कि पहले वे करके देखें, फिर मैं करूँ। मगर बाद में उनका मन बदल गया। कहने लगे, "बापू कहें तो मैं बाल कटाऊँ।" बापू कहने लगे, "मैं क्यों कहूँ?" आज मैंने बाल छोए थे। बापू कहने लगे, "बाल निकालना है तो आज ही निकालो।" मेरा मन काटने को होता नहीं था। यह भी विचार आया कि ऐसा इलाज यहीं किया जा सकता है। बाहर जाकर यह नहीं हो सकेगा। बापू और भाई मजाक करने लगे कि हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने कह

दिया, “तो भले काटें।” बस कहने की देर थी। तुरंत बापू न कंबी उठाकर पहले मेरी चुटिया काटी, फिर बाकी के बाल काट डाले। बुरा तो लगा, मगर अब क्या हो सकता था। सब काटकर दामोदर कंदी से उस्तरा फिरवा दिया। मीराबहन तो रोने जंसी हो गईं। कहने लगीं, “मुझे पता होता कि तुम इतनी जल्दी फिल्ल जाओगी तो मैं तुम्हें ज्यादा रोकती।” कटेलो साहब को भी बड़ा आघात लगा। कहने लगे, “हम सीपो-चन्दन मंगा देते, उससे तुम्हारा सिर साफ हो जाता। इतने अच्छे बाल क्यों निकाल दिए?” मनु, बा, सबको बुरा लगा। बापू कहने लगे, “कल्पना की बात है न। मुझे तो तुम्हारा यह बिना बालों का सिर और चेहरा अच्छा दिखता है।” रात में डा० गिल्डर मजाक करने लगे, “जब बढ़िया हो जाओगी तब इन बालों की ‘विग’ (टोपी) बनवाकर पहनना।” कटेलो साहब कहने लगे, “मुझे पता दें कि कहा बनती है। अभी से बाल भेजकर ‘विग’ बनवा ले, ताकि अभी हो पहनी जा सके।” उनसे मेरा मुण्डा सिर नहीं देखा जाता। रात में मैं सो न सकी। तकिये में सिर लगता तो तकलीफ होती। सिर को चमड़े बहुत नाजुक था। बालों की जड़ें कपड़े में अटकनी थीं।

२८ जून '४३

बापू का आज मौन है। ‘बाइबिल’ का उत्तर आखिरी बार पढ़ते रहे। अब भी बाल मुझे तकलीफ देते हैं।

कल रात मैं सो न पाई थी। दिन में दो घंटे सोई और कुछ अखबार आदि पढ़े।

: ५१ :

### सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (३)

२९ जून '४३

बापू आज भी सरकारी ‘बाइबिल’ का उत्तर पढ़ते रहे। उसमें बहुत थक गए हैं। रात रह रहे थे कि इतनी मेहनत उन्हें किमां दूनरी ब्रेज पर नहीं करना पडे। मुझे जो चर्चा जानें थी, सुझाव देने थे, उनमें से कुछ तो दोपहर को दिये और कुछ रात को। रात में करीब ग्यारह बज गए। कितने दिनों से ऐसा ही हो रहा है।

आज बा को बखार था। कल रात से उनका शरीर दुखता था और सर्दी लग कर बखार आया था। छातों में नया कुछ नहीं। पेशाब में भी अल्बुमिन का निशान तक नहीं। सम्भव है, मलेरिया हों। आज जांच के लिए रक्त नहीं लिया। फिर आवश्यकता पडे तो लेंगे। बा को मुई लगवाना बहुत नापसन्द है।

शाम को... सिपाही से मैंने दो-चार रोटी बनाने को कहा, क्योंकि मनु बा के पास थी। उसने कोरा जवाब दिया और झट बोला कि वह तो रोटी बनाना

जानता ही नहीं है। कटेली साहब ने बाद में उसे डांटा।

मुझे विचार आ रहा था कि रोटी खाना बन्द कर दूं। रोज मनु से बनवाकर खाना अच्छा नहीं लगता।

३० जून '४३

आज बा की तबीयत अच्छी है। बुखार नहीं। मीराबहन को भी काफी फायदा है। दो-तीन रोज से मिट्टी लगाती थीं। आज 'ओरियण्टल बाम' मलबाया है। विटामिन 'बी' और 'सी' भी लेती हैं और दवा पीती हैं। कहती हैं कि उनका सामान्य स्वास्थ्य बहुत अच्छा है।

रात को मीराबहन आकर कहने लगीं कि दर्द ज्यादा है। उसका कारण वे मालिश कराना बताती हैं।

आज भाई के कमरे में पुराने अखबार उठाकर ठिकाने पर रखे। काफी धूल खानी पड़ी। नए अखबार सब गोल मेज पर सजा दिये। महीना पूरा होने पर काइलें यहां से उठा लूंगी।

आज सुबह मैं प्रार्थना में नहीं गई, क्योंकि रात को मुझे बुखार-सा लगता था। सिर में दर्द-सा था। मगर दिन में सब अच्छा रहा। इरादा है कि कल से अपना कार्यक्रम पूर्ववत् चलाना शुरू कर दूं।

१ जुलाई '४३

आज मीराबहन के सुबह से ही दर्द ज्यादा है। शाम को और बड़ा करता है। कहतीं थीं कि अब तो सी फोसदी साबित हो गया है कि मालिश से ही दर्द बढ़ता है। उन्हें कौन सामा सकता है कि यह भ्रम है।

खाने के समय बापू लिखाने लगे। डाई बजे तक लिखवाते रहे। फिर सोने को लेटी। नींद मुश्किल से आई। साढ़े तीन बजे उठी तो सिर में दर्द था। बिस्तर से उठी तो बहुत ठंड लगने लगी। मापा तो १००.६ बुखार निकला। चाय के साथ दस ग्रेन कुर्नॉन खाई।

शाम को लेटी रही। मीराबहन की लिखी हुई टीका, जो बापू के पास आई थी, पढ़ गई। कई भूलें थीं। बापू ने उन्हें सुधारने को कहा।

काफी अखबार पड़े। रात में खूब सोई। बा आज शाम को पिंग-पींग खेल रही थीं। मेरा पुराना कार्यक्रम आज शुरू न हो सका।

२ जुलाई '४३

सुबह उठकर अण्डा का तेल पिया। बापू को यह जुलाब विशेष अनुकूल लगता है। प्रार्थना बिस्तर में पड़े-पड़े सुनी। मुनते-मुनते सो गई। साढ़े सात बजे उठीं। बुखार ९९.८ था। ग्यारह बजे तक उतर गया। अखबार देखे। बापू ने 'सरकारा बाइबिल' के उत्तर में जो नए सुधार किये हैं, वे देखे। कल और आज की डायरी लिखी। अब बापू की स्वास्थ्य-डायरी पूरी करके 'आत्मकथा' पढ़ूंगी। आज शाम को बाइबिल भी पढ़ी।

बापू बहुत थका गए हैं। आज खून का दबाव भी ज्यादा था। 'सरकारी बाइबिल' के उत्तर पर बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आज शाम को घूमते समय कह रहे थे, "ईश्वर ऐसे मुझे उबार लेता है। उत्तर पूरा हुआ और थकान बढ़ी। इतनी मेहनत न करता तो जो सुधार किये है, वे कर नहीं सकता था।" रात को प्रार्थना के बाद उन्होंने तुरंत सोने की तैयारी की। चार-पांच बिन के बाव ठीक तरह से सिर और पैरों की मालिश करवाकर सोए।

डा० शाह आए। मैंने मीराबहन के दर्द के बारे में उनसे बात की।

३ जुलाई '४३

मीराबहन के दर्द का कारण नहीं मालूम पड़ता। एक बिन कम हुआ और एक बिन बढ़ गया। डा० शाह से कल बापू ने सुबह कहा था कि डा० गिल्डर शायद उन्हें पूरी जांच के लिए अस्पताल भेजना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि भंडारी से बात करने के बाद जो कर सकेंगे, करेंगे। डा० गिल्डर दोपहर को कह रहे थे कि यहां से तो, जीवन-मृत्यु का सवाल ही तो भी, शायद ही किसीको अस्पताल भेजा जाय।

भाई ने रात भर टाइप किया।

४ जुलाई '४३

आज भंडारी आए। भंडारी की बात से लगता था कि मीराबहन को कहीं भेजने का उनका इरादा नहीं। कहते थे, "डा० शाह से सलाह करके कहूंगा कि क्या कर सकता हूँ।"

भंडारी गवर्नर के आने की बात करते रहे। 'सी' श्रेणी के कैदियों ने विरोध-प्रदर्शन किया था, उन्हें सजा देने की चर्चा की। डा० गिल्डर ने कहा, "राजनैतिक कैदियों के साथ दूसरा ही बर्ताव करना पड़ता है; क्योंकि दूसरे देशों में जो आज राजनैतिक कैदी हैं, वे ही कल सत्ताधारी हो सकते हैं, और जो आज सत्ताधारी हैं, वे कल कैदी हो सकते हैं।" मगर हमारे यहां परदेशी राज्य है, इसलिए सब चलता है।

बापू ने टॉटनहम को 'बाइबिल' का जो जवाब दिया है, उसके परिशिष्ट पर मैंने नम्बर डाले। शाम को सात बजे तक यही काम किया। पीछे खाने को गई। फिर घूमने को। खेलने नहीं गई। बाव में पता चला कि आज कटेली साहब भी खेलने में न थे। उनके हाथ में दर्द था, सो खेल बिगड़ा होगा।

५ जुलाई '४३

बापू का आज मौन है। उन्होंने आज टाइप-नकल समाप्त की। मैंने परिशिष्ट की और अन्य चीजों को सूची तैयार की।

बापू आजकल अलबार देखने का भी समय नहीं निवाळते। आज 'डान' दो-तीन दिन के बाद आया। मैंने हंसते-हंसते कहा, "बापू, अब तो दूसरा काम छोड़िए। आपके मित्र का अलबार आया है।" बापू ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले आते ही 'डान'

पढ़कर उसमें निशान भी लगा दिये थे। ऐसे ही दो-चार दिन पहले मैंने हंसी में कहा था, "सब अखबार छोड़कर—काम छोड़कर—आप 'डान' पढ़ने का समय निकाल लेते हैं। जिन्ना साहब के आप बहुत भक्त बनते जा रहे हैं।" बापू ने कहा, "भक्त के अधीन हूँ।" मैंने कहा, "जिन्ना साहब यह बात सुनें तो नाराज हो जावेंगे।" हंसी चलती रही।

शाम को मनु को बुलार आ गया। खेलने में भाई, मैं और डाक्टर गिल्डर थे। वर्षा आई, सो बन्द करना पड़ा।

६ जुलाई '४३

भाई मीराबहन के साथ टाइप-मकल मिला रहे थे। बहुत धीरे काम चल रहा था। बापू ने कहा कि यह काम पूरा होना ही चाहिए। शाम तक भाई ने पेंटीस पन्ने पूरे कर लिये थे। रात को मैं भी भाई के साथ पूरा कराने वाली थी, मगर मनु को फिर बुलार आ गया। उसे दवा-पानी देना था और बा की मालिश करनी थी, इसलिए बापू ने मुझे छुट्टी दी। गुसलखाने से आकर वे खुद भाई के साथ बैठ गए। बस बजे के बाद अपने दूसरे काम पूरे करके मैंने उनकी जगह ली और उन्हें सोने को भेजा। मैंने और भाई ने ग्यारह बजे के बाद सब पूरा किया। सोने को बारह बजे।

आज भी वर्षा थी। वर्षा में नीचे खेलना बन्द हो जाता है। ऊपर खेलने में पूरी कसरत नहीं होती।

मनु को बुलार था।...से रोटी बनाने को कहा। उसने नहीं बनाई और कंवी रसोइये को भी बनाने से मना कर दिया। पूछा तो बोला, "मैं खुद भी बनाना नहीं जानता हूँ और कंवी भी नहीं जानता।" पहले दोनों कह चुके थे कि रोटी बनाना जानते हैं। मैंने उसे ऐसे झूठ बोलने से डांटा।... इस पर उसके सामने मुझसे नाराज होने लगीं। मैंने बापू से कहा, "ऐसे कैसे काम चलाया जा सकता है। मुझे आप रसोई-घर से मुक्ति दिलवाइये।" उन्होंने कहा, "...को समझावेंगे।" मैंने कटेली साहब को सिपाही की बात बताई। उन्होंने उसे बदल दिया।

७ जुलाई '४३

आज खूब वर्षा हुई। मुझे रसोई का काम ज्यादा करना पड़ा, इसलिए दोपहर में रामायण नहीं पढ़ पाई। दूसरे काम में समय चला गया। मनु को थोड़ा-सा बुलार आज भी था, सो बा का काम मुझे ही करना है।

शाम को बाइबिल पढ़ने के समय बीस मिनट तक बापू बातें सुनाते रहे।

८ जुलाई '४३

कल शाम को मीराबहन कह रही थीं कि उनके हाथ को आराम पहुंचा है, मगर आज सुबह उन्होंने बताया कि कुछ भी फायदा नहीं, अस्पताल जाना चाहिए। जेल वालों को उन्हें अस्पताल भेजना ही चाहिए। मुझ से पूछने लगीं, "अस्पताल में क्या-क्या करेंगे?" मैंने बताने का प्रयत्न किया। कहने लगीं, "सुई तो मैं



कभी नहीं लगवाऊंगी।” मैंने कहा, “तब तो आपको अस्पताल जाना ही नहीं चाहिए।” बोली, “अभी यह बात क्यों कहती हो? मैं एक बार जाऊँ तो सही। पोछे देखेंगे, क्या होता है। डाक्टर मेरा अस्पताल जाना आवश्यक न मानें तो भी मैं जो आवश्यक समझती हूँ, वह कह तो सकती हूँ न!” बाद में उन्होंने भंडारी को पत्र लिखा। उसे बापू को सुनाने लगीं कि इतन में कलेक्टर आ गया और मोराबहन के हाथ के विषय में पूछने लगा। उन्होंने बताया कि तकलीफ कम नहीं होती। अस्पताल जाने की इच्छा प्रकट की। वह कहने लगा, “हां, वह हो सकेगा।” इसलिए मोराबहन ने अपने पत्र में कलेक्टर के मत का भी जिक्र कर दिया।

आज भी वर्षा हुई। शाम को ऊपर ‘रिंग’ खेले। मनु को बुलार नहीं है, मगर अभी उसे आराम करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे काम नहीं करने दिया।

बापू प्रार्थना के बाद भाई से बातें करते रहे।

६ जुलाई '४३

रात भर वर्षा हुई। आज दिन में भी होती रही। सुबह सासी वर्षा में बापू और मैं महादेवभाई की समाधि पर फूल चढ़ाने गए। वर्ष पूरा होने को आया है। किसको कल्पना थी कि समय इस तरह से जावेगा। पिछले साल इन दिनों में भाई की बीमारी के कारण सेवाग्राम गई थी। महादेवभाई आखिरी रोज मुझे तांगे में बैठने के समय कहने आए, “तुम जल्दी आ जाना। मुझे बापू की खिता रहती है। आनंदमयीदेवी ने कहा है कि इस वर्ष बापू के जीवन को खतरा है।” उनका प्रेम और भक्ति अद्भुत थे। खतरा किसके जीवन को था, वह हम आज जानते हैं। कौन कह सकता है कि बाबर की तरह उन्होंने बापू का खतरा अपने ऊपर नहीं ले लिया? महादेवभाई तो गए, लेकिन उनके बिना अब बापू के आसपास के जीवन में बसंत ऋतु देखने में नहीं आती। सबके मन मुरझा गए हैं। महादेवभाई का मुटुल हास्य कठिन-से-कठिन समय के बोझ को भी हल्का कर देता था। अब हम यह कहाँ से ला सकते हैं?

मनु को बुलार नहीं, मगर आज भी उसे आराम करने दिया है। भाई की तबीयत अच्छी नहीं। मन अस्वस्थ है। उनका स्वभाव इतना कोमल है कि जरा-सी बात का उन पर गहरा असर हो जाता है।

फजलुल हक का निवेदन और गवर्नर को गया हुआ उसका पत्र अखबार में पढ़ा। पत्र बहुत अच्छा था।

काफी सर्दी हो गई है। वर्षा बन्द ही नहीं होती। मोराबहन ने भंडारी से उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा था। उन्होंने आज सिविल सर्जन को भेजा। उन्होंने मालिश करके रोग को गांठ को तोड़ने की सलाह दी और कहा कि अस्पताल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

१० जुलाई '४३

कल शाम को मोराबहन बापू से पूछ रही थीं कि आजाद हो जाने के पश्चात्

हिन्दुस्तान की जमीन का बटवारा कैसे किया जायगा ? बापू ने उन्हें स्काबमन का किस्ता मुनाया —“वह जहाज के कप्तान से मिलने गया। जवाब मिला कि कप्तान नहीं है। वह उठा और यह कहकर चल दिया—“कप्तान से कह देना कि मालिकों में से एक मिलने आया था।” जहाज बनाने का उद्यम राष्ट्र का है, इसलिए राष्ट्र का हर एक स्त्री-पुरुष मालिकों में से एक है। यह उसको दलील थी। यहाँ जमीन लोगों की है और हर एक उसका मालिक है। सम्पत्ति राज्य की होगी। वरअसल जो हल चलावेगा, उसकी जमीन होगी। शासनतंत्र हर तरह उसकी मदद करेगा। अच्छा बीज देगा और जरूरी तालीम वगैरा देगा। दक्षिण अफ्रीका में आज यह सब हो रहा है। वहाँ राज्य तुम्हारे खेत में बाढ़ लगा देता है, कुआँ खोव देता है और हर तरह की मदद बिना नफा लिये पहुंचाता है। मुनाफाखोरी नहीं होती, इसलिए दाम बहुत कम पड़ते हैं। शर्त एक ही होगी कि जो जमीन लेता है, वह मेहनत करके उपज बढ़ावे, निकम्मा या आलसी बनकर न बंठा रहे।”

मीराबहन ने पूछा, “क्या आप ऐसी कोई परिस्थिति सोच सकते हैं जबकि किसान को निकाला जा सकता है ?” बापू ने कहा, “नहीं, अगर वह जमीन को फिजूल न पड़ा रहने दे तो।” फिर उन्होंने बताया कि कैसे हेनरी जार्ज ने यह सिद्धान्त चलाया था कि जमीन के सिवा दूसरी किसी चीज पर कर न लगाओ। जमीन को ठीक तरह काम में लाया जाय तो वह इतनी उपज दे सकती है कि सबके लिए काफी हो।

बापू बाद में संरक्षण (ट्रस्टीशिप) के सिद्धान्त पर आ गए। बोले, “आजाद हिन्द में जमीन नए सिरे से तकसिम होगी। जमींदारों से हम ट्रस्टी बनने को कहेंगे और मुझाएंगे कि वे मन से मालिकपन की भावना निकाल दें। तब उन्हें खासा कमीशन मिलेगा।

“मगर उनको अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग जनता के लिए करना होगा। मेरे सामने जमनालालजी की मिसाल है। उनका दान लाखों का था। अगर मैं उन्हें प्रोत्साहन देता तो वे सब कुछ दे डालते। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वे अपनी सामर्थ्य से बढ़कर कुछ करे। घनश्यामदास बिड़ला भी उस आदर्श पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लोग भले उसके विरुद्ध कुछ भी कहें। आजाद हिंद में कानून बनेंगे और अगर कोई ट्रस्टी न बनना चाहे तो उसकी जमीन ले ली जायगी और उसे योग्य हरजाना भर ही दिया जायगा। जो वह मांगेगा सो नहीं मिल सकेगा।

“गोलमेज परिषद् में सर तेजबहादुर सप्रू ने मुझसे पूछा, “तो क्या लोगों की जागीरों की जांच-पड़ताल करेंगे ?” मैंने कहा, “हां।” इतने से ही मैंने अनेक दुश्मन खड़े कर लिये। मगर हमें यह सब करना ही पड़ेगा। हमें देखना होगा कि कोई व्यक्ति जमींदार बना कैसे ? अगर उसका पिछला चलन अच्छा होगा तो उसे हरजाना देंगे।”

मीराबहन ने पूछा, “क्या इसी तरह निजी (प्राइवेट) व्यापार और निजी पूंजी भी उड़ा देंगे ?” बापू ने कहा, “नहीं, निजी पूंजी का उपयोग होना ही चाहिए, नहीं तो

हम प्रगति नहीं कर सकते, मगर व्यापारियों को अपने कर्मचारियों को मुनासिब तनखाह देनी होगी, बुढ़ाये और बीमारी में उनको सम्भाल का प्रबन्ध करना होगा और उनको रहने योग्य मकान भी देना होगा ।”

आज डाक्टर शाह आए । मोराबहन की मालिश की, पर उसके बाद भी बर्ब कुछ ही कम हुआ ।

बापू ने बिन में दो बार कातना शुरु किया है । एक समय मैंने उन्हें ‘लाइट आव एशिया’ पढ़कर सुनाई और एक वफा बाइबिल की साहित्यिक भूमिका वाला भाग भी सुनाया ।

मनु ठीक है । आज शाम को घूमने भी निकली । शाम को बड़ी वर्षा हो रही थी । महादेवभाई की समाधि पर फूल चढाने अकेली में ही गई ।

११ जुलाई '४३

बापू द्वारा दिये गए टॉटेनहम वाले पेंसप्लेट के उत्तर की आखिरी नकल को पहले प्रूफ के साथ मिलाने में मैंने काफी समय दिया । यह काम कल रात से चल रहा था । पांच-छः पन्ने करते ही बसियां बुझ गईं । कागज सम्भालकर सोने को गई तो बसियां फिर जल उठीं, मगर फिर तो सो ही गई ।

आज सुबह कटेली को पकड़ । दोपहर को भी उनसे सहायता ली और जितने टाइप किये पन्ने तैयार थे, उतने मिला डाले ।

रात को अलबार पढ़े । दो दिन के इकट्ठे हो गए थे । भाई के साथ कुछ समय बातें करती रही ।

आज मनु को नहीं सिखा सकी । दोपहर को ‘लाइट आव एशिया’ भी नहीं पढ़ सकी । शाम को बापू के साथ मैंने बाइबिल पढ़ी । बापू राजाजी व मणिलालभाई की बातें करते रहे । बा को मणिलालभाई की बड़ी बिता हो रही है ।

१२ जुलाई '४३

आज आकाश कुछ खुला है । ‘सरकारी बाइबिल’ का उत्तर टाइप करना डा० गिल्डर कल पूरा करेंगे । परसों या नरसों वह चला जायगा । बहुत बड़ा बोझ सिर से उतरगा । मजाक चल रहा है कि उस बिन को किस तरह मनाना चाहिए ।

१३ जुलाई '४३

आज टाइप करने का काम पूरा हुआ । डा० गिल्डर, मैं और भाई—तीनों ने बैठकर प्रूफ सुधार और दूसरी नकलों में बहो संशोधन किये । तीन पन्ने फिर से टाइप करने को निकाले । डा० साहब ने एक तो रात में टाइप कर डाला और दो सुबह करेंगे । थोड़ा-सा परिशिष्ट का काम भी है । पहले यह निश्चय हुआ था कि यह सब टाइप का काम भाई करें, मगर बाद में तय हुआ कि डा० गिल्डर भी कुछ भाग टाइप करें; क्योंकि दो जगह आधा-आधा पन्ना उनका टाइप किया हुआ था । उसीके नीचे दूसरा टाइप

करना था। दोनों टाइपराइटरों में थोड़ा-थोड़ा फरक है, इसलिए ऐसा लगा कि डा० साहब करें तो अच्छा होगा। बापू ने कल दो-डार्ई बजे उन सबको भेजने का काम मुझे सौंपा।

शाम को भाई की तबीयत अच्छी न थी।

१४ जुलाई '४३

सुबह बापू ने सब परिशिष्टों का एक सूचीपत्र तैयार करने को डा० गिल्डर से कहा। वे बोले, "इस सूचीपत्र के सिवा बाकी सब दो-डार्ई बजे तक आपको मिल सकेगा। सूचीपत्र भी शाम को मिलेगा।" दोपहर को बापू ने सूचीपत्र टाइप करने का काम भाई को सौंपा। डा० गिल्डर ने कहा, "मेरी मशीन पर ही कर लो। मैं थोड़ा आराम कर लूँ।" भाई उनकी मशीन पर टाइप करने बैठे। एक बजे से लेकर चार बजे तक आधा काम कर पाए। खयाल था कि आधे घंटे का काम है, मगर इस मशीन से वे बाकिफ नहीं थे। मशीन पुरानी है और कई जगह धोखा दे जाती है। उधर डा० गिल्डर का काम भी रुका पड़ा था। आखिर उन्होंने भाई को सलाह दी कि वे अपनी ही मशीन पर सब काम करे; क्योंकि इस नकल में कुछ दोष भी आ गया था। भाई ने अपनी मशीन पर एक घंटे से भी कम असें में सब कर लिया। डा० गिल्डर ने भी अपना काम पूरा दिया। मुझे कुछ आखिरी जरूरी देखभाल करनी थी। पत्रों को नम्बर देने आदि का काम मैंने किया। करीब साढ़े सात बजे शाम को बापू को सब कुछ दिया। सचमुच सिर से भारी बोझ उतरा। डा० गिल्डर तो एक हफ्ते से दिन भर टाइप में ही लगे रहते थे, यहाँ तक कि दोपहर का सोना और कंरम खेलना भी छोड़ रखा था।

डा० गिल्डर ने टाइप करना कैसे सीखा, उसका इतिहास बड़ा रोचक है। वेना में पढाई पूरी करके वे एम. डी. करने विलायत गए और वहाँ पांच साल पढ़े। वहीं पर उन्हें बार-बार आने वाला ज्वर (रिलेंप्सिंग फीवर) हुआ। उसके बाद एक आंख में मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद का कारण किसोकी समझ में नहीं आया। डर था कि कहीं दूसरी आंख में भी न उतर आवे, इसलिए उन्होंने टाइप करना सीखा, ताकि आंख न रहे तो मरौज को नुसखा टाइप कर दिया करेंगे। ईस्वर-रूपा से दूसरी आंख बची रही। बाद में पता चला कि कभी-कभी 'रिलेंप्सिंग फीवर' के परिणाम-स्वरूप मोतियाबिंद हो जाता है।

बापू को टाइप-नकल सौंपकर हम खेलने गए। आज सुखा दिन था। नीचे खेल सकते थे। बापू ने हमारी खातिर प्रार्थना पन्द्रह मिनट बेरी से की। घंटी इसलिए नहीं बजाई कि हम खेल पूरा करके आवें।

कल कटेली साहब अपने घर जा रहे हैं। बापू ने उनके बच्चों के लिए कुछ मिठाई भेजने को कहा था। शाम को मैंने बेसन की मिठाई और खिचड़ा बनाया। एक-एक डिब्बा भरकर उनको दे दिया। एक-एक यहाँ के लिए रखा।

बापू ने रात को टाइप-नकल देखी और दस्तखत कर दिये। एकाध सुधार करना था,

वह मुझसे कराया। सवा दस बजे सोने को गए। मुझे भी आज करम खलने का शौक हुआ। बा खेलकर आ गई थीं। टाइप-मकल को पंच करके बांधना, बादामी कागज का बड़ा लिफाफा बनाकर उसमें उते डालना, यह काम मोराबहन ने लिया था। सब सामान उन्हें देने गई तो डा० गिल्डर, कटेली और मोराबहन खल रहे थे। मैं भी उनके साथ बैठ गई। दस मिनट खेली। पीछे आकर सोने की तयारी की। ग्यारह बजे आई। मोराबहन ने पौन ग्यारह के बाद अपना काम शुरू किया। कौन जाने कब सोई होंगी। भाई रात को साढ़े बारह बजे सोए। पढ़ते रहे थे।

१५ जुलाई '४३

सुबह मोराबहन बापू के उत्तर का लिफाफा ठोक करके ले आईं। बापू ने भाई को लिफाफे पर पता लिखकर कटेली साहब को दे देने के लिए कहा। करीब नौ बजे वह लिफाफा कटेली साहब के हाथों में गया। जाने के बाद पता चला कि सूचीपत्र को नम्बर देने में दो छोटी-सी भूलें रह गई थीं, पर अब वे सुधारी नहीं जा सकतीं। वे इतनी महत्त्व की भी नहीं थीं कि अलग पत्र लिखकर सुधारी जावें। 'वर्धा की इंटरव्यू' की तारीख और 'अमेरिकन ओपिनियन' में एक छोटा उप शीर्षक देना भूल गये थे। ऐसा लगता था कि ये दोनों भूलें एक ही जगह हैं, मगर वे थीं अलग-अलग।

कटेली दोपहर को पांच बिन की छुट्टी पर गए। उन्हें एक मुकदमे में गवाही देने जाना था और उनकी मां भी बीमार थीं। उनसे मिलना था। दोनों काम हो जावेंगे। करीब एक साल के बाद वे जेल से बाहर निकले।

सुबह आकाश खुला था। बडमिन्टन खेल सके। दोपहर पानो आया। शाम को नीचे का कोर्ट गोला था। ऊपर खेलना पड़ा।

डा० गिल्डर आज दोपहर में खूब सोए। पांच बजे जब चाय पीने आए तब हम लोग हंसने लगे कि परीक्षा पूरी करने के बाद जैसे दिमाग हल्का महसूस होता है, और विद्यार्थी खूब सोते हैं, वैसे ही डा० गिल्डर भी सोए हैं।

१६ जुलाई '४३

रात को मेरे सिर में सहत दर्द रहा। बापू 'एना किंगफोर्ड' की बात सुनाने लगे। उसने खुराक पर एक किताब लिखी है। कहने लगे, "बह बीमार रहा करती थी। उसे लगा कि दवा से वह अच्छी नहीं होगी, इसलिए नई शोध की। तुझे भी ऐसा करना चाहिए।"

रात को बापू ने बिचार किया कि 'बापू ने आठ अगस्त वाला प्रस्ताव वापस ले लिया है', इस अफवाह के बारे में उन्हें सरकार को लिखना चाहिए। सुबह ही लिखा कि सरकार को प्रकट कर देना चाहिए कि यह अफवाह गलत है। आगे लिखा, "मेरे पास वह प्रस्ताव वापस लेने की सलाह ही नहीं और ऐसा करने की मेरी इच्छा भी नहीं।" डा० गिल्डर ने इसे टाइप कर दिया। डा० साहब आए थे। उनके हाथ यह पत्र भेजा। वे रोज आते हैं, लेकिन इन पांच दिनों से हमारा सरदार रघुनाथ जमादार हैं।

माली का आना बन्द कर दिया, इसलिए बगीचा सूना पड़ा है। रघुनाथ माली से सब पूछ आया है। उसने कल से कंदियों (कन्विक्टस) की मदद से फूल इत्यादि लगाना शुरू किया है। कहता था कि पांच दिन में सब पूरा हो जायगा। शंकर वाडेंर बगीचे का काम जानता है, लेकिन वह दो-चार दिन में छूटने वाला है। उसके जाने से पहले यह काम पूरा करने का रघुनाथ का प्रयत्न है।

मैंने आज फिर थोड़ी डाइंग शुरू की है।

: ५२ :

## जेलखाना नहीं, सुधार-गृह

१७ जुलाई '४३

आधी रात से मेरे सिर का दर्द शुरू हो गया था, इसलिए सुबह उठते ही जुलाब लिया। डा० गिल्डर की सलाह से फुनीन भी ली। शाम तक तो ठीक नहीं हुआ, मगर सोने पर ठोक हो गया।

श्री कटेली की गैरहाजिरी में कंरम की चौथी जगह पूरी करने के लिए मुझे बापू न हुक्म दिया है। रात को पौन घंटा उसमें जाता है। रात का पढ़ना बन्द है।

बापू ने फिर से रामायण के चुने-चुने हिस्सों पर निशान लगाने शुरू किये। एक संक्षिप्त रामायण निकालने का उनका विचार है। भाई उसका गुजराती अनुवाद कर लेगे तो वह एक अच्छी चीज बन जावेगी। प्रायंता के बाद रात का समय बापू इस काम में लगते हैं। दिन में दो बार करीब पौन-पौन घंटा कातते हैं, अखबार पढ़ते हैं और खाली समय में भूगोल की किताब पढ़ते हैं। मनु के साथ गीताजी, व्याकरण और ज्यामिति करते हैं, मेरे साथ बाइबिल, रामायण (वाल्मीकिकृत) और संस्कृत व्याकरण। मैंने उन्हें 'लाइट आव एशिया' सुनाना आरम्भ किया है। आजकल कोई-न-कोई किताब मुझसे सुना करते हैं।

१८ जुलाई '४३

सुबह भंडारी और शाह आए। हमारा बिजली का चूल्हा भी वे ठीक करवा रहे हैं।

आज बापू को स्वास्थ्य वाली किताब के अंग्रेजी अनुवाद का बाकी हिस्सा पूरा करना आरंभ किया। भाई ने रामायण का अनुवाद शुरू किया।

शाम को खेलने के बाद भाई की छाती में दर्द हो गया। तीन-चार बार ऐसे ही हो चुका है। अब उनका खेलना बन्द करने का हमारा विचार है।

१९ जुलाई '४३

बापू का मौन है। मैंने छट्टी मनाई। दो बार पिंगपोंग खेला। मीराबहन ने भी

खेलना शुरू किया है। भाई और मीराबहन शाम को फिर खेले। मनें शाम को थोड़ी ड्राइंग की। रात को कंरम से छुट्टी मिली। बा की तबीयत अच्छी नहीं थी। मीराबहन और डा० साहब अकेले खेले।

२० जुलाई '४३

शाम को मीराबहन के हाथ में दर्द रहा। दर्द की दवा ('एस्पिरिन') खाकर सो गई। खाना नहीं खाया और रात को कंरम भी नहीं खेलीं। वस बजे बापू के पास आकर थोड़ी देर बंठीं।

डा० गिल्डर ने फ्रेंच भाषा की एक डाक्टरी की किताब मुझे पढ़कर सुनाना शुरू किया है। आज बीस मिनट तक सुनाई। भाषा कठिन लगती है। धीरे-धीरे पढ़ें तो समझना आसान है, खासकर डाक्टरी की किताब।

२१ जुलाई '४३

सुबह हम लोग प्रार्थना पूरी करके सोने गए तो बरामदे में से सिपाहियों को जाते देखा। मनें कहा, "श्री कटेली आज आने वाले हैं, इसलिए ये लोग डर के मारे जल्दी उठ रहे हैं, नहीं तो कटेली साहब की गंरहाजिरी में सात बजे उठते थे। चाय के समय पता चला कि प्रार्थना चल रही थी तब कटेली साहब आ गए थे। उनका सामान बाद में रघुनाथ लाया। मिठाई बगैरा काफी लाए हैं, वस पौण्ड बिस्कुट भी।

शाम को हम खूब खेले। कोर्ट सूखा था। बाहर खेल सके। डा० साहब को खाने के समय आज श्री कटेली का साथ मिला। कटेली और डाक्टर साहब दोनों मांसाहारी हैं, साथ खाना खाते हैं।

२२ जुलाई '४३

सुबह ब्रेडमिन्टन खेलने लगे तो वर्षा आ गई। वापस आकर पिगपॉग खेले। कल तो मीराबहन भी खूब खेली थीं, मगर बाद में हाथ बुखा सो उन्होंने खेलना बन्द कर दिया है।

दिन में आकाश साफ हो गया है।

बापू की पुस्तक का अनुवाद चल रहा है। इस महीने के अंत तक पूरा नहीं हो सकेगा।

बापू अब रात को भाई का रामायण वाला गुजराती अनुवाद सुधारते हैं, इसलिए उन्हें वस बज जाते हैं।

२३ जुलाई '४३

डा० साह आए तो हिरण के बारे में हमने फिर पूछा। मुझे अफसोस है कि बेचारे को यहां से निकलवाकर हमने उसे और भी खराब हालत में डाल दिया।

मालिश में आज डा० गिल्डर नहीं आए। उनकी उंगली में सूजन है।

मीराबहन की एक टांग में भी दर्द शुरू हुआ है। बा को कल रात खूब खांसी आई और छाती बगैरा बुखी। उनके साथ में कुछ समय तक जागी। परिणाम-स्वरूप सुबह

प्रार्थना में न उठ पाई। बुरा लगा। बिजली का चूल्हा फिर बिगड़ गया है, जिससे मीरा-बहन को बड़ी कठिनाई होती है।

२४ जुलाई '४३

डा० गिल्डर को जाड़ा लगकर बुखार आ गया। उनके शरीर का बर्द भी उंगली पकने के कारण नहीं, बल्कि मलेरिया के कारण ही होगा।

श्री कटेली पिंपोंग की मेज को खाने के कमरे में ले आए है; क्योंकि वहा रोगनी अच्छी है।

२५ जुलाई '४३

बापू की मांशिश करने आज में गई, इसलिए अनुवाद का समय उसमें गया। आज डा० साहब के पास फ्रेंच सीखने भी नहीं गई; क्योंकि उन्हें कल बुखार था। आज वे आराम कर रहे थे।

आज भंडारी नहीं आए। कर्नल शाह के हाथ बिजली का चूल्हा भेजा है। इसकी मरम्मत न हो सके तो नया लाने को बापू ने उनसे कहला दिया है।

बापू और भाई अखबारों की कतरनों निकालने का काम करते रहे। कल रात ग्यारह बजे सोने गए, इससे खून का दबाव बढ़ रहा है।

२६ जुलाई '४३

बापू का आज मौन था। कल रात को बापू जल्दी बिस्तरे पर चले गए थे, इसलिए आज सुबह खून का दबाव कुछ कम रहा— १७६।१०४ के लगभग।

डा० साहब का बुखार उतर गया है। मनु को आज फिर बुखार आ गया है। मीराबहन के पास ड्राइंग सीखने गई।

२७ जुलाई '४३

बापू का खून का दबाव आज बहुत ज्यादा है— २०६।११६। एक कारण यह है कि सुबह प्रार्थना के बाद वे सोए नहीं।

उन्होंने 'थियोलोजी इन इंग्लिश पोएट्स' पढ़ ली है। इसे पढ़कर उनके मनमें विचार उठा है— "जिन लोगों में इस प्रकार के साधु पंदा हुए हैं, उन्हीं में से आज के सरकारी राजनीतिको जैसे लोग कैसे निकल सके हैं? इन लोगों के मन में भी कहीं-न-कहीं भलाई का अंश होगा ही।" इसलिए बापू को लगा कि लिनलिययो को एक छोटा-सा पत्र अपना हार्दिक दुःख बताने के लिए लिखना ही चाहिए। कहते थे कि न सो सकने का कारण ये विचार न थे। उन्हें बूसरा काम करना था। कतरनों निकालने में भाई की मदद करना स्वीकार करने के बाद उन्हें वही काम करना चाहिए था। इसलिए वे विचार करते रहे कि कतरनों की अनुक्रमणिका (फॉस-इन्डेक्स) कैसे बनानी चाहिए। आश्चर्य है कि बापू छोटी-से-छोटी चीज भी उठाते हैं तो उसमें अपने प्राण उडेल देते हैं।

श्री कटेली जब से वापस आए हैं, बहुत उदास रहते हैं। अब वे इस जेल से उकता गए हैं।



दिन में थोड़ी-थोड़ी वर्षा होती रही। बापू ने कतरनों की अनुक्रमणिका बनाई। खून का दबाव दिन भर बढ़ा ही रहा।

मनु को आज फिर बुखार आया है।

माताजी आदि के पत्र मिले।

२८ जुलाई '४३

रसोईघर के सिपाहियों और कँदियों को बुखार आ गया, इसलिए मुझे रसोई में काफी समय देना पड़ा।

मनु को बुखार नहीं है। डा० साहब के पास थोड़ी-सी फ्रेंच पढ़ी, थोड़ा समय डाक्टरी पत्र-पत्रिकाओं के पढ़ने में लगाया। मालूम नहीं क्यों, यहां पढ़ने के लिए इतना कम समय मिलता है।

मीराबहन को तबीयत अच्छी नहीं।

२९ जुलाई '४३

सुबह आकाश खुला। दिन में थोड़ी वर्षा हुई।

मनु, मीराबहन और मैं—तीनों सलवार और कुर्ता पहनने लगे हैं। यह पंजाबी पोशाक यहां खूब चली है। बापू को भी पसंद है। मैंने एक दिन सलवार और कुर्ता पहना तो कहने लगे, "बस यही पोशाक पहनो।" फिर मनु को भी वही पोशाक पहनने को उन्होंने कहा। मेरे कपड़े उसके ठोक आ गए। यहां रोज घर में घो लेते हैं। थोड़े कपड़ों से काम चल जाता है।

श्री कटेली रात को उपवास करते हैं। उनके घुटने में और हाथ में दर्द है, इसीलिए उन्हें ऐसा करना ठोक लगता है।

३० जुलाई '४३

बापू खूब काम करते हैं। कतरने निकालना, कातना, मनु को सिखाना, मेरे साथ रामायण और बाइबिल पढ़ना आदि। अब उन्होंने लॅन्सबरी का जीवन-चरित पढ़ना शुरू किया है और सम्भवतः जल्दी पूरा कर डालेंगे।

रात को बापू जल्दी सो जाते हैं, इसलिए खून का दबाव कम हो रहा है। बाहर होते तो रक्त-जाप या थकान कितनी भी होती, काम किये बिना न चलता।

३१ जुलाई '४३

बापू ने ४८ दिन तक सरकारी आरोग्यों का जवाब तैयार करने में लगे रहने के कारण काता नहीं था। ८ जुलाई से कातना शुरू किया तो रोज दो बार कातने लगे। कातने में खूब समय देते थे। सब दिनों का कातना, ७५ तार रोज के हिसाब से पूरा करना और ३१ जुलाई तक रोज दो बार कातना चाहते थे। आज वह सब हिसाब पूरा हुआ ६-तार हिसाब से अधिक निकले।

शंकरन् का पत्र आया। दवाखाने की रिपोर्ट भेजी थी।

१ अगस्त '४३

आज से बापू की मालिश करना मेरा काम और स्नान में उनकी मदद करना भाई का काम तय हुआ है, सो साढ़े आठ से बस बजे तक भाई और साढ़े नौ से सवा ग्यारह बजे तक मैं काम कर सकूंगी।

सुबह घूमते समय जेल की बातें होने लगीं। हमारे यहां एक पंद्रह-सोलह वर्ष का कैदी लड़का है। उसने थोड़ा-सा अनाज चुराया था। इस भुखमरी में कौन नहीं चुरा सकता? उसके लिए उसे साल या दो साल की सजा मिली है। सबके साथ वह भी शायद पक्का चोर होकर निकलेगा। भाई कह रहे थे, "यह कम बचलना चाहिए। कैदियों को काम का वेतन भी मिलना चाहिए। अमेरिका में तो न जाने कितना रुपया अपनी ही कमाई का लेकर कैदी जेल से निकलते हैं।"

बापू कहने लगे, "मेरा मत तो यह है कि जेलखाना होना ही नहीं चाहिए। सब सुधार-गृह होने चाहिए। इसी तरह सजा की मुद्दत भी नहीं होनी चाहिए। जब कैदी सुधर जावे और प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले तभी छूट जावे। आज जो चलता है, सब कहणाजनक है।"

अमेरिका की जेलों में विल बहलाने के कैसे-कैसे साधन हैं, भाई इस बारे में बताते रहे। कोई जेल में बहुत तूफान मचाए तो उसे जेल के सामाजिक कार्यक्रम में से तथा विल-बहलाव की चीजों में से निकाल देते हैं। यह बहुत बड़ी सजा हो जाती है, लेकिन इसकी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है।

आज बापू का रक्त-चाप आदर्श निकला—१६६। ६८। उन्होंने चार रात और पांच रोज से जल्दी सोना शुरू किया है। इससे अब सब ठीक हो गया है। कह रहे थे, "रात को काम न कर सकना मुझे चुभता है, मगर कोई चारा नहीं है।"

रात को भाई कहने लगे, "८ अगस्त को कुछ करना चाहिए।" मैंने कहा, "१५ अगस्त का दिन मनाना चाहिए, जिसमें कैदियों को खिलाना, उपवास और गीता-पारायण-का क्रम हो।"

भाई ने कहा, "तबतक गीता कण्ठ कर लो।"

२ अगस्त '४३

बापू का मौन है। सरकार का पत्र आया है कि वह ८ अगस्त के प्रस्ताव को वापस लेने संबंधी अफवाह को रद्द करने की आवश्यकता नहीं समझती।

३ अगस्त '४३

इन दिनों कुछ खास घटना नहीं हुई। आठ तारीख की शाम को अण्डा-बन्दन और स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने का कार्यक्रम तय हुआ है। बापू शायद प्रतिज्ञा में कुछ परिवर्तन करेंगे। उपवास करने का विचार था, मगर डा० गिल्डर से बापू उपवास नहीं कराना चाहते थे। अगर सब करेंगे तो वे भी करेंगे, इसलिए उपवास का विचार हमने छोड़ दिया है। पंद्रह तारीख को हम उपवास करेंगे। डा० साहब न करें, ऐसी सलाह

‘उन्हें बी तो है, पर डर है कि वे मानेंगे नहीं।

बापू और भाई कतरनें निकालने के काम में जुटे हैं। बापू ने सैन्सबरी का जीवन-चरित पढ़ डाला और अब ‘रेड वर्क’ पढ़ रहे हैं।

रूस के प्रति बापू के मन में मान बढ़ा है। कहते थे, “अगर लड़ाई में कोई जीतने के लायक है तो रूस। रूस में सब कुछ लोगों का है, इसीलिए वे इतनी बहादुरी बिखा रहे हैं।”

७ अगस्त '४३

मीराबहन ने आज ऊपर जाने की सीढ़ी के नीचे की जगह पर अंगीठी रखकर खाना खाया। कहती थी, “इस वर्ष भर में पहली ही बार आराम से खा सकी हूँ।” उनका दर्द आज फिर ज्यादा है।

आज मैंने बाइबिल नहीं पढ़ी। रामायण भी थोड़ी ही पढ़ी।

भाई पंथवी का पत्र स्यालकोट जेल से आया है। वे वहाँ खूब बहादुरी से काम कर रहे हैं। अच्छा लगा। कनु का पत्र आया है। सरकार ने उसमें बड़ी काट-छांट की है।

: ५३ :

## ‘हकूमत जाओ’-दिन की संवत्सरी

८ अगस्त '४३

सुबह डा० शाह और कर्नल भण्डारी आए। मीराबहन की नाक के पानी की परीक्षा करवाने का विचार किया है। ‘हकूमत जाओ’ दिन की पहली संवत्सरी है। गत वर्ष आज के दिन शाम को मैं बंबई पहुंची थी। उस रोज किसीको खयाल भी न था कि क्या-क्या घटनाएं इतने समय में होने वाली हैं।

दोपहर को बापू, भाई, डा० गिल्डर, मनु और मैं— सबने डाई से साढ़े तीन बजे तक काता। मीराबहन और बा को बीमारी के कारण छुट्टी थी।

सुबह स्नान के बाद बापू ने स्वतन्त्रता-दिवस वाली प्रतिज्ञा को थोड़ा बदलकर ‘हकूमत जाओ’-दिवस की प्रतिज्ञा तैयार की। शाम को झण्डा-बन्दन था, इसलिए चाय के बाद हम लोग झण्डा-बन्दन के लिए भजन तैयार करने बैठे। पौने सात बजे झण्डा-बन्दन किया। झण्डे का गीत गाकर डा० साहब ने झण्डा फहराया और प्रतिज्ञा पढ़ी। प्रतिज्ञा यह थी—

“हिन्दुस्तान सत्य और अहिंसा के द्वारा हर मानी में पूरी आजादी हासिल करे— यह मेरा प्रत्यक्ष उद्देश्य है और वर्षों से रहा है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं आज ‘हकूमत जाओ’-दिवस की पहली संवत्सरी के रोज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जबतक

यह उद्देश्य पूरा न हो जाय, तबतक न मैं खुद चैन लूंगा, न जिन पर मेरा असर है, उन्हें चैन लेने दूंगा। मैं उस अबुष्ट देवी शक्ति से, जिसे हम गॉड, अल्लाह, परमात्मा आदि परिचित नामों से पहचानते हैं, इस प्रतिज्ञा के पूरा करने में इमवाद मांगता हूँ।”

पहले प्रतिज्ञा अंग्रेजी में और हिन्दुस्तानी में डा० गिल्डर पढ़ गए। फिर हिन्दुस्तानी में हम सबने उनके पीछे-पीछे उसे दोहराया।

प्रतिज्ञा के बाद ‘सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा’ गाया, फिर ‘बंदेमातरम्’ गाकर समारोह पूर्ण किया। झंडा गाढ़ने की जगह लिपाई की थी और गोल चक्कर के किनारे-किनारे गमले रखे थे। सुन्दर दृश्य था।

रात में बापू ने पीने ६ बजे मीन लिया।

६ अगस्त '४३

सुबह यरवदा जेल की तरफ से जयजयकार की आवाजे आने लगीं। हम याद कर रहे थे कि कैसे पिछले साल इस समय बापू को गिरफ्तार करके स्टेशन पर लाया गया था और कैसे वे यहाँ आए, आदि-आदि। स्वतंत्रता का प्रण लेकर हम सब निकले थे—महादेवभाई उसे पूरा कर गए। कोई ऐसा दिन नहीं जाता, जब महादेवभाई का स्मरण बार-बार न हो आता हो।

दोपहर को भाई का कमरा साफ किया। उनसे कुछ कागज लिये हैं, उन्हें अभी ठीक करना है।

१० अगस्त '४३

अखबारों में, देश ने नवीं अगस्त को मनाने का कैसे प्रयत्न किया, इसकी खबर थी। इतनी सख्तों और इतनी भुखमरी होते हुए भी लोग इतना कर सके, यह हिम्मत की बात है। लेकिन देश की शक्ति अगर इतनी ही रह गई है तो हमें सचमुच यहाँ सात वर्ष और बँठना होगा।

आज और कल मैंने अनुवाद नहीं किया। कल भाई की जगह बापू के काम मैंने किये। आज मुझे रसोईघर का भी काम करना पड़ा। रसोईघर में चोरी होने लगी है, इसलिए बहाँ ताला लगाने का विचार हो रहा है।

११ अगस्त '४३

सुबह श्रीकटेली ने खुद बँठकर अपने सामने खाने का सामान एक अल्मारी में रखवाकर ताला लगा दिया।

पन्द्रह तारीख को गीता-पारायण करने का विचार है। मैं, मनु और भाई आगे से बापू के पास शाम को चार बजे गीता-पाठ करेंगे। आज शाम को बेर से बँठे, इसलिए पाँच ही अध्याय हो सके। मनु तो पहले-दूसरे अध्याय के आगे नहीं चल सकी। भाई बँठे कातले रहे। पाठ में शामिल नहीं हुए।

१२ अगस्त '४३

मनु आज पाठ में नहीं आई। भाई के पास गीता का तीसरा अध्याय सीखती

रही। मैंने तीसरे से आठवें तक पाठ किया।

आज मुझे बुखार-सा लगता है। यहां मलेरिया बहुत सता रहा है।

१३ अगस्त '४३

रात में मुझे बुखार रहा। सुबह अण्डों के तेल का जुलाब लिया।

शाम को १ से १८ अध्याय तक गीताजी का पाठ बापू के सामने किया।

: ५४ :

### महादेवभाई की बरसी

१४ अगस्त '४३

आज महादेवभाई को गए ५२ हफ्ते पूरे हो गए।

कल कंदियों को खाना खिलाना है। दस बजे प्रार्थना में बैठेंगे। हम सब लोग उपवास करेंगे। मीराबहन को मैंने फूल सजाने में मदद देने को कहा है। 'व्हेन आई सर्वे दि बण्डरस फॉस' वे प्रार्थना में गाएंगी। दोपहर को एक घंटा सामूहिक कताई होगी।

बा की तबीयत अच्छी नहीं। दो-चार रोज से उनका शरीर दुखता है। मेरी तबीयत भी ढीली है। कल जब से जुलाब लिया है तब से उल्टी का-सा आभास होता है, इसलिए आज सिर्फ भोसम्बी खाई।

दोपहर दो बजे के करीब बा को दिल की धड़कन का दौरा हुआ। चार बजे के करीब कुछ कम हुआ, पर छः बजे देखा कि फिर चल रहा था। शाम को मैंने डा० शाह से दिल की धड़कन का चित्र लेने की मशीन लाने को कहा। वे कोयाजी के यहां गये। उनका सहायक शाम की छुट्टी पर गया हुआ था, वह मुश्किल से मिला। यहां बापू ने प्रार्थना जल्दी पूरी कराई। भजन और रामायण छोड़ दिये, ताकि डा० शाह वापस आते तबतक सब लोग तैयार हो जायें। राह बेस-बेसकर बापू गुलखाने गए। आकर सोये तब कहीं सवा नौ-साढ़े नौ बजे मशीन आई। दौरा अभी जारी था। चित्र लेकर वे लोग वापस गए। करीब ग्यारह बजे मैंने देखा कि दौरा बन्द हो गया था। रात को वह अण्ठी तरह सोई। मनु करीब बारह बजे तक बा के पास सोई, पीछे अपनी छात पर गई। मैं सुबह प्रार्थना में नहीं उठी; क्योंकि उस वक्त पत्नीना आकर बुखार उतर रहा था। कल शाम को चार बजे के लिए भजन का और ईशोपनिषद् का अभ्यास किया।

१५ अगस्त '४३

रात में पानी पड़ रहा था। डर था कि सबेरे भी ऐसे ही रहा तो समाधि की सजाबट करने और प्रार्थना करते समय अड़खन आवेगी, परन्तु तीन बजे बारिश थम गई।

भाई सुबह प्रार्थना के बाद नहीं सोए। मंने भी न सोने का इरादा किया था, मगर मतली आती थी और चलने-फिरने से बढ़ती थी, इसलिए सो गई। सात बजे उठी, तब तबीयत ठीक थी। आकाश में बादल घिरे थे। पिछले वर्ष भी महादेवभाई की मृत्यु के दिन ऐसा ही था। जल्दी से स्नानादि से छुट्टी पाई। बापू सवा सात बजे घूमने जाने वाले थे। मैं सात बजकर बीस मिनट पर पहुंच गई और फूल इकट्ठे किये। पौने आठ बजे हम लोग महादेवभाई की समाधि पर गए। मीराबहन, डा० साहब, कटेली साहब, सब आए थे। मनु कुछ देर से आई। बा के पास थी। मीराबहन ने फूल सजाने में मदद की। बहुत सुन्दर सजावट हो गई। कल शाम को गोबर से लिपाई कराई थी। सब सुन्दर लगता था। डेलिया का एक फूल भी लहलहा रहा था मानो महादेवभाई की खातिर ही आज खिला हो। उसे ॐ के बीच लगाया। गीताजी का पाठ रोज की तरह किया। आज वातावरण में गम्भीरता अधिक थी।

महादेवभाई की समाधि ( बा ने इसे 'महादेव का मंदिर' नाम दिया है) से लौट कर भाई बापू को मालिश करने गए। मंने कंदियों के लिए खिचड़ी, सब्जी और कढ़ी का सामान दिया। पीछे सफाई पर लगी। जिस कमरे में महादेवभाई के शव को पिछले साल रखा था, वहां का सामान निकलवाया। कमरा जैसा उस समय था, वैसा ही कर दिया। कमरे में उसी तरह बीच में जेल की चद्दर बिछाई। मीराबहन ने जिस तरह जेल की चादरों के बीच पड़े शव पर फूल सजाए थे, उसी तरह आज चद्दर पर सजाए। जहां महादेवभाई का सिर था—उनका मधुर मुख था, वहां फूलों का 'ॐ' बनाया, पांवों के पास सलीब। सिर के पास एक कटोरे में सुगंधि-सामग्री सुलगाकर रखी। शव के पास जहां बापू बंटे थे, वहीं उनकी गद्दी रखी, उनके पास ही बा की बैठक, सामने डा० साहब और कटेली साहब के लिए जगह। बीच में धूप इत्यादि के पास बापू के बाद में, फिर भाई, फिर मनु और उसके बाद मीराबहन अर्धचन्द्र-सा बनाकर बंटे। सामग्री में से लुब धुआं उठ रहा था। गले में जाता था, सो जरा पीछे हटाकर रखना पड़ा। जिधर शवके पांव थे, उधर मनु ने तुलसी की बत्ती जलाकर रखी। पौने दस बजे बापू स्नानघर से निकले। महादेवभाई के कमरे में आए। मंने कहा, "बापू, देखिए, सिर की जगह 'ॐ' है; क्योंकि महादेवभाई 'ॐ' में लीन हो गए न?" बापू कहने लगे, "हां, वह तो है ही।" दोबारा पर, जो फर्नीचर रह गया था, उस पर और अलमारियों आदि पर मीराबहन ने सुन्दर फूल सजाए। सुलगती हुई सुगंधि-सामग्री गत वर्ष शव के पास सुलगाई हुई सामग्री का शेष भाग थी।

डा० शाह आए और कहने लगे, "मुझे पता नहीं था कि आज महादेवभाई की संवत्सरी है।" बापू ने हंसकर जवाब दिया, "कोई हर्ज नहीं। आप भले आए। आपको हम बाहर नहीं निकालेंगे।" डा० शाह कहने लगे, "हां, खास करके महादेवभाई की संवत्सरी से आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं?"

दस बजने में पांच मिनट पर घंटी बजाने को बापू ने कहा। मंने जाकर बजाई।

ठीक दस बजे प्रार्थना शुरू हुई। ईषोपनिषद् का पहला और आखिरी श्लोक, फिर 'वैष्णव जन' गाया गया। पीछे मीराबहन ने 'नारायण-नारायण' की रामधुन चलाई। भाई ने 'ओजअबिल्ला' और डा० साहब ने 'भजवा अनुभोई' चलाया। मीराबहन ने 'ब्रहेन आई सर्व दि वण्डरस क्रॉस' गाया। इसके बाद मीराबहन, डा० साहब और कटेली साहब चले गए। हमने 'ॐ पार्थाय प्रतिबोधिताम्' से शुरू करके गीता-पारायण किया। साढ़े ग्यारह बजे सब समाप्त हुआ। बात-बात में बापू भाई को बताने लगे कि महादेव-भाई की मृत्यु के दिन कमरे की बिलकुल ऐसी ही सजावट थी। शव के स्थान पर आज फूलों की सेज बनाई थी। मूह की जगह 'ॐ' था, जो अब की तरह पीले कानेर के फूलों से घिरा हुआ था। पांशों की जगह पर '+' बनाया था। मैंने पूछा, "महादेवभाई की आत्मा क्या इस समय यहां होगी?" बापू बोले, "मुझे इसमें जरा भी शक नहीं।"

बापू को और बा की गरम पानी और शहब तथा मीराबहन को गरम दूध देकर मैं और मनु नीचे रसोई में कंदियों का खाना देखने गईं। कढ़ी बननी बाकी थी। महादेव-भाई की कढ़ी कितनी प्रिय थी! अपने हाथ से बनाकर उन चार दिनों में उन्होंने हमें खिलाई थी, इसलिए उनकी स्मृति में कंदियों के लिए कढ़ी बनाई गई थी।

बापू के कहने से मैंने सोडा की गोली खाई और पानी पिया। इतनी सख्त मतली होने लगी कि मुझे खाट पर पड़ना पड़ा। साढ़े बारह बजे कंदियों का खाना तैयार किया। बापू ने लिचडो, मीराबहन ने कढ़ी और डा० गिल्डर ने सब्जी बांटी। मुझे बहा से जाना पड़ा; क्योंकि बहुत मतली होती थी। बापू ने कंदियों को बताया कि आज उन्हें क्यो खिलाया जा रहा है। सब सामान सिपाहियों को भी भेजा गया। कटोरी में थोड़ा-सा मेरे चलने के लिए रखा।

बापू कंदियों को खिलाकर लौटे। मुझे लेटे देखा तो नाराज होने लगे और बोले कि मोसम्बो का थोड़ा रस लेना चाहिए था। पूरा उपवास नहीं करना चाहिए था। मैंने रस लिया। तो भी मतली बन्द नहीं हुई। साढ़े तीन बजे तक पड़ी रही, इसलिए कातने में शामिल नहीं हो सकी। मनु रात में कम सो सकी थी। वह भी साढ़े तीन बजे सोकर उठी। हम दोनों ने जाकर रसोईघर में काम करना शुरू किया। कंदियों के लिए हलुबा और चाय बनाई। जितना अच्छा हलुआ मैं बना सकती थी, बनाया। उसमें बादाम, इलायची, लौंग इत्यादि सब डाला। बापू के लिए सब्जी और दूसरों के लिए रोटी और सब्जी बनाई। साढ़े पांच बजे कंदियों को मीराबहन ने चाय बांटी और बापू ने हलुआ। पीने छः बजे बापू खाने बैठे और सब्जी छः पर दूसरे सब लोग। बापू ने हलुआ चखा। "मिठास कुछ ज्यादा थी, नहीं तो बहुत अच्छा बना था," ऐसा उन्होंने कहा। कंदियों को बहुत अच्छा लगा।

खाने के बाद पिंपपौंग खेले। प्रार्थना के बाद बापू ने मौन लिया। रात को मैं और भाई दस बजे सो गए।

१६ अगस्त '४३

रात में एक बजे बापू ने जगाया। चंद्रप्रहण पड़ रहा था। आधा चन्द्रमा ढका था। मनु को भी जगाकर बिलाया। डेढ़ बजे फिर देखा कि तीन-चौथाई चांद ढक गया है। पीछे सो गए। सुबह प्रार्थना के बाद में फिर सो गईं। थकान थी। साढ़े छः बजे उठी। तैयार होकर घूमने गईं। सवा आठ बज गए थे। आकर बा की मालिका आदि की। मनु का हाथ कट गया था, सो उसे छट्टी बी। खाने के बाद ३० साहब के पास थोड़ा पढ़ा। एक बजा। उन लोगों का खाना बाहर से आता है। डेढ़ बजे तक नहीं आया, इसलिए जो कुछ घर में था, वह मने उन्हें डेढ़ बजे खिलाया। दो बजे उनका खाना आया। वह शाम के लिए रखा।

कल एक सिपाही का हाथ गरम चाय पड़ने से जल गया था। सुबह उसके छाले को जरा काटकर पट्टी की थी। अभी उसे देखने जाती हूँ। मुना है, उसे बुखार आ गया। देखा तो उसे बुखार नहीं था, जहम भी साफ था। मुझे डर लग रहा था कि जरा ऐसी-वैसी स आई करके ही छाले काटे थे, वही जहरीला न हो गया हो।

बा को आज भी बहुत कमजोरी लगती है और शरीर दुखता है। मेरी तबीयत अभी अच्छी तरह सुपरी नहीं है। आज भाई की फाइलों का काम करना था, वह नहीं हो सका।

: ५५ :

## अहिंसा का बाह्य चिह्न—चर्खा

१७ अगस्त '४३

सुबह घमटे समय बापू बताने लगे—“पंद्रह तारीख को तुकात नहीं सकी, वह मुझे चुभा। तबीयत ठीक नहीं थी, मगर तबीयत को ठीक रखना तेरा काम था। बुद्ध संकल्प रहता कि तबीयत ठीक रखकर कातना है तो वह होता ही। मेरी दृष्टि में चर्खा गीता का अमल है। गीता सिद्धांत बतलती है। गीता-पाठ का महत्त्व है, पर यदि मुझसे कोई पूछे कि गीता-पाठ करूं या चर्खा कातूं तो मैं कहूंगा कि चर्खा कातो। जो समझपूर्वक कात सकता है, उसे गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं। चर्खा कार्यरूप में परिणत अनासक्ति है।” मने पूछा, “यह कैसे? क्या अब यह कहना चाहते हैं कि गीताजी में कर्मयोग का जो पाठ है—‘अनासक्त होकर, फल का विचार न करके, लोगों की हंसी की परवा न करके कातना’ यह उस पाठ पर अमल करना है?”

बापू कहने लगे, “ऐसा नहीं। कर्म का फल तो है ही, मगर जो फल प्रत्यक्ष नहीं है, उसके बारे में बुद्ध विश्वास रखना अनासक्ति है—जैसे कि कातने से हम स्वराज्य खाने वाले हैं, इस अर्थ में भी आसक्ति तो है, पर वह अनासक्ति है। राम-नाम में



आसक्ति आसक्ति नहीं कहलाती। राम-नाम में आसक्ति रखने वाला आबची दूसरी वस्तु के बारे में अनासक्त है। यही नियम मैं चर्खों को भी लागू करता हूँ। चर्खों के कारण मेरी बड़ी हंसी हुई है। अभी तक होती है, पर मुझे उससे क्या? मेरा विश्वास बूढ़ है, मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है।”

चर्चा पूरी नहीं हुई थी कि इतने में डा० साहब और कटेली साहब बेडमिन्टन खेलने आए। बापू ने मुझे खेलने को भेज दिया।

बा की मालिश के बाद मीराबहन को देखा। उनके स्नायु-संस्थान (Nervous System) की अच्छी तरह परीक्षा की।

जबसे रसोईघर की चीजों पर ताला पड़ा है तब से रसोईघर में अधिक समय लग जाता है।

शाम को काता। दो-तीन दिन के नागों के बाद आज काता था। रात को थोड़ा अलबारा वर्ग रह देखकर साढ़े दस बजे सो गई।

आज सुबह प्रार्थना के बाद मनु की खाट पर चूहा आ गया। उसे भगाया। वह चूहे से बहुत डरती है। उस खाट पर फिर वह सोई ही नहीं, हम लोग मजाक करने लगे कि रोटी लेकर खाती-खाती सोई होगी, नहीं तो चूहा खाट पर क्यों आता।

१८ अगस्त '४३

आज भी सुबह प्रार्थना के बाद उठ गई। उठकर साढ़े छः तक स्नानादि से फारिब हो गई। आधा-पौन घंटा पढ़ने को मिल गया। पीछे घूमी, खेली, बा की मालिश की और डा० साहब के साथ पढ़ा। अभी पीने ग्यारह बजे अनुवाद करने बैठती हूँ।

आज बा ने मनु से अपने लिए बेसन भरकर बंगन का साग बनाने को कहा। मनु ने मुझ से पूछा। बा की तबीयत अभी ठिकाने नहीं आई। कल रात को भी पेट में दर्द बता रही थीं। मैंने उन्हें दो-चार रोज तक ऐसी भारी चीज न खाने की सलाह दी। मनु सबके लिए ऐसी सबजी बना रही थी। मैंने उसे बनाने से रोक दिया। बा बहुत नाराज हो गई। बापू के पास जाकर शिकायत करने लगीं, “किसी दिन मैं कुछ खाना चाहूँ तो मुझे क्यों रोका जाय?” बापू ने समझाने का प्रयत्न किया। मैंने भी समझाया, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा। क्या करूँ, कुछ समय में न आया। खाने दो तो मुश्किल, रोको तो मुश्किल।

दोपहर और रात को मैं ‘लौस्ट वर्ल्ड’\* (Lost World) पढ़ती रही। बहुत अच्छी किताब है। रस से भरी है। भाई की फाइलों का थोड़ा-सा काम भी किया।

१६ अगस्त '४३

आज सुबह प्रार्थना के बाद सो गई। बा ने मनु से और बापू ने भाई से मालिश कराई। बाव में स्नान के समय कपड़े धोकर धोने का काम मंने किया। आज अनुबाब नहीं कर सकी और डा० गिल्डर के साथ पढ़ा भी नहीं। 'लैस्ट वर्ल्ड' ही पढ़ती रही और पूरी करके उठी।

सुबह घूमते समय बापू उस बिन वाले चर्खे और अनासक्ति वाले प्रसंग पर फिर आये। बोले, "तूने पंद्रह तारीख को कातने का संकल्प किया था तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए जो हो सके, करना चाहिए था। तबीयत सम्भालनी चाहिए थी। संकल्प शुभ हो, दृढ़ हो तो पूरा तो होता ही है। फिर दोपहर को नहीं कात सकी तो रात को या दूसरे दिन उस संकल्प को पूरा करना चाहिए था।" मंने कहा, "तबीयत सम्भालने की खातिर, पंद्रह तारीख को अच्छी-भली रहने के लिए ही तो अण्डो का तेल लिया था, मगर असर उल्टा हुआ। मैं यह नहीं समझी थी कि दोपहर की जगह शाम को या रात को भी खाता जा सकता है।" बापू कहने लगे, "क्यों नहीं? कातना कोई ऐसी चीज नहीं है, जो दूसरे समय पर नहीं हो सकती! और अगर कातना अच्छी चीज है तो एक रोज ही नहीं, हर रोज कातना चाहिए, पहले से ज्यादा दृढ़ होकर कातना चाहिए। चर्खे की बहुत हसी उड़ाई गई है, अब भी उड़ाई जाती है, मगर मुझ पर उसका कुछ असर नहीं होता। मनु भी सवाल किया करती है कि 'दिन भर खाता जाय तो टाई-तीन गुण्डी ही तो कात सकते हैं न! इससे क्या फायदा? कातना मानो बक्त खोना है।' मगर मैं कहता कि तीस कोटि लोग पंद्रह मिनट भी काता और बुना करें तो हिन्दुस्तान को करोब-करीब मुफ्त में कपड़ा मिल सकता है। ऐसा करें तो स्वराज आष हाथ में है। गरीब-से-गरीब, दीन-से-दीन को स्वराज दिलाने का दूसरा रास्ता नहीं। दूसरी तरह से तो तानाशाही ही आ सकती है जैसा कि जर्मनी और इटली में चलता है। रूस में भी वही हाल है, मगर चूंकि वहां राज सबके लिए है, सचमुच प्रजा के लिए है, इसलिए वह अच्छा दिखता है, लेकिन उसकी शोभा भी टिक नहीं सकती। उसके टिकने का रास्ता एक है: अहिंसा को लें और हिंसा का त्याग करें। चर्खा अहिंसा का बाह्य चिह्न है। अब रही अनासक्ति की बात, सो दूसरी सब चीजों में अनासक्ति अच्छी है, मगर चर्खे में आसक्ति रखना तो और भी अनासक्ति है।"

जिस सिपाही का हाथ जला था, उसका जला स्थान कहीं रगड़ खा गया, इसलिए छाले की चमड़ी उधड़ गई। कुछ विषाक्त हो गया है। थोड़ी सूजन और भवाव भी है। उसे अस्पताल भेजना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए यहां पर उसकी मरहम-पट्टी कैसे करूं, यह विचार करने लगी। आखिर कंबी और रुई आदि आवश्यक चीजों को पानी में उबाल लिया। तब सिपाही की जली हुई चमड़ी काट डाली। 'सेलफा नेली-भाइड' की दो गोलियों को पीसकर जस्म पर पाउडर डाला और लिक्वीड पैराफीन

कपड़ा उबाल कर उसकी ऊपर से मरहम पट्टी की। शाम को वह कह रहा था कि अब बर्द नहीं है।

बा आज भी नाराज है। कल से दूध मात्र पीती है—शाक-भाजी, कुछ नहीं लेती।

२० अगस्त '४३

बा की नाराजगी चल रही है। मनु का हाथ काम करने से पक गया है। आज डा० साहब ने बा से कहा कि उससे मालिश नहीं करानी चाहिए। तब मने मालिश की। पीछे अनुवाद इत्यादि करती रही। ग्यारह बजे के बाद बापू को खाना देकर स्नान करने को गई। दोपहर दो घंटे सोई। पढ़ाई का क्रम बिगड़ा। थोड़ी देर वर्षा हुई। मगर शाम को कोट सूखा था। सभी खेल सके।

२१ अगस्त '४३

महादेवभाई को गए आज दूसरे वर्ष का पहला शनिवार आ गया है। मगर उनका जाना तो कल का-सा है। बार-बार विचार आता है कि भगवान् उन्हें इस तरह से ऐसे समय पर क्यों ले गए ?

बा आज भी नाराज है, मुझ पर और बापू पर विशेष रूप से। लेकिन कटेली साहब और डा० गिल्डर से खुश है।

आज दोपहर बापू को कतरनों के काम में मदद देती रही।

आज छूब वर्षा आई। शाम को खेल नहीं सके।

: ५६ :

## हिंसा के बीच अहिंसा

२२ अगस्त '४३

बहुत दिनों के बाद सुबह ब्रेडमिग्टन खेली। कटेली साहब का हाथ दुखता है, खेलने में कठिनाई आती है, तो भी खेलना उन्हें अच्छा लगता है।

सेवाप्राम से किताबें, टाइपरायटर, चर्खा, धी इत्यादि चीजें आईं। भंडारी सुबह अपने साथ लकड़ी की दो पेटियां लाए थे।

दोपहर को डेढ़ घंटा कतरनों निकालने का काम किया।

बा की नाराजगी चालू है। नाराजगी के कारण परहेज रखने से उनकी तबीयत सुधरती है, इसलिए बापू उनसे खाने के लिए आग्रह नहीं करना चाहते।

शाम को वर्षा होने लगी। लेकिन खेलने के समय आकाश खुल गया। मैं और डा० साहब एक तरफ थे—कटेली और मनु दूसरी तरफ। हम हारे, मगर खेल अच्छा रहा।

प्रार्थना के बाद बापू का मौन शुरू हुआ। मैं रात को बहुत कम काम कर पाई। सिर में बवं था।

२३ अगस्त '४३

आज जन्माष्टमी है। बा ऐसे दिन कंबियों वगैरा को सामान्यतः कुछ देना चाहते हैं, मगर पूछने पर उन्होंने इन्कार किया।

दिन में मैंने भाई की फाइलों का काम किया। मीराबहन ने बालकृष्ण की मूर्ति के आस-पास सुंदर फूल सजाए। बा वहाँ जाकर खूब भक्ति भाव से पूजा कर रही थीं।

बा ने आज वृष का उपवास छोड़ा। शकरकबी खाई, टमाटर खाया। कल रात खूब खांसी हुई थी, मगर आज की रात अच्छी गई।

२४ अगस्त '४३

बा ने सबजी वगैरा बनवाई। शाम को उनका शरीर दुखने लगा। बापू मानते हैं कि खाने से ही उनकी तबीयत बिगड़ी है और हमेशा बिगड़ती है।

मीराबहन ने आज भी सुन्दर फूल बालकृष्ण की पूजा में सजाए थे, मगर मैं देखने जाना भूल गई।

दिन में मैं कतरनों निकालने का काम करती रही। २५ नम्बर की कतरन तक के संग्रह का कार्य पूरा किया। बाइबिल का समय भी उसी में गया।

शाम को घूमते समय मीराबहन बापू से फिर पूछने लगी कि स्वराज्य में जमीन का बटवारा कैसे किया जायगा? बापू ने बताया, "जमीन राज्य की होगी। मैं मान लेता हूँ कि शासन-तंत्र ऐसे लोगों का होगा, जो इस आदर्श को मानने वाले होंगे। अधिकांश जमींदार खुशी से अपनी जमीन छोड़ देंगे। जो नहीं छोड़ेंगे, उनसे कानून छुड़वा लेगा।" मीराबहन ने कहा, "तो पहला काम होगा लोकमत को तैयार करना?" बापू ने उत्तर दिया, "लोकमत को तालीम मिल चुकी है। वह आज लगभग तैयार है।"

अचानक बाहर से 'इन्कलाब जिन्दाबाद'- 'महात्मा गांधी की जय'- 'गांधीजी को छोड़ दो' के नारों की आवाज आने लगी। पता लगा कि पंद्रह बिहारी मोर्चा लेकर आए थे। सब गिरफ्तार हो गए हैं। सब सिपाही उधर ही भाग गए थे। हम हंसने लगे, "सब पहरेदार उधर चले गए हैं। इधर से हम भाग सकते हैं।" बापू कहने लगे, "वे उधर इसलिए चले गए हैं कि वे तुम्हारा विश्वास रखते हैं कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे।" हो सकता है कि यह बात ठीक ही और बाहर के ७२ पहरेदार हमें बाहर जाने से रोकने को नहीं, पर बाहर वालों को अन्दर आने से रोकने को ही रखे गए हों।

२५ अगस्त '४३

आज मुबह ग्यारह बजे के करीब फिर जय-जयकार सुनाई दी। बापू कहने लगे, "ऐसा लगता है कि मेरे-पहले शिक्षणके अनुसार इन लोगों ने सर्वथा अहिंसक लड़ाई का यह तरीका निकाला है। पकड़े जाने के ही लिए आते हैं और एक बार पकड़े गए तो पूर्व-

तया शांत रहते हैं। एक भी सिपाही बस-बीस की टोली को पकड़ने के लिए काफ़ी है।”

शाम को भाई बहुत बिनो के बाव रिग खेलने को आए। खेलने से कुछ तकलीफ नहीं हुई। मनु नहीं खेली। उसे थोड़ा बुखार था। आज से उसे कुनीन मिक्सचर देना शुरू किया है। गोली काम नहीं करती लगती।

कल ‘घम्मपव’ पढ़ा। आज ‘पास्ट एण्ड प्रेजेण्ट’ पढ़ना शुरू किया है। रात को भाई के साथ फिर वही पढ़ा। वे कुछ उस समय के इतिहास की बातें बता रहे थे।

२६ अगस्त '४३

आज भी मनु को थोड़ा बुखार है। कल से बा की रात की मालिश में शुरू की है। लगता है कि बा की नाराजगी अब चली गई है।

रात को भाई के साथ ‘पास्ट एण्ड प्रेजेण्ट’ पढ़ रही थी— एक जगह वे कहने लगे, “यह ‘कॉर्न लॉ’ से सम्बन्ध रखता है।” यह सुनकर मैं आगे पढ़ने लगी। मैं समझी थी कि अब और उन्हें कुछ कहना नहीं है, मगर उन्हें लगा कि मैं ‘कॉर्न लॉ’ के बारे में जानना ही नहीं चाहती। बुरा लगा।

दोपहर का समय कतरनों में जाता है। डाक्टरों अभ्यास नहीं होता। यह चुभता है। इसके लिए कुछ करना ही होगा।

शाम को घूमते समय मीराबहन बापू से कुछ पूछा करती है। मैंने बापू से कहा कि चर्चा का विषय आज क्या था? उन्होंने बताया, “उनके (मीराबहन के) मन में कुछ गलतफहमी है कि हम जापान का सामना किस तरह से करेंगे। मैंने समझाया कि सरकारी फीजे अपने ढंग से, हिंसक लड़ाई से, उनका सामना करेंगे और हम अहिंसक तरीके से। पहले मैं कहा करता था कि हिंसा चलती हो तब अहिंसा नहीं चल सकती, मगर अब मैं आगे बढ़ा हूँ। हिंसा के बीच अहिंसा न चल सके तो वह अहिंसा अयंग है।” भाई ने पूछा, “क्या अहिंसा और हिंसा का सहयोग हो सकता है?” बापू ने उत्तर दिया, “क्यों नहीं, अभी देखो, हम रूस और चीन की मदद करना चाहते हैं? हिन्द आजाब होकर जापान का सामना अहिंसक तरीके से करे तो क्या रूस को या चीन को मदद नहीं मिलेगी? यद्यपि रूस और चीन हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी अहिंसा उनको मदद करेगी।” भाई ने आगे सवाल उठाया। मगर प्रार्थना का समय हो गया था। बापू ने बाद में यह चर्चा चलाने को कहा।

२७ अगस्त '४३

आज मनु को बुखार नहीं आया। मैंने दोपहर को कतरनों का काम पौन घंटा ही किया। दूसरा पौन या एक घंटा अपना अभ्यास किया। शाम को वर्षा हुई। फिर बन्द हो गई। हम लोग खेल सके। कल से सुबह बेडमिन्टन खेलने मनु भी आवेगी। डा० साहब कह रहे थे, “यह या तो काम किया करती है या पढ़ा करती है, यह ठीक नहीं।” बात यह है कि उसके पास खाली समय तो खूब है, मगर और लोग अपने-अपने काम में

क्यों हों तो वह अकेली पड़ जाती है। पड़े न तो करे क्या? सभी सुबह-शाम अच्छी तरह खेलते हैं और ज्यादा समय खेलने में दें, यही हो सकता है। बाने सुना तो बोली, “बेरी मालिश में मनु का तो आधा घंटा भी नहीं आता। रसोई का काम भी मैं उससे नहीं करवाती। दोपहर को आधा-पौन घंटा मुझे पढ़कर सुनाती है। बाकी सब समय उसका खाली ही तो रहता है। पहले सरोजिनी तुम्हारे बारे में कहती थी, “बेचारी सुशीला सारा दिन काम करती है। बेचारी बालक है, बड़ों के बीच मैं कैसे खेल-कूद सकती है?” अब ये लोग मनु के बारे में कहते हैं।” मैंने समझाया, “ठीक है, मनु सुबह-शाम ज्यादा खेलेगी तो काम ठीक चलेगा।”

२८ अगस्त '४३

मेरे दाहिने हाथ में चीरा लगा है। मालिश इत्यादि बाएं हाथ से करती हूँ। महादेवभाई को गए आज दूसरे वर्ष का दूसरा शनिवार आया। समय बढ़े-से-बढ़े घाव को भी भर देता है। कोई दिन आएगा कि हफ्तों और महीनों की जगह हम लोग वर्षों की गणना करने लगेंगे।

डेलिया के फूल महादेवभाई की समाधि पर चढ़ते हैं। जीवन में जिनका उपयोग वे न कर पाए, उनकी समाधि पर वही फूल रखकर हम संतोष मानते हैं।

२६ अगस्त '४३

आज दोपहर को एक सुंदर पक्षी बा की खाट पर आ बैठा। मैं खाना खाकर आई तो बापू बा की खाट के पास खड़े उसे देख रहे थे। वह काला था। उसके पंख लम्बे थे और पीछे की तरफ लम्बी-तीखी पूंछ का-सा उनका आकार था। मैंने कहा, “मीराबहन को बुलाऊँ?” बापू बोले, “हाँ!” मीराबहन कमरे में न थीं। बापू को और भाई को लगता था कि पक्षी बीमार है। मीराबहन इसे ज्यादा होशियारी से पकड़ सकेंगी। आखिर मीराबहन डा० गिल्डर के कमरे में मिलीं। वे आईं। सबकी आवाज सुनकर पक्षी फर से उड़ गया। मुझे अफसोस हुआ। मैंने अच्छी तरह देखा न था। मीराबहन की ही खोज में रही थी।

घूमने में हम लोग जब नहीं होते तब मीराबहन बापू के साथ आती है। कोई और आ जाता है तो भाग जाती है। मैंने उनसे एक बार इसका कारण पूछा तो बोली, “बो की बात और है। वे अच्छी तरह बातें कर सकते हैं।” मैंने कहा, “आप भले बातें करें, हम सुनेंगे। और हमारी बात तो कोई ऐसी है नहीं कि बो में ही हो सके।” वे कुछ बबराहट में पढ़ गईं। सच यह है कि उन्हें मनुष्यों की अपेक्षा बृक्षों, बकरियों और पक्षियों का साथ अधिक अच्छा लगता है। आज मीराबहन घूमने के समय बापू के साथ आईं।

कल शाम घूमते समय मैंने बापू से पूछा था, “हम लोगों ने अंग्रेजों की मदद करने

की बात सोची थी। पहले आपने कहा था कि उन्हें बिना शर्त मदद देनी चाहिए। लेकिन अब आप कहते हैं कि अगर वे हिन्दुस्तान की मांग स्वीकार न करें तो उनके साथ लड़ना चाहिए। इन दोनों परिस्थितियों में सचमुच विरोध नहीं है; क्योंकि आज हम मानते हैं कि हम स्वतन्त्र हुए बिना उनकी मदद नहीं कर सकते। क्या मेरी यह धारणा सही है?" बापू कहने लगे, "इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि उस समय की हालत में बिना शर्त मदद देना ही उचित था। मेरी बात कांग्रेस ने मानी होती तो नुकसान नहीं होने वाला था। बाद में क्या होता, यह कहा नहीं जा सकता, मगर कांग्रेस ने यह न माना। बल्लभभाई ने भी, जो हमेशा मेरी बात मानते हैं, कहा कि 'यह मैं नहीं मान सकता।' इसका परिणाम यह हुआ कि हम अंग्रेजों को उनके असली रूप में देख पाए। उसे देखकर हम बिना शर्त मदद की बात नहीं कर सकते। चीन और रूस की हमें मदद करना हो तो हमें पहले स्वतन्त्र होना चाहिए।"

मैंने पूछा, "क्या अहिंसक और हिंसक लड़ाई में सहयोग हो सकता है? वे लोग हिंसक लड़ाई लड़ते हैं और हम अहिंसा द्वारा उनकी मदद करना चाहते हैं। इसी तरह अंग्रेज यहाँ रहकर जापान के साथ हिंसक लड़ाई करें और हम अहिंसक लड़ाई करके उनकी मदद करने की बात करें तो क्या यह सम्भव है?" बापू कहने लगे, "इसे सहयोग का नाम न दिया जाय। हम अपनी अहिंसा के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं, इसका परिणाम यह आता है कि रूस को, चीन को, अंग्रेजों को, जो हिंसक लड़ाई करते हैं, इससे फायदा पहुंचता है। इसमें हिंसा के साथ सहयोग करने की बात नहीं आती। जापानी हिंसक लड़ाई करते हैं तो अहिंसक पक्ष क्या चुपचाप बैठा रहे? यह नहीं हो सकता। हमें अहिंसक लड़ाई चलानी होगी। इस तरह हमारी अहिंसा पूरी तरह दोष्यमान नहीं होगी, यह ठीक है, मगर अहिंसा को हिंसा से भरे जगत में अपना स्थान बनाना ही तो उसे हिंसा के बीच आकर काम करना होगा। उससे हिंसक लड़ाई करने वालों को भी बिना फायदा पहुंचे नहीं रह सकता और अन्त में अहिंसा की सफलता देखकर वे हिंसक मार्ग को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन यह सवाल निरर्थक-सा है। मौका आने पर क्या होगा, यह कौन कह सकता है। अहिंसक ऐसे मौके पर अपना मार्ग देख लेगा।"

३० अगस्त '४३

बापू का मीन है। बिन भर वे अपनी कतरनों का काम करते रहे। कई बार कह चुके हैं कि उन्हें इस काम में बड़ा रस आता है। असल में जो भी काम वे हाथ में लेते हैं, उसीमें उन्हें रस आने लगता है। पिछले साल मैंने और भाई ने कुछ कतरने निकाली थीं। उनमें पचियां\* आदि लगाने का काम पहले बापू ने मीराबहन की सौंपा था। थोड़ा-

\*कतरनों के सिरे पर झलवार का नाम, तारीख इत्यादि डालने के लिए पचियां चिपका दी जाती थी।

सा करने के बाद मीराबहन कहने लगीं, "शायद इससे भी हाथ को तकलीफ होती है। कतरनें खोबें नहीं, इससे बापू को लगा कि छोटी-छोटी कतरनें रखनी ही न चाहिएं, जोड़कर लम्बी कर लेना ज्यादा अच्छा है। मेरा एक बड़ा गत्ता पड़ा था। उसे काटकर दो किये ताकि तीन-चार कालम चौड़े और पूरे अलबार की लम्बाई की कतरनें उसमें आ सकें, मगर जब कतरनें बढ़ गईं तो उन्होंने देखा कि उठाते समय गत्ता लचक जाता है, इसलिए कटेली साहब से लकड़ी के पट्टे बनवाने को कहा। मैंने प्लाईवुड का पत्ता लगाया तो ७ x ३२ इंच की माप के तख्ते का दाम ५० के करीब पड़ता था। बापू इतना खर्च करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए जेल में मामूली लकड़ी के पट्टे बनाए गए। बापू अब कतरनें उसमें रखते हैं। उन्हें दिन भर पंचियां लगाने का काम करते देखकर मैंने भी उनकी मदद करना शुरू किया। परसों पुराना संग्रह पूरा हो गया। कल से बापू अनुक्रमणिका बनाने के काम में लगे हैं। २५-२५ कतरनों को सॉ कर, उनका बण्डल बना लिया है। नई कतरनों में पंचियां लगाने का काम मुझे दिया है। रोज के नए अलबारों की कतरनें भाई निकालते हैं। बस रोज के पुराने चार अलबारों— हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स, हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड और स्टेट्समैन की निकालने लायक कतरनों पर भाई निशान करते हैं। बापू उन्हें देख जाते हैं, फिर वे अलबार डा० गिल्डर और कटेली साहब के पास जाते हैं। वे लोग उनमें से कतरनें निकालकर पंचियां बगैरह लगाकर बापू के पास लाते हैं। बापू उन्हें नम्बर देकर अनुक्रमणिका बनाते हैं। इस तरह सब घर कतरनों के काम में लगा हुआ है। आशा है, एक महीना और लगेगा और यह पुराने अलबारों में से कतरनें निकालने का काम पूरा हो जावेगा।

आज शाम को जब भाई खेलने जाने लगे तब मुझसे एक अलबार की कतरनें निकालने और कुछ कतरनों पर तारीख डालने को कह गए। मैंने तारीख तो डाली, मगर जब कतरनें काटने का काम करने लगी तो भाई का निशान ठीक समझी नहीं और काटने लगी। बाद में गलत कटी हुई कतरनों को जोड़ना पड़ा। आधा घंटा लग गया और तब भी एक पन्ना बिना कटा रह गया।

मैंने रविवार के दिन रसोईघर में काम कम करने का विचार किया था, ताकि काम करने वालों को आराम मिले। रविवार को सफाई भी करानी होती है, इसलिए शनिवार की शाम को खाखरा बगैरह करवा लेने और रविवार को खिचड़ी मात्र पकवाने का विचार था, लेकिन शनिवार की शाम को खाखरा और मीराबहन की रोटी कराना भूल गई। इसलिए रविवार के दिन सबके लिए रोटी कराई। बापू को पता लगा। उन्होंने सोमवार के दिन सबको छुट्टी देने को कहा। आज सोमवती अमावस्या भी थी। बापू ने कच्चा साग, दूध और बादाम लिए। मनु ने और भाई ने सुबह कोको ली। मैंने चाय और बाने दूध-मुरब्बा। डा० गिल्डर और कटेली साहब का खाना तो बाहर से आया ही था। शाम को मैंने, भाई ने और मनु ने कोको ली और खाखरा खाया। सिर्फ मीराबहन के लिए खाना पका, बरना बिन भर काम करने वालों को छुट्टी रही।



३१ अगस्त '४३

कल शाम को कानु भाई का पत्र बा और मनु के नाम आया। बल्लभभाई की तबीयत अच्छी नहीं लगती। भाई बहुत उदास रहे। कहने लगे, "एक-के बाद-एक बापू के स्तम्भ आ रहे हैं। जमनालालजी गए। राजेन्द्रबाबू और बल्लभभाई भी बीमार से रहते हैं।" मैंने कहा, "आप क्यों चिन्ता करते हैं? भगवान् को बापू से काम लेना है तो सहायक और सहायन वेगा ही।" भाई कहने लगे, "आज तक जो गए हैं, उन की जगह नए कौन-से आए हैं?"

मोराबहन का दर्द बढ़ा है। आज भंडारी को मैंने फिर लिखा कि उनकी अच्छी तरह परीक्षा होनी चाहिए। कल फिर सिविल सर्जन आवेंगे। आज उनके रोग का ब्यौरा लिखकर तैयार किया है।

१ सितम्बर '४३

आज सुबह मैं जल्दी खेलने को चली गई थी। बापू के घूमने निकलने के थोड़ी देर बाद मैं खेलकर आ गई। मनु खेलने को गई। भाई भी बापू के साथ थे। सो उस दिन वाला प्रश्न आगे चलाया। घूमने के समय हम लोग खेलते हैं, इसलिए कुछ पूछने का समय ही नहीं मिलता। आज हम लोग बापू के साथ घूमने चले। भाई ने बात चलाई। उन्होंने उस रोज पूछा था, "अंग्रेजों को आप यहां लश्कर रखने की इजाजत देते हैं, मगर जापान कह सकता है कि इससे तो हम मर जाते हैं। तुम्हारे घर से ये हमें पत्थर मारते हैं, इसलिए या तो तुम्हें इन्हें निकालो या हमों को निकालने दो। तब अहिंसा क्या उत्तर देगी?"

मैंने कहा, "मैं जो इस प्रश्न का उत्तर समझी हूँ, वह बापू मुझे और मुझे सुधारें। एक तो यह कि अंग्रेज इतने समय से यहां हैं। वे हमें अपनी आजादी न्यायपूर्वक लेने देते हैं, मगर अपनी रक्षा के लिए यहां रहना भी चाहते हैं। तो हमारा उनके प्रति यह कर्तव्य है कि हम उनकी अनुकूलता का विचार करें और उन्हें रहने दें। जापान के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है। दूसरे हमारी सहानुभूति अंग्रेजों के साथ है। हम नहीं चाहते कि वे युद्ध में हारें। जिस काम के करने में उन्हें हार का डर हो, वह हम उनसे नहीं करवाना चाहते।" बापू कहने लगे, "यह ठीक है, मगर इसमें मेरी बलील पूरी-पूरी नहीं आ जाती। सम्पूर्ण अहिंसा के सामने हिंसा टिक नहीं सकती, यह शाश्वत नियम है। अगर सारा हिन्दुस्तान अहिंसक होता तो अहिंसा द्वारा जापानी आक्रमण का सफल मुकाबला किया जा सकता है, इसे अंग्रेज स्वयं देख सकते। तब यहां पर हिंसक साधनों से जापान का मुकाबला करने के लिए उनके यहां रहने का सवाल ही न रह जाता। किन्तु बात यह है कि अंग्रेजों के सामने आज है क्या कि जिससे वे यह मान सकें कि हमारी अहिंसा सफल होगी? ऐसी हालत में मेरी अहिंसा मुझे मजबूर करती है कि मैं उन्हें यहां रहने दूँ। अपनी रक्षा के लिए अपने खर्च पर वे यहां रहें तो मैं उन्हें इन्कार नहीं कर सकता। अगर सारा हिन्दुस्तान अहिंसक रहता तो उनके यहां रहने

का प्रश्न उठ ही नहीं सकता था। कोई कहे कि ऐसी अहिंसा लोगों में कभी आने की नहीं है तो उससे यह नियम नहीं बदलने वाला। मगर आज जब सारा हिन्दुस्तान अहिंसक नहीं है तब मैं अंग्रेजों से अहिंसा में विश्वास रखकर यहां से चले जाने को कैसे कह सकता हूँ ?”

यह बात करते-करते हम महादेवभाई की समाधि पर पहुंच गए। फूल चढ़ा कर प्रार्थना करके वापस लौटे तो भाई कोई दूसरी बात करने लगे, मगर बापू ने कहा, “मिरा मन अभी इसी प्रश्न पर है। तुम्हें आश्व रक्षना चाहिए कि इस चीज की उत्पत्ति कैसे हुई। मेरे स्वभाव में यह चीज पड़ी है कि अपनी भूल देख लूँ तो उसे ढांप नहीं सकता। दूसरे लोग तर्कपूर्ण ढंग से बात करने पर जोर देते हैं। उन्हें डर रहता है कि एक बात कहकर कुछ दूसरी ऐसी बात मुंह से निकल जाये, जिससे पहले की बात अतर्कपूर्ण मालूम पड़े। मुझे ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे एकमात्र सत्य से बास्ता है। दक्षिण अफ्रीका में अपने एक मुकदमे के हिसाब में मेने भूल देखी। मेने बड़े वकील से कहा। उन्होंने मुझे सनसाया, ‘ऐसी भूल स्वीकार की तो समझो कि मुकदमा तो हाथ से गया ही, साथ ही वकालत भी खतम। मुझ से तो यह न हो सकेगा। मुझे तो वकालत चलानी है।’ मेने नम्रता से कहा, ‘तो मुझे भूल स्वीकार करने दीजिए।’ मैं गया और मुकदमा खीत कर आया। भूल सुधारने से मेरे मवशिकल को कुछ ज्यादा देना पड़ता था। जज इस बात को पहले न देख सके। बोले, ‘मि०गांधी, तो क्या यह घोखादेही न थी ?’ मेने भी जरा तेज होकर उत्तर दिया, ‘क्या आप मेरी भलमंसाई का ऐसा बुरूपयोग करेंगे ?’ तब वे सीधे हो गए। आज भी उनका चेहरा मुझे याद है। सो जब फिशर ने मेरी योजना की त्रुटि मुझे बताई तो उसके इशारा करते ही मैं कायल हो गया। यह ठीक है कि मेने खुद पहले से ही यह चीज देख ली होती और ‘अंग्रेजो जाओ’ इस मंत्र के साथ ही उसे भी रखा होता तो वह अधिक सुशोभित होती। मुझ पर आज जो जहरीले हमले इस बारे में हो रहे हैं, वे न होते, मगर वह तो नहीं हुआ। तो जब मुझे त्रुटि नजर आ गई तब मुझे उसे सुधारना ही था। हरेक चीज के दो पक्ष होते हैं। मेरे काम से जापान को नुकसान भी हो तो मैं क्या करूँ। जो चीज मेरे सामने है, उसे यथाशक्ति में शुद्ध भाव से सम्पूर्णतया अहिंसक बना सकूँ तो मेरे लिए बस है। उसके दूसरे परिणामों का हम आज विचार न करें; क्योंकि यह सनातन सत्य है कि शुभ कार्य का परिणाम अशुभ नहीं आ सकता। वे लोग भले रहें, जैसे रक्षा करनी है, करें। मैं अपनी रक्षा अहिंसा से करूँगा। अपनी अहिंसा को सफल करके बता सकूँ तो मुझे उनके साथ अहिंसक मार्ग लेने के लिए बलील करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह अपनेआप इस तरफ आबेंगे।”

भाई बोले, “हम इन्हें बर्मा को गुलाब बनाने में क्यों मद्दद दें ? अगर ये लोग सच्ची नीयत से हिन्दुस्तान का राज्य छोड़ते हैं तो इन्हें बर्मा की स्वतन्त्रता की घोषणा पहले से करनी चाहिए। यह करवाकर हम इनकी मद्दद करें।”

बापू कहने लगे, “ऐसा करना अपने ऊपर बेईमानी का आरोप लगवाना होगा । वे कहेंगे कि हम लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, इसलिए एक-के पीछे-एक हुज्जत निकालते हैं । हमें दूर की बात में नहीं पड़ना चाहिए । अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार हमारा अप्रेजों के प्रति ठीक व्यवहार क्या है, इतना ही हमें विचारना है । बाकी श्रद्धा रखनी चाहिए कि शुद्ध विचार से जो कारंवाई की जाय, आगे जाकर उसके परिणाम भी ठीक ही निकलेंगे । तुम इतना समझो कि हिन्दुस्तान सचमुच आजाब हो जावे तो उसके परिणाम बहुत दूर तक जावेंगे । बर्मा की आजादी उसके गर्भ में पड़ी है।”

आज कर्नल प्रील मोराबहन को देखने आए । किसी दूसरे आदमी को परामर्श के लिए बुलाना चाहते हैं । सरकार से पूछना होगा । उसके बाद आवश्यकता होगी तो एक्स-रे करावेंगे ।

२ सितम्बर '४३

आज अखबार में बापू और वर्किंग कमेटी के साथ वालों को छोड़कर बाकी कैदियों को महीने में एक मुलाकात मिलने की खबर थी । डा० गिल्डर के लिए अवश्य ही एक समस्या खड़ी होगई । मुलाकात की इजाजत से लाभ उठाना हो तो उनको वापस यरवदा जाने के लिए सरकार के साथ झगड़ा करना चाहिए । क्या ऐसा करना उचित है ? यरवदा जाकर एक तो जेल की जेल, दूसरे खर्च, और तीसरे बापू का साथ छोड़ना । वैसे भी यहाँ का वातावरण उन्हें अनुकूल है । यह सब छोड़ना या मुलाकात छोड़ना ? मैंने कहा, “खर्च की उन्हें क्या परवाह है ?” बापू कहने लगे, “ऐसा नहीं, कौन जाने कबतक यहाँ रहना है । वे प्रतिष्ठा वाले आदमी हैं । अब कांग्रेस को कभी छोड़ेंगे नहीं । यह भी जानते हैं कि मैं लोगों को भिखारी बनाने वाला हूँ, सो जो धन है, उसे सभालकर रखेंगे ताकि वह उनकी लड़की को मिल सके ।”

मैंने कहा, “क्या और एक वर्ष में यहाँ भी मुलाकातें नहीं शुरू की जाएंगी ?” बापू कहने लगे, “छः वर्ष में जरूर शुरू होंगी ।”

आज मैंने अनुवाद पूरा किया । कल उपवास की कहानी लिखना शुरू करने का विचार है ।

३ सितम्बर '४३

सुबह घूमते समय मोराबहन सोवियत रूस-सम्बंधी एक किताब के बारे में बात करने लगीं । वहाँ तीन-चार व्यक्ति गए थे । जो जिस विषय में रस रखता था, उसके बारे में उतने लिखा । मैंने हंसकर पूछा, “मोराबहन, आप जावें तो किस विषय को लें ?” वे कहने लगीं, “मास्को तो सामान्य हालचाल का पता लगाने ही जाऊँ, मगर वहाँ के देहातों में खास ध्यान देने की बातें हो सकती हैं । मेरा खयाल है कि बापू के चुने हुए उन तीन-चार लोगों के साथ जाना चाहिए, जो खास-खास विषयों में ज्ञान रखते और रूस में उन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हों ! ठीक है न बापू ?” बापू हंसकर बोले, “छः साल के बाद यह खर्चा करना ।” मोराबहन भी हंस पड़ीं । उन्हें विश्वास है कि

वे जल्दी हो छूटने वाली हैं। छः साल की बात तो हम सबको बड़ाई हुई लगती है, मगर मीराबहन की तरह बहुत जल्दी छूटने की भी हम आशा नहीं रखते। समय बतावेगा कि किसका अनुमान ठीक है। आज तो काफी काम यहाँ पड़ा है। उसमें समय का उपयोग कर लें तो बस है।

आज उपवास पर लिखना शुरू न कर सकी। यही सोचती रही कि कौन-सा कागज इस्तेमाल करूँ।

शाम को मन बहुत चिन्तित था। माताजी इत्यादि का बहुत दिन से पत्र नहीं आया।

४ सितम्बर '४३

महादेवभाई को गए आज दूसरे वर्ष का तीसरा शनिवार है। सुबह समाधि पर बहुत सैफूल ले गई और डेलिया के फूलों का स्वस्तिक बनाया। चारों कोनों पर और 'ॐ' के बिंदु पर भी वही फूल रखे और शेष पर डेजी के और एस्टर के। डेजी फूलों का सलीब भी बनाया। सब वृक्ष बहुत सुंदर दीखता था।

आज दोपहर बाइबिल नहीं पढ़ी। भाई ने कुछ लिखने को कहा था, वही लिखती रही। कार्लाइल पढ़ा। कल से कठरनों की अनुक्रमणिका बनाने में बापू की मदद करूंगी।

भाई को उंगली बिजली की बत्ती को एक टूटो हुई हांडी से फट गई थी, अब वह पक गई है। उन्हें बापू के काम से छुट्टी दी।

रात बापू की मालिश करते समय बरामदे में सप्ताटा-सा छा रहा था। दूर से मीराबहन वर्गरह के करम खेलने की आवाज आती थी। सामने बगीचे में भी सप्ताटा था। मैंने बापू से पूछा, "आप इतनी बार जेल गए हैं, अकेले भी रहे हैं, तकलीफें सही, हैं, पर कभी आपको अकेलापन अथवा निराशा मालूम होती थी?"

बापू बोले, "अकेलापन तो कभी नहीं लगा। दक्षिण अफ्रीका में मुझे एकान्त कोठरी में रखा था, मगर मुझे उसमें कुछ तकलीफ नहीं लगती थी। उल्टा मुपिन्डेण्ट आता था तो चुभता था कि अब यह मेरा थोड़ा समय बरबाद करेगा। मैंने अपना लम्बा कार्यक्रम बना रखा था। संस्कृत सीखना, तमिल सीखना और अंग्रेजी की किताबें तो पढ़नी थी ही। मैं जूते बनाने का काम भी करने लगा था। इसलिए मेरी कोठरी में ही मुझे जूते बनाने का सामान दे दिया गया था। मुझे किसीके साथ तो काम करने दिया ही नहीं जा सकता था। मगर मुझे तो अकेले काम करना अच्छा लगता है। सब कार्यक्रम बना और छूटने का हुक्म आया। हर वफा जेल छोड़ना मुझे बुरा-सा लगा है। निराशा और शून्यता भी कभी नहीं महसूस हुई। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में कभी-कभी उदासी आ जाती थी। बाहर क्या होता होगा, यह विचार मन में उठते थे। यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, कारण कि मैंने जेल में क्या भाव रखना चाहिए, इसकी एक नई फिलसफी बना ली है और इस बारे में काफी लिखा है। लिखता तो दक्षिण अफ्रीका में भी था, मगर वहाँ पर तो यह नया सिलसिला था और यहाँ की तरह पढ़े-

लिखे बहुत चर्चा करने वाले लोग भी नहीं थे। यहाँ तो इतने लोगों के साथ इस बारे में वाद-विवाद करना पड़ा है कि वह चीज विभाग पर काबू पा गई। दक्षिण अफ्रीका में बीजगणित सीखना शुरू किया था; क्योंकि गणित सीखने से मन को एकाग्र करने की शक्ति आती है।”

मैंने पूछा, “क्या अब भी आपको मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता हो सकती है?” बापू बोले, “अब भी हो सकती है, मगर तब तो बहुत थी।”

५ सितम्बर '४३

सुबह प्रार्थना के बाद बापू ने मुझे बुलाया और कहा, “आज पारसियों की \*पटेती\* है। रांगोली से साल मुबारक लिखना चाहिए। चाय की मेज पर मेरी मेज के फूल रख दो।” कल शाम को ही रामायण में एक जगह वर्णन आया था कि एक भी जानर ऐसा न था, जिससे राम ने कुशल-क्षेम न पूछी हो। बापू भी छोटी-से-छोटी बात नहीं भूलते।

मैं आटे से 'साल मुबारक' लिख रही थी और एक दरवाजे पर पूरा करके दूसरे पर शुरू कर रही थी कि कटेली साहब एक तश्तरी लिए नीचे आए। उसमें डा० साहब के लिए फूलों का हार, गुलाब जल, नारियल, सिन्दूर इत्यादि था। डा० साहब आए तो उन्हें भेंट किया। मैंने दोनों को सिन्दूर का टीका लगाया। पीछे दोनों जने बापू को प्रणाम करने आए। चाय के बाद सबजी इत्यादि चढ़ाकर कुछ समय बेडमिन्टन खेले। सिपाहियों से मैंने कह रखा था, सो बापस आने तक सब तोरण बंध गए थे। मैंने मालिश के काम से छुट्टी ली। कटेली और डा० साहब के दरवाजों पर चावल के आटे से 'साल मुबारक' लिखा। उनके लिखने-पढ़ने की मेज पर फूलों से लिखा। डेलिया के फूल सजाए, पीछे स्नान किया और कपड़े धोए। पीने बारह बजे खाली हुई। साढ़े आठ बजे के नाश्ते के समय के लिए सबरे मीराबहन ने मेज पर फूल रखे थे। दोपहर उन्होंने सलाद तैयार की, मगर वे लोग उसे खाना भूल गए।

दिन को हवा जोर से चली। उससे डा० साहब के दरवाजे के सामने जो 'साल मुबारक' रांगोली में लिखा था, उसका कुछ हिस्सा मिट गया। लिखा रह गया 'साल ८'। डा० साहब ने सबको बुला-बुलाकर दिखाया। हम लोग खूब हंसे।

श्री कटेली ने सूरत से मिठाई मंगाई थी, सो घर में कुछ करने की मनाही की।

६ सितम्बर '४३

बापू का मौन था। रामायण इत्यादि का पाठ बन्द रहा। दोपहर के समय 'दान' के छुटे हुए अंकों की एक सूची बनाई। यह पत्र बहुत अनियमित आता है। बापू

\*पारसियों का नये साल का त्यौहार।

शिक्षायत लिखवाना चाहते हैं। शाम को सवा सात बजे कोई खेलने नहीं गया। पीछे में और मनु व डा० साहब और कटेली साहब थे। अच्छी कसरत हो गई।

७ सितम्बर '४३

आज मीराबहन को डा० सिम्काक्स देखने आये। वे कहते थे कि उनकी बांह की मांस-पेशियों में कुछ विकार है। उसे ठीक करना होगा।

डाक्टर साहब के पास सरकारी पेंम्पलेट 'कांग्रेस की जिम्मेदारी' की कल एक दूसरी प्रति आई है। पहली को फिर से छापा है। पहली में लाल स्याही के जो सुधार थे उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया।

८ सितम्बर '४३

कल वजन का कांटा नहीं आया था। आज सबका वजन लिया गया। मनु चार पौण्ड घटी। उसने सुबह-शाम खेलना शुरू किया है, मगर खाना कम कर दिया है। अब वह उबला खाना खाने लगी है और मीठी चीजें नहीं खाती। इस बात की चर्चा सभी कर रहे थे। डा० गिल्डर ने भी बापू से कहा कि उसकी खुराक बढ़नी चाहिए। बा को लगता था कि कसरत कम करनी चाहिए। बोपहर बा ने उसे घो वाला साग आप्रहपूर्वक खिलाया। शाम को उन्होंने उसे आप्रह करके और ज्यादा खिलाया। खाने के बाद में बापू का सूत उतार रही थी तो मनु गुसलखाने से निकली। मने पूछा, "क्या हुआ?" कहने लगी, "उल्टी हुई।"

रात को बापू की मालिश के बाद अलबार आदि देखकर और भाई के साथ थोड़ा पढ़कर साढ़े दस बजे सो गई।

बा अच्छी है, मगर कमजोरी बहुत आ गई है। 'सल्फा' दवा के कारण भी कमजोरी हो सकती है। कल से बंद करूंगी।

शाम को बापू के पास थोड़ी देर तक बाइबिल पढ़ी। वे बता रहे थे कि उनकी दृष्टि से डाक्टर को स्थितप्रज्ञ होना चाहिए और कभी किसी वजह से संतुलन नहीं खोना चाहिए।

९ सितम्बर '४३

सुबह उठी तो मेरे सिर में दर्द था। बेडमिन्टन खेलने को नहीं गई। बापू के साथ घूमती रही। मीराबहन से मने कहा, "आप खेलने का आती है? हम लोग आपकी राह देखते हैं।" कहने लगी, "सुबह थोड़ा खेलना शुरू करने का विचार करती हूँ।" थोड़ी देर बाद देखा तो बेडमिन्टन खेल रही थीं।

शाम को बापू के पास पढ़ने बैठी तो वे समझा रहे थे कि कुछ भी हो, किसी भी चीज से मन का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। किसी भी चीज का दुःख क्यों खाना जाय?

रात में भाई के सिर में दर्द रहा। उनके साथ पढ़ा नहीं। उनका सिर बवैरह

बचाकर साढ़े दस बजे सोने को गई ।

१० सितम्बर '४३

आज पारसियों का त्योहार है । जरबुस्त का जन्म-दिन है । मैं सुबह प्रार्थना के बाद सोई नहीं ।

थोड़ी देर में डाक्टर गिल्डर सुबह-ही-सुबह स्नान करने आए । नए साल के दिन भी बहुत सबेरे नहाए थे । मनु ने उनके लिए आज पूरनपूरी बनाई । बोपहर को कटेली साहब और डा० साहब शिकायत करते थे, “दूसरे किसी ने पूरनपूरी क्यों नहीं खाई? हमने तो कहा था कि सब लोग खाएं तभी बनाना ।” दो-एक रोज पहले कटेली साहब मिठाई के बारे में भी ऐसे ही कह रहे थे, “तुम लोग नहीं खाते हो तो हम भी छोड़ देंगे ।” शाम को सबने खाया ।

सच्ची बात तो यह है कि दूसरों को इन चीजों का शौक नहीं है ।

बापू ने सरकार को पत्र लिखा कि ‘बाइबिल’ के उत्तरकी पहुंच अभी तक क्यों नहीं आई ?

भाई की तकली का सूत उतारा । उसमें बहुत समय जाता है । बापू की कतरनों का थोड़ा काम किया । आज भी दिन भर कुछ नहीं पड़ा ।

११ सितम्बर '४३

महादेवभाई को गए आज दूसरे वर्ष का चौथा शनिवार है । वे होते तो बापू को छोटी-छोटी अनेक झंझटों से बचा लेते ।

भाई को यहां आए आज एक वर्ष पूरा हुआ । गए वर्ष उनके आने की आशा छोड़ देने पर एकाएक वे आज के रोज करीब बाहर बजे बोपहर के समय आ पहुंचे थे । इस एक साल में न जाने क्या-क्या देखना पड़ा है । आने वाला वर्ष अच्छा जाए तो बस है ।

कल माताजी का पत्र आया था । वे बहुत परेशान हैं, इससे बहुत चिन्ता होती है । दुःख होता है ।

कल शाम को महादेवभाई की समाधि पर बहुत सुंदर फूल सजाए थे । आज सुबह भी वे बिलकुल ताजा लगते थे, इसलिए उन्हें बबला नहीं । बहुत सुंदर दृश्य है । डा० साहब और कटेली साहब भी आए थे । डा० साहब सरोजिनी नायडू की तरह हर शनिवार को आते हैं ।

आज सुबह चार बजे उठी और डायरी लिखी । प्रार्थना के बाद भी काम किया । आज कुछ ठीक थी । थोड़ा पढ़ सकी ।

बापू कतरनों के काम में लगे हुए हैं । एक दिन कह रहे थे, “मैं अपने जीवन के आखिरी दिनों में तुम लोगों के लिए एक खासी चीज तैयार कर जाऊंगा ।” मेने कहा, “आखिरी दिनों में क्यों ? अभी तो आप को कम-से-कम पचास वर्ष और रहना है । १२५ वर्ष की बात तो आपने भरी सभा में की थी ।” बा कहने लगी, “किसके लिए छोड़

जाओगे? सुशीला के लिए?" बापू कहने लगे, "जो मेरा काम करेंगे, उनके लिए।" बाबोली, "अभी तो सुशीला और प्यारेलाल ही सब करते हैं न?"

बापू को कतरनों के काम से बहुत संतोष है। भाई से कह रहे थे, "तुम देखोगे कि एक सुंदर चीज बन गई है। जो कतरन चाहिए, उसे निकालते एक मिनट की बेर भी नहीं लगती। लाइब्रेरी की अलमारियों की तरह इनमें एक कम है। अनुक्रमणिका देखो और जो चाहो निकाल लो। अनुक्रमणिका सम्पूर्ण है। तो भी मैं अखबारों में से एक-एक की कतरनों को तारीखवार रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि बिना सूची के भी कोई देखना चाहे तो उसे बहुत मुश्किल न पड़े।" मीराबहन से कह रहे थे, "मेरा मन मां का-सा हो गया है। मां जितना अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उतना ही ज्यादा उसे प्यार भी करती है। मैं भी जितना ज्यादा इस काम में लगता हूँ, उतना ही ज्यादा उसमें विल लगता है।

"मैं रोज उसे ज्यादा अच्छा करता हूँ। सरकारी पेंपलेट-जंसी यह चीज नहीं है। वह तो करना ही था, इसलिए किया था। यह तो खुशी से करता हूँ, सो इसमें लीन हो जाता हूँ। मुझे बाकी सात साल यहां पर यही काम करना ही तो मुझे वह खटकेगा नहीं।"

मीराबहन हसी करने लगी, "हां, क्योंकि यह आपका बच्चा है और जबतक दूसरे बच्चे इसकी जगह न लें, यह आप पर कब्जा रखेगा। यहां से जाने से पहले दूसरे बच्चे इसकी जगह लेने ही वाले हैं।"

आज वर्षा थी। कल रात भी रही। दिन में आकाश खुला था, मगर सुबह खेलने की जगह भीगी होने के कारण खेल न सके। शाम को खेलने के समय वर्षा आ गई, सो दोनों वक्त का खेलना गया।

मीराबहन ने बालकृष्ण की पूजा में कल और आज बहुत ही सुन्दर फूल सजाए।

१२ सितम्बर '४३

सुबह पौने पांच बजे उठी। प्रार्थना के बाद आधा घंटा लिखने का काम किया। दोपहर को बहुत सोई। शाम को वर्षा आ गई। खेलना बन्द हो गया। शाम को घूमने के समय वर्षा बंद हो गई। घूमते समय बहुत दिनों बाद बापू ने अपनी कहानी सुनाई। मनु ने कोई कहानी कहने को कहा था। बापू इधर-उधर की सुनाते थे। वह भी अच्छा लगता था, मगर मैंने कहा, "बापू, आप अपनी कहानी सुनाइए न?" तब बापू ने जो आरम्भ की थी, उसीको आगे कहना शुरू किया। बिलायत में जब एक कमरा लेकर रहते थे तब का वृत्तान्त था। सुबह दलिया, एक चाइंट\* डूब और थोड़ी रोटी लेते। दोपहर को बाहर छः पेनी (आना) काला भोजन लेते। शाम को दो छोटे

\*एक पाइंट—बीस ग्रैस यानी लगभग बीने बीस छंटाक।



सेब और रोटी घर पर खाते। दिन भर अभ्यास करते। मंत्रिक्युलेशन की तैयारी के लिए उन्होंने ट्यूटर रखा था, जो हफ्ते में दो बार घंटे-दो घंटे का समय अन्य दो विद्यार्थियों के साथ उन्हें देता था। लंडन में खास मदद की आवश्यकता पड़ती थी। पहली बार तीन महीने की तैयारी के बाद परीक्षा दी, फिर भी लंडन में असफल रहे। दूसरी बार रसायनशास्त्र की जगह 'ताप' (Heat) और 'प्रकाश' (Light) लिया था। एब्लिंग की पुस्तक पढ़ी और परीक्षा देकर तुरंत ब्राइटन चले गए और वहां वे एक महीना रहे। एक-एक मिनट अभ्यास में लगाते थे। साथ में फ्रांसीसी भाषा की राबिन्सन क्रूसो ले गए थे। उसे पढ़ते थे। अपना खाना स्वयं पकाते थे। उनका खर्च सत्रह शिलिंग प्रति हफ्ते का था। बताने लगे कि कैसे वे परीक्षा के नतीजे के तार की राह देखते थे। आखिर एक दिन बाहर से आ रहे थे तब सीढ़ी चढ़ते समय मकान मालकिन ने उनके हाथ में तार दिया। पास हो जाने की खबर से कितना खुश हुए, यह सब बताया।

यही सब बातें उनकी 'आत्मकथा' में लिखी हैं, लेकिन बापू के मुंह से सुनने में और ही रस आता है।

सुबह चाय के समय, बापू के जन्म-दिन पर कथा करना चाहिए, इस पर बात चली। देशी तारीख के अनुसार जन्म-दिन २६ सितम्बर को आने वाला है।

बापू का मौन है। रामायण इत्यादि का पाठ बन्द रहा। बहुत-से अखबार इत्यादि इकट्ठे हो गए थे। उन्हें पढ़ा। थोड़ी-सी यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी। अभी 'पास्ट ऐंड प्रेजेंट' पढ़ने का विचार है। रात में वर्षा होती रही, मगर इस वक्त आकाश खुला है। आज रसोईघर में भी छुट्टी का दिन है। सब घर सूना-सूना-सा लगता है। वायु-मण्डल में गर्मी की ऋतु का आभास है।

रात को मौन छोड़ने के बाद भाई बापू से कहने लगे कि उन्हींकी पसंद के उनके लेखों का एक संग्रह निकाला जाय। बापू बोले, "बहु अच्छा तो होगा, मगर इस बारे में इतना काम हो चुका है कि अभी और न किया जाय तो भी चल सकता है। प्रभु कर रहा है। निर्मल बोस का काम अच्छा माना जाता है। आनन्द ने भी खूब मेहनत की है। गुजराती में नगिनदास अमुलकराम के काम की पूरी कीमत नहीं आंकी गई, मगर उस काम पर अपार मेहनत हुई है।"

भाई कहने लगे, "उस गुजराती संग्रह का बहुत-सा भाग अंग्रेजी में नहीं आया है, इसलिए उसका अनुबाद होना चाहिए।"

भाई आजकल बहुत उत्साहित हैं। खूब काम करते हैं। बापू को इससे बड़ा संतोष है। यहां पर नियमितता की आदत पड़ जाये तो बाहर जाकर उनका काम बहुत आसान हो जायगा।

१३-१६ सितम्बर '४३

इसने दिन डायरी नहीं लिख पाई। अच्छा नहीं लगता था। एक अनुभव लिया है। सुबह बापू से पहले उठ जाती थी, सो घंटा-डेढ़ घंटा सुबह काम के लिए मिल

जाता था। एक दिन तो ढाई बजे उठ गई। सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है।

१७ सितम्बर '४३

आज सुबह नहीं उठी। इससे सुबह कुछ काम नहीं कर पाई। बापू की मालिश व स्नान के बीच थोड़ा समय मिला। उसमें कुछ पढ़ा। दोपहर भी आज बहुत कम काम हो पाया।

शाम को वर्षा आई। बाहर खेलना बन्द हुआ। भीतर पिंग-पींग खेले। डा० साहब के घुटने में थोड़ा दर्द है। दो रोज पहले बहुत खेले थे। उससे ऐसा हो गया। इसलिए वे थोड़े दिन तो खेल ही नहीं सकते।

कल से शाम को कातने के समय कार्लाइल की किताब भाई बापू को पढ़कर सुनाते हैं। मैं उतने समय में कात लेती हूँ और फिर मनु को सिखाती हूँ। भाई को यह कार्यक्रम अनुकूल है।

आज सुबह घूमते समय बापू मीराबहन के साथ इसेबेला डन्कन (Isabella Duncan) की बात कर रहे थे। उन्हें लगता था कि जिन पुरुषों के सम्पर्क में वह आई, उन्होंने अगर उसकी निर्दोष वृद्धि की रक्षा की होती तो कौन जाने आज वह कितनी उन्नति कर गई होती। कुछ रुककर बोले, "मेरा यह दृढ़ मत है कि स्त्री जब भी गिरती है, उसे गिराने वाला पुरुष होता है। पुरुष अधिकतर मेरे साथ इस विषय पर सहमत नहीं होते, मगर मेरा मत अचल है।" मीराबहन को यह पुरुषों के प्रति कठोर मत लगा, मगर लोटने का समय हो गया था, इसलिए चर्चा आगे चल नहीं सकी।

रात को मालिश के समय भाई बापू से बोले, "आज सरकार की नीति का विरोध बाहर रहकर पूर्णतः अहिंसा के द्वारा कैसे किया जा सकता है?" बापू कहने लगे, "अहिंसा के द्वारा ऐसा करने का सबसे अच्छा रास्ता अनशन है। हज़ारों की संख्या में लोग ऐसा करें तो चमत्कारी परिणाम आ सकता है, मगर इस रास्ते पर चलने वालों में भी पूर्ण अनासक्ति व अहिंसा और ईश्वर में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए।" भाई ने कहा, "अनशन कठिन है। लोग करना शुरू तो करें, मगर उस पर टिके रहना आसान नहीं है। इससे तो हाराकिरी ज्यादा आसान है।" बापू बोले, "अनशन में ईश्वर को जंसा करना हो, बंसा करने का मौका मिलता है। वह स्वाभाविक और सीधी क्रिया है, इसलिए हाराकिरी से यह तरीका ज्यादा अच्छा है।"

१८ सितम्बर '४३

परासों सरकार की तरफ से खबर आई थी कि मध्यप्रान्त की सरकार मनु को छोड़ने का विचार कर रही है। अगर वह स्वेच्छा से रहना चाहे तो आज की शर्तों के मुताबिक रह सकती है। मनु ने रहना पसंद किया।

मीराबहन को मित्रों की पत्र लिखने की इजाजत मिली है। आज उनसे पुछाया गया कि वे जिन्हें पत्र लिखना चाहती है, उनके नाम बताएं और कारण बतावें कि

उन्हें क्यों लिखना चाहती हूँ। नाम तो उन्होंने पहले से ही दे रखे हैं। बापू का मत है कि ज्यादा कड़ा जवाब होना चाहिए। मीराबहन आज उत्तर तैयार कर लाईं, मगर वह काफी कड़ा नहीं था। अब दूसरा उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगी।

आज बापू ने सीताफल (शरीफा) के बीज बोए। पांच गड्डे खुदवाए थे। तीन में दो-दो बीज बापू ने डाले और दूसरों में डा० गिल्डर से डालने को कहा। पांच बीज बाकी थे। डाक्टर साहब ने तीन एक गड्डे में और दो दूसरे गड्डों में डाले। पानी डालकर हम लोग वापस आ गए। महादेवभाईकी समाधि के चारों ओर भी सीताफल बोने के लिए गड्डे खुदवाए हैं।

१६ सितम्बर '४३

सुबह खेलने के समय बर्षा हो रही थी। शाम को आकाश खुला था। थोड़ा खेल सके। आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। महादेवभाई की समाधि पर सवा सात बजे फूल चढ़ाने आने का सुझाव कटेली साहब ने दिया है; क्योंकि सर्पाधि और दूसरे जगली जानवरों का डर है। इसलिए आज बापू जल्दी फूल चढ़ाने गए।

कल शाम को मैं अपने तैल-चित्र के रंग खोलकर देख रही थी। कचरे में से लकड़ी का एक टूटा टुकड़ा भाई को मिला, उसी पर मैंने एक पहाड़ी चित्र बनाया। सब-को तस्वीर खासो जंची। पहाड़ियों पर का संध्या-काल का दृश्य है। चित्र बनाना मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, परंतु समय निकालू तो कहा से! मुझे अभी कितना सीखना है! कितना काम करना है!

२० सितम्बर '४३

सुबह साढ़े चार बजे उठी। सवा पांच तक लिखा। इतने में बापू उठ गए। प्रार्थना के बाद सो गई। आज बापू का मौन है, इसलिए हमारी छुट्टी रही।

रसोईघर में मैंने रोटी बनाने में एक घंटा लगाया। कल शाम को सिपाही... ने रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन आज बनाने को तैयार है। उसकी छुट्टी के रोज उसे रोकना मुझे ठीक नहीं लगा, तो भी सुबह वह रसोईघर में ही रहा। उसने बताया कि उसने एक दूसरे सिपाही के साथ दूधी (घिया) का मुरब्बा बनाया और कमरे में रख आया है। शाम को मैंने देखा तो मुरब्बे का चौथा हिस्सा भी नहीं रह गया था। बा ने सिपाहियों के जमादार से कहा, "सिपाही लोग बेचारे... का मुरब्बा खा गए होंगे!" इस पर जमादार ने... को खूब डाटा कि उसने शिकायत की है। बेचारा रोने जैसा हो गया। एक तो मुरब्बा गया और दूसरे डांट खाती पड़ी।

दोपहर को मैंने 'मून वॉयेज'\* (Moon Voyage) पुस्तक पूरी कर ली, शाम को चित्र पूरा करने गई, मगर अंधेरा जल्दी हो गया। अंधेरे में पूरा करने की कोशिश

\*क्रीमीमी लेखक जूलसवर्न का उपन्यास, जिसमें पृथ्वी से चंद्रलोक तक की यात्रा का वैज्ञानिक आधार पर काल्पनिक वर्णन आता है।

की । कल दिन में पता चलेगा कि वह सुधरा या बिगड़ा ।

२१ सितम्बर '४३

चित्रकारी का अभ्यास में सोमवार के दिन ही करती हूँ, मगर भाई कहते हैं कि तस्वीर जल्दी पूरी करूँ तो अच्छा हो । मैंने उनके पास से सुबह का वक्त लिया । वे बापू की मालिश में गए । मैं चित्र बनाकर पीने बारह बजे लौटी । आकर जल्दी खाना खाया ताकि रामायण में ज्यादा देर न हो । भाई ने बापू से जाकर कहा, "इसे रामायण न कराइए । जल्दी खाना खाती है ।" बापू को पहले से ही बुरा लग रहा था कि आज कार्यक्रम तोड़कर चित्रकारी का अभ्यास करने को गई । खूब डांट पड़ी । बोले, "अगर जाना ही था तो मुझसे पूछ लेना चाहिए था ।" मैंने गलती स्वीकार की । नतीजा यह हुआ कि रामायण केवल पंद्रह ही मिनट हुई ।

२२ सितम्बर '४३

सुबह घूमते समय बापू मीराबहन के साथ बातें करने लगे । मीराबहन बोलीं, "सरकार आपकी अहिंसा को पहचानती नहीं है । थोड़ी हिंसा देखकर उसे लगता है कि सब हिंसा-ही-हिंसा है । क्यों न हो, आखिर आपको भी तो इतने वर्ष यह पहचानने में लगे कि हिंसा के बीच अहिंसा काम कर सकती है अथवा नहीं । आप तो कहते थे कि जरा भी हिंसा हो तो अहिंसा नहीं चल सकती ।" बापू ने कहा, "हां, अगर वह इस चीज को पहचाने तो उसका व्यवहार दूसरा ही हो । और मुझे देर लगी, इसका मुझे अफसोस नहीं है । मेरे लिए तो यह मेरा स्वाभाविक विकास था । अन्य प्रकार से मैं इस तरह आगे चल ही नहीं सकता था । मुझे तो एक-एक कदम टटोलकर चलना है न ! नया रास्ता निकालना है, सो इसी तरह मैं प्रगति कर सकता हूँ ।"

२३ सितम्बर '४३

आज सुबह ग्यारह बजे स्नान-घर में मैं नहाने के टब में खड़े होकर फव्वारे के नीचे स्नान कर रही थी । पंर में साबुन लगाया था । इससे फिसली और टब में गिरी । सिर टब के किनारे पर लगा । घड़ी भर बेसुध-सी रही, मगर ठंडा पानी तो ऊपर से पड़ ही रहा था, इसलिए होश में आ गई । पर उठा नहीं जाता था । सिर में खूब चोट आई थी । मुझिल से साबुन धोकर कपड़े पहने और आकर बा की खाट पर सो गई । किसी की आवाज सहन नहीं होती थी, इसलिए भाई के कमरे में दरवाजे बन्द करके दिन भर पड़ी रही । दिमाग को चोट लगी थी । उठने या चलने से या आवाज से तकलीफ होती थी । बोलना तो बहुत ही बुरा लगता था । थोड़ी और चोट आई होती तो खोपड़ी फूट गई होती और मैं चल ही होती । बापू का जन्म-दिन बिगड़ता ।

शाम को हिम्मत करके उठी और कतरनों में कुछ पर्चियां लगाईं । पीछे बहुत ही धीरे-धीरे चली । आवाज से सिर में धक्का-सा लगता था । रात को प्रार्थना में भी नहीं बैठ सकी । नींद अच्छी आई ।

## जेल में बापू का दूसरा जन्मदिन

२४ सितम्बर '४३

आज भी पड़ी रही और दोनों वक्त को प्रार्थना में नहीं बँठी। खान्ने को उज्जी ४ बाद में कतरनों का काम किया। रसोईघर का काम देखा। पढ़ना-लिखना वर्गरा कुछ नहीं किया। मंगलवार की रात को हम लोग विचार कर रहे थे कि बापू के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में क्या करना चाहिए। आज भाई कहने लगे कि हम सब धर्मों का एक मंदिर बनाकर उसे अच्छी तरह सजावें। मैंने इसमें जोड़ा, "और हम सब धर्मों के प्रतिनिधि बनकर बापू का साल-सुबारक कहने जावें। उस मंदिर में बापू के दीर्घायु होने की प्रार्थना करें।" भाई को यह पसंद न था। बापू को किसी तरह की कृत्रिमता पसन्द नहीं है और अभिनय से अरुचि है। मीराबहन आदि खेल रहे थे। मैंने मीराबहन से जाकर बात की। वे कहने लगीं, "धार्मिक चीज यानी प्रार्थना आदि के साथ अभिनय की चीज को मिलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर कुछ देशों के नेताओं वगैरह की नज़ाल हो तो ठीक है।" मैंने कहा, "तो ऐसा ही कोजिए। डा० गिल्डर को स्टालिन और कटेली को रुजवेल्ट बनाइए। आप स्वयं क्यांग कार्डि-शेक बनिए।" वे बोली "तुम मंडम क्यांग कार्डि-शेक बन जाओ। उसका भी तुम्हारी तरह छोटा कद है और बाल बंटे हुए ४ प्यारेलाल को चंचिल बनना पड़ेगा। वही एक मूछकटा है।" "भगर वे सब लोग झोटे हैं। हमसे ऐसा मोटा कैसे बना जाए? सब अपने-अपने काम का विचार करें।" यह कहकर मैं साढ़े दस बजे लौटी।

दूसरे रोज भाई बोले, "मुझे तो अभी भी यह नहीं जंचत। मैं मीराबहन से बात करूंगा।" मीराबहन से उन्होंने बात की तो उन्होंने सब धर्मों के मंदिर की बात पसंद की। भाई ने कागज़ का मंदिर बनाने को कहा, पर मीराबहन ने मिट्टी का बनाने का विचार किया। सब धर्मों के प्रतिनिधि भी बापू को साल सुबारक कहने जाए। मंदिर में प्रार्थना करने हम लोग न जावें, यह उनकी सलाह थी। मीराबहन कहने लगीं, "सुशीला को फूक और टोपी पहनाकर पारसी लड़की बनावेंगे। मैं सिल बन जाऊंगी, डा० साहब पठान, प्यारेलाल किश्चयन और मनु हिन्दू साधू।"

मनु के बाल लम्बे होने के कारण आखिर उसे ही पारसी लड़की बनाने का विचार किया गया। मुझे रोमन कैथोलिक साधु और भाई को मद्रासी ब्राह्मण बनाने की सोची ४ भाई की नापसंदगी जारी थी। कहने लगे, "मुझे तो अच्छा नहीं लगता। करना ही है तो मुझे छोड़ दो।" मैं चुप रही। शाम को मीराबहन मुझे बुलाकर ले गई और क्या करना ४

चाहिए, यह सोचने लगीं। मैंने कहा, “भाई से पूछ लो तब पीछे कुछ तय करेंगे।” रात को मैं बंदी अखबार पढ़ रही थी। भाई जल्दी सो गए थे। मुझे कल और आज बिन भर सोने के कारण रात को नींद नहीं आ रही थी। इतने में मीराबहन आकर बातें करने लगीं। उनके हाथ में दर्द अभी तक होता है। आज ज्यादा था। बोलीं, “बहु विशेषज्ञ चला गया है। वो चार बार और कसरतों वाला इलाज करता तो मेरा हाथ अच्छा हो जाता।” मैंने कहा, “डा० गिल्डर से क्यों नहीं इलाज कराती?” कहने लगीं, “नहीं, इन्होंने ऐसा काम किया नहीं है। उस विशेषज्ञ का गुण तो उसीके साथ गया। मीराबहन को डर है कि कहीं गर्दन उतर (dislocate) न जाए।” मैंने कहा, “गणपति के दिन है। हाथी का सिर तो यहाँ नहीं मिलेगा, मगर किसी बकरी का पसंद कर लो तो वह लगा देंगे।”

आज पता लगा कि मीराबहन को सचमुच यही डर है। मैंने समझाने की कोशिश की कि डरने की आवश्यकता नहीं है, पर उन्हें संतोष नहीं हुआ। बोलीं, “आखिर गर्दन तो मेरी है। मैं कोई खतरा उठाना नहीं चाहती।”

२५ सितम्बर '४३

आज भी सुबह प्रायना में नहीं उठी। रात को नींद बहुत देर से आई थी। साढ़े तीन बजे बा को बड़ी खांसी आई थी, तब उठी थी। उसके बाद अच्छी नींद आई, सो सुबह तक सोती रही। सुबह भाई फिर कहने लगे, “स्वांग भरने में मैं भाग नहीं लेना चाहता।” मीराबहन से भी यही कह आए। मैंने समझ लिया कि यह प्रस्ताव अब गया। पारसी कपड़े मंगाए थे, सो लौटा दिये। भेजकर आ रही थी कि मीराबहन ने मुझे बुलाया। कहने लगीं, “पूरा स्वांग हम करेंगे।” मैंने कहा, “मैंने तो कपड़े लौटा दिये।” बोलीं, “बापस मंगवाओ।” मैंने कहा, “अब आप ही मंगवाइए।” उन्होंने जाकर मंगाए। फिर अपनी एक सलवार डा० साहब को दी। उन्होंने एक सफेद कुर्ता, ऊपर से वास्काट व चेक का एक लम्बा कोट पहना। भाई ने पगड़ी बांध दी। डाक्टर साहब खासे पठान बन गए। मीराबहन ने डा० साहब की पतलून, लाल कुर्ता, सफेद कोट और अपने ओढ़ने की लहरियादार पगड़ी पहनी। कोट के ऊपर की जेब में रेशमी रुमाल बाहर झांक रहा था। भाई ने मेरे कटे बालों की दाढ़ी बनाकर उन्हें दी। पेस्टिल रंग से मूँछ बनाई। बस, बयार्लिसह कॉलेज का सिख जवान तैयार हो गया। उसी तरह से अकड़ कर चलती थीं। हंसते-हंसते हमारे पेट में बल पड़ गए। मनु को पारसी कपड़े पहनाये गए। मैंने मीराबहन का एक लम्बा काला-सा ऊन का चोगा पहना। कमर में रस्सी बांधी। पेस्टिल से कुछ नई जमतों हुई दाढ़ी-मूँछ मीराबहन ने बना दीं। ख्रिस्ती साधुओं के जत्थे में दाखिल होने वाला नया नवयुवक तैयार हो गया। भाई आज तैयार नहीं हुए।

फँसला किया गया कि नवयुवक साधु एक गुलबस्ता और ईसाई धर्म फँसलाने की किताबें भेंट करे। पारसी लड़की फल दे। सिख जवान हलुबा और मिठाई तथा पठान सूखी मेवा और मद्रासी ब्राह्मण नारियल व नींबू भेंट करे।

कल कँदियों को देने के लिए बेसन को मिठाई और बिबड़ा मँने और मनु ने मिल कर बनाया। बहुत थक गई। रामायण पढ़ी। बापू ने बाइबिल पढ़ी और मँने सुनी। सुनते-सुनते कतरनों का काम भी करती रही। दोपहर सो नहीं सकी सो साढ़े तीन बजे सो गई। उर था कि आज रात को जागना ही होगा, इसलिए बिन में जो नींद न ली तो काम बिगड़ेगा। शाम को घूमते समय बापू कहने लगे, “पिछले साल तुम लोग रात भर जागे थे, इस बार मत जागना।” भाई कहने लगे, “बापू, सारा साल आपका, एक रात हमारी।” मँने कहा, “बापू, कल के कार्यक्रम का निश्चय कर लें।” कार्यक्रम की बात के सामने और बातें टल गईं।

आज शान्तिकुमारभाई के यहां से सामान आया। बापू की तीन धोतियां, हाथ पोंछने के दो रुमाल, एक छोटा रुमाल और एक नारियल। नारियल पर स्वस्तिक का चिह्न था और उसे एक पोली पगड़ी पहनाई हुई थी। साथ में सुंदर सूत का कता एक हार था।

रात को भाई ने जेल के सुपरिण्डेण्ट के नाम एक खत लिखा। डा० गिल्डर ने उसे टाइप किया। दोनों ने मिलकर सबके नये नाम रखे। भाई ने सबके विजिटिंग कार्ड तैयार करने का काम अपने ऊपर लिया।

दोपहर मँने सिपाहियों और कँदियों के लिए थालियों में मिठाई रखी। रात को मीराबहन, मनु और डाक्टर साहब की भेंट के लिए सामान तैयार कराया। भाई ने बरामदे में इलोक लिखे। मीराबहन ने दोनों किनारों पर रेखाएं खींचीं। मँने उन पर रांगोली डालकर उसे पूरा किया। पहले सफेद रांगोली से इलोक लिखना आरम्भ किया, मगर सफेद संगमरमर पर वह अच्छा उठता नहीं था। मीराबहन ने कुछ कुंकुम, कुछ गुलाल और सफेद रांगोली, सब मिलाकर बहुत सुन्दर हल्कातरबूजी रंग बनाया। मेरा काम रात के दो-हाई बजे पूरा हुआ। डेढ़ बजे मीराबहन आईं। मेरे लिए अभी तीन लाइनें और आखिर का ॐ पूरा करना बाकी था। इसलिए मीराबहन ॐ बनाने लगीं। उन्हें पौन घंटा लगा होगा। उतने समय में मँने तीनों लाइनें करीब-करीब पूरी कर लीं। दो-तीन शब्द रह गए थे। पूरा करके हम लोग सोने को चले। ढाई बज चुके थे।

बरामदे की सजावट पूरी हुई तो इस तरह की थी—नीली पेन्सिल के निशान सफेद रांगोली के थे, स्याही के निशान तरबूजी रांगोली के, लाल पेन्सिल के निशान गुलाल के।

बापू के कमरे की तरफ से शुरु करके पहले कमल का-सा आकार बनाया, फिर लिखा:

सत्यमेव जयते नानृतम्  
जीवेम शरदः शतम्  
पश्येम शरदः शतम्

श्रुणुयाम शरदः शतम्  
 अदीनास्याम शरदः शतम्  
 प्रब्रवाम शरदः शतम्  
 भूयश्च शरदः शतात्  
 असतोमा सद्गमय  
 तप्तसोमा उषोर्निर्गमय  
 मृत्योर्मांसमृतं गमय

अंत में ॐ और स्वस्तिक के चिह्न अंकित किये। बापू घूमनेको निकले तब सामने से यह सब पढ़ सके, इस तरह लिखा था।

२६ सितम्बर '४३

सवेरे पांच बजे बापू ने मुझे प्रार्थना के लिए उठाया। बापू को प्रणाम करके प्रार्थना की तैयारी की। मनु प्रणाम करना भूल गई। प्रार्थना के लिए सब लोग बैठ गए, तब मैंने उसे याद दिलाया। वह समझती थी कि जब हार वेंगे तभी प्रणाम भी करेंगे। जब मैंने कहा तब भागी-भागी गई। बापू छाट पर लेट गए थे। वहाँ जाकर प्रणाम कर आई।

साढ़े छः बजे डा० गिल्डर उठे। विजिटिंग कार्डों पर नाम टाइप करना बाकी था। भाई रात में नहीं टाइप कर सके, क्योंकि आवाज होती थी। मैंने डा० गिल्डर को टाइप करने को कहा। उन्होंने तैयार कर लिया।

सात बजे कटेली साहब आए। वे पारसी पगड़ी और लम्बा सफेद कोट पहने थे। एक सुन्दर, हाथ के बने बटवे में ७५) रु. हरिजन-फण्ड के लिए बापू को भेंट किये और प्रणाम कर गद्गद कंठ से कहने लगे, “बहुत जीओ और आपके मनोरथ सफल हो। आपकी फ्रतह के लिए मैं दुआ करता हूँ।”

सुंदर दृश्य था! डाक्टर साहब ने खत तैयार करके मुझे दिया और मैंने कटेली साहब को दे दिया। उसमें बापू को उनके जन्म-दिवस पर बधाई देने के लिए भेंट करने का सरकार से आज्ञा मांगी थी।

जल्दी से चाय-दूध पीकर हम लोग अपने-अपने कपड़े पहनकर चले और डाइनिंग रूम के खाली हिस्से में जा बैठे। कटेली साहब बापू के पास खत लेकर गये। बापू ने मेहमानों से मिलने आने में थोड़ी देर लगाई। मुझे डर लगा कि बापू को कहीं यह सब ना-पसन्द न हो। मगर बापू तो अपना काम पूरा करके उठना चाहते थे, ताकि सीधे घूमने को जा सके। बापू आकर खड़े हुए। हंस्ते-हंस्ते बोले, “आप लोग कहां से आए हैं?” पहले जेम्सबई (मनु) बंठी थी। वह अपनी फल की टोकरी लेकर उठी और बोली, “महात्माजी, साल मुबारक।” उसके बाव बबर लॉरेंस (मं) बैठे थे। वह अपना गुलबस्ता और माउण्ट आब ब्लेसिंग्स भेंट करते हुए बोले, “भगवान करे, आप बीघायु हों।” पीछे रामाबुल्लू नाम्बूदीपार (भाई) बैठे थे। अपने नारियल और नीबू की भेंट लेकर।



कोखती\* पहने बँठे थे। मलयाली भाषा का अभिनय करते बोलते हुए बापू के सामने लेट गए और साष्टांग प्रणाम किया और भेंट दी। फिर सरदार शमशेर सिंह (मीराबहन) मिठाई का थाल भेंट करते हुए 'सत् श्री अकाल' बोले और आखिर में सरदार सिक्ंदर अकबरखान (डा० गिल्डर) सूखे मेवों और सेबों की टोकरी लेकर आगे आए। बोले, "तीड़ा माधो मलंग बाबा †।" और हाथ मिलाया। सब लोग हँसते-हँसते लोट-पोट हो रहे थे। बापू और बा भी बहुत हँसे। बापू कह रहे थे कि सबका भेत सम्पूर्ण था।

बापू मेहमानों को साथ लिये महादेवभाई की समाधि की ओर चले। नीचे उतरे तो सिपाहियों की कोठरियों के पास आने पर कटेली साहब ने जोर से पुकारा, "जमादार किधर हैं?" बेचारा . . . तैयार नहीं था। उन्होंने फिर पुकारा, "जमादार किधर हैं? बाहर के आदमियों को कैसे आने दिया?" . . . आंखें मलते-मलते जल्दी से कपड़े पहनकर निकला। श्री कटेली उससे फिर बँसे ही बोले। उस बेचारे का चेहरा देखने लायक था। पीला पड़ गया। इतने में सब लोग हँस पड़े। बाव में कह रहा था कि उसने डा० साहब और मीराबहन को तो बिल्कुल ही नहीं पहचाना।

समाधि पर फूलों का एक हार महादेवभाई की तरफ से बापू को पहनाया। फूल चढ़ाकर और प्रार्थना करके वापस लौटे। मीराबहन अपनी बकरियों को सजाने लगीं। मैं और मनु ऊपर आए। कपड़े बदले। मुझे तो वह ऊनी पोशाक बहुत चुभ रही थी। बकरियों के लिए बिस्कुट लेकर नीचे गए। सब बकरियों को हार भी पहनाए गए थे। अच्छी दिखती थीं। तीन ने बिस्कुट खाए। बाकी को बिस्कुट पसंद न थे।

बापू ने कहा था कि आज खेलना जरूर चाहिए। जाली लगाकर हम लोग बेटमिन्टन खेल आए।

आज बा ने बापू के हाथ के कते सूत की लाल किनारी की साड़ी पहनी। मनु बता रही थी कि जब सेवाग्राम से वह जाने लगीं तब बा ने उससे कहा था, "यह साड़ी जानकोबहन के यहां रख दो। यहां कहीं जब्ती बगैरह हो तो यह सुरक्षित रहे। मरते समय यही मेरी देह पर हो।"

मनु ने और मैंने भी लाल किनारी की साड़ी पहनी। अच्छा लगा।

घूमने से लौटकर भाई और डा० गिल्डर ने बापू की मालिश की। मैंने कंदियों के लिए खाना पकवाने का सामान निकाला। फिर सुबह जो मिठाई आदि आई थी, वह सम्भाली। बापू के लिए बाजरे की खिचड़ी चढ़ाई।

बापू ने कहा था, "बेलो, ऐसा न करना कि हम लोग स्वाद के चक्कर में पड़ जाएं। हमें तो ऐसा कार्य करना है जिससे यह जाहिर हो कि हम असलियत में बंगाल के भुखमरे लोगों की विपदाओं में हिस्सा बटा रहे हैं।" सो यह तय हुआ कि हम सब लोग

\* थोढ़ने का वस्त्र जिसे ट्रावनकोर की यात्रा में इस्तेमाल किया था।

† पठान अभिवादन, जिसका शान्दिक अर्थ है, "आपको कभी थकान न हो।"

बाजरा खाएँ। कंदियों के लिए भी बाजरे की खिचड़ी, सब्जी और कढ़ी पकाई गई। बापू के लिए सादी खिचड़ी बिना छौंक और मसाले के तैयार की और उसीमें थोड़ी-सी सब्जी भी डाल दी। बा, मीराबहन और मैंने उसीमें से थोड़ी-थोड़ी ले ली। मनु और भाई ने कंदियों वाला खाना खाया। मैंने और डा० गिल्डर ने भी कढ़ी चली। उसमें बहुत मिर्च थी।

बापू स्नान करने निकले। उस समय हम लोग अपने-अपने सूत के हार तैयार कर रहे थे। एक बापू के लिए और दूसरा बा के लिए। हारों के नीचे गँदे का एक-एक फूल लगाया और गुलाल के ७५ टीके। साढ़े ग्यारह-पौने बारह बजे सब तैयार होकर गए। डा० गिल्डर ने स्वतन्त्रता के दिन, राष्ट्रीय सप्ताह आदि के अवसरों पर जो सूत काता था, उसका एक छोटा-सा हार बनाया। पहले बा ने बापू के टीका लगाकर हार पहनाया, फिर डा० गिल्डर, मीराबहन और कटेली साहब ने फूलों का हार पहनाया, फिर भाई ने। आखिर मैं मैंने और मनु ने बापू और बा के टीका किया और हार पहनाया।

डा० गिल्डर और कटेली साहब भी थोड़े टीका करने आए और बा के लिए चप्पल, लकड़ी का चम्मच और कांटा, अपने यहां के पेड़ के नारियल और गुड़ और गेहूं की एक-एक कटोरी लाए थे। उनके फूलों के हार बहुत ही सुन्दर थे। एक खन्वन की माला भी लाए थे। बापू और बा फूलों के ढेरों में बहुत ही सुन्दर दीख पड़ते थे। मुबह शांतिकुमारभाई के यहां से फूलों की टोकरी आई थी। रघुनाथ भी बाहर से फूल लाया था। मीराबहन ने कमरे में उन्हें सजाया। सिपाही लोग तोरण सबेरे ही बांध गए थे। कमरा महक रहा था।

इसके बाद प्रार्थना में बैठे। पहले 'ओ गॉड आवर हेल्प इन एजेंज पास्ट' गाया। फिर 'मूकं करोति वाचाल', 'ईशावास्य मिदं सर्वं', 'अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्', 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव', 'असतो मा सद्गमय' आदि श्लोक\* गाए।

\* (१) अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्  
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्।  
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो  
भूयिष्यते नम उक्ति विधेम॥

'सब मार्गों के जानने वाले हे अग्निदेव! जिस रीति से हमें (अपने) ध्येय की (निश्चित) प्राप्ति हो, उस रीति से, तुम हमें भ्रष्टे रास्ते ले चलो। हमसे हमारे कुटिल पापों को भ्रमण कर दो (मिटो दो)। हम तुम्हें बार-बार नमस्कार करते हैं।'

(२) असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मां मृतगमय॥

'हे प्रभो! मुझे असत्य से सत्य में ले जा। अंधेरे से उजाले में ले जा। मृत्यु से अमरता में ले जा।'

इलोकों के पाठ के बाद 'अउज अबिल्ला' और 'बंघणवजन तो तेने कहिए' गये और राम-धुन खलाई। सब कुछ भली प्रकार सम्पन्न हुआ। तब बापू को खाना खिलाया। बा भी बैठ गई। दोनों ने साथ खाया। खाने के बाद सिपाही हार पहनाये आए। सबको एक-एक संतरा और एक-एक मोसम्बी दी। इतने में कैदियों का खाना आया। खिचड़ी, कढ़ी, सब्जी और एक-एक मोसम्बी सबको दी। पीछे हम लोगों ने खाया। पौने दो बजे लेटो, भगर नाँव न आई। डाई से साढ़े तीन तक काता। सूत उतारकर कतरनों के काम में बैठ गई। आज सबका संकल्प था कि सब लोग मिलकर पंचियां बिपकाने का काम पूरा करें। साढ़े चार बजे बापू ने बाइबिल पढ़ी। मने सुनी।

पांच बजे कैदियों की चाय तैयार हो गई। सबको बेसन की मिठाई, चिबड़ा, गांठिया,\* नमकीन सेब और चाय के दो-दो व्यंजने दिये। सिपाहियों को मिलाकर ३२ आदमी थे। इन्हें भी खिलाया। साढ़े पांच बजे कतरनों का काम पूरा हुआ।

बापू को दूध दिया और हम लोगों ने खालरा, दूध तथा फल खाए। इतने में वर्षा आ गई। खेलना तो हो ही नहीं सकता था।

मीराबहन शाम के चार बजे से मिट्टी का सार्वधार्मिक मंदिर बनाने में लगी थीं। भाई भी मजदूर कर रहे थे। दोनों घूमने नहीं आए। आठ बजे घूमकर लौटे तो बापू के कमरे का दरवाजा बन्द था। वहाँ मंदिर सजाया गया था। लकड़ी के एक पट्टे पर गीली मिट्टी की तह जमाकर उसके ऊपर एक तरफ मस्जिद, एक तरफ गिर्जाघर और बीच में महादेव का मंदिर बनाया था। उसके पास ही सरकण्डो के छिलकों का मण्डप बनाकर उसके अंदर पीले कनेर के फूलों से अगियारी† का स्थान बनाया था। सामने बगीचा। फूलवाली छः-छः नी-नी इंच की छोटी टहनियों को गीली मिट्टी में गाड़कर बगीचा बनाया था। आटे के छोटे-छोटे दीपक बनाकर उनमें घी की बत्तियां सामने और बाएं-बाएं रखकर जलाई थीं। बापू प्रार्थना के लिए भीतर आए तब बिजली बन्द थी। वहाँ छोटे-छोटे दीपक जल रहे थे। पीछे की तरफ जंगली झाड़ियों के गमले और सामने दोनों तरफ फूलों के गमले थे। सुन्दर

- (3) त्वमेव माता च पिता त्वमेव,  
 त्वमेव बहुद्वेष सखा त्वमेव ।  
 त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव,  
 त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

'हे देवो के देव' तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भाई है और तू ही मेरा मित्र । तू ही मेरी विद्या है, तू ही मेरा धन है और तू ही मेरा सब कुछ है ।'

\*बेसन की बनी नमकीन ।

†पारसियों का पूजा-गृह ।

दृश्य था। कमरे के बीच-सामने फूलों का 'अं' और उसके दोनों तरफ फूलों के स्वस्तिक बने थे। जितने फूलों के हार इत्यादि आए थे, वे दीवारों पर लटका दिये गए। कमरा फूलों से महक रहा था। बड़ा अच्छा लगता था। प्रार्थना में पहले 'ह्वेन आइ सर्व दि बण्डरस क्रॉस' गाया गया, फिर हमेशा की तरह प्रार्थना हुई। 'हरि ने भजतां हजी कोई नी लाज जती नयी जाणी रे' भजन गाया। मीराबहन ने 'गोपाल राधेकृष्ण' 'गोविन्द गोविन्द गोपाल' की धुन चलाई। प्रार्थना के बाद बापू की सिर-पंर की मालिश इत्यादि करके सब लोग सो गए। बहुत थके थे।

२७ सितम्बर '४३

सुबह उठकर कल का बनाया हुआ दृश्य देखा तो विचार आया कि स्वप्न-चित्र की तरह यह सब विलीन हो जायगा। उसके स्मृति को स्थायी कैसे बनाया जाय, यह सोचते हुए भाई मूससे कहने लगे, "इस मंदिर की एक तस्वीर बनाओ।" मैं अपने तेल वाले रंग और बर्तन लेकर बंठी और सवा ग्यारह तक काम किया। फिर बापू का खाना लाने को गई। दोपहर कुछ अखबार देखे, कुछ पढ़ा, डायरी लिखनी शुरू की। समय बीत गया।

शाम को बा के साथ प्रार्थना के बाद रामायण का अर्थ करके मैंने गीताजी के श्लोकों का अर्थ किया।

आज मुझे बुखार-सा लगता था, इसलिए जल्दी सो गई।

सुबह हम लोग बापू के कमरे से फूलों के हारों और गुलदस्तों का ढेर महादेव-भाई की समाधि पर ले गए। खूब सजावट की। सुन्दर दृश्य था।

२८ सितम्बर '४३

सुबह साढ़े ग्यारह बजे तक मैंने चित्रकारी की। डा० गिल्डर की तबीयत अच्छी न थी, इसलिए बापू की मालिश भाई ने और मैंने की। पीने दस बजे तक बापू के कमरे में बा की मालिश होती है। कमरा बन्द रहता है। उसके बाद ही चित्रकारी हो सकती है।

दोपहर बाद मनु को मैंने अंधेजी सिखाई। कुछ स्वयं पढ़ा और कुछ कतरनों का काम भी किया।

आज सुबह कलक्टर और डा० शाह ने मंदिर देखा। कलक्टर ने कहा, "मिरे खयाल में ये फूल इसी बगीचे के हैं।" डा० शाह देखकर लुप्त हुए।

२९ सितम्बर '४३

आज मंदिर मीराबहन के कमरे में चला गया। साढ़े नौ बजे चित्रकारी करने बंठी और साढ़े ग्यारह बजे तक की। बाकी दिन का कार्यक्रम हमेशा जैसा ही रहा।

शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है। कल कटेली साहब ने बापू की सूचना की

कि घूमने को सात बजे निकलें ताकि पौने आठ बजे वापस आ सकें। कल डा० साहब खेलने का समय पांच से छः बजे का करने को कहते थे। पहले तो मने इन्कार किया। साढ़े पांच बजे बापू को खाना देना होता है और पांच से साढ़े पांच तक उनके पास पढ़ना, मगर बापू को पता लगा तो उन्होंने आग्रहपूर्वक पांच का समय रखने को कहा। बापू शाम को साढ़े छः बजे कातेंगे। उसी समय पढ़ने का क्रम रखा जायगा। खाना वे पौने छः बजे लेंगे। मं पौने छः बजे वापस आ जाया कर्हंगी, यह तय हुआ। आज पांच बजे खेलने को गए। नीचे कोर्ट गीला था। ऊपर बरामदे में खेले।

बापू का खाना पौने छः बजे हुआ और कातना साढ़े छः से सात तक। सात बजे वे घूमने चले गए। पौने आठ से सवा आठ तक मने भाई के साथ इतिहास पढ़ा। प्रार्थना के बाद अखबार इत्यादि देखे। बंठी थी कि जोर से आंधी, तूफान और वर्षा आई। बाहर पड़े हुए सब बिस्तर अन्दर लाने पड़े। सब लोग अन्दर ही सोए। मच्छरो ने सबको खूब हंरान किया।

आज अवन्तिकाबाई गोखले के यहां से बापू के लिए दो जोड़ी धोती आईं। बापू कहते थे कि जरूर आवेंगी। आज तक वे इसमें कभी चूकी नहीं हैं।

३० सितम्बर '४३

आज भी सुबह साढ़े ग्यारह तक चित्रकारी की। कल बापू ने कहा था कि एक दिन से ज्यादा और समय चित्र के लिए नहीं मिलेगा, मगर मैं पूरा नहीं कर पाई। बापू से पूछकर कल उसे पूरा करने को इजाजत ली है। चित्रकला ऐसा काम है कि इसे उठाओ तो दूसरा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जाता है। सुबह का सारा वक्त इसमें चला जाता है।

दोपहर को आज मनु को परीक्षा थी। कल उसे प्रश्न लिखाए थे। आज उसने उत्तर लिखे और मेरे पीछे पड़े गई कि अभी देख दो। मने रात को प्रार्थना के बाद देखा। वाक्य बनाने वाला प्रश्न उसने बहुत खराब किया था। दूसरे अच्छे थे। दिन भर से शोर मचा रही थी—“मं फेल हुई तो रात को पढ़ा करूंगी।” उसकी आंखें कमजोर हैं, इसलिए रात को पढ़ने से बापू भना करते हैं।

मनु पास हो गई, तो भी रात में पढ़ने की इजाजत बापू से मांगने लगी। मगर बापू कब इजाजत देने वाले थे। रात को बिलरुबा बजा सकती है, इतनी इजाजत उन्होंने दी।

दिन का कार्यक्रम कल के जैसा चला। भाई के साथ शाम को इतिहास पढ़ा। प्रार्थना के बाद अखबार देखे। सोने को बहुत देर हो गई। नींद आने में और देर लगी। साढ़े बारह बजे के बाद सो सकी। बुरा लगा।

१ अक्तूबर '४३

सुबह चाय के समय कटेली साहब कहने लगे, “२२ अक्तूबर को डा० गिलडर

का जन्म-दिन है। उस दिन क्या करना है?" वो विचार मुझे आए। उनमें से एक तो बाबू में रूढ़ हो गया और दूसरा स्टेण्डर तैयार करने का अभी है, सो अच्छी ऊन मिली तो तैयार करेगे।

आज मंने पीने बारह बजे तस्वीर पूरी की। भारी बोझ सिर पर से उतरा। फिर दोपहर को बँठकर डायरी पूरी की।

अब दो अंक 'सोशल वेलफेयर' के और एक 'मेडिकल जर्नल' पढ़ने को है। फिर पिछड़ा हुआ पढ़ने का काम खतम हो जायगा।

कल शाम को भाई पृथ्वीचन्द का पत्र आया। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। लिखा था कि उन्होंने सरकार को तार-पर-तार दिये, पर समय पर न छोड़े जाकर वे पत्नी की मृत्यु के बारह दिन बाद पेरोल पर छोड़े गए। हिन्दू स्त्री के लिए मृत्यु से पहले पति का दर्शन बड़ी चीज है। बहुत कष्टनाशनक घटना है। भाई पृथ्वीचंद बड़े अशांत हैं। हम उन्हें पत्र भी नहीं लिख सकते। आखिर शांति देने वाला भगवान् ही तो है न!

२ अक्टूबर '४३

आज महादेवभाई को गए दूसरे वर्ष के छः हफ्ते पूरे हो गए।

३ अक्टूबर '४३

सुबह बहुत-से फूल तोड़े थे, मगर मैं पहुंची तबतक बापू ने प्रार्थना शुरू करवा दी थी। उनके कहने से फूल वापस ले आए। शाम को फूलों की चार थालियां समाधि पर लेकर गए। बा कहने लगीं, "शंकर भगवान् से कहना कि प्रसन्न हो और हमें जेल से निकालें।" बा हमेशा महादेवभाई की समाधि को महादेव या शंकर भगवान् का मंदिर कहती हैं। आज समाधि की सजावट बहुत सुन्दर हुई।

कल दोपहर को मंने खाने के कमरे का सामान ठीक कराया। वह कमरा सामान का लगता था। सरोजिनी नायडू के समय में सजा रहता था, बाद में कटेली साहब ने कुछ सामान वहां रखवा दिया। इससे कमरा भद्दा लगने लगा। आज सब सामान जब ठिकाने लगवाया तो कमरे की शकल बदल गई।

अभ्यास बगैरह फिर से नियमित शुरू हुआ है। अच्छा लगता है। लिखना कल से शुरू करूंगी।

४ अक्टूबर '४३

आज मंने मालिश से छुट्टी ली। सुबह इतिहास पढ़ा। दोपहर सारा समय संस्कृत-व्याकरण पढ़ती रही। शाम को कतरनों का काम करने और कातने के समय भाई पं० जवाहरलालजी की 'ग्लिम्पसेज आव बर्ड हिस्ट्री' ('विश्व इतिहास की झलक') पढ़कर सुनाते रहे। कार्लाइल की किताब लाइब्रेरी से फिर से निकालने के लिए कहा है।

रात को अखबार आदि देखे ।

५ अक्तूबर '४३

सुबह प्रायःना में पीने छः बजे उठे । पीछे सोने का सवाल ही नहीं था ।

बापू की मालिश के बाद इतिहास पढ़ा । दोपहर एक घंटा डाक्टरी अभ्यास किया और आधा घंटा अखबार पढ़ा । बापू अपनी कतरनों के काम में लगे हैं । भाई को अब यह बहुत अखरता है । 'बापू का समय क्या ऐसी चीजों में लगने देना ठीक है ?' यह सवाल उन्हें सताता है, मगर बापू अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं । आज मैंने पूछा, "इन कतरनों पर इतनी मेहनत होती है । इनका उपयोग कितना होगा ?" बापू कहने लगे, "यह तो तुम लोग जानो । थ्यारेलाल तो उपयोग करेगा ही । मैं नहीं करने वाला हूँ । मगर मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत-सी चीजें की हैं, जिनका उपयोग मेरे अपने लिए नहीं था ।"

बापू पाखाने चार वफा जाते हैं । उस समय वे जवाहरलालजी का लिखा इतिहास पढ़ते हैं— थोड़ी देर तक मालिश के समय भी पढ़ते हैं । सब मिलाकर डेढ़ घण्टे से अधिक नहीं होता है । बाकी समय अखबार देखने या कतरनों की अनुक्रमणिका बनाने के काम में लाते हैं । एक घंटा मेरे और मनु के लिए निकालते हैं । दोपहर खाने के समय मेरे साथ उनकी रामायण भी होती है और मीराबहन बाइबिल का कुछ अंश जो उन्हें अच्छा लगे या उनकी समझ में न आवे, पढ़कर सुनाती है । शाम को अखबार सुनाती है । आधा घंटा बापू कातने के लिए निकाल लेते हैं तब भाई पढ़कर सुनाते हैं । दो-तीन रोज से करीब पौन घंटा बा बापू से लेती है । गीता का उच्चारण सीखती है । बापू अर्थ भी बताते हैं । आजकल हम सब एक-एक मिनट नियमित हिसाब से काम में लगाते हैं ।

६ अक्तूबर '४३

शाम को साढ़े चार बजे खूब तूफान आया । वर्षा आई । दिन में बहुत गर्मी थी । तूफान के बाद ठंडक हो गई ।

मैंने शाम को घूमना बंद कर दिया है । सात बजे डा० गिल्डर के पास जाती हूँ । उन्हें कुछ डाक्टरी पाठ लिखने थे । मैंने कहा, "मुझे लिखाया कीजिए, जिससे कि आप का काम भी हो जायगा और मुझे भी कुछ अनुभव और ज्ञान हो जायगा । साथ ही सभी चीजें दुहरा लूंगी ।" उनके पास शाम का ही वक्त था । बापू ने इस काम के लिए घूमना छोड़ने की इजाजत खुशी से दे दी ।

सुबह बहुत-से फूल तोड़कर बापू का कमरा सजाया । शाम को उन्हें समाधि पर ले गई । यह बापू की आज्ञा थी ।

७ अक्तूबर '४३

आज भी शाम को वर्षा और तूफान आए । सुबह आज भी नहीं खेल सके । कल भी नहीं खेल सकेंगे । शाम को ऊपर बरामदे में ही खेले ।

आज बा को बुखार है। मनु उनके पास थी— खेल में नहीं आई। हम पिग-थींग खेल रहे थे। वर्षा शुरू हुई। मैंने सिपाही को बाहर के कपड़े उठा लाने को भेजा। थोड़ी देर में मीराबहन आकर नाराज होने लगीं, “वर्षा आई है। कपड़े भीगते हैं।” मैंने कहा, “मैंने सिपाही को भेज दिया है।” वे कहने लगीं, “एक आदमी क्या कर सकता है? सभी कुछ भीग गया है। मनु भी भीग गई है।” बाब में पता लगा कि कुछ भी नहीं भीगा था। मनु भी नहीं भीगी थी। सब आदमी बरामदे में ही थे और कपड़े उठा लिये गए थे।

बा को रात में १०२४ डिग्री बुखार हो गया।

८ अक्तूबर '४३

आज से शाम को सवा सात से सवा आठ बजे तक डा० गिल्डर के पास जाने का समय रखा है। १५ मिनट घूमने के निकाले, बिल्कुल न घूमने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। बा को आज बुखार नहीं है। मनु रात को अच्छे तरह सो नहीं सकी, बा के पास थी। बिन में बारह से साढ़े तीन बजे तक सोई। उसे सिखाने का समय मैंने भी सोने में खोया। पीने तीन बजे उठी। करीब एक घंटा सोई थी। परिणाम-स्वरूप रात को नौ बजे बहुत देर से आई। तूफान आज भी शाम को आया, मगर छः बजे शुरू हुआ। हम लोग खेलना पूरा कर चुके थे।

९ अक्तूबर '४३

महादेवभाई को गए आज ५९ हफ्ते पूरे हो गए। दूसरे वर्ष के भी सात हफ्ते चले गए। सुबह बहुत-से फूल तोड़कर समाधि को सजाया। बापू ने हर शनिवार को पहले से जाकर सजावट करने को कहा।

१० अक्तूबर '४३

एक-दो रोज मे बापू का यह क्रम रहने लगा है कि जवाहरलालजी का लिखा जितना इतिहास वे पढ़ते हैं, उसका सार मुझे दोपहर को सुनाते हैं, ताकि शाम को कातने के समय वह किताब पढ़ी जाय तो उसका क्रम बराबर मिल जावे। इससे मेरे सोने में देर हो जाती है, फिर उठती देर से है। मनु को देर तक सिखाती है। परिणाम-स्वरूप पढ़ने के लिए बहुत कम समय रह जाता है। आज मनु पत्र इत्यादि लिखने में बा के पास ही लगी रही, मुझे छुट्टी मिल गई। बापू के पास अनुक्रमणिका बनाने की सब कतरनें खतम हो गई हैं। अब नई मिलें तो आगे काम चले। भाई ने हर रविवार को नए अखबारों की कतरनें देने की बात की थी, मगर आज पूछा तो कहने लगे कि आज कतरनें काटने का काम करेंगे। वेंगे कल से। आज वे काफी समय वही काम करते रहे।

११ अक्तूबर '४३

बापू का आज मौन था। भाई बिन भर कतरनों का काम करते रहे। शाम को मैं भी उनके साथ बंठी। रात को साढ़े ग्यारह बजे काम पूरा हुआ। करीब पीने दो



सौ कतरने तैयार हुईं। अख्तबारी कालम की लम्बाई के बराबर कतरनों वाली पंचियां बनीं। कई-एक पंचियां छोटी-छोटी पंचियों को एक साथ जोड़कर बनी थीं।

शाम को खेलने के समय मैंने भाई से ३३ कतरनें लाकर बापू को दीं। उन पर नम्बर इत्यादि नहीं दिये थे। खेलने गई तो डा० गिल्डर, कटेली सहब, मीराबहन और मनु को पिंग-पॉंग खेलते पाया। जल्दी वापस लौट आई और कतरनों पर नम्बर लगाए। इतने में वे लोग भी आ गए। भाई ने आज सब कामों से छुट्टी ली। पौने छः बजे जब मैं बापू को दूध वगैरह देने आई तो सबने खेलना बंद कर दिया था।

आज मैंने जुलाब लिया।

१२ अक्तूबर '४३

आज बापू ने दो दिन की कहानी इकट्ठी सुनाई। बीस मिनट लगे, इतने में मीराबहन आईं। मगर बापू ने उन्हें यह कहकर भगा दिया, "तुम्हारे सोने का यह वक्त नहीं है, मगर मेरा है।" मुझे लगा कि बापू कहानी न कहे तो अच्छा है। सोने को बेर होता है। मैंने कहा भी, मगर वे माने नहीं।

सोकर उठी तो कतरनें लेकर बंठी, फिर मनु को सिखाया। मैंने बापू को सुबह चालीस कतरनें दी थीं। सोचा था कि दिन भर चलेगी, मगर उन्होंने साढ़े ग्यारह बजे तक पूरी कर डालीं। मुझे अब दूसरी जल्दी तैयार करके देनी है। विचार किया कि अब सब पूरा करके ही उठना अच्छा है। भाई भी मेरी मदद करने आ बैठे। पांच बजे खेलने की घंटी हुई। उस समय थोड़ा काम बाकी था। मैंने सोचा कि शायद आज भी ये लोग पिंग-पॉंग खेलेंगे। काम पूरा करके ही उठना चाहिए। आज नीचे का कोर्ट खेलने के लिए तैयार था। सब लोग सीधे वहां गए थे। कुछ मिनट तक हमारी राह देखी। सिपाही को हमें बुलाने भेजा। मैंने कहलाया कि अभी आती हूं, मगर उसके दो मिनट बाद ही सब लोग वापस आ गए। डा० गिल्डर कल से ही नाराज है, आज और चिढ़ गए। बहुत मुश्किल से उन्हें मनाकर खेलने भेजा, छः बजे तक खेले। वे बहुत अच्छा खेलते हैं। शाम को जब मैं उनके पास लिखने गई तब उन्होंने वही बात चलाई। उन्हें कई दिनों से चिढ़ आ रही थी। भाई अक्सर देर से आते हैं। मुझे भी कई बफा पांच-सात मिनट की देर हो जाती थी। जेल में जहां चार-पांच खेलने वाले हों, वहां वक्त पर सबको आना ही चाहिए। इस बात पर डाक्टर साहब जोर दे रहे थे।

: ५८ :

सच्चा धर्म

१३ अक्तूबर '४३

आज शरत् पूर्णिमा है। बा ने दूध पिया और पकौड़ी बनाने को कहा। थोड़ी-सी खाई। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उन्हें तकलीफ न हो जाय, मगर कुछ

नहीं हुआ ।

शाम को गुड़ के चाकलेट बनाने में समय गया ।

२२ ता. को डाक्टर साहब का जन्म-दिन है । उस दिन क्या करना है, यह हम सब विचार करते थे । बापू ने कहा, "डा. साहब के लिए गुड़ के सिगार बनाओ । कल मावा बनवाया था, उसमें कोको डालकर लम्बे-लम्बे चाकलेट बनाए । डा. साहब से मंने मुजहरी बर्क और सिगारों के खाली डिब्बे मांगे थे । भाई ने गुड़ के सिगार कागज में लपेटकर दो सुन्दर पॅकेट तैयार कर दिये । सिगारों में एक सिगार असली भी था । इसे हम नमूने के तौर पर चुराकर लाए थे ।

शाम को खूब वर्षा हुई, रात को और भी जोर से ।

१४ अक्तूबर '४३

सिगार के तीसरे पॅकेट पर तैल-चित्रकारी की । उसमें कतरने निकालने का सामान रखने का विचार था । एक मेजपोश बनाकर देने का सुझाव बापू ने दिया ।

कल गुड़ बनाते समय मेरा हाथ जल गया, इसलिए मालिश में भाई गए । चित्रकारी करने के लिए मैं तीसरे पॅकेट को धोने लगी । पॅकेट का ढकना अलग जा गिरा । वह कागज से ही जुड़ा हुआ था । मंने कटेली साहब को उसे जुड़वाने के लिए दिया और स्वयं में मेजपोश बनाने में लगी । दोपहर को अखबार देखे ।

शाम को ऐसी वर्षा आई कि अभी तक कभी नहीं आई थी । मूसलाधार पानी बरसा ।

१५ अक्तूबर '४३

आज सुबह घूमने के समय बापू ने जवाहरलालजी की किताब की कहानी सुनाई । फिर जेलों में उन्होंने क्या-क्या अभ्यास किये, यह सब बताते रहे । रानडे की 'दि राइज ऑव मराठा पावर' और जदुनाथ सरकार की शिवाजी पर पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, यह सुझाया ।

आज भी मेजपोश बनाने, मनु को सिखाने और 'डॉन' की दो-तीन प्रतियां पढ़ने में समय गया । डाक्टरों अभ्यास बंद रहा । डा. गिल्डर को भी शाम को कतरनों का काम करना था, इसलिए वहां से भी छुट्टी मिली । शाम को घूमने गई ।

रात को अखबार देखे । एक हफ्ते की डायरी पूरी की । दुबारा ऐसे नागे न होने चाहिए, क्योंकि यह तो मुझे बापू ने लिखने को कहा था । मुझे नियमित रूप से लिखना चाहिए, नहीं तो इसकी कोई कीमत नहीं है ।

साढ़े ग्यारह बज रहे हैं, सोने के लिए जाती हूं ।

१६ अक्तूबर '४३

आज महादेवभाई को गए दूसरे वर्ष के आठ हफ्ते पूरे हो गए हैं । सुबह खूब फूल तोड़े । मैं और मनु, दोनों सजावट करने गईं । सोचा था कि सजावट करके घूमेंगे, मगर इतने में बापू घूमकर वहां आ पहुंचे । जल्दी से सजावट पूरी की, प्रार्थना

करके वापस लौटे ।

पेंकेट को चित्रित करने में ढाई-तीन घंटे लगे । चीज सुब्बर तैयार हुई है ॥ उगता हुआ चन्द्रमा और चढ़ता सितारा, यह चित्रकारी ढकने पर की है और चारों ओर नीला रंग । मीराबहन को बहुत पसंद आया । अब सामने 'घण्टु जीवो'\* लिखना बाकी है । मेजपोश भी तैयार करना है ।

मीराबहन का भी मन अब तैल-चित्र की ओर आकर्षित होने लगा है ।

आज वर्षा नहीं हुई । बादल छाए हैं । शायद रात को पानी आए । खेलने का कोर्ट मौरंग वगैरह डालकर पक्का कर रहे हैं, कल से लाग लगी है । अभी पंच-सात दिन लगेंगे, तबतक ऊपर ही खेलना होगा ।

बापू के पास अनुक्रमणिका बनाने के लिए कतरनें नहीं हैं । इससे सारा खाली समय अब पढ़ने में देते हैं ।

आज भाई ने कुछ कतरनें दीं । एक-दो दिन में डाक्टर साहब के पास से भी आ जाएंगी । तब काम फिर बढ़ जायगा । बापू को इस काम का बोझ नहीं लगता । कहते थे, "यह काम पूरा होगा तब मुझे फिक्र होगी कि कौन-सा दूसरा ऐसा ही काम हाथ में लूँ ।"

१७ अक्टूबर '४३

आज सुबह मनें, भाई ने और डाक्टर गिल्डर ने मिलकर बापू की मालिश की ॥ मनें पेट और छाती की, भाई ने टांगों की और डा० गिल्डर ने हाथ, पीठ और सिर की ॥ बजे सब पूरा हुआ ।

दोपहर को मैं मेजपोश ही बनाती रही । शाम को डा० गिल्डर ने मनु को कहानी सुनाई । मैं घूमने गई । मनें डा० साहब से कहा था कि वे लिखाने से रविवार को छुट्टी रखें, ताकि घूमने के समय बापू का मौन न हो ।

दोपहर को जोर की वर्षा आई । शाम तक होती रही । फूल चढ़ाने को अकेली मैं ही गई । भाई कतरनों के काम में लगे रहे । मनु डा० साहब के पास थी ।

घूमते समय मीराबहन बता रही थीं कि इंग्लैण्ड में राजा से मिलने जाने के समय क्या-क्या भेंटें देनी चाहिए ।

सुबह घूमते समय पाकिस्तान की बात होने लगी । बापू ने बताया कि किस प्रकार एक समय आगाखानों ने मुसलमानों को पत्र लिखा था कि पाकिस्तान इस्लाम के विरुद्ध और मुसलमानों के लिए शर्म की बात है । बोले, "बह सच्चे हृदय का आग्रह था । आज भले ही वह बदल जाए तो भी उस उद्गार की कीमत कम नहीं होती । जैसे कि मैं आज कहने लगूँ कि अहिंसा निकम्मी है तो एक समय मनें जो अहिंसा का सिद्धांत लोगों के सामने रखा था, उस सत्य की कीमत कम नहीं होगी ।"

\* 'जूगजूग जिघ्रो'

बात सिखों और मुसलमानों के सम्बन्ध पर आई। मुसलमानों का गुरु को मारना, गुरु गोविन्दसिंह के बचप्यों को जीते-जी चिनवा देना, इस पर चर्चा होने लगी। किस प्रकार इस कारण से सिखों के मन में मुसलमानों के प्रति तिरस्कार है, गुरु गोविन्दसिंह के लड़कों को पकड़वाने में ब्राह्मण रसोइये का हाथ था, इसलिए सिख ब्राह्मण के प्रति भी तिरस्कार कर सकते हैं, आदि बातें हुईं। मैंने कहा, “पंजाब में तो ब्राह्मण के प्रति मान है ही नहीं, यह कहा जा सकता है।” बापू कहने लगे, “हां, यह है। जब मैं पंजाब गया था तब मुझे तो लगा था कि वहां कोई ब्राह्मण है ही नहीं। बात तो यह है कि ब्राह्मण बहुत समय से अपना ब्राह्मणत्व खो बैठे हैं। नहीं तो हिन्दुस्तान गुलाम बनता ही नहीं।” मैंने पूछा, “क्या आप मानते हैं कि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को निकाल फेंका और वह अच्छा नहीं हुआ?” बापू बोले, “मैं मानता ही नहीं कि शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म को निकाल फेंका। उसका अच्छे-से-अच्छा भाग उन्होंने ले लिया। आज जितना बौद्ध धर्म हिन्दू में है, उतना न चीन में है, न जापान में, न बर्मा में, न लंका में। बुद्ध भगवान् अगर आज आवें तो कहेंगे कि बौद्ध धर्म का सत्व तो हिन्दुस्तान में ही है, बाकी सब तो भूसा है।”

मीराबहन कहने लगीं, “ईसा आवें तो कहेंगे कि आज ईसाइयत कहां है?”

बापू बोले, “हां, ईसा आज जिन्दा हों तो सारे यूरोप को अपनाते से इन्कार करें और कहे, यूरोप आज ईसाई नहीं है।”

मीराबहन बोलीं, “लेकिन साम्यवादियों को छोड़कर! ईसा ने कहा है— ‘मैं भूखा था। तुमने मुझे खाना खिलाया।’ किसी ने पूछा— ‘कब?’ उन्होंने कहा— ‘मेरे इन अदने-से-अदने भाइयों के लिए तुमने जो किया, वह मेरे लिए किया।’ और साम्यवादियों ने तो समाज के पिछड़े हुए, बड़े हुए लोगों के लिए, बहुत-कुछ किया है।”

बापू ने उत्तर दिया, “हां, मगर साथ ही ईसा साम्यवादियों से यह पूछें कि उन्होंने इतने खून और कल्ल किये, सो क्यों?”

मीराबहन ने कहा, “नहीं जी, आपकी तरह ईसा जीव-हत्या के विरोधी नहीं थे।”

बापू बोले, “तो क्या तुम उस मत की नहीं हो जो यह मानते हैं कि ईसा ने कहा था— ‘जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसके सामने तुम बायां गाल भी कर दो?’ वह क्या सिर्फ उनके १२ शिष्यों के लिए ही था?”

मीराबहन इसका उत्तर न दे सकीं। कहने लगीं, “मगर दूसरों ने साम्यवादियों से कहीं अधिक खून बहाया है।”

बापू बोले, “हां, मगर तो भी ईसा उन्हें क्षमा नहीं कर सकते। यह सब ईसा के शिक्षण के साथ मेल नहीं खाता।”

मीराबहन कहने लगीं, “अच्छा बापू, मैं इस बारे में विचार करूंगी।”

१८ अक्तूबर '४३

आज बापू का मौन है। मने दिन भर मेजपोश का काम किया। शाम को मीरा-बहन के साथ पिंग-पोंग खेली। वहां से आकर बापू के लिए वूथ ले जाने की तैयारी में थी और फलों का सलाद बना रही थी कि जमादार रघुनाथ को बरामदे में दौड़ते देखा। पूछा तो पता चला कि सरकार का पत्र आया है। जाकर देखा कि 'बाइबिल' वाले बापू के उत्तर का जवाब था, खासा लम्बा और जहर से भरपूर। सरकार ने डिठाई की हव कर दी। बापू ने पढ़ा तो हंस दिये। सबने पढ़ा और सबको लगा कि आज तक आने वाले पत्रों में यह पत्र सबसे खराब है। भाई तो तिलमिला उठे। बोले, "साफ जाहिर है कि सरकार बापू को किसी प्रकार उत्तेजित करके उनके प्राण लेना चाहती है।"

१९ अक्तूबर '४३

सुबह घूमते समय मीराबहन कहने लगीं, "वाइसराय के जवाब में और टॉटेनहम के कल वाले पत्र में कितना फर्क है। वाइसराय ने आपके पत्र का उत्तर देने की तकलीफ उठाई और फिर जो भी कहना था, नरमी के साथ कहा; मगर टॉटेनहम ने तो पूरी कोशिश करके अपने खत में जहर भर दिया है। जीत से इन लोगों का विभाग ठिकाने नहीं रहा।"

बात चली कि जो सचमुच बड़े होते हैं, उनकी जबान ज्यादा मीठी होती है। इस पर बापू कहने लगे, "यह क्यों भूल जाते हो कि उपवास के समय वाइसराय का आखिरी खत इससे भी ज्यादा खराब था।"

बापू के साथ जितना पढती हूं, उतना पढ़ा। बाकी समय मेजपोश के बनाने में लगाया। वह लगभग पूरा हो गया है।

बा की तबीयत अच्छी नहीं है।

शाम को घूमते समय मीराबहन कहने लगीं, "बापू, आप नहीं मानते कि आपको जेल में रखने की इतनी कोशिश ये लोग कर रहे हैं, उसका कारण यह नहीं कि आपने कुछ किया या करते, मगर अंग्रेजों को यह अनुकूल है कि आप सब लोगों को वे बन्द रखें, जिससे आपकी गैरहाजिरी में वे लोग हिन्दुस्तान के बारे में अपनी गन्दी चालबाजी को अमल में ला सकें।"

बापू बोले, "इसमें कोई शक नहीं है।"

मीराबहन कहने लगीं, "अगले रोज मने हर्टिंगडन की किताब में पढ़ा था कि हिन्दू तीनचौथाई से अधिक अंग्रेजी साम्राज्य का भाग है, तब मैं उनकी चालबाजी समझ पाई।"

इसी सिलसिले में आस्ट्रेलिया और अफ्रीका में अंग्रेजों ने क्या-क्या किया, इस पर बात चली। मीराबहन ने कहा, "यह सब ग्यायपुक्त है, इसे सिद्ध करने के लिए बस बाइबिल के पन्ने खोलने की जरूरत है।" सच है। धर्म को जैसा चाहे वैसा रंग दिया जा:

सकता हूँ ।

२० अक्टूबर '४३

मेजपोश मंने पूरा किया । कपड़े के बीच में कुछ और भी काढ़ने का इरादा था, मगर बापू नाराज होने लगे, "मेरा तो इतनी मेहनत करने का इरादा ही नहीं था । कल चारों कोनों पर काम किया, उसके लिए रात को बेर से सोई । जो तेरा संकल्प था कि दूसरे कामों में विघ्न न पड़े, उसको तूने भंग किया । मीराबहन ने कहा हूँ, इसलिए तू अभी और करना चाहती हूँ । पीछे दूसरा कोई और कहेगा तो और करने लगोगी । मेरे खयाल में इस तरह काम करने वाले गिरते हैं ।"

मंने मेजपोश के बीच में जो काढ़ना आरम्भ किया था, उसे उधेड़ डाला । पीछे पेंकेट पर चित्र बनाया । बापू ने उस पर 'घणुं जीवो' लिखा । मेरा बारीक बर्षा अच्छा नहीं हूँ । उससे लिखना बापू के लिए कठिन था, इसलिए बापू से कलम की नोक से लिख-वाया । रंग तँलरग थे । साड़े ग्यारह बजे कलेक्टर आया । पीछे खाने के बाद रामायण पढी । थोड़ा सोई, पर नींद नहीं आई । मेजपोश के एक कोने में बापू ने तमिल में, दूसरे कोने में भाई ने उर्दू में, तीसरे कोने में कटेली साहब ने गुजराती में डाक्टर साहब के नाम का पहला अक्षर लिखा । चौथे कोने में मीराबहन ने कल हिन्दी में लिख दिया था ।

२१ अक्टूबर '४३

सुबह महादेवभाई की समाधि पर खूब फूल लेकर चढ़ाने गई । जाकर वहाँ पहले सजावट की । बापू जब आए तब सब तँयार हो गया था । प्रार्थना करके आई तब घमने के सात मिनट बाकी थे । बापू को डर था कि समाधि पर मं तँयार नहीं होऊंगी, सो ज्यादा समय लेकर आए थे । समाधि से लौटकर वे सात मिनट फिर घूमे ।

बापू ने हजामत बनवाई । हम तीनों ने उनकी मालिश की । रसोईघर में कुछ काम किया और अखबार देखा । इतने में बामोदर आया । दोपहर को अखबार देखे । ब्लेड का चाकू बनकर आ गया हूँ, उस पर मंने रंग लगाया ।

रात को पंद्रह मिनट तक कँरम खेली । डाक्टर साहब के लिए बनाई हुई सब चीजें मंने कटेली साहब को बे दी हूँ, वे डाक्टर साहब को उनका पार्सल बना कर देंगे । मीराबहन ने बकरी पर एक कविता लिखी हूँ । कविता के पृष्ठ में ऊपर बकरी का एक चित्र बनाया । एक कँदी से मिट्टी की बकरी बनवाई हूँ, सुन्दर बनी हूँ । दोपहर को बकरियाँ आवाज कर करके डा० साहब को सोने नहीं देतीं, ऐसी शिक्षायत एक दिन वे करते थे । इसी बात को लेकर मीराबहन ने कविता बनाई हूँ । कुल मिलाकर पाँच पार्सल बन गए हूँ—बकरी का, पेंन्टिंग वाले पेंकेट का, मेजपोश का और दो पेंकेट सिगार व चाकलेट के ।

बापू ने अपने सूत के ६२ तारों का हार उनके लिए बनाया हूँ । हम सब उन्हें फूलों के हार पहनावेंगे ।

२२ अक्तूबर '४३

सुबह साढ़े सात बजे हम सब डा० गिल्डर के कमरे में गए। बा ने उन्हें टीका लगाया, हार पहनाया और नारियल वगैरह दिए। बापू ने अपना सूत का हार पहनाया। कटेली साहब ने फूलों का हार पहनाकर टीका लगाया। फिर उन्हें खाने के कमरे में ले गए। डा० साहब ने चाय पीते-पीते सब पार्सलों को खोला। यह सब करते-करते करीब आठ बज गए, बापू भी वहीं बंठे थे। पीछे हम सब घूमने गए। लौटकर डाक्टर साहब बापू को मालिश करने लगे।" मंने और मीराबहन ने बापू का कमरा फूलों से सजा दिया।

दोपहर को मंने कैंदियों को खाना खिलाया, शाम को उन्हें चाय इत्यादि दी। बाद में नीचे नए कोर्ट में खेलने गए। मीराबहन भी आईं। रात को बा तीन दिन के बाद कैरम खेलने गईं।

बापू ने टॉटेनहम के पत्र का उत्तर लिखा।

२३ अक्तूबर '४३

महादेवभाई को गए आज ६१ हफ्ते हो गए। काफी फूल तोड़े। बापू के कमरे में जो फूल रखे थे, उन्हें शाम को समाधि पर ले गईं।

२४ अक्तूबर '४३

बापू टॉटेनहम के पत्र का उत्तर सुधार रहे हैं। यदि तैयार हो गया तो कल सुबह ही डाक से जावेगा।

बापू तीन-चार दिन से बा को गरम-ठंडा कटि-स्नान देते हैं। आधे घंटे से बढ़ाते-बढ़ाते एक घंटे तक ले जावेंगे।

२५ अक्तूबर '४३

बापू का मौन है। मंने कोई काम नहीं किया। खूब सोई। दिन में बहुत सोई थी। रात को बेर तक नहीं सोई। भविष्य के बारे में सोचती रही, सब अंधेरा-सा लगता था।

२६ अक्तूबर '४३

डा० गिल्डर ने जो लिखाया था उसे दुहराकर उन्हें दिया। बाकी समय रोज का कार्यक्रम चला। 'मार्गोपदेशिका' कल पूरी हो गई थी। आज भण्डारकर की दूसरी किताब शुरू की। यह ज्यादा कठिन है।

सुबह घूमते समय बापू से भाई ने पूछा, "आपको श्रीनिवास शास्त्री की लुली चिट्ठी कैसी लगी?" बापू ने उत्तर दिया, "भाषा तो अच्छी है, मगर और कुछ नहीं है।"

भाई ने कहा, "उनका तो यही कहना है कि किसी भी प्रकार आप बाहर निकल आवें!"

बापू बोले, "वे इतनी बात नहीं समझते कि 'किसी भी' तरह बाहर आकर मैं कुछ काम नहीं कर सकता हूँ।"

भाई कहने लगे, “शास्त्रीजी के पत्र का उत्तर लिखू ?”

बापू ने कहा, “उत्तर तो एक मिनट में लिखा जा सकता है। यह इतना ही है— ‘आप क्यों नहीं समझते कि अपनापन छोड़कर मैं हिन्दुस्तान के काम का न रहूंगा।’

२७ अक्तूबर '४३

आज दोपहर थोड़े-से डाक्टरी पत्र-पत्रिका पढ़े। दो-चार रोज में ये सब बापस जाने वाले हैं। इसलिए जितने पूरे कर सकूँ, करना चाहती हूँ।

मीराबहन की आंख में कल से दर्द है। शाम को वे पढ़ नहीं सकीं और पिग-पोंग अधिक समय तक खेलीं। पीछे रिंग खेलने गईं और छः बजे तक खेलती रहीं।

शाम को घूमते समय पाकिस्तान के बारे में मीराबहन ने बात चलाई। बापू कहने लगे, “मैं तुम्हें अपना मत बता चुका हूँ। पाकिस्तान नहीं बनेगा; क्योंकि मुसलमान खुद पाकिस्तान लेना नहीं चाहेंगे। अर्थशास्त्र की दृष्टि से वह चल नहीं सकता। इसी कारण वह राजनीति की दृष्टि से भी नहीं चल सकता। जिन्ना साहब उसे देखकर भयातुर हो उठेंगे और उसकी इच्छा नहीं करेंगे।”

२८ अक्तूबर '४३

आज भाई के कमरे की सफाई कराई। वहाँ अक्सर पानी चला जाता है और भाई को दरवाजे बन्द रखने पड़ते हैं। वहाँ कुछ बंदू भी आने लगी थी। कमरे से निकाली हुई पुस्तकों की एक सूची बनाने में मेरा, भाई का और मनु का दोपहर का सारा समय गया।

बा की तबीयत बहुत अच्छी है, जलन बिल्कुल नहीं है। बापू ने उन्हें गरम और ठंडे पानी का कटि-स्नान देना आरम्भ किया था, उसीका यह फायदा दीख पड़ रहा है।

: ५६ :

## जेल में दूसरी दीवाली तथा अन्य उत्सव

२९ अक्तूबर '४३

आज हम लोग जेल में दूसरी दीवाली मना रहे हैं। जब आए थे तब कल्पना तक न थी कि यहाँ इतने अरसे तक रहना होगा।

सुबह महादेवभाई की समाधि पर खूब फूल सजाए। रात को अगर की बत्तियों की दीपावली का आयोजन किया। अगर बत्तियों का ‘ॐ’ और ‘+’ अंधेरी रात में बहुत सुन्दर लगते थे। बापू घूम-फिरकर वहाँ आए। भाई और डा० गिल्डर वहाँ पहले से ही बत्तियाँ सजा रहे थे। बत्तियों को जलाने के पहले अंधेरा हो चला था,



इसलिए मिट्टी का एक दीपक जलाया। दीवार पर रखने का विचार था, मगर बंसा करने से दीपक बूझ जाता था। फिर वहाँ रखने से ॐ की शोभा भी कम होती थी।

दिन में रोज की तरह सब कार्यक्रम चला। शाम के समय कंदियों को खजर, चाय और पकौड़े दिए।

सुबह प्रार्थना में बापू ने 'और नहीं कुछ काम के, मैं भरोसे अपने राम के'\* और शाम को 'श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन' वाले भजन गवाए। इस प्रकार दीवाली खतम हुई।

३० अक्तूबर '४३

महादेवभाई को गये ६२ हफ्ते पूरे हुए। सुबह वेडमिन्टन से जरा जल्दी छूटी, इसलिए जाकर समाधि की सजावट के लिए फूल इकट्ठे किये। गेंदे के फूलों का 'ॐ' बनाया। बहुत सुन्दर लगता था। बा भी नीचे आईं, लेकिन लौटते समय थोड़ा थक गईं।

बापू की मालिश के बाद ग्यारह-साढ़े ग्यारह तक मने डाक्टरी पत्र-पत्रिकाएं पढ़े। बापू का बाकी काम भाई ने किया, साढ़े ग्यारह तक अच्छा चला।

आज नया हिन्दू वर्ष आरम्भ होता है। इच्छा थी कि दिन अच्छा निकले, सब काम व्यवस्थित हो, मगर साढ़े ग्यारह के बाद सब बिगड़ा और रात तक बिगड़ता ही चला गया। मेरे खराब दिनों में से एक दिन यह भी कहा जा सकता है।

मनु के सिर में दर्द है, शायद मलेरिया की तैयारी होगी। इसलिए रात में बापू, बा और मनु की व्यवस्था करके साढ़े दस बजे सोईं।

३१ अक्तूबर '४३

बाइबिल का शुरू किया हुआ भाग आज पूरा किया है। 'ओल्ड टेस्टामेंट' ('पुराना करारनामा') नामक अध्याय अब आरम्भ किया है।

कर्मल भण्डारी आए। बापू स्नान को चले गए थे, उन्हें मिल नहीं सके।

शाम को खेलते समय मेरी आंख के नीचे कटेली साहब की बोहनी जोर से लगी। आंख काली-नीली-सी हो गई।

रात को चन्द्रमा बहुत सुन्दर लगता था। कल बादलों के कारण नहीं दिखाई दिया था।

रात को मैं बापू की मालिश करने के बाद कुछ पढ़ने बैठी, मगर कल रात अच्छी नींद नहीं आई थी।

सुबह पढ़ने के समय नींद लगती थी। कम काम कर पाईं।

\*और नहीं कुछ काम के, मैं भरोसे अपने राम के—श्री०  
दोऊ अक्षर सब कुल तारे, वारी जाऊँ उस नाम पै—श्री०  
तुलसीदास प्रभु राम दयाधन, और देव सब दाम के—श्री०।

डा० गिल्डर के डाक्टरी पत्र-पत्रिका पूरे पढ़कर जल्दी लौटाने थे, मगर जल्दी सो गई। साढ़े ग्यारह बजे तक तीन बार नींद में से चिल्लाकर मैं उठी, माताजी को पुकारती थी। बापू बता रहे थे कि तीसरे समय तो इतने करुण-ऋग्वेद की आवाज निकली थी कि उनसे सहन नहीं हो सकी।\*

१ नवम्बर '४३

बापू के काम से छुट्टी लेकर डाक्टरी पत्र-पत्रिका पूरे किये और लौटा दिये। दूसरे नए ले आईं। गुरुवार तक सब पूरे करने हूँ। बापू का मौन था, मगर बाइबिल तो उनके साथ पढ़ी। मनु को भी बापू ने सिखाया। पता नहीं 'भाग्योपदेशिका' मौन रहकर कैसे सिखाई होगी।

बा की तबीयत कुछ ढीली है। आज दोपहर को उन्होंने कटि-स्नान नहीं किया। बापू आजकल एक घंटा (३ बजे से ४ बजे तक) बा को स्नान कराने में बेंते हैं। कल शाम को कहते थे, "मुझे यह बड़ा अच्छा लगता है कि इस अवस्था में मुझे बा की सेवा करने का अवसर मिल गया है। इससे मुझे पूरा संतोष है। बा को भी अच्छा लगता है। बा अब इसमें तन्मय हो गई हैं, हंसती हैं और खुलकर बातें भी करती हैं। बा मेरा समय बचवाना चाहती हैं, मगर मैंने उसे सनझाया है कि मेरे काम की वह चिन्ता न करे। वह हुआ तो क्या और न हुआ तो क्या! बा को स्नान से फायदा भी बहुत है। कहती थी कि जलन तो बरसों से थी, मगर मालूम नहीं अब वह कहाँ चली गई।"

२ नवम्बर '४३

सुबह मालिश करके पढ़ने को बंठी। बा की तबीयत ज्यादा ढीली है, मगर उन्होंने दोपहर को कटि-स्नान लिया।

शाम को बहुत जोगों से वर्षा आई। खेलने का कोर्ट भीग गया।

बापू को शाम को कुछ थकान लगती थी। वे जवाहरलालजी की लिखी पुस्तक 'गिल्मसेज आथ बर्ड्स हिस्ट्री' की बात करते रहे। कह रहे थे, "मुझे कुछ लिखना ही तो है। मैं इसी किताब का अनुवाद करूँ और वह मुझे अच्छा भी लगे।"

हम लोग बापू के पीछे लगे हैं कि वे अब कतरनो का काम छोड़कर कुछ लिखना शुरू करें। आश्रम का इतिहास, महादेवभाई के संस्मरण, आत्मकथा का दूसरा भाग—सभी कुछ तो लिखना है। अभी 'स्वास्थ्य की चाबी' नामक पुस्तक भी पूरी करनी है।

३ नवम्बर '४३

बापू ने आज महादेवभाई के विषय में अपने संस्मरण लिखने शुरू किये। शाम

\*बाद में पता चला कि उस दिन मेरी भाभी का, जो मुझे सगी बहन की तरह प्यार करती थी, आपरेशन हुआ। वह सारा समय मुझे याद करती थी, पुकारती थी। आपरेशन विगड़ने से उसकी मृत्यु हो गई।

को पन्द्रह मिनट मिले। उसी समय में लिखना शुरू कर दिया। भाई कह रहे थे, “मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है कि इतने थोड़े समय में बापू कैसे लिख सकते हैं।” मैंने कहा, “अगर मालूम हो कि क्या लिखना है तो वह हो सकता है।” भाई बोले, “इतना हृदय भरा होना चाहिए कि बस पानी उंडेलने की तरह अपने-आप कलम चलती जावे।” बापू के साथ तो ऐसा होता ही रहता है।

मैंने डाक्टरी अभ्यास आज काफ़ी किया।

४ नवम्बर '४३

मुझे आज जुकाम ने खूब दबाया है। डाक्टरी अभ्यास हीला पड़ गया। बापू ने कहा है कि मैं जो कुछ पढ़ूँ, उसकी सूची बना लूँ। उपयोगी सलाह है। ऐसा ही करना आरम्भ किया है।

५ नवम्बर '४३

खाली समय में डाक्टरी पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ें और मीराबहन के लिए गुड़ बनवाया।

६ नवम्बर '४३

आज... नहीं आया। बापू का टब वही भरा करता था। मैंने देखभाल की। जुकाम के कारण बुखार-सा लगता है। शाम को खेलने गईं, पर जल्दी लौट आईं। मीराबहन नहीं खेल सकीं। पिगपौग को गेंद कल टूट गई थी। अभी तक नहीं आईं।

७ नवम्बर '४३

मीराबहन को बापू के पास आये १८ साल हो गए। आज १९वाँ वर्ष आरम्भ हुआ है। बापू के पास आने के दिन को वे अपना जन्म-दिन मानती हैं, इसलिए आज उनका जन्म-दिन मनाया गया। सुबह जब वे साढ़े सात बजे के करीब बापू के पास आईं तब हम सबने उन्हें हार पहनाये। बापू ने उन्हें अपने सूत का हार पहनाया। मजाक किया जा रहा था कि मीराबहन को १९वाँ वर्षगांठ उनकी ५२ साल की उमर में आई है।

मैंने उन्हें अपनी एक बारीक साडी दी। बापू को यह बहुत अच्छा लगा। साथ ही खादी का एक तौलिया और बनाया हुआ गुड़ दिया। बापू को भेंट-स्वरूप आया हुआ गोदरेज साबुन और ब्राह्मी तेल भी उन्हें दिया।

कंदो पहलवान ने एक गाय, दो बंल, एक बछड़ा, एक बकरी और दो लेले मिट्टी के बनाये थे। वे भी भेंट किये। वे बहुत सुन्दर बने थे, उनपर रोगन लगाया गया था—सब लकड़ी के एक खोले में बन्द थे। दूसरी चीजें—टीका, वियासलाई, साबुन इत्यादि के पासल बनाये थे। बापू के पास ही मीराबहन को नाश्ता और चा को चाय ला दी। पीछे पासल खुलने लगे। इसमें सवा आठ बज गए और बापू घूमने चले गए। हम लोम थोड़ा खेले !

डा० गिल्डर ने कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक 'कैपिटल' के दोनों भाग एक

साथ मंगाये थे। १२) में मिले। सामान्य कीमत ७) से अधिक नहीं है। किताबों की कीमत स्थिर करने के उद्देश्य से कल-परसों एक सरकारी हुक्मनम्मा निकला है, ताकि मनमानी कीमतें न ली जा सकें। डा० गिल्डर ने यदि दो दिन बाद पुस्तक खरीदी होती तो पांच रुपए बचते।

८ नवम्बर '४३

बापू को थोड़ा-थोड़ा जुकाम लग रहा है, नाक बहुत टपकती है। दिन भर उनका मौन था। सुनसान-सा लगता था।

बा ने आज तुलसी की शादी बनाई है। तुलसी के ऊपर गर्नों का मण्डप बनाया, हार पहनाए, फूल चढ़ाए, फल की भेंट सामने रखी और रांगोली बगैरह बनाई। सुन्दर दृश्य था।

९ नवम्बर '४३

बापू का जुकाम खूब जोरों पर है। शाम को डा० शाह आए, तब मजक होने लगा। बापू को पहले-पहल जुकाम मंसूर से लौटने पर हुआ था। मैंने कहा, "आप मंसूर से जुकाम लाये हैं और वह यहां सबको बारी-बारी से दबा रहा है।" वे बोले, "हां, जुकाम बहुत खराब चीज है। मुझे खासी इस जोर से आती है कि क्या कहूं।"

शाम को बापू के पत्र का सरकारी उत्तर आया कि आपके पत्र पर विचार किया जा रहा है। बापू ने वह पत्र लिखते समय बहुत संयम से काम लिया था। कह रहे थे कि पहले उन्होंने तीखा जवाब देने का विचार किया था, फिर सोचा कि व्यंग में उत्तर दें, मगर अन्त में मीठे-से-मीठा उत्तर देने का निश्चय किया। केवल नया आया है, उसको पहले-ही-पहले व्यंग भरा तीखा पत्र भेजना ठीक नहीं है। इसलिए सरकार के पत्र में भरे हुए जहर को पी गए और शांतचित्त होकर उत्तर लिखा।

अब की बार सरकार का अपमान भरा दो शब्दों का उत्तर नहीं आया, नहीं तो लिखा होता कि सरकार ने आपको जो लिखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

आज बा ने तुलसी-विवाह का प्रसाद नारियल, शक्कर, अनार और गर्ना कंदियों और सिपाहियों में बांटे।

: ६० :

## भाभी का आपरेशन और मृत्यु

१० नवम्बर '४३

सुबह बापू ने अण्डी का तेल लिया, खूब असर हुआ। मालिश के समय तबीयत अच्छी थी। स्नान-घर में जब स्नान कर रहे थे तो मुझे थके-से लगे। मैं खड्मा बगैरह धोने लगी। लौटकर देखा तो पंर धो रहे थे, मगर बहुत धीमे-धीमे। टब में स्नान कर रहे थे तभी मैंने पूछा था— "आप थके-से लगते हैं।" कहने लगे, "नहीं, यों ही

सुस्ता रहा हूँ।" तब मैं दूसरा काम करने लगी। साबुन में कपड़े भिगोने लगी। इतने में देखा तो बापू तौलिये से मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। बाद में बताते थे कि उन्होंने मुझे बुलाया भी था, मगर मैंने सुन नहीं पाया। मैंने पूछा, "क्या चक्कर आता है?" कहने लगे, "नहीं, तू मेरी देह को पोंछ दे।" मैंने कहा, "बेठ जाइए।" मगर बापू ने इन्कार कर दिया। मैंने देखा कि उनके पैर कुछ लड़खड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनकी कमर में दोनों हाथ डालकर उन्हें उसी पाटले पर बिठा दिया जिस पर वे खड़े थे।

कहने लगे, "पाखाने की हाजत है।" मैंने पूछा, "कमोड यहीं लाकर रख दूँ?" उन्होंने इन्कार किया, पर बाद में मान गए। उन्हें कमोड पर बिठाकर सहारा दिये खड़ी रही। बापू को जम्हाई बहुत आ रही थी। वे सफेद होते जा रहे थे। नाड़ी की गति बहुत धीमी पड़ गई थी। मैंने भाई को बुलाया। उन्होंने आकर बाल्टी वगैरह हटाकर जगह खाली की। गादी बिछाई। पूछा, "डा० गिल्डर को बुलाऊँ?" बापू ने इन्कार किया, मगर भाई कहने लगे कि वे बुरा मानेंगे कि उन्हें खबर नहीं दी। डा० गिल्डर बुलाये गए। बापू को गादी पर सुलाया गया। दो-तीन मिनट में वे बिल्कुल ठीक हो गए। रक्त-चाप मापा तो १३५।८२ निकला। इतने में बा आई। पूछने लगी, "यह क्या किया?" मन में उनके चिन्ता थी। ऊपर से हंसने का प्रयत्न कर रही थीं। बापू ने उत्तर दिया, "अब तो कुछ भी नहीं।" पन्द्रह-बीस मिनट बाद वे उठकर बाहर आए। थोड़ा-सा सोए, फिर उठकर खाना खाया। दोपहर को खूब सोये, पर कमजोरी दिन भर रही।

मैं दोपहर को एक मिनट भी नहीं सो सकी। बापू बाहर सोने गए थे। मैं भी बाहर ही थी। मुझे लगा कि शायद गरमी के कारण नींद नहीं आती। दोपहर को मैं बाहर से उठकर अन्दर आई। भाई ने मुझे आते ही मोहनलालभाई का पत्र दिया। मेरी भाभी शकुन्तला के ऑपरेशन के बारे में था। अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था, तो भी समय पर इतनी डील हुई कि जान के लाले पड़ गये। खत में लिखा था कि शरीर में नाड़ी में रक्त देने की तैयारी कर रहे थे, मगर उसके बिना ही तबीयत सुधर रही थी। अभी खतरे से बाहर नहीं हूँ। मुझे, हो सके तो, पेरोल पर आने के लिए लिखा था। सरकार भेजेगी तो चली जाऊंगी। बाकी इस सरकार से भीख कौन मांगे। बाद में दो-तीन तार लगातार आए थे। पहला पांच तारीख को आया। उसी दिन मिल जाता तो भी मैं आठवीं तक पहुंच जाती, पर आठवीं को पहुंचने में फायदा ही क्या था।

११ नवम्बर '४३

कल रात में बारह बजे तक सो नहीं सकी। माताजी, शकुन्तला और मोहनलाल की ही याद आती रही। सुबह प्रायःना के बाद भी नहीं सो सकी। बापू के उठने पर उनसे पूछकर मोहनलाल और डा० हरजगोर को तार किया कि शकुन्तला की खबर तार से भेजो। सरकार ने मोहनलाल का तार सीधा भेजने को इजाजत दी, मगर

डा० हरजगीर को बम्बई सरकार की मार्फत तार गया। बाद में पता चला कि तार गया ही नहीं। सरकार का हुक्म है कि रिश्तेदारों को ही तार-खत भेजा जा सकता है, इस पर भी डाक्टर को तार नहीं कर सकते।

बापू की तबीयत अच्छी है। कल से बा को दोपहर का स्नान देना शुरू किया है।

१२ नवम्बर '४३

मेरे तार का उत्तर तो नहीं आया, पर मोहनलाल के भेजे हुए ४ नवम्बर का तार आज दोपहर को मिला। मोहर से पता लगा कि यह तार यहां ५ नवम्बर को आ गया था, मगर यहां से बम्बई और बम्बई से यहां फिर आया है। इसमें शकुन्तला के आपरेशन की खबर है, उसकी हालत नाजुक है। बहुत बुरा लगा। अप्रैल में इसी तरह माताजी की बीमारी के समय खबर देर से मिली थी। पर सौभाग्य से माताजी अच्छी होगई थीं। लेकिन शकुन्तला का न जाने क्या हाल हुआ हो। शाम को विचार आया कि वहां सब कुदाल ही होगी, नहीं तो अभी तक खबर जरूर आती।

१३ नवम्बर '४३

सुबह खबर मिली कि ९ नवम्बर को मोहनलाल का एक दूसरा तार आया था, किन्तु बम्बई भेज दिया गया है। बस, इस खबर से तो होश गुम हो गए। तार में क्या लिखा होगा? शकुन्तला है भी या नहीं! दिन भर सतत बेचैनी रही।

बम्बई सरकार को पत्र लिखा कि इस तरह की खबर देने में इतनी ढील करना समझ से बाहर की बात है, पर सरकार को क्या पड़ी थी? उसकी निगाह में कौदी इन्सान थोड़े ही था! दिन भर उत्तर की राह देखती रही, पर कोई उत्तर न आया।

१४ नवम्बर '४३

आज भी तार की राह देखते-देखते बिन गया। मैं बड़ी बेचैन हो गई। बापू कहने लगे, "जब हमें दूसरा तार, जो बम्बई गया है, मिलेगा तभी पता चलेगा। मेरी समझ में पहले तार का उत्तर ही वह तार है—भला हो या बुरा। मैं मानता हूँ कि बुरा नहीं हो सकता। मृत्यु होती तो देबदास जरूर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में उसकी फोटो देता और उसके बारे में कुछ लिखता। शकुन्तला स्वयं भी इतनी योग्यता रखती थी कि उसकी मृत्यु अखबार में दी ज़रूरी।" मुझे डर लगा कि पहले तार में आया था—'हालत खतरनाक है' तो दूसरे में होगा—'चल बसो'। बापू बोले, "ऐसा हो सकता है, मगर मैं मानता हूँ कि तार अच्छा ही होगा। डाक्टर ने ही शायद तार किया हो कि शकुन्तला की हालत नाजुक होने के कारण तुम्हें पेट्रोल मिलने में आसानी हो। शायद उनसे सरकार की तरफ से कहा गया हो कि वे अर्जों देंगे तभी पेट्रोल मिल सकती है। ऐसी हालत में डाक्टर तुम्हें तार करेंगे।" मैंने यह बात मानने की कोशिश तो की, पर दिल बुझा रहा। भाई भी कहने लगे, "तुम व्यर्थ ही चिन्ता करती हो, मुझे तो निराशा नहीं लगती।" बाद में

में सोचने लगी, “शायद शकुन्तला अच्छी हो रही होगी और मोहनलाल अधिक कुछ कहना न चाहता हो। शायद वह सोचता हो कि चलो, इसी बहाने परोल पर मैं वहां हो आऊंगी।”

शाम की प्रार्थना में ‘हरि तुम हरो जन की भीर’ गाकर ‘डूबते गजराज राख्यो’ ज्यों ही गाया कि मेरा गला दंघने लगा।

१५ नवम्बर '४३

आज बापू का मौन था। मैं दोपहर खाना खाकर सो गई। एक बजे उठी। बापू के पैरों में मालिश करते समय मैंने पूछा, “क्या श्री कटेली वगैरह खाना खा गए हैं?” बापू को मालूम न था। आज तो कोई उत्तर आवेगा ही, ऐसी आशा थी। बम्बई से ही तार आवेगा। जो आदमी खाना लेकर आता है, वही डाक भी लाता है, इसलिए मुझे लगा कि श्री कटेली जब खाने आवेंगे तब कुछ खबर लावेंगे। सोचती थी कि बापू के पैरों की मालिश करके खाने के कमरे में देखने जाऊंगी कि प्लेटें उठ गई हैं कि नहीं। इतने में श्री कटेली को बरामदे में से जाते देखा। मेरा माथा ठनका, लगा कि कुछ खराब खबर है। इसलिए मुझे तार देना नहीं चाहते, भाई को देकर आए हैं। मन में हुआ कि बापू से कहूँ। दौड़कर भाई से पूछूँ। मगर अपने आपको रोका। बापू सोने की तयारी में है। उनकी नींद क्यों बिगाड़ूँ? बाव में पूछ आऊंगी। और शायद श्री कटेली उधर किसी दूसरे ही काम से गए हों। यह विचार चल ही रहा था कि भाई ने तार लाकर बापू के हाथ में दिया। मैंने कहा, “बोलते नहीं हो, खराब खबर है न?” बापू ने सिर हिलाकर ‘हां’ कहा। मैंने पूछा, “शकुन्तला गई?” बापू ने सिर हिलाया, “हां।” डर तो था ही, पर आशा बंधी थी कि वह तो अच्छी ही होगी। मगर वह कहां से? वह तो सोमवार, ८ नवम्बर को ही चल बसी थी। मैं उठकर बगीचे में एकान्त में जा बंठी। दुःख के मारे फटते हुए हृदय से सोचती रही कि माताजी और मोहनलाल अब क्या करेंगे। ऐसी देवी जगत में कहा मिल सकती है? रिश्तेदार क्या, मित्रवर्ग क्या, जिस किसी को मिली, उसीका मन हर लिया। उसकी हंसती मूर्त मेरे सामने नाचने लगी। उसकी मीठी आवाज मेरे कानों में गुंजने लगी।

भाई आकर मुझे वापस ले गए। उठकर कातना शुरू किया। पढ़ना तो असम्भव था ही। आंखों से अभु-धारा बह चली। बापू ने आकर यह देखा तो उन्होंने अपना मौन-व्रत तोड़ना चाहा, पर मैंने ऐसा न करने को कहा। उन्होंने सब कार्यक्रम चालू रखने को कहा, मगर मेरे सामने तो शकुन्तला थी।

फिर विचार चले। रविवार के रोज डाक्टर लोग छुट्टी की धुन में होंगे और शकुन्तला वहां पर इतनी अशक्त हो गई होगी कि ऑपरेशन सहन न कर सकी होगी।

मीराबहन आईं। सहानुभूति दिखाने लगीं, “तुम वहां होतीं तो उसका तुम्हारे प्रति विश्वास ही उसे बड़ी भवद करता।” पर मैं वहां होती कैसे? सरकार की तरफ से तार देने में इतनी डील हुई थी कि भाभी ८ तारीख को ही गुजर गई और मुझे १५

तारीख को उसकी मृत्यु का तार मिला ।

हम घर में तीन बहनें हैं—तीनों डाक्टर । और शकुन्तला के काम एक भी न आई ! मोहन ने प्रकाश या सत्या को ही बुला लिया होता ! मुझे भी तो उसने आपरेशन करवाने के बाद ही लिखा । नतीजा यह हुआ कि खबर मुझे उसके आपरेशन के समय नहीं, बल्कि मृत्यु की मिली ।

शकुन्तला की बच्ची का खयाल आने लगा, बेचारी बनी रहे । मीराबहन कहने लगीं, “अब तुम्हें बच्ची की देखभाल करना चाहिए ।” मैंने कहा, “बहानों के लोग तो करते ही होंगे ।” वे कहने लगीं, “हां, मगर तुम यहां से भी भ्रम कर सकती हो ।”

शाम को प्रार्थना में ‘मंगल मंदिर खोलो’ गाया । ‘जीवन वन अति वेगे वटाव-यऊँ’ गाते समय आवाज जबाब दे गई । मनु को किताब दी कि गीत को चलाए, पर वह भी रोने लगी । मुश्किल से किसी तरह भजन पूरा किया । रामायण की एक चौपाई पढ़कर बन्द कर दिया ।

डायरी लिखकर सोने को गई, मगर नींद कहा ! आंखों के आगे शकुन्तला थी । माताजी और मोहन का विचार आने लगा । शव को अस्पताल से कहां ले गए होंगे ? इमशान कहां ढूंढा होगा ? शाम को पीने पांच बजे मृत्यु हुई तो शव को कब जलाया होगा ? और वह नन्हीं-सी बच्ची ! उसका अब क्या होगा ? मोहन का क्या होगा ? माताजी की पौत्र पाने की इच्छा का क्या होगा ? बिना शकुन्तला के तो मैं उस घर की कल्पना ही नहीं कर सकती ।

१६ नवम्बर '४३

सुबह एक-एक अंग दुखता था । सिर में सहत चोट खाए हुए इन्सान की-सी मेरी स्थिति हो रही थी । कल शाम को बच्ची के विषय में पूछने को तार तैयार किया था, आज सुबह वह भेजा । दोपहर को मोहनलाल का तार आया कि तुम कहो तो बच्ची को तुम्हारे पास ही भेज दूँ, सरकार को इस बारे में लिखता हूँ, इत्यादि । सरकार आने दे तो मैं उसे खुशी से रखूँ, मगर सरकार कभी आने नहीं देगी । मनु तो उछल पड़ी कि बेबी आवे तो बड़ा अच्छा लगेगा, मगर इस बात का विचार करना भी बेकार है । मोहनलाल तार से उत्तर मांगते हैं । तार लिखा—“तार मिला । इजाजत मिलनी मुश्किल नहीं लगती । मेरी सलाह है कि दूसरी दो बहनें बारी-बारी से माताजी के पास रहें, जबतक कि बच्ची खतरे से बाहर नहीं हो जाती ।”

बापू कह रहे थे, “तू पेंरोल की अर्जी देकर चली जा ।” मैंने कहा, “उससे क्या फायदा ? महीने-डेढ़ महीने में बेबी बड़ी और समझदार तो हो नहीं जावेगी । फिर मेरे साथ हिल जावेगी तो मेरे यहां आने के समय उसे और भी कष्ट होगा । माताजी को भी बुझारा सबमा होगा । इससे तो यही अच्छा कि मेरी दो चचेरी बहनें बारी-बारी से महीने-महीने की या अधिक छुट्टी लेकर बहा रहें । पीछे बेबी जब सफर करने लायक हो जाय तब उसे और माताजी को अपने साथ ले जाएं ।”



तार कल जावेगा, पीछे पत्र लिखना होगा। बापू ने कल शाम सरकार को भेजने के लिए एक पत्र तैयार किया था। उसमें मुझे तार देर से मिलने के बारे में शिकायत थी। कहा गया था कि उनके साथ रहने वालों को कंबियों के साधारण हकों से भी वंचित रखा जाता है, यह ठीक नहीं। मिसाल के तौर पर डा० गिल्डर की बीमार पत्नी अथवा उनकी लड़की उनसे मिलने नहीं आ सकतीं। ऐसे ही बा के और मनु के बारे में लिखा था। शाम को चार बजे वह पत्र गया। सामान्यतः यहां की डाक रजिस्ट्री से जाती है, मगर रजिस्ट्री का समय बीत गया था, इसलिए बापू के कहने पर पत्र बिना रजिस्ट्री के ही गया। कल उसकी नकल रजिस्ट्री द्वारा भेजी जावेगी। बाद को प्रार्थना के समय बापू डा० गिल्डर से मजाक कर रहे थे, “डाक्टर, मुलाकातो के लिए तैयार रहना।” मुझे लगा कि या तो मुलाकाती लोग आवेंगे या जिन्हे यहां की बन्दिशें नहीं चाहिएं, उन्हें बिस्तरा गोल करने का हुक्म जावेगा।

१७ नवम्बर '४३

आज दोपहर को बा के नाम छगनलालभाई का पत्र आया। ‘शकुंतला का ऑपरेशन करना पड़ा। अब चिन्ता का कोई कारण नहीं है।’ हां, अब चिन्ता काहे की! अब तो शकुंतला भगवान् की गोद में सुरक्षित है। पीछे पत्र में लिखा था कि उन्होंने बा के पत्र से समझा था कि मनु और सुशीला को सरकार ने छोड़ दिया है, मगर वे दोनों अपनी खुशी से बा और बापू की सेवा कर रही हैं। बा को यह खटका। उन्होंने बापू से जाकर तार तैयार कराया कि यह बात गलत है। सिर्फ मनु को ही छोड़ने की बात थी, सुशीला को नहीं। मने समझाया कि तार की क्या आवश्यकता है, मगर वे नहीं मानी।

सबेरे बहुत धुन्ध थी। सामने का दरवाजा भी नहीं दिखाई देता था।

१८ नवम्बर '४३

आज सुबह आकाश साफ है। खासी गर्मी पड़ती है। श्री कटेली के घुटने में दर्द है, कल से खेलते नहीं। कल सुबह में और मनु दोनों अकेले ही खेले थे, आज नहीं खेले। दिन अधिकांश में बेकार गया। रात को भी कुछ नहीं पड़ा।

१९ नवम्बर '४३

दिन बहुत खराब गया। गीताजी में रोज पढ़ती हूँ कि मृत्यु का स्वरूप क्या है, मगर जब उस ज्ञान पर अमल करने का अवसर आता है तब असफल सिद्ध होती हूँ। बीते वर्षों में महीनों तक महादेवभाई की मूर्ति आंखों के सामने नाचती रहती थी, इस वर्ष शकुंतला की है। प्रार्थना के लिए आंखें बन्द करती हूँ, पत्र शकुंतला सामने आ खड़ी होती है—वही मधुर मुस्कान, वही हंसता हुआ चेहरा। रात को सोने के लिए आंख बन्द करती हूँ, तब फिर वही हाल होता है। मेरे जैसे, जिन्हें ईश्वर ने इतना सब दिया है,

असंतुष्ट रहते हैं, मगर वह लड़की हमेशा संतुष्ट थी। निराशा-जैसी चीज उसके पास थी ही नहीं। वह चली गई और हम यातना भुगतने को रह गए।

सरकार पर गुस्सा आता है, जिसने हमें बन्ध करके इस तरह प्रियजनों का वियोग दिखाया— जब तक तन में प्राण है, मैं सरकार से लड़ती ही रहूंगी। वह खतम होगी या हम !

२० नवम्बर '४३

शकुन्तला की बातें होती रहीं। बेबी बच जावे तो बड़ी बात है। मां ने इसी बच्ची के कारण प्राण दिये।

महादेवभाई की समाधि पर सुबह खूब फूल सजाए। अब तो कुछ फूल रहे ही नहीं। सब सूख गए, इसलिए फूलों के अभाव में मोराबहन पूजा में भी अधिकतर पत्तों से ही काम चलाती है।

महादेवभाई की समाधि पर प्रार्थना करते समय उनकी मूर्ति के साथ-साथ शकुन्तला की मूर्ति भी रहती है।

२१ नवम्बर '४३

मोराबहन को थोड़ा-सा बुखार है। जुकाम अच्छा हो जाने पर भी अभी तक उनका गला खराब है। हाथ में भी बहुत दर्द होता है। मृत्यु की खबर ने भी उन पर असर किया है।

यहां बंटे-बंटे जानती थी कि शकुन्तला वहां आराम से होगी, इसलिए संतोष था, मगर एक तार ने दुनिया ही बदल दी है। वह अलौकिक लड़की हमारे पास क्यों रहती ? हम उसके लायक नहीं थे।

२२-२३ नवम्बर '४३

दो दिन तक डायरी नहीं लिखी। कुछ करने को मन नहीं होता। बापू कल मुझ से कह रहे थे, "मुझे नहीं मालूम था कि तुझमें इतना राग है।" मैंने कहा, "मैंने कभी किसी पर ऐसा असर नहीं डाला कि मुझ में वैराग्य है।" बापू कहने लगे, "वैराग्य भले न हो, पर उसमें और राग में फर्क है।" जो भी हो, मैं शकुन्तला को भूल नहीं सकती।

लक्ष्मी भाभी ने बा को पत्र भेजा है। शकुन्तला की मृत्यु का भी थोड़ा हवाला था— 'बहुत दुःख और बेदना उसने सहन की; मगर मृत्यु के एक घंटा पहले तक सबको पहचानती थी। शव को नहला-धुलाकर और लाल चुनरी ओढाकर लाए तो नई दुलहन-सी लगती थी।' वह नई दुलहन भगवान् की थी, उसीके पास चली गई।

लक्ष्मी भाभी का एक तार भी आया है। उससे 'बेबी अच्छी है' यह जानकर संतोष हुआ। ईश्वर उले वीघायु करे !

मोराबहन श्याबा बीमार है, बुखार अधिक था, गले की गांठें फूली हैं। उनमें से गले में अन्दर मवाद निकलता देखा जा सकता है।

२४ नवम्बर '४३

'कांग्रेस की ज़िम्मेदारी' पैम्पलेट के सम्बन्ध में बापू के पत्र का सरकारी उत्तर आया। कोरा जवाब था— 'आपने आठ अगस्त वाले प्रस्ताव के बारे में मत नहीं बबला। कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी अपना हल नहीं बबला। सो आपको मिलने देने में कोई फायदा नहीं।' बम्बई सरकार को बापू ने जो पत्र लिखा था, उसका भी जवाब आया कि आगे से तार जल्दी मिला करेंगे। डा० गिल्डर की मुलाकात के बारे में उनकी लड़की ने भी लिखा है। उसी सिलसिले में बापू का पत्र बिल्ली भेजा गया है।

आज मोराबहन को १०२ डिग्री तक बुखार रहा। सल्फा शुरू किया तो उतर गया। कमजोरी बाकी है।

२५ नवम्बर '४३

मोराबहन के खून की परीक्षा करने के लिए डाक्टर को बुलाया, लेकिन वह परीक्षा करने का सामान नहीं लाया था। वह केवल खून की स्लाइडें\* ले गया। हम तो स्लाइडें पहले ही भेज चुके थे। गले के मयाद का फोआ बना कर भी परीक्षा के लिए ले गया।

आज मोराबहन की तबीयत थोड़ी अच्छी रही, बुखार ९९.४ से ऊपर नहीं गया। सारी दोपहरी उनकी सेवा में गई। एनीमा विया और स्पंज भी किया। यहां डाक्टरों और नर्सिंग दोनों करने पड़ते हैं।

२६ नवम्बर '४३

प्रकाश का पत्र आया है। उसे भी मृत्यु का ही तार मिला था। बेचारी तुरंत आई। माताजी को बीस-बीस दस्त आते थे, तीन दिन के इलाज से कुछ फायदा हुआ। बेबी को अस्पताल से लाई। उसे हरे दस्त आ रहे थे, मुह में दाने भी थे; पर अब अच्छी है।

२७ नवम्बर '४३

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है, यानी शनिवार। सुबह जितने फूल इकट्ठे कर सकी, किये। उनमें से मोराबहन की पूजा के लिए भी ले आई— बालकृष्ण को महादेव का प्रसाद मिला।

२८ नवम्बर '४३

सोचती हूँ कि मृत्यु से इतना क्या घबडाना, जबकि सभी को आग-पीछे एक-न-एक दिन जाना ही है! मगर यह विचार तो पीछा ही नहीं छोड़ता कि शकुंतला अब कभी नहीं मिलेगी।

बेबी का विचार आता था। भण्डारी आए तो मंते पूछा, "मेरे भाई ने मुझे तार किया था कि वे बेबी को मेरे पास रखने के लिए अर्जी दे रहे हैं। उसका क्या हुआ?"

\*परीक्षा के लिए खून की बूंद धीसे की पट्टी पर फैलाकर ले जाते हैं।

“उन्होंने बताया, “अबों मेरे पास आई थी। सरकार को भेजी है।” मालूम नहीं, सरकार इजाजत देगी भी या नहीं।

२९ नवम्बर '४३

आज बापू का मौन है। डा० गिल्डर को आज मुलाकात का अवसर मिलेगा, भंडारी कल कह गए थे। डा० साहब जल्दी तैयार हुए, मगर गाड़ी करीब साढ़े बारह बजे आई। वो सिपाही साथ गए। साढ़े तीन बजे डा० साहब वापस आए। अभी एक मुलाकात मिली है, दूसरी मुलाकातों की बात चल रही है। वो हफ्ते में पता चलेगा। डा० गिल्डर बहुत खुश हैं।

बापू ने मोहनलाल के पत्र-तार आदि दोपहर को मांगे। रात के समय सरकार को भेजने के लिए एक पत्र तैयार किया। बेबी के विषय में सरकार को मोहनलाल ने लिखा है। सरकार स्वीकार करे तो अच्छा है, नहीं तो मुझे पेट्रोल पर छोड़ दे। हां, इससे कुछ विकल्पें अवश्य बढ जायेंगे। बापू और बा को कष्ट होगा, ये कष्ट सहन कर लेंगे। मुझे लगता है, बापू एक व्यक्ति के बारे में इन लोगों को क्यों लिखें? उनके पास बहुत बड़े काम पड़े हैं, मगर बापू ने लिखा ही। वे छोटी चीजों से ही बड़ी चीजों पर आते हैं। मेरी चचेरी बहन सत्या का पोस्टकार्ड पंद्रह दिन बाद आया।

: ६१ :

## बा के बारे में चिंता

बा की तबीयत परसों से अच्छी नहीं है। कल स्नान-घर में उन्हें इतनी कमजोरी लगने लगी कि उन्होंने मुझे आवाज दी। मैं जाकर उन्हें बाहर लाई। अपने आप उठने की उन्हें हिम्मत न होती थी।

३० नवम्बर '४३

कल रात बापू ने सरकार को लिखा था कि वह मोहनलाल की अबों के अनुसार बेबी को न भेज सके तो मुशीला को पेट्रोल पर छोड़े। मुझे लगा कि बापू तो पेट्रोल के खिलाफ हैं, फिर मेरे लिए क्यों लिखें? बापू इस बात पर विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैंने भाई से भी बात की।

आज इस पत्र ने ही दिन का सारा समय ले लिया।

बा का दम खूब फूल रहा था। रात को आक्सीजन मंगाकर रखी; क्योंकि बा की हालत किसी भी समय बिगड़ सकती है।

१ दिसम्बर '४३

आज मेरे बहुत रोकने पर भी बापू का पत्र गया। मैंने और डा० गिल्डर ने सरकार को पत्र लिखा कि बा की हालत अच्छी नहीं है। उन्हें नियमित मुलाकात मिलनी

चाहिए। वह दवारूप काम करेगी। कच्ची नकल मंने तैयार की थी, जिसे रात में टाइप कर लिया।

२ दिसम्बर '४३-

मालिश के समय बापू को उस पत्र के बारे में बताया, जो कल बा के सम्बन्ध में तैयार किया था। डा० गिल्डर से उन्होंने कहा, "अगर यह पत्र भेजना डाक्टरों को अपना धर्म लगे तो भेजें।" डा० गिल्डर को लगता था कि अभी तो बापू ने उनके और मेरे बारे में भी सरकार को लिखा है। एक और मांग करना शायद ठीक न हो। मुझे लगता था कि भेजना हो तो जल्दी ही भेजना चाहिए; क्योंकि आज बा की तबीयत इतनी बिगड़ गई है और वो हफ्ते पीछे अच्छी भी हो सकती है। दूसरी बार बिगड़े तबतक की राह देखनी चाहिए। अगर मुलाकात बा के लिए दवारूप है तो उसमें देर क्यों की जाए! बा हर बार खतरे से बच ही जाएंगी, यह मानने का कोई कारण नहीं। आखिर डा० गिल्डर कहने लगे, "हम डा० शाह से सब हाल कह देंगे। वे अपने आप लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा।" डा० शाह आज आए नहीं सो कुछ कर नहीं सके।

बा की तबीयत कुछ ज्यादा ढीली है। उनमें स्नान करने की शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने स्पज ही किया।

बापू बहुत विचार में पड़े वीखते हैं, बा की चिन्ता में हैं।

३ दिसम्बर '४३

आज बा की तबीयत कुछ अच्छी है। डा० शाह आकर कहने लगे कि उन्होंने बा को छोड़ने के लिए लिखा है। डा० गिल्डर ने बताया कि वे छूटना तो चाहती नहीं है। मुलाकात की सुविधा के लिए लिखना चाहिए था कि जिससे बा का मन कुछ शान्त हो। शायद डा० शाह इस बारे में लिखेंगे। मीराबहन के बारे में भी डा० शाह ने लिखा है कि या तो उन्हें अस्पताल में भेजा जाए या उन्हें छोड़ दिया जाए। यहां उनका इलाज नहीं हो सकता।

मीराबहन बापू से कुछ सवाल पूछना चाहती हैं ताकि एकाएक छूटने का ड्रकम आ जावे तो उन्हें कठिनाई न आवे।

४ दिसम्बर '४३

आज शनिवार है, महादेवभाई की मृत्यु का दिन। आजकल फूल नहीं हैं। सिपाही ने थोड़े फल टुकटुके किये, जहाँ की सहायता से समाधि की सजावट की।

कल रात में बा की तबीयत बहुत खराब थी। बम के कारण बहुत कम सो सकीं। हम लोग ी कम सो पाए। सबरे दातुन वर्गंरह उन्हें खाट पर ही कराई।

मंने शाम को बाइबिल के समय भी संस्कृत पढ़ना शुरू किया है ताकि अगर पेट्रोल पर जाना हो तो संस्कृत की दोनों किताबें घर से ही पक्की कर लाऊँ, परंतु शंका है कि सरकार जाने की इजाजत दे ही वेगी।

तीन दिन पहले हम शाम को खेलकर लौट रहे थे तो सीढ़ी के पास

कंसा (अक्कीक) के फूलों में एक छोटा-सा पक्षी बंठा फड़कड़ा रहा था। भाई ने पकड़ लिया। कहने लगे कि मीराबहन को दिखाएंगे। ऊपर लाए। मीराबहन ने कहा, "यह शकरसोरा का बच्चा है। इसे दो-चार दिन रखें और जब इसमें उड़ने की शक्ति आ जाए तब जाने दें।" बापू की छोटी-सी रद्दी की टोकरी थी। उसमें पसे बिछाकर, बीच में एक वातुन आरपार रखी। उस पर उसे बिठाया। टोकरी के मुंह पर वे कपड़ा बांध देती हैं कि कहीं बिल्ली न खा जावे और हवा भी अन्दर जाती रहे। उसे शहब खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं। बापू के पास जब बाइबिल पढ़ने आती हैं तो उसे साथ लाती हैं। दरख्त की एक टहनी वहां रख देती हैं और जंगल का-सा वातावरण पक्षी के लिए बन जाता है। फूल लेने जाती हैं तो उसे साथ ले जाती हैं। वह धूप में उछलता-कूदता रहता है। पहले दिन मीराबहन को डर लगा था कि वह बीमार-सा लगता है। मगर धूप में खूब उछलने लगा, इसलिए उनको लगता है कि एक-दो दिन में वह उड़ जावेगा।

बा की तबीयत अच्छी नहीं। दोपहर को स्पंज किया। बाद में उन्होंने थोड़ी नींद ली। आज वह इतना घबरा रही थीं कि एक बार कहने लगी, "बस, मैं अब चार-पांच घंटे की मेहमान और हूँ।" मने कहलाया, "नहीं बा, अभी तो चार-पांच वर्ष हैं।"

शाम को वे कुछ स्वस्थ हुईं। सुबह कटेली साहब पूछ गए थे कि बा किस-किस से मिलना चाहती हैं। बापू ने लम्बी सूची दी और कहा कि याद आवेगे तो और नाम बतावेंगे।

रात में नींद कम आई। बापू भी कम सोए। बापू का रक्तचाप ज्यादा है।

५ दिसम्बर '४३

भंडारी और शाह आए। खबर मिली कि सरकार ने देवदास और रामदास-भाई को आने के लिए तार दिया है। रामदासभाई ने टेलीफोन किया कि नौमू भाभी आज दोपहर तक पहुँचेंगी। वे खुद और बच्चे नहीं आ सके। वे लोग सरकार के तार से बहुत घबरा गए होंगे।

बा की तबीयत आज अच्छी है। रात में नींद अच्छी आई। मुलाकात की आशा से उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है। नौमू भाभी तो शाम को सवा छः बजे आईं। एक घंटे की मुलाकात थी। खाली बा और बापू को वहां रहने की इजाजत थी। धी कटेली सारा समय हाज़िर रहे।

पता लगा है कि देवदासभाई कल आ रहे हैं।

कल रात में बड़ी सर्दी थी। सुबह मीराबहन ने देखा कि पक्षी रात की सर्दी में खतम हो गया था। बहुत बुरा लगा। मीराबहन ने गड़वा खोदकर उसे दबाया। वहां एक पत्थर स्मृति के तौर पर रखा और उस पर कुछ लिखा भी।

कल से शाम को कटेली साहब ने खेलना शुरू किया है, अच्छा लगता है ।

कल मीराबहन ने बापू से कुछ प्रश्न पूछे थे । आखिरी प्रश्न समाजवाद पर था । बापू कहने लगे, “इस प्रयोग की ओर आबन्धी उदासीनता नहीं रख सकता और रखनी भी नहीं चाहिए ।

“मुझे इसमें बहुत रस आ रहा है । चीन और रूस का इतिहास पढ़ा । इसमें शक नहीं कि ये लोग जनता की सेवा के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनका पाया हिंसा में है । हिंसा के बिना वे रह नहीं सकते और हिंसा हमेशा टिक नहीं सकती । इसलिए यह प्रयोग भी अन्त में निष्फल होगा, ऐसा मुझे लगता है । आज तक हिंसा ऊपर के वर्ग वालों के हाथ में थी, अब वह जनता के हाथ में आई है । यह कोई नहीं कह सकता कि इसका परिणाम क्या होगा ।”

मीराबहन ने चीन की बात चलाई । कहने लगीं, “हिंसा के प्रश्न को छोड़कर अगर देखा जाए तो समाजवादियों में और आपके शिक्षण में ज्यादा अंतर नहीं है ।” बापू ने कहा, “मशीन का प्रचार भी तो है ।” मीराबहन बोलीं, “मगर वह इतना बुरा नहीं । उसे आसानी से फेंका जा सकता है । क्या आपको ऐसा नहीं लगता ?” बापू कहने लगे, “मुझे तो उससे उल्टा लगता है । उद्योग का, मशीन का प्रचार हिंसा की जड़ है और उसे निकालना आसान नहीं । उसे निकालना शायद हिंसा को निकालने से भी ज्यादा कठिन है ।”

मीराबहन ने कहा, “मगर वे लोग जल्दी ही समझ जावेंगे कि इस पथ पर चलना मूर्खता है । रूस की आबादी कम है, सो वे तो सदियों अपनी मूर्खता समझे बिना इस रास्ते जा सकते हैं, मगर चीन की आबादी ज्यादा है । वे लोग जल्द ही समझ जावेंगे कि उद्योग बढ़ाने में, मिलें बढ़ाने में, उनकी बर्बादी है ।”

६ दिसम्बर '४३

आज बापू का मौन है । बापू ने बा की मुलाकातों के बारे में एक पत्र सरकार को लिखा, मगर बाद में उसे न भेजने का निश्चय हुआ । डा० शाह आए । कहने लगे, “श्रीमती रामदास को आने की इजाजत फिर मिलनी चाहिए ।” वे भडारी से भी यही कह कर आए होंगे । रात को खबर मिली कि उन्हें आने की इजाजत मिलेगी ।

दोपहर को अख्त्यार में देखा कि देवदासभाई आज दोपहर पुना पहुच रहे हैं । शाम को हम लोग खाने की तैयारी में थे कि पता चला कि देवदासभाई आए हैं । बा ने तो कह दिया कि कल आवें, आज बापू का मौन है । मगर बापू ने अभी आने को कहा । कारण पूछा तो बापू ने लिखा, “अगर बा को रात में कुछ हो जावे तो ?” मौन छोड़ने के बाद रात को समझाने लगे, “महादेव ने जाते समय क्या एक घंटे का भी नोटिस दिया था ? वह तो बीमार नहीं था, मगर बा तो, हम सब जानते हैं, किसी भी दिन बगैर नोटिस बिये जा सकती है । कहीं कुछ हो जावे तो हमेशा के लिए मन में अफसोस रह जावे । देवदास तो बा से मिलने आ रहा है, मुझसे नहीं । मेरे मौन के कारण उसे रोकना ठीक

न था ।”

देवदासभाई आए । उन्होंने बापू को शकुन्तला का सब हाल सुनाया । बाद में माताजी, मोहनलाल और बेबी के समाचार बताए । बेबी अच्छी हैं, सब लोग हिम्मत रख रहे हैं ।

सभी कहते हैं कि अगर मैं शकुन्तला के पास रहती तो शायद उसके लिए कुछ कर पाती, मगर सच तो यह है कि जब किसी को जाना होता है तो बचने के साधन भगवान् गायब कर देता है । बुद्धि भी ऐसी ही उत्पन्न करता है कि बचने की सूरत ही न रहे, इसलिए बार-बार बिसूरने से लाभ क्या ?

माताजी को मेरे पत्रों से बड़ा संतोष मिला, यह बताकर देवदासभाई ने बापू से कहा कि मुशीला के पत्र माताजी के लिए ताकत की दवा (टानिक) का काम करेंगे, इसलिए बापू को चाहिए कि वे मुझे नियमित रूप से पत्र लिखने का आदेश दें । दुःख हुआ । लिख सकूँ तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगे, मगर जब एक बार निश्चय कर लिया कि नहीं लिखना है तो निश्चय किस तरह तोड़ा जाय । सरकार भी कहेगी कि देख लिये ये लड़ने वाले, जरा-सी तकलीफ हुई नहीं कि फिसले !

बापू ने मुझसे आवश्यकता पड़ने पर पत्र लिखने को कहा । मुलाकात में बापू और बा को ही रहने की इजाजत थी । देवदासभाई अभी बंटे ही थे कि इतने में बा की छाती में दर्द अधिक होने लगा । बापू ने देवदासभाई को भेज दिया । बाद में हम लोग बा की सेवा-शुभ्रूषा में लगे रहे ।

बा की तबीयत कुछ अच्छी दीख पड़ी, इसलिए हम लोग घूमने आए और प्रार्थना के बाद काता । प्रार्थना भीतर हुई; क्योंकि कल से बा ने अन्वर सोना शुरू किया है । बा के पास रात के १२ बजे तक बंठी और उन्हें सुलाकर सोई ।

७ दिसम्बर '४३

आज से बापू ने सुबह घूमने जाने का समय आठ बजे का कर दिया है ; क्योंकि सुबह सर्वाँ बहुत पड़ती है । धूप में घूमना अच्छा लगता है । शायद कल से सबा आठ पर ही निकलें ।

डा० गिल्डर बर्गरा ने सुबह का नाश्ता छोड़ दिया है, साढ़े बस-ग्यारह बजे खाना खाते हैं । रसोईघर का सिपाही बीमार है, इसलिए कल से मैं ही रोटी बनाती हूँ । एक दूसरे कंबी को भी सिखाया है, शायद वह अब बना लेगा ।

नौमू भाभी साढ़े तीन बजे आईं और घंटे भर बाद गईं । पीछे देवदासभाई आए । बापू को यह सब समाचार सुनाते रहे । माताजी ने सरकार को जर्जी दी थी कि वह या तो मुझे छोड़े या उन्हें मेरे पास रखे । यह न हो सके तो महीने में कम-से-कम एक मुलाकात की व्यवस्था करे । पंद्रह दिन बाद जवाब आया कि इन बातों में से एक भी नहीं हो सकती ।



मैंने जब यह सुना तो बड़ा अफसोस हुआ। बापू को भी अच्छा नहीं लगा। उनका मत है कि मुझे छुड़वाने की कोशिश करना फिजूल है। सत्याग्रही को यह शोभा नहीं देता। जो करने या मरने की बात कहकर आते हैं, उन्हें तो सरकार छोड़े तो भी वे फिर जेल जाने की तैयारी किये रहते हैं।

बेबी के विषय में देवदासभाई ने बापू को बताया कि उससे तो क्या माताजी और क्या मोहन—सब का मन लगा हुआ है, इसलिए उसको वहाँ से हटाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। इस पर बापू विचार करने लगे। सोचने लगे कि जो खत लिखा था, वह वापस ले लेना चाहिए या नहीं। पेरोल बेबी के लिए मांगी थी, उसके लिए आवश्यकता न हो तो मेरी या मेरी माताजी की खुशी के कारण पेरोल मांगना ठीक नहीं। मुझे भी लगा कि बापू का जो पत्र गया है, उससे किसी तरह का गोलमाल नहीं होना चाहिए। माताजी की खातिर पेरोल मागे तो वह एक स्वतंत्र विषय होगा, बेबी के साथ वह विषय मिलाना नहीं चाहिए। घूमते समय यही चर्चा चली।

देवदासभाई के जाने के बाद बापू को दूध बर्गरा दिया, पीछे घूमने गए। प्रार्थना के बाद काता।

८ दिसम्बर '४३

सब सोच-विचार कर बापू ने बेबी के यहाँ आने या मेरे पेरोल पर छोड़े जाने के बारे में अपनी मांग को वापस न लेने का निश्चय किया। उन्होंने देवदासभाई के मान जाने पर ही वह कार्य करने का विचार किया था, मगर देवदासभाई ने यह पसन्द नहीं किया। उन्हें लगता था कि बेबी का क्या भरोसा है। फिर माताजी व मोहनलाल की बड़ी समस्या के कारण भी यह बात इष्ट थी। मैंने बापू से कहा कि उन्हें जो ठीक लगे वह करें, मगर बापू को लगा कि देवदास ने जो खबर दी है, उसका आश्रय ले कर कुछ भी करना हो तो उसकी सम्मति से ही करना चाहिए।

किशोरलालभाई की तबीयत जेल में बहुत खराब रहती है। वजन ७५ पौण्ड हो गया है। इस बारे में बात करते-करते बापू कहने लगे, "मैंने तो किशोरलाल को खोने की पूरी तैयारी कर ली है। मुझे यह सुन कर जरा भी आश्चर्य न होगा कि किशोरलाल महादेव की तरह नागपुर जेल में ही चल बसा। अहिंसक लड़ाई दूसरी तरह चल नहीं सकती।"

इस परिस्थिति में भी सत्याग्रहियों को जेल से छुड़ाने के लिए आंदोलन की बात करते हुए बापू कहने लगे, "व्यक्तियों के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है, खासकर सरकारी अमलदारों से मिलकर उनसे ऐसी मांग करना तो एकदम अयोग्य है। जो आवामी इन लोगों के पास कुछ भी मांगने जाता है, वह कुछ खोकर आता है। अपना तो खोता ही है, मगर हिन्दुस्तान का भी कुछ खोकर आता है। खुला सार्वजनिक आंदोलन लोग कर सकते हैं, मगर वह तो ऐसे सब के लिए होगा, एक अकेले व्यक्ति के लिए नहीं।"

बा की तबीयत अच्छी नहीं है। बिन में तो कुछ ठीक रही, मगर शाम को ज्यादा

द्विगड़ी। पेट में तकलीफ थी। भाई बाहर से उन्हें उठाकर अन्दर लाए। शाम को हम लोग घूमने गए थे, उस समय भी बा को कुछ घबराहट हुई थी। मुझे बुलवाया था, तभी मैंने निश्चय किया था कि जबतक बा कुछ अच्छी न हों, उन्हें एक मिनट भी अकेले नहीं छोड़ूंगी।

बापू का रक्तचाप कभी-कभी ज्यादा रहता है, सामान्यतः सुबह १९२/१०४। उन्हें बा की काफी चिंता रहती है। कहते थे, "मुझे आशा थी कि बा को साथ लेकर बाहर जाऊंगा, मगर अब वह आशा छूट गई है।"

बा को 'स्ट्रोफेन्थस' नाम की दवा देना बन्द कर दिया है। आज नीमू भाभी और देवदासभाई बा से मिलने आए। सबका स्वागत करने और बिदा करने का काम बापू को करना पड़ता है; क्योंकि दूसरों को तो उन्हें मिलने की इजाजत नहीं है।

९ दिसम्बर '४३

आज रामोबहन, मनु मशरूवाला, बा के भाई और देवदासभाई बा से मिलने आए। दोनों बहनें साथ आईं, फिर मामा और देवदासभाई आए। सुना है कि जब बापू ने मनु की पीठ जोर से ठोंकी तब रामोबहन की बच्ची इतना डर गई कि सारा समय रोती रही। मनु की बच्ची मजे में रही। मनु ने बा को 'कहूँ के पयिक, कहूँ कीन्हू है गमनवा' गाकर सुनाया और उसकी बच्ची ने नाचकर बताया। दूर से मोराबहन गाना सुन रही थीं। बोलीं, "असल गाना ग्रामोफोनी गाने से कितना अच्छा लगता है।"

बा को आज 'डैरीफॉलिन' के दस बूँद दिये। उससे छाती का दर्द बँठा। बारह-एक बजे के बाद उनका दिन अच्छा गया और रात को नींद भी अच्छी आई।

१० दिसम्बर '४३

आज बा के साथ देवदासभाई की आखिरी मुलाकात है। अगर सरकार ने इजाजत दी तो लक्ष्मी भाभी और बच्चों को लेकर देवदासभाई फिर आवेंगे।

बा की तबीयत दिन भर अच्छी रही। रात में बहुत अच्छी नींद आई। खांसी के मिक्सचर के अलावा उन्हें कोई दवा नहीं दी। ऐसा सुधार चालू रहेगा तो बा बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। बापू को इसमें शक है। वे बहुत कम आशा करते हैं।

शाम को भंडारी आए, कल से छुट्टी पर जा रहे हैं। वे देवदासभाई से बातें करके चले गए। श्री कटेली मुलाकात की रखवाली करने में लगे थे, इसलिए भंडारी को लेने या बिदा करने नहीं गए।

११ दिसम्बर '४३

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है। उनकी समाधि पर प्रार्थना करते समय शकुंतला की याद हो जाती है।

रोज डाक की राह देखा करती हूँ । न घर से ही कोई खबर आती है, न बापू के पत्र का सरकारी जवाब ही आता है ।

बा की तबीयत दिन भर अच्छी रही ।

पेट के आपरेशन के बाद जो पलंग इस्तेमाल किया जाता है, वह आ गया है और कल से बा के काम में लाया जाएगा ।

मनु की तबीयत अच्छी नहीं और भाई की भी शाम को बिगड़ी, इसलिए बापू और बा की मालिश मंने ही की । सोने को जाते-जाते ग्यारह बज गए ।

१२ दिसम्बर '४३

बा को आज नए पलंग पर लिटाया । सुबह के समय वे अच्छी थीं; पर दोपहर में ढीली पड़ गई । शाम को फिर अच्छी दिखती थीं ।

सुबह कर्नल भंडारी की जगह कर्नल अडवानी आए । महादेवभाई की मृत्यु के दिन उन्हें देखा था—आज फिर देखा ।

आज मंने सर फ़ीरोजशाह मेहता की जीवनी पढ़ डाली । डाक्टरी पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने का इरादा फिर किया है । सब्जी पीसने की बिजली की मशीन का शीशा मुझसे फूट गया ।

१३ दिसम्बर '४३

भाई की तबीयत कल रात से ढीली थी, आज दोपहर उन्हें बुखार आ गया और १०३.२ डिग्री तक पहुँच गया । शाम से उन्होंने कुनन लेना आरम्भ किया है । हमेशा शेली बघारते रहते थे—“मुझे मलेरिया नहीं हो सकता ।” मच्छरवानी लगाकर तो सोते नहीं थे, इसीलिए मलेरिया का आक्रमण हुआ है । कुनन के असर से रात में केवल एक घटा सोए ।

बप्पू का मौन है । मेरे विषय में जो पत्र उन्होंने सरकार को लिखा था, उसका सरकारी उत्तर दोपहर को आया । सरकार ने मुझे पेरौल पर छोड़ने की या बेबी को यहां रखने की, दोनों प्रार्थनाओं को नामंजूर कर दिया है ।

मोहनलाल का लम्बा पत्र आया है । लगता है कि डाक्टरों ने शकुतला के मामले में बड़ी ढील और लापरवाही से काम लिया । मगर ईश्वर की इच्छा के बिना क्या हो सकता है ?

एक के बाद एक प्रियजनो की मृत्यु सरकार के कारण हो रही है ।

बापू ने लिखा, “मुझे तू लड़ने दे तो मैं पेट भर कर लड़ूँ ।” परन्तु मुझे यह बात ठीक नहीं लगी । बापू लडाई में उतरें तो कहाँ जाकर अटकें, इसका पता नहीं चल सकता । बा अच्छी हैं । रात को खूब सोईं ।

१४ दिसम्बर '४३

बापू ने सरकार के पत्र का उत्तर लिखा और भाई ने उसे टाइप किया । पत्र का भाव यह है कि सरकार की कार्रवाई अनुचित हुई है ।

भाई को १९.६ डिगरी बुखार है, मगर काम तो वे करते ही रहे ।  
कल मैंने अपना ऊनी शाल उधेड़ डाला, बेबी के लिए उसमें की ऊन से कपड़े  
बनाकर भेजूंगी । यहाँ नई ऊन तो कहां से मिल सकती है ?  
कल से हम लोगों ने ब्रेडमिन्टन खेलना आरम्भ किया है । रात में बा कम सोई ।

१५ दिसम्बर '४३

भाई को आज भी १९.६ डिगरी बुखार आया । शाम के बख्त वे खेलना चाहते  
थे, मगर डाक्टर गिल्डर ने मना कर दिया । तब बापू के साथ घूमने निकले ।

कल से डा० गिल्डर ने बांह के अंदर की ओर की नाड़ी के लकवे पर  
(पॅरेलेसिस आब रेडियल नर्व) पर लेख लिखवाना शुरू किया है ।

डा० शाह आज कह रहे थे कि बा के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता हो  
तो बता दें । मैंने कुछ दवाएं लिख कर दो और एक प्रहियेदार कुर्सी के लिए भी कहा ।  
बाहर धूप में से बा को गुसलखाने ले जाने के लिए कुर्सी पर उठाकर लाना पड़ता है ।  
तीन आदमी—मैं, भाई और मनु उठाते हैं । बा को यह अच्छा नहीं लगता ।  
प्रहियेदार कुर्सी में एक ही आदमी ला सकेगा ।

आज मीराबहन बापू से कहने लगीं कि वे 'जंगली जानवर और अहिंसा' पर  
प्रकाश डालें । बापू बोले, "मेरी अहिंसा मनुष्य तक ही जाती है । जंगली जानवरों को  
खोज-खोज कर मारने की सलाह नहीं दूंगा, मगर शेर या चीता कहीं हमला करे तो उसे  
वहां के लोग मारे । उसके लिए तालीम लें तो मैं रोकूंगा नहीं । जितनी जल्दी हो सके,  
कम-से-कम तकलीफ देकर उसे मारना चाहिए ।"

सवाल उठा कि यह तालीम सभी लोग लें या एक व्यक्ति ? और एक व्यक्ति जो  
चुना जाए, वह शारीरिक बल के आधार पर या अन्य गुणों के कारण ? बापू ने कहा,  
"अगर एक को ही चुनना हो तो वह सार्थजनिक मत से चुना जाना चाहिए, शारीरिक  
बल के कारण नहीं, मगर लोगो का वह कितना विश्वासपात्र है, इस माप से । मुझे  
लगता है कि यह तालीम गांव के सब लोग लें तो अच्छा है, नहीं तो एक आदमी दूसरो पर  
बाद में सत्ता जमा सकता है । वह ऐसा न भी करे तो भी लोगो के मन में ऐसा भाव पैदा  
तो होगा कि वह तालीमयाफता आदमी उनमें ऊंचा स्थान रखता है । यह योग्य नहीं है ।

बा रात को खूब अच्छी तरह सोई ।

१६ दिसम्बर '४३

बा आज रात को बेर से सोई । मैं बारह बजे तक उनके पास थी । मनु मेरे जाने  
के बाद बा के ही पास सो गई । भाई के सिर में दर्द था, पर बाद में अच्छा हो गया और  
वे रात के बारह बजे तक पढ़ते रहे ।

१७ दिसम्बर '४३.

सुबह बा आठ बजे के बाद उठीं ।

मंने भीराबहन के साथ साढ़े सात से पौने आठ तक सबेरे कसरत करना शुरू किया है ।

मंगलवार से शाम को बाइबिल का पढ़ना फिर शुरू किया है । भीराबहन 'किंग डेविड' तक पढ़ गई और मैं 'लेबिटिकस' तक पहुंची हूँ । आशा है, उन्हें शीघ्र ही पकड़ लूंगी ।

बा के लिए पहियेदार कुर्सी आ गई है । शाम को बा को उस पर बिठाकर घुमाया । उन्हें बहुत अच्छा लगा ।

बा की तबीयत कुछ ठीक थी । शाम को एकाएक धड़कन का दौरा हो गया, लेकिन गर्दन की एक विशेष नस को दबाने से चन्द मिनटों में ही बन्द हो गया । उसके बाद वे निबल हो गईं और दस बजे रात को सो गईं । अचानक दो बजे उन्हें बड़ी खांसी आई—करीब घंटे भर परेशान करती रही, पीछे चार बजे सो पाईं । शाम को क्वीनीडीन की गोली दी थी । ताकत के लिए 'ईस्टन सिरैप' देती हूँ; क्योंकि बा शक्ति को दबा यांगती है ।

भाई के साथ मंने रात में उमर खय्याम की कबाइयां पढी ।

१८ दिसम्बर '४३

दिन में बा ने करीब ५ घंटे की अच्छी नींद ली । शाम को डा० शाह और अडवानी उनसे मजाक करने लगे, "सरकार का हुक्म है कि रात में अच्छी तरह सोना ।" रात को खबर मिली कि देवदासभाई कल तीन-साठ तीन के बीच आवेंगे । आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है, परन्तु फूल बहुत कम होने के कारण सजावट न हो सकी ।

१९ दिसम्बर '४३

कल रात में बा एक बजे के करीब सो पाईं । मैं उनके पास अढ़ाई-तीन बजे तक बंठी रही । बाब में सो गई । परिणाम-स्वरूप सुबह की प्रार्थना में आज भाग नहीं ले सकी ।

भाई प्रार्थना के बाद दिन भर खाली समय में मोहन और तारा\* के लिए तस्वीरों का एक अल्बम तैयार करते रहे । वे लोग लगभग साढ़े तीन बजे आए । अल्बम की किताब साढ़े चार बजे तैयार हुई । मंने भी दो एक घंटे उसमें बिये । मनु ने थोड़ा समय बिद्या । भाई ने तैयार करके बापू को दिखाई, बापू ने उसे पसन्द किया ।

देवदासभाई के बच्चों के स्वास्थ्य को देखकर बापू को असंतोष हुआ । शाम को धूमते समय कहने लगे, "मैं अपने आपको आदर्श पिता मानता हूँ । मेरे किसी भी बच्चे का शरीर ऐसा सूखा न था । सभी बालक हमेशा स्वस्थ रहे हैं । ये बच्चे तो कुक्काल

\* देवदासभाई के बच्चे

में से आए लगते हैं ।”

बा को लक्ष्मीयत अच्छी रही । अडवानी सुबह आए तो कहते थे कि देवदासभाई को एक ही मुलाकात मिलेगी ; परन्तु बम्बई सरकार द्वारा उन्हें सूचित किया गया था कि मुलाकातें अधिक मिलेंगी ।

२० दिसम्बर '४३

आज श्री कटेली सरकार की ओर से आकर पूछने लगे कि बा को हृदय का रोग कब से है । मैंने बताया कि खांसी तो बरसों की है और उससे हृदय का कमजोर हो जाना भी स्वाभाविक है । मगर हृदय में अब का-सा दर्द पहले नहीं था, दर्द तो पिछले साल सितम्बर से शुरू हुआ है । कटेली साहब ने डा० गिल्डर से भी यही बात पूछी । गिल्डर को भी हृदय में कभी कुछ मिला न था । बाब में बा को आने वाले हृदय के दौरो को तारीख भी उन्होंने मुझसे मांगी ।

कल रात में नींद न आने के कारण बा के कहने पर मैं उन्हें अपनी खाट पर ले गई । वहां भी उन्हें नींद नहीं आई । पास ही होने के कारण बापू भी नहीं सो सके । डेढ़ बजे उन्हें अन्दर लाई । मैं दो बजे के बाद और बा तीन बजे के बाद सोई ।

दो बजे से मनु बा के पास बंठी और उनके पास ही सो गई । पांच बजे उठी तब अपनी खाट पर गई । वे दोनों सुबह आठ बजे तक सोती रहीं ।

आज भी विन में देवदासभाई लक्ष्मीबहन और बच्चों समेत आए । बापू का मौन रहा ।

२१ दिसम्बर '४३

कल रात में बा को बहुत कम नींद आई, दम का दौरा-सा था । कुछ नाराज भी थीं, इसलिए किसी को पास भी नहीं बंठने दिया । रोज एक-दो बजे से आठ बजे तक सोती थी, मगर आज तो सुबह ६ बजे से ही सोई और आठ बजे उठ गई । कुल मिलाकर मुश्किल से दो-तीन घंटे सोई होगी । हम लोग भी नहीं सो पाए । देवदासभाई सपरिवार आज फिर आए । कल सुबह लक्ष्मीबहन और बच्चे विल्ली चले जावेंगे ।

डा० शाह से मैंने कहा कि बा के लिए वे नर्स भेजें । सरकार न किसी औरत रिश्तेदार को बुला लेने की इजाजत दी है ।

बा कनु को बुलाना चाहती है, प्रभावती का नाम भी दिया है । वे कहती हैं, “एक कनु आवे तो काफी है । मुझे और किसी की जरूरत नहीं है ।”

शाम को बहुत दिनों बाद मीराबहन खेलने आईं और ब्रेडमिन्टन खेलीं ।

२२ दिसम्बर '४३

कल रात को मैंने बा के पास रात भर रहने का निश्चय किया था । बा को इससे संतोष रहेगा । बापू की खाट मीराबहन के कमरे के नजदीक ले गए । मेरी खाट बा ने दरवाजे के सामने रखवाई और मनु भी उनके नजदीक ही भीतर सोई । मगर मैं तो बा के पास ही रही ।

खांती के डर से बा ने आज भी नींव की दवा मांगी। मंने बारह बजे उन्हें एक गोली दी, ग्रामोफोन बजाकर सुनाया। बा एक बजे सो गई, मगर सोते में आवाज बहुत करती थीं। आवाज सुनकर बापू डेढ़ बजे के करीब आए। भाई और डा० गिल्डर भी आए। डा० साहब हम तीनों को खड़ा देखकर डर-से गए, मगर मंने बताया कि चिंता का कोई कारण नहीं है। बा शाम को कुर्सी पर झूठकर हम लोगों का खेलना देखने आईं और रात को कंरम भी देखा। दिन में उन्होंने कुछ नींव भी ली और कल से आज का दिन अच्छा गया।

कल वेबल का भाषण पढ़ने के बाद मीराबहन ने यहां से जल्दी जा सकने की आशा छोड़ दी है।

२३ दिसम्बर '४३

कल रात बा कंरम का खेल देखते-देखते अपनी सब बीमारी भूल गई और सुबह आठ बजे तक सोती रहीं। दिन में कभी-कभी दर्द बताती थी, मगर नींव अच्छी आई। दोपहर मणिलालभाई का पत्र आया। पत्र के साथ ही उनके बच्चों के चित्र भी थे। बा चित्र देखकर खुश हुई।

बा ने दिन में दो बार एनीमा लिया। रात को वे आज फिर कंरम देखने गईं। दस बजे में उन्हें ले गई तो उन्होंने मुझे एक खेल खेलने को बिठा लिया। वे मानती हैं कि मीराबहन जीतें तो उनकी जीत है; क्योंकि वे खेल में उनकी सार्थिन रही हैं। मीराबहन अकेली खेलती है तो हार जाती हैं। मनु को सर्दी लगती थी सो बा की मालिश बगैरह मंने की।

२४ दिसम्बर '४३

बा सुबह सवा आठ के बाद उठी। मनु और मैं बारी-बारी से खेलने जाती हैं। एक बा के पास रहती है तो दूसरी खेलने जाती है।

मेरी और मनु की रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं। उसके लिए बापू ने लोहे का एक डण्डा लटकने के लिए लगवाया है, इसलिए उस पर थोड़ी बेर लटकती; पर शरीर जरा-सा अकड़ गया।

दिन में बा को दर्द की कुछ शिकायत रही। शाम के समय कहने लगीं कि कंरम देखने नहीं आऊंगी, इसलिए डा० गिल्डर बगैरह बा की खाट के पास ही कंरम ले आए। बा ध्यान लगाकर दस बजे तक खेल देखती रहीं और अपना सब दर्द भूल गईं। बाद में मालिश करवाकर सोईं।

दोपहर को मुझे कुछ-कुछ हरारत-सी लगती थी, रात को ठीक हो गई।

कल से मंने शाम को रामायण या संस्कृत और दोपहर में बाइबिल पढ़ने का निश्चय किया है।

## अहिंसा में विचार-शुद्धि

२५ दिसम्बर '४३

आज बड़ा दिन है। मगर यहाँ तो सब दिन समान हैं। महादेवभाई की मृत्यु का दिन भी आज ही है। सुबह थोड़े-से चम्पा के फूल लाई थी, इसलिए सजावट सुन्दर हो गई।

खबर मिली है कि देवदासभाई कल आवेंगे। अडबानी और शाह शाम को आए और बोले कि सरकार ने कनु और प्रभावती को यहाँ भेजने से इन्कार कर दिया है। किसी दूसरे को बुलाने के लिए वे कहने लगे। तब बापू ने कहा, “मैं सरकार को बार-बार ‘न’ कहने का मौका नहीं देना चाहता। मैं उसका दृष्टिबिन्दु भी जानता हूँ। उसे लगता है कि यह आदमी बगाबाज है, जापान के साथ मिला है, इसलिए वह मेरी हरेक चीज को अविश्वास की नजर से देखती है।”

किसीने पूछा कि उपवास के समय सरकार ने कनु बगैरह को क्यों आने दिया था? बापू बोले, “तब उसे आशा थी कि यह आदमी बचेंगा नहीं, मगर अब वह देखती है कि इसके हाथों अभी तो उसे और तकलीफ मिलनी है। इसीलिए वह ऐसा कर रही है।”

शाम को बा की मालिश मैंने की। मेरा मन कुछ खिन्न हो रहा है। भविष्य की बात सोचती हूँ। लगता है कि हम लोग जब छोटी-छोटी बातों से ही घबरा जाते हैं तो आजादी लाने में भला क्या सहयोग देंगे? अगर वह काम करने की योग्यता नहीं रखते तो यहाँ बैठकर देश का क्या भला करेगे? जिस लड़ाई के सिपाही ऐसे हों, उसका अन्त कहां जाकर होगा, कौन जानता है।

सुबह बात करते-करते मैंने बापू से पूछा, “जितना प्रचार आपके और कांग्रेस के विरुद्ध इस समय हो रहा है और हुआ है, वैसा कभी पहले भी हुआ था? इतना प्रभाव विरोधी लोग कभी डाल सके हैं क्या?” बापू बोले, “आज तक भी वे कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। मुझे तो निराशा होती नहीं है; क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे मन में जरा भी असत्य या हिंसा नहीं है, इसलिए इस लड़ाई का परिणाम बुरा नहीं हो सकता। अगर मैं अपने मन में असत्य या हिंसा पाऊँ तो दूसरी बात है। तब तो मैं खुद ही कांप उठूंगा।”

मैंने पूछा, “जिन्ना के भाषण से स्पष्ट है कि वह चाहता है कि आप किसी भी प्रकार जेल से न निकलें। मुस्लिम लीग भी आपको गैर हाजिरी में अपना प्रभाव जमा रही है। इसका क्या किया जाय?” बापू कहने लगे, “जिन्ना तो चाहता है कि जबतक



कांग्रेस जेल में हूँ, वह अपना।सबका जमा ले, जितना कर सकता है करवा ले; अगर मैं नहीं मानता कि वह सबमुच प्रभाव डाल रहा है। हिन्दुओ पर तो उसका कुछ भी असर नहीं। मुसलमानो पर भी मेरी दृष्टि से बहुत कम है; क्योंकि वह सत्य-पथ पर नहीं है।”

२६ दिसम्बर '४३

आज बा का दिन बहुत अच्छा गया। स्नान के बाद दो घेन एस्प्रीन दी थी, उससे दर्द बगैर शांत रहा। दोपहर को देवदासभाई सपरिवार आए। बापू ने उन्हें जल्दी भेज दिया ताकि दूसरे भी आ सकें। उनके बाद जमनादासभाई आए। बाद में सामलदासभाई सपरिवार आए। उनके बाद रामदासभाई और कनु। सबको बापू ने जल्दी-जल्दी विदा किया। तो भी वे साढ़े छः के बाद ही घूमने निकल सके।

श्री कटेली का सारा समय मुलाकातो की निगरानी में ही जाता है। चाय तक नहीं पी सकते। खाने को भी देर हो जाती है।

२७ दिसम्बर '४३

आज दोपहर को देवदासभाई, रामदासभाई और कनु आए। कनु शायद बुधवार को फिर मिलने आवेगा।

बापू आज चाहते थे कि हम लोग खेलने जाएं, इसलिए मुलाकातो के ताते को पांच बजे खत्म करना चाहते थे। सबके जाने के बाद हम लोग साढ़े पांच से छः बजे तक खेले।

आज बा के लिए पागलखाने से डा० शाह ने एक आया भेजी है। बेचारी हमारे साथ कैद हो गई है। अब घर नहीं जा सकेगी। घर में उसके तीन बच्चे हैं, वे नानी के पास रहेंगे।

२८ दिसम्बर '४३

आज बा के पेट में कुछ गड़बड़ रही।

दोपहर को देवदासभाई सपरिवार आए।

शाम को मोहनलाल का पत्र आया—शकुन्तला का अंतिम वर्णन किया है। दुःख है।

२४ तारीख के दिन बापू जब घूमकर आए थे तो मुझे बता रहे थे कि मीराबहन को उन्होंने समझाया कि 'अहिंसा में विचार-शुद्धि' अनिवार्य बुनियादी चीज है। मीराबहन ने उस दिन की बातों का सार लिख लिया था, जो इस प्रकार है—“अहिंसा में सबसे आवश्यक चीज है सही विचार-धारा। प्रश्न उठ सकता है कि सही विचार क्या है? सही ध्यान और सही योजना बनाना ही सही विचार नहीं है, वह है मूल तत्त्वों की ठीक पहचान। मिसाल के तौर पर, 'ईश्वर है' यह सही विचार है; 'ईश्वर नहीं है'—यह गलत विचार है। 'मुझे ईमानदार होना चाहिए'—यह सही विचार है; 'बेईमानी भी कर सकता हूँ' यह गलत विचार है। जब आदमी को सही विचार की आदत पड़ जाती है तो सही कार्य अपने आप होता है, मानो कि परिस्थिति के कारण हम कार्य तो सही करते हैं, पर सही

विचार की आदत नहीं। तब उस सही कार्य का उतना असर नहीं होगा और करने वाले को सच्चे-सही कार्य का फल नहीं मिलेगा। सही विचार के बिना अहिंसा में श्रद्धा या निष्ठा की जीवित शक्ति नहीं होगी और जिसे सही विचार की आदत नहीं, वह चाहे भी तो ऐन मौके पर उसका कार्य सही नहीं हो सकता।”

२९-३१ दिसम्बर '४३

बा की तबीयत साधारण है, मगर नींद अच्छी ले लेती है। बुध (२९) के दिन कनु, धीरू, मनु के पिता, उसकी बहन व कुछ और लोग आए। कनु ने बा को दो भजन सुनाए।

शुक्रवार (३१) को मीराबहन ने मेरे तैल-रंग लेकर बापू के लिए लकड़ी के रकते पर 'हे राम' और 'ॐ' बनाया। सुन्दर बना।

१-६ जनवरी '४४

इस हफ्ते में सामलदास गांधी, केशुभाई, राधाबहन, संतोकरबहन, कुंवरजी-भाई और उनकी बड़ी लड़की—इतने लोग बा से मिलने आए। बापू और बा के सिवा मुलाकात में और कोई नहीं रहता। कुंवरजीभाई ने मुझे मुलाकात के समय बुलाया तो मैंने कहला दिया कि आँसू की इजाजत नहीं है।

बा को रात में अच्छी नींद नहीं आई थी। वे डोली थीं। छः तारीख को देवदास-भाई और काति आए। देवदासभाई बंबी की तस्वीरें लाए। उन्होंने मुझको बुलवाया। मेरी इच्छा जाने की नहीं थी, पर जब मनु ने आकर कहा कि बापू, कटेली और देवदास-भाई बुलाते हैं तो मैं गई।

रात को सरकार की तरफ से खबर मिली कि बापू तार के बाहर घूम में नहीं घूम सकते और कनु एक दिन छोड़कर आया करेगा।

७ जनवरी '४४

आज दोपहर को देवदासभाई, काशीबहन, बच्चू और प्रभुदासभाई की पत्नी अपनी दोनों लड़कियों के साथ आए। हम लोग भी थोड़ी देर के लिए बुलाये गए।

डा० गिल्डर को रात में बुखार आया था, इसलिए बापू और बा की मालिश मैंने की।

मनु की आंख दुखती है।

१५ जनवरी '४४

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है। मैं पौन बजे बा का काम पूरा करके नीचे गई। बापू समाधि पर फूल चढ़ा आए थे। वे वहाँ आज जल्दी गए थे। कल शाम को चाबी न मिलने के कारण बाहर जा ही नहीं सके थे। ९ बजे से बा का काम फिर चला। मालिश के वक्त आजकल धूप बर्बाद करना कठिन हो जाता है।

९ तारीख के दिन से बापू घूमने के समय मौन रखते हैं। बाकी समय में भी बा के काम के और मेरे व मनु के साथ पढ़ने के समय को छोड़कर वे लगभग मौन ही रहते

हैं। घर का वातावरण इसी कारण गम्भीर बन गया है।

मीराबहन दो रोज से फिर बीमार है। जुकाम है, साथ ही थोड़ा बुखार भी है। बा की खुशी के लिए हम लोग उनके पास ही कैरम खेलते हैं।

बा ने कल कहा था, “संक्रान्ति है, इसलिए तिल की मिठाई बांटनी चाहिए।” कल तो बाजार से सामान आ नहीं सकता था, इसलिए आज मंगाकर मिठाई बनाई। मूंगफली और दो-दो लड्डू सब सिपाहियों को और कंदियों को बांटे। हम लोगों ने भी थोड़ा खाया।

रात को मेरे सिर में दर्द होने लगा। बाव में मतली भी होने लगी। डा० गिल्डर को भी ऐसा ही हुआ। मैंने तिल की मिठाई को दोष दिया और डा० गिल्डर ने धूप को; क्योंकि मिठाई सबने खाई थी, मगर बापू की मालिश में धूप तो डा० गिल्डर और मैंने ही खाई थी। इसीलिए तकलीफ भी हमों दोनों को हुई।

प्रभावतीबहन ११ तारीख की शाम को आ गईं। बा की सेवा में वह खूब हाथ बटाती हैं।

रात को बा सो नहीं पातीं, इसलिए पास में किसी-न-किसी को बंठना ही पड़ता है।

१७ जनवरी '४४

बापू का बाहर धूप में घूमना बंद हुआ तब उन्होंने अदबानों से कहा कि पूरब की तरफ वाली बाड़ को सीधा करवा दिया जाय तो खुले में घूमने को हो जाय। सरकार ने शीघ्र ही बाड़ सीधी करवा दी। खासा अच्छा रास्ता तैयार हो गया है।

बा की तबीयत सुधरती नहीं दीखती। सुबह अच्छी रही तो शाम को खराब—यही क्रम चल रहा है। जेल की तकलीफों ने उनकी परेशानी और भी बढ़ा दी है। मूलाकाती आते हैं तो कुछ ठीक रहती हैं। उनके जाने पर फिर वही हाल होता है। मन-बहुलाय की व्यवस्था होती तो वे शरीर की ब्यथा भूल जाती हैं।

बापू का आज मौन है, पर इस तरह आजकल रोज ही रहता है। उनका रक्त-चाप ज्यादा रहता है। इस बारे में मैंने डाक्टर गिल्डर से बातें की।

रात में सोते-सोते मैंने माताजी को दो-चार बार पुकारा। बहुधा ऐसा होता है।

१८ जनवरी '४४

आज भी बापू का रक्तचाप बहुत बढ़ा है। सरदों के कारण बढ़ जाता है, वैसे गर्मों के कारण दिन में गिर जाता है। सर्पगंधा देने से सुबह की सरदों में भी बढ़ने नहीं पाता, नहीं तो सुबह बहुत बढ़ जाता है।

बापू ने आज खजूर नहीं खाए; क्योंकि पांच चीजों से अधिक तो वे खाते ही नहीं हैं। दूध का स्थान भी पांचों चीजों में गिना जाता है।

आज दोपहर को देवदासभाई आए। भाई की पुरानी शाल के अन्दर खादी

लगावा दी है। जहाँ फटी थी, रफू करवा दी है। सुन्वर हो गई है।

बा की तबीयत दिन भर अच्छी रही। शाम को साढ़े चार बजे घबराहट शुरू हुई। मुझे बुलाया, जमकर कुछ तसल्ली दी और प्लाट को धूप से साये में किया, पानी पिलाया, बबाया। बाद में कुछ ठीक लगीं। देवदासभाई सवा पांच बजे गए। बाद में साहू और भंडारी जब आए तो बा ने उनसे देवदासभाई को कल फिर भेजने को कहा।

रात को बारह बजे तक मैं, एक बजे से प्रभावहन और साढ़े तीन बजे से भाई बा के पास बारी-बारी से बैठे।

१६ जनवरी '४४

सुबह धूमकर मैं जब लौटती हूँ तो तुरंत बा को एनीमा देती हूँ। बाद में बस बजे तक बापू की मालिश करती हूँ। फिर बा की मालिश, स्नान आदि कराकर स्वयं स्नान करती हूँ। समय मिलता है तो अगर भाई बापू के कपड़े नहीं धो पाते हैं तो मैं ही उन्हें धोती हूँ। फिर नित्य का काम चलता है। यह करते-करते ११॥-११॥ बज जाते हैं। खाना खाकर रामायण, बाइबिल, आधा-आधा घंटा (१२ से १ तक) चलता है। देर से जाऊँ तो उतना ही कम समय मिलता है। तब बापू के पैरों की मालिश करके आराम करती हूँ और २-२॥ बजे भीतर आती हूँ। रसोई का थोड़ा काम देखकर पढ़ने बैठती हूँ। पांच बजे तक कातना, पढ़ना, बा का कोई काम हो तो वह, यह सब करती हूँ। पांच से छ. बजे तक सब लोग खेलते हैं। ६ से ६॥-६॥ तक बापू को खाना देने, खुद खाने और रसोई का काम देखने का क्रम चलाती हूँ। बाद में धूमने जाती हूँ। बापू साढ़े छः बजे निकल जाते हैं। मुझे अक्सर देर हो जाती है। वे ७ बजे तक वापस आ जाते हैं।

बापू जब अपने पैर धोने लगते हैं तबतक मैं उनका चर्खा तैयार रखती हूँ। पीछे रक्तचाप का माप लेकर बापू को चर्खा कातते समय शेक्सपियर पढ़कर सुनाती हूँ। २० मिनट से आधा घंटे तक पढ़ने का समय मिलता है।

सवा आठ बजे प्रार्थना होती है। रात को बापू की मालिश की जाती है। पीछे कंरम खेलना पड़ता है। १०-११ बजे तक भाई के साथ शेक्सपियर पढ़ती हूँ और बाद में सो जाती हूँ। आजकल की यही विन-चर्या है।

आज दोपहर देवदासभाई दो से तीन बजे के बीच आए। बा अच्छी थीं, लेकिन शाम के चार बजे उनकी तबीयत कुछ घबराती थी। मैं सांप और सीढ़ी का खेल (Snakes and Ladders) ले आई। उसमें उनका मन बहल गया।

शाम का कार्य-क्रम रोज जैसा चला।

२० जनवरी '४४

आज दोपहर कनु, मनु की बहन और बहनोई दो बच्चों के साथ बा से मिलने आए। कल बा कहती थीं, "माताजी नहीं आ सकतीं।" कैसे आयें !

दोपहर माताजी और मोहनलाल का पत्र आया। बेबी अच्छी है।

२१ जनवरी '४४

आज मेरा गला बँठ गया है। बा को एनीमा तो वे बिया, मगर बापू और बा की मालिश तथा स्नान का काम न कर सकी। थोड़ा बुखार भी हो गया।

शाम को भंडारी आए तब बापू ने मुलाकातियों और लाइब्रेरी की किताबों के बारे में उनसे बातें कीं।

: ६३ :

## बा की निराशा

२२ जनवरी '४४

बा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें दिन में बेचैनी रही और सारी रात खराब गई। उनके मन में से अच्छी होने की इच्छा और आशा ही उठ गई है। देवदासभाई नहीं आए। कनु आया तो बा को भजन धरंहरं सुनाकर चला गया।

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है। उनकी याद बहुत आती है। सेवाग्राम में पहले दिनों का उनका और मेरा परिचय याद आ रहा है। जीवन का क्या भरोसा है! सात गुलाब के फूल मिल गए तो उनसे समाधि पर सलीब बनाया।

सरकार के तीन नोटिस आए हैं। उनमें यह बताया गया है कि मैं और मीरा-बहन—दोनों क्यों नजरबन्द किये गए हैं। लिखा है—“तुम लोग गांधीजी से निकट का सम्बन्ध रखती हो और चूंकि सार्वजनिक सत्याग्रह की हलचल में हिस्सा लेना तुम्हारे लिए सम्भव था, इसीलिए तुम्हें नजरबन्दी में रखा गया है।” बापू ने इसका उत्तर लिखा है, जिसे मैंने अभी देखा नहीं है।

२३ जनवरी '४४

आज बापू और मीराबहन के उत्तर तैयार हो गए। भाई रात को बैठकर टाइप करते रहे।

बा के पास एक रात मैं और मनु तथा एक रात भाई और प्रभावती रहें, यह तय किया गया है। रात को बा के पास ११ से २। बजे तक मैं रही, बाद में सुबह प्रार्थना के समय तक मनु रही।

करम खेलने से अब हमें छुट्टी मिल गई है। अब डा० गिल्डर, कटेली और मीरा-बहन ही खेला करेंगे।

२४ जनवरी '४४\*

बापू और मीराबहन ने सरकारी पत्र के जवाब आज भेजे। रामदासभाई,

\* २४ जनवरी से २७ जनवरी तक का विवरण भाई की डायरी से लिया गया है।

सुमित्रा और हरिलालभाई बा से मिलने आए। कनु भी आया, मगर बातों के कारण भजन बगैरह अच्छी तरह नहीं हो सके।

२५ जनवरी '४४

आज डा० सिम्काक्स सुबह के समय मीराबहन को देखने आए। शाम को फिर आए। उन्होंने मीराबहन को बेहोश करके उन जोड़ों को तोड़ा, जहां मांस-पेशियां जुड़ गई थीं। डा० साहब बुद्धिमान् जान पड़ते हैं। वे बापू से भी मिले।

वोपहर देवदासभाई, रामदासभाई, सुमित्रा और हरिलालभाई मुलाकात करने आए।

२६ जनवरी '४४

रात में मीराबहन को बुखार आ गया।

आज स्वतंत्रता-दिन है। सबने चौबीस घंटे का उपवास किया। कंदियों के लिए पकोड़े और चाय बनाई।

शाम को सवा सात बजे झडाभिवादन करने गए और वर्ष की प्रतिज्ञा पढ़कर तीन भजन गए।

आज के मुलाकातियों में रामदासभाई, सुमित्रा, कनु और हरिलालभाई थे।

२७ जनवरी '४४

डा० गिल्डर आज अपनी पत्नी और लड़की से मुलाकात करने गए। पिछली दफा की तरह जेलो के इस्पेक्टर जनरल के दफ्तर में मुलाकात हुई। डेढ़ घंटा मिला।

डा० सिम्काक्स सुबह मीराबहन को देखने आए। तीन हफ्ते बाद फिर आवेंगे। मीराबहन का बुखार दूर हो गया है।

बा की तबीयत साधारण रही।

२८ जनवरी '४४

कल रात में दो बजे तक बा के पास रही। बाद में मनु बठी। उसने बताया कि बा केवल २ से ५ बजे के बीच आधा घंटा ही सोई थीं। उसके बाद अच्छी नींद ली। वोपहर रामदासभाई और सुमित्रा आए।

सुमित्रा बा के पैर दबाती थी और उनकी पीठ पर हाथ फेरती थी। कल रामदासभाई और सुमित्रा नागपुर वापस जावेंगे।

२९ जनवरी '४४

बापू सुबह चार बजे उठ गए। प्रार्थना जल्दी हुई। 'टाइम्स' में सर खिमन-लाल सीतलवाड का पत्र प्रकाशित हुआ है। पहला भाग तो कुछ ठीक था, मगर आखीर का बहुत खराब था।

३० जनवरी '४४

बापू आज भी साढ़े चार बजे उठ गए। दिन में भण्डारी बगैरह आए।

बा की रात खराब गई । अचानक प्रभावती की घड़ी का एलार्म बज गया, उससे बा बहुत डर गई ।

बापू शेक्सपियर पढ़ने में लगे हैं । कहते थे कि इसीलिए उनका उर्दू पढ़ना रुक गया है । वे यह नहीं निश्चय कर पाते कि क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें । सच तो यह है कि बा की बीमारी के कारण उन्हें भी पढ़ने का समय कम मिलता है । चिन्ता तो रहती ही है ।

३१ जनवरी '४४

रात में बा को मुश्किल से पौन घण्टा नीद आई । एनीमा के बाद बहुत दम चढ़ा, नाड़ी भी खराब थी । आंक्सोजन और कोरामीन दो तब कुछ दबा । रक्तचाप का माप लिया तो ९०/५० निकला । पेट और छाती में बहुत दर्द और बेचैनी रही । लगता है कि हृदय की किसी छोटी-सी रक्तवाही नाड़ी में खून जम गया है ।

डा० गिल्डर ने और मैंने सरकार को लिखा कि डा० जीवराज मेहता और डा० बिधानचन्द्र राय को सलाह देने के लिए भेजा जाय । बापू ने सरकार को याद दिलाया है कि कनु, वीनशा और मुलाकातियो पर से प्रतिबंध हटा लिये जायं ।

दोपहर को श्रीमती पंडित का पत्र बापू को मिला । सरकार ने लिखा है कि यह पत्र आपको अपवादस्वरूप दिया जाता है । आपका पत्र भी ( यदि कोई खटकने वाली बात न होगी तो ) अपवादस्वरूप ही भेजा जावेगा ।

कनु आया । उसे शाम के सात बजे तक रहने दिया गया । बा को अच्छा लगा । भण्डारी दो बार बा को देखने आए । बा को दिन में काफी बेचैनी रही ।

१ फरवरी '४४

रात में बा को नीद कल से अच्छी आई । पिछले २४ घटो में कमजोरी बढ़ गई है । अगर तबीयत जल्दी नहीं सुधरती तो बा को खो देने का अवेशा है ।

मैं सुबह बापू की मालिश के बाद १० बजे से लेकर १२ बजे तक बा की सेवा में थी । स्पंज आदि करके उनको मैंने एनीमा दिया तो एनीमा लेने के बाद उनके लिए उठकर बैठना कठिन हो गया । दिन में भी बेचैनी काफी रही । खबर मिली कि कनु आज भी आ सकता है और शाम के ७ बजे तक रह सकता है । कनु एक बजे आया । थोड़ी देर बाद सदेश आया कि वह हमारे कैम्प में दाखिल हो सकता है । कनु ने खबर दी कि कल प्रेमाबहन और मणिबहन छूटकर आ गई हैं । शाम को पीने छः बजे भण्डारी, डा० जीवराज मेहता को लेकर आए । डा० मेहता बापू को नहीं देख पाए । बा को उन्होंने देखा और नया नुस्खा लिखा । बा को अच्छा लगा ।

कनु शाम को पांच बजे अपना मामान लेने गया था, वह रात को साढ़े आठ बजे वापस आया और रात को मीराबहन के साथ मैं और वह कैरम खेले ।

बा की देखभाल के लिए बारी-बारी से ड्यूटी करने के लिए एक सूची बनाई ।

उन्हें पांच मिनट भी अब अकेले नहीं छोड़ा जा सकता ।

२ फरवरी '४४

बा की तबीयत कुछ अच्छी है । रक्तचाप भी आज कुछ ज्यादा है । परसों ९०/५० था, कल ८८/५६ और आज १००/५८ है । आवाज में भी कुछ तेजी है । सुबह स्पंज कराने के बजाय उन्होंने स्नान किया ।

बापू को कल सर्पगन्धा दिया था । सुबह उनका रक्तचाप थोड़ा कम रहा । दोपहर को खूब उतर गया — १४४/८४ था । शाम को १५६/९८ हो गया, इसलिए शाम को सर्पगन्धा फिर दिया, ताकि कल सुबह न बढ़े ।

आज शाम को कनु ने प्रार्थना कराई । अच्छा लगा । दिन में उसने रोज की तरह बा को भजन सुनाए ।

शाम को खेल में कनु ने बहुत हंसाया । हसने से ही कसरत हो गई । भाई, श्री कटेली और कनु के हाथ में से रिङ्ग मुश्किल से ही किसी दूसरे के हाथ में आती थी । आज काता भी और दोपहर में कुछ पढ़ा भी ।

३ फरवरी '४४

कल रात में बा बहुत कम सोई और दिन में बहुत बेचैन रहें । रक्तचाप का माप ८४/५२ था । चिन्ता हो गई कि रात को ही कहीं कुछ न हो जाय । इसी विचार से रात को अपनी ड्यूटी लगाने का निश्चय किया, मगर बापू के कहने से यह विचार छोड़ दिया । उन्हें लगता है कि बा समझ जावेंगी कि सुशीला खतरे के कारण उनके पास बंठी है । इसका असर उनपर खराब होगा ।

रात में भंडारी और शाह आए; क्योंकि शाम को भंडारी को खबर दी थी कि बा की तबीयत ठीक नहीं है ।

४ फरवरी '४४

कल रात में बा को बड़ी अच्छी नींद आई । दिन में भी बहुत सोई । दो बार अपने आप दस्त हुआ । ब्रोमाइड के असर के कारण चेहरा अच्छा नहीं दीखता, तो भी कल से तबीयत अच्छी कही जा सकती है ।

सुबह डा० शाह आए । बा ने उन्हें किसी बंध को बलाने को कहा । उन्होंने स्वीकार किया । बा पहले भी बंध के लिए कई बार आपह कर चुकी है ।

दोपहर को बापू के पत्र का सरकारी उत्तर आया । लिखा था कि कनु जेल में रह सकता है । बंध और डाक्टर आबि लाने के बारे में सरकारी डाक्टर विचार करेगा । मुलाकात के समय कितने लोग उपस्थित रहें, इसका निश्चय जेलों के इंस्पेक्टर जनरल करेंगे ।

बापू ने सुझाया कि हम अपना खाना खुद पका लिया करें, जिससे कि सिपाहियों और कैंदियों या और किसीकी मदद न लेनी पड़े और लड़ाई-झगड़े का मौका ही न आवे । शाम को कटेली साहब से बापू ने इस सम्बन्ध में बातें कीं ।



५ फरवरी '४४

बा की तबीयत खराब है। कल रात को तो घबराकर कह उठीं कि मैं जाती हूँ। गीता-पाठ कराया और भजन कराया। बापू भी करीब घंटा भर बैठे। बाद में दो घण्टे तक सो नहीं सके।

सुबह मालिश के समय बापू ने डा० गिल्डर से बातें कीं। आज से दीनशा का आना शुरू हुआ है। पहले सूचना मिली कि उनके आने के समय डाक्टरों के सिवा और कोई नहीं रह सकता, बापू इससे बहुत उत्तेजित हो गए। सरकार को पत्र लिखाया, मगर बाद में कहा गया कि सरकारी सूचना को समझने में थोड़ी भूल हुई। बापू और दूसरे परिचारक भी जा सकते थे, मगर बा के रोग के सिवा दूसरी कोई बात नहीं कर सकते थे। तब बापू ने पत्र को फाड़ डाला।

६ फरवरी '४४

बापू ने दीनशा के दो बार आने की इजाजत ली। उनके आने पर खुद और नर्सों के बा के पास जाने के बारे में भी उनका मन जाना। शाम को बापू ने डा० गिल्डर से बातें कीं। रात में बा के कारण तीन घण्टा जागे थे, इसलिए थकान थी। बा की तबीयत तो गिरती ही जाती है। बंछ लाने के बारे में भण्डारी ने पूछने पर कहा कि वह सरकार से मालूम करेंगे।

७ फरवरी '४४

प्रार्थना देर से हुई। बापू ने सरकार को दो खत लिखे, जिनमें पूछा कि उनके पिछले पत्र का जवाब मिलेगा या नहीं और अगाधा हेरोसन को उनका जवाब भेजा गया या नहीं ?

कल रात बा के पास मेरी ड्यूटी थी, इसलिए सोने का प्रयत्न करते-करते बिन बहुत खराब गया। शाम को बापू और भाई की कुछ बातें सुनी, फिर बापू की मालिश करके सोने गई, पर बहुत कम सो सकी।

: ६४ :

## हालत और बिगड़ी

८ फरवरी '४४

बा रात में बहुत बेचैन रहीं। आज पहली बार पाँच पर सूनन साफ दीख पड़ी है। दीनशा मेहता ने एनीमा दिया, पर निकला कुछ नहीं। बा ने मुझे बुलाया और बोली, "तू एनीमा दे।" मैंने समझाया कि डा० मेहता से अधिक अच्छी तरह एनीमा मैं नहीं दे सकती, मगर बा नहीं मानीं। आखिर मैंने दिया। कुछ मल निकला। फरक इतना ही था कि मैंने पानी बहुत धीमे-धीमे चढ़ाया था।

मेहता और डा० गिल्डर में 'एलिमिनेशन फ़ाइसिस'\* के सम्बन्ध में चर्चा हुई, गरमागरम बहस होने लगी। मंने जाकर दोनों को शांत किया। इतना कर सकी, यह अच्छा लगा।

बा का दिन आज भी खराब गया। बापू शाम को कहने लगे कि अब बा को एनीमा देना छोड़ दो। कमजोरी इतनी है कि कमोड पर अपने आप बंठी नहीं रह सकती, इसलिए कपड़े वगैरह खराब हो जाते हैं।

बापू मुझे रात की ड्यूटी से मुक्त करना चाहते हैं, मगर मैं नहीं मानी।

अगर इजाजत मिली तो डा० मेहता के आरोग्य भवन से डबल रोटी मंगाई जा सकेगी।

९ फरवरी '४४

रात में मैं बा के पास थी। पीने दो बजे बा जागीं और खासीं, बेचैनी थी। १२ से पीने दो बजे तक वे अच्छी तरह सोई थीं। उनके पास बंठी-बंठी थोड़ी देर के लिए मैं भी सो गई। पीछे सोचा कि ऐसे नहीं सोना चाहिए। अगर कुछ हो जावे तो ! मैंने कुछ भजन वगैरह सुनाए और शर्बत बिया। डार्ड बजे जब मैं सोने जा रही थी तब बा कन् से अत्यन्त करुण स्वर में कह रही थी, "कन्तुभाई, सुशीला मेरी बहुत सेवा करती है।" बहुत चोट लगी। कितने दिनों तक अब यह स्वर और मुनने को मिलेगा ? हमारी सेवा क्या प्रभु निष्फल ही जाने देगा ? मैं इस चिन्ता के कारण फिर सो ही नहीं पाई। दिन में भी बहुत कोशिश की, पर नीद न आई।

बापू ने बा की वंछ बुलाने को इच्छा पूरी करने के लिए डा० शाह से कहा। डा० शाह ने भण्डारी से कहा। भण्डारी ने आयगर को फोन किया। आयगर ने विल्की को फोन करने की बात कही। कोई नतीजा नहीं निकला।

दिन में बेचैनी, खासी और नीद न आने के कारण बा को बड़ी तकलीफ रही। उनकी खराक भी बहुत कम हो गई है। डा० वीनशा वंछ को बुलाने के विरोध में थे। सबसे बात को। तब समझे कि बा वंछ बुलाना चाहती है तो हमें रोकना नहीं चाहिए।

१० फरवरी '४४

रात में बा को बिलकुल नीद नहीं आई। बापू ३-३० से ५-१५ बजे तक उनके पास रहे। डा० गिल्डर को उन्होंने बा को आक्सीजन देने के लिए जगाया। मुझे बहुत थकी जानकर नहीं जगाया।

दिन में बा की बेचैनी कम रही। नींद भी अच्छी आई। पेशाब बहुत कम।

\*नैसर्गिक उपचारवादियों का सिद्धांत कि शरीर-शुद्धि की क्रिया के फल-स्वरूप रोगी के कई चिह्न उग्र रूप धारण करने लगते हैं, यह स्वास्थ्य लौटने का पूर्वगामी लक्षण माना जाता है।

आता हूँ। कल बा ने पानी और दूध वगैरह लगभग ४४ औंस लिया, पर पेशाब सात ही औंस निकला। कुछ दस्त के साथ भी। तो आज पेशाब लाने की दवा बी। कोई उपाय न सूझा तो पेशाब लाने के लिए इन्जेक्शन देना पड़ेगा।

आजकल बा की बीमारी के कारण पढ़ना, लिखना या कातना, कुछ भी नहीं कर पाती।

सुबह ९ बजे प्रेमलीलाबहन बा को देखने आईं। बा को बड़ा अच्छा लगा। रो पड़ीं। प्रेमलीलाबहन बंध का इन्तजाम कर रही हैं ताकि सरकार से इजाजत मिलते ही वह तुरंत बुलवाया जा सके।

११ फरवरी '४४

आज सुबह बापू बंध भेजने के बारे में सरकार को पत्र लिख ही रहे थे कि भण्डारी आकर कहने लगे, बंध या हकीम—कोई भी बुलवाया जा सकता है। हाँ, जिम्मेदारी बापू को ही लेनी होगी। इसलिए पत्र फाड़ डाला गया। बापू ने यहीं के किसी बंध को तुरंत बुलाने के लिए कहा और शिवशर्मा नामक बंध को बुलाने के लिए तार करने को कहा।

शाम को पूना के एक बंध थी जोशी आए और हेमगर्भ व अभ्रकभस्म की चार पुड़ियाँ दे गए। यह भी कह गए हैं कि उसके साथ दूसरी दवा नहीं दी जा सकती। बापू ने उसकी दवा न देने का निश्चय किया है। शर्मा आवेंगे तब देखा जाएगा।

रात को एफ़ेडीन मंगवाई ताकि रक्तचाप बढ़ाया जा सके। मंने एक बार यही दवा देने को कहा था, मगर डा० गिल्डर ने सुझाया था कि इसके देने से रक्तचाप के बढ़ाव को हृदय बर्दाश्त नहीं कर सकेगा; लेकिन आज बोले, “यह खतरा उठाया ही जाना चाहिए। बात यह है कि इतने धीमे रक्तचाप से गुर्वें काम नहीं कर सकेंगे और पेशाब भी बहुत कम आएगा। इस कारण शरीर में जहर इकट्ठे होते हैं और स्थिति भयंकर हो जाती है। रात को भण्डारी ने यह दवा भेजी। दवा का असर यह हुआ कि रात में पेशाब आठ औंस हुआ और नींद अच्छी आई।

१२ फरवरी '४४

रात को खबर मिली कि शर्मा सुबह साढ़े दस बजे आवेंगे।

शर्मा बारह बजे आए। बापू खाना खाते-खाते उठे। दो बजे जब शर्मा चले गए, तब उन्होंने खाना पूरा किया। शर्मा कुशल जान पड़ते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व हैं। डा० गिल्डर कहते थे, “अगर यह डाक्टर बनता तो बहुत सफलता पाता।” बापू का मत है, “शर्मा बंध होकर ज्यादा सफलता पा रहें हैं; क्योंकि डाक्टर तो अनेक कुशल होते हैं, सो उनमें यह पहला नम्बर नहीं होने वाला था, जैसा कि बंधों में है।”

शर्मा की दवा शुरू हो गई है। दोपहर को एक छोटी पुड़िया दी, रात के नौ बजे दुशांदा और बड़ी पुड़िया दी और १०।। बजे सॉफ का अर्क और छोटी पुड़िया।

सुबह मंगसल्फ दिया था। उससे बा के चार बार कपड़े बिगड़े, सब कपड़े बबलन पड़े। अब तबीयत कुछ सुधरी है। सुबह जुलाब लेकर बहुत घबराई थीं, बाद में सृजन कम हुई। देखकर खुशी हुई।

रात को ग्यारह बजे से बा को बड़ी बेचैनी शुरू हुई। रात के सवा दो बजे लिख रही हूँ। नींव नहीं आ रही है। बिमाग भी ठिकाने नहीं है। बापू तीन बार आ चुके हैं। अब भाई आकर बंटे हैं। शर्मा को फोन किया था। वे कहते हैं कि पेशाब न होने के कारण ही बेचैनी है, लेकिन किया ही क्या जावे! उन्होंने बा के सिर में मालिश आदि करने को कहा था। सो सब किया, मगर हालत में कोई तबवीली नहीं हुई।

१३ फरवरी '४४

रात में डा० गिल्डर को जगाकर पूछा कि बा को क्या कुछ देना चाहिए? दवा तो बंध की चल रही है। हम लोग कुछ दें भी कैसे? आखिर बापू को सलाह से शर्मा को फोन किया। बा की बेचैनी बड़ी-सी लगी। घबरा गई। कहने लगीं कि तुम्हीं लोग दवा दो। उनको समझाया।

बा को नींव नहीं आ रही थी, इसलिए डा० गिल्डर से बोली, "मुझे अपने कमरे में ले चलो।" बापू आए तो उनसे बोलीं, "मुझे अपनी खाट पर ले चलो।" पीछे मुझसे कहने लगीं, "मुझे प्यारेलाल के कमरे में ले चलो।" तड़के के समय तो खाट से उठकर खड़ी हो गई और बोलीं, "बापू के पास जाती हूँ।" मच्छरदानी में धूकने लगीं, बस कुछ ठिकाना ही न था। मुश्किल से रात कटी। ढाई से सवा तीन बजे तक भाई भी आए। कनु को भी जगाया। वह अकेले बंठने में डरता था, इसलिए साढ़े तीस तक मैं उसके साथ रही और बाद में सो गई।

दिन में बा को दो बार दस्त हुआ, उससे तबीयत कुछ हल्की हुई। शर्मा आए तो बा ने शिकायत की। उन्होंने समझाया। वे शांत हो गईं।

सबेरे पुड़िया खिलाते समय बा बापू के सामने आनाकानी करने लगीं। शर्मा ने छोटी पुड़िया देने को कहा था, जिसे खिलाते-खिलाते मुझे और बापू को पौन घण्टा लग गया। बा मानती ही न थीं। बोलीं, "सुशीला को ही खिलाओ, नहीं तो आप खुद खा लो।" बाद में मैंने कहा कि शर्मा ने कहा है कि बा से हाथ जोड़कर विनय करके कहना कि वे दवा खा लें। इसपर वे पिघलीं और दवा खाईं।

दिन में बा ने दशमूलारिष्ट व पाउडर खाया। शाम को उन्हें इतना अच्छा लगा कि आठ-दस दिन के बाद आज फिर कुर्सी पर बैठकर घूमने की इच्छा प्रकट करने लगीं। इसलिए घर के बरामदे का एक चक्कर लगाया, बालकृष्ण के पास ७ मिनट और तुलसी के पौधे के पास पांच मिनट रहीं। हम लोग घूम रहे थे, सुना तो ऊपर आ गए। बा हमें देखकर खूब हंसीं। सभी बहुत खुश हुए।

प्रायना के बाद बा का दाहिना कंधा और हाथ कांपने लगे। शायद यह एल्कोहल

का असर हो ।

रात में फिर बेचैनी शुरू हुई । एक बजे तक नींद नहीं आई । तब शर्मा को बुलाया । उन्होंने आकर एक ऐसी गोली दी कि खाते ही बा सो गई ।

शर्मा बिन भर यहीं रहे । शाम को पांच बजे बाहर गए । रात को साढ़े नौ बजे फिर आ गए और रात भर बाहर मोटर में सोए । भीतर सोने की इजाजत न थी । सुबह भण्डारी आए । बापू ने इस बात पर कि बंध को उचित लगे तो वह भीतर क्यों न सोए, भण्डारी से काफ़ी कहा; मगर कुछ न हुआ । लाचार होकर उन्हें अगले दिन फिर मोटर में ही सोना पड़ा । दूसरा कोई चारा ही न था ।

१४ फरवरी '४४

पूछने पर शर्मा ने कहा कि अरिष्ट में २ प्रतिशत से अधिक एल्कोहल नहीं था । डा० गिल्डर का कहना है कि १२ प्रतिशत तक होता है । शर्मा यह भी कहते हैं कि अरिष्ट के कारण बा के हाथ नहीं काँपे । बा का दिन अच्छा नहीं गया । पाखाना न होने से बेचैनी रही । शर्मा ११॥ बजे आए, पर बा की बेचैनी देखकर वापस गए और ४ बजे आकर उन्हें दुशांदा पिलाया और पेट पर कुछ लेप किया । उन्होंने कुछ दूध-फल लिया, हमारे साथ खेले और ६ बजे टोस्ट और उदली सटजी खाई । बाद में आयुर्वेद और दूसरे वैदिक विज्ञानों की बातें करके वे ७ बजे चले गए ।

साढ़े सात बजे बा को दस्त हुआ । रात को एक बार हुआ । बापू की सलाह से मंने और डा० गिल्डर ने जाकर देखा कि बा के पैरों की सूजन बड़ी ही है, कम नहीं हुई । पेशाब भी कम निकलता है । फेफड़े पीछे की ओर तो साफ थे, मगर आगे की ओर बलगम से भरे हुए थे । ऐसा इसलिए है कि वे आगे की ओर झुककर बैठती हैं । नाडी भी वैसे ही है ।

सवा दस बजे शर्मा आए । बापू ने उनसे कहा कि डाक्टरों के अनुसार तो बा में कोई सुधार नहीं दीखता । शर्मा भी कहने लगे कि दो दिन में कुछ कहा नहीं जा सकता । बापू ने कहा, "जबतक आपको आत्म-विश्वास हो तबतक आप इलाज करें और जो देना चाहें, दें । जब आप से कहा जाय तब इलाज छोड़ने और बुबारा इस मामले को हाथ में लेने की तैयारी रखें ।" आखिर शर्मा एक पाउडर देकर चले गए ।

शर्मा आज भी मोटर में ही सोए । बापू ने इस विषय में सरकार को कड़ा पत्र लिखा है कि आवश्यकता पड़ने पर बंध को यहाँ सोने की इजाजत होनी ही चाहिए । दूसरा एक और पत्र उन्होंने मुलाकातियों के विषय में लिखा; क्योंकि कल दोपहर सामल-वास गांधी बगैरह आए, उन्होंने बताया कि अब मुलाकात की इजाजत मिलने में कठिनाई होने वाली है ।

सरकार का उत्तर आया कि जिन शर्तों पर डा० गिल्डर को मुलाकात मिली थी, उन्हींके अनुसार हम लोगों की भी मुलाकातें मिलेंगी ।

बा ने मेरी माताजी से मिलने की इच्छा प्रकट की थी, सो वे यहाँ आ सकें

तो अच्छा हो, मगर क्या सरकार इजाजत देगी ?

१५ फरवरी '४४

कल रात में बा को बेचैनी रही, इसलिए उन्हें आक्सीजन दी और उन्हींके पास बंठी रही। तीन बजे बापू और सबा तीन बजे वेंच आए। दवा दी, मगर नींद तब भी नहीं आई। सबा चार बजे भाई को बा के पास बिठाकर मं सोने गई।

दिन में बा अच्छी रहीं, पर शाम के ८ बजते ही बेचैनी बढ़ गई। ९९ डिगरी बुखार है, पेट में पानी है और शायद अब फेफड़े में भी भरने लगेगा। सूजन भी ज्यादा है। वेंच ने सुबह पेशाब लाने का इंजेक्शन देने को कहा। बापू बोले कि इंजेक्शन तभी देना जब उसके बिना काम न चले। इस स्थाल से इंजेक्शन लगाने का विचार कल शाम तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बेचैनी के कारण बा के पास पहले में और प्रभावहन बंठी थीं और अब प्रभावहन और मनु बंठी हैं। मनु को बिठाना अच्छा नहीं लगता। बापू लार्ड वेवल के नाम का एक पत्र मुझे पढ़ने के लिए दे गए हैं। मंने पढ़ लिया है।

१६ फरवरी '४४

रात को मंने कनु को बा के पास बिठाया; क्योंकि एक बजे मं सोने जा रही थी कि बापू ने कहा कि मनु को तबीयत अच्छी नहीं। कटेली साहब वेंच को बाहर पहुंचाकर खुद सोने गए। बापू को यह देखकर दुःख हुआ कि कटेली साहब को भी हम लोगो की खातिर जागना पड़ता है।

दिन में दो बजे बापू ने भण्डारी के नाम एक पत्र लिखा कि वेंच को तो भीतर ही सोने की इजाजत मिलनी चाहिए। तीन बजे वे सो गए। नमक के कानून के विषय में एक तार सरकार को भेजने का विचार कर रहे थे।

पत्र काफी सुधार के बाद साठे ग्यारह बजे भेज दिया गया। उसमें हम लोगो के सुझाये हुए सुधार करके बापू ने उसे कनु को लिखाया था। मीराबहन ने बापू को स्नान कराया।

मथुरादासभाई सकुटुम्ब और राधाबहन बा को देखने एक बजे आए और पीने तीन बजे चले गए। चार से पांच बजे तक बापू और मंने थोड़ी नींद ली। ५ से ६ तक बापू ने हम सबके साथ वेवल वाला पत्र सुधारा।

दिन में बा का पेशाब नहीं उतरा। वेंच कहने लगे, "अभी तक मं डरकर चलता था, मगर आज तो जो कर सक, करना शुरू कर दिया है। पेशाब न उतरे और बा की तबीयत में दो दिन में सुधार न हो तो मं दूसरे चिकित्सकों को भी अबसर दूंगा।"

मीराबहन ने दोपहर को बापू के पास ही बंठना और सोना आरम्भ किया है।

१७ फरवरी '४४

रात दो बजे तक बा के पास मेरी ड्यूटी थी। बा को नींद बहुत कम आई।

बेचैनी अधिक नहीं थी, पर सांस बहुत फूलता था।

बंध ने आकर एक गोली बा को खिलाई। बा आध घण्टे तक सोई, बाकी समय भजन सुनती रहें और कभी-कभी खुद भी मेरे साथ गाने लगती थीं।

बापू ने कनु और मीराबहन के विषय में थोड़ी बात की।

वोपहर सरकार से आध घण्टे की इजाजत लेकर हरिलालभाई आए। बा को यह अच्छा नहीं लगा। बोलें, “वो भाइयों में इतना भेद क्यों किया जाता है? बेबवास रोज आ सकता है, लेकिन हरिलाल एक बार और वह भी आधे घंटे के लिए! यह क्या बात है?”

बापू वहीं बंटे हजामत बनवा रहे थे। यह सुनकर बा से पूछने लगे, “हरिलाल क्या हर रोज आवे?” बा ने कहा, “हा!” बापू ने कटेली सलाह से कहा। हरिलाल-भाई अब रोज आया करेंगे। पूना में आठ रोज रहेंगे। बापू ने उन्हें मेहता के यहां रहने की सलाह दी, मगर हरिलालभाई को धर्मशाला अधिक पसन्द है।

दिन में बा को दम की बड़ी शिकायत रही, पर बेचैनी नहीं थी। मैंने तीन बार आक्सीजन दी। बंध को दवा से दस्त तो काफी हो गए, मगर पेशाब नहीं उतरा। रात में बा को १००.२ डिगरी बुखार हो गया, साथ ही बेचैनी भी हो गई। बापू मुझसे कहने लगे, “बा तुम्हारे हाथ में फिर आवे तो मेरी सलाह तो यह है कि अब दवा देना बन्द कर दो।” मैं बोली, “यह कैसे हो सकता है? जबतक किसी दवा से फायदा होते दीख न पड़े तबतक डाक्टर रोगी को दवा देता ही जाएगा न?”

कल बा के फोफड़े देखेंगे। बंध को दवा का अमर अगर कल तक अच्छा न दीख पड़ा तो शायद वे चले जावें। वे आज यही सोवेंगे।

मनु को बुखार आ गया है।

१८ फरवरी '४४

रात में बा को नींद नहीं आई। भाई उनके पास थे। ३॥ बजे में और बापू जब बा को देखने गए, तो उन्होंने बताया कि बंध ने बा को दो बार दवा दी है तो भी उन्हें नींद नहीं आई। बुखार भी रात में १००.२ डिगरी रहा। ४ बजे हम लोग बा के पास से हटे तो बापू कहने लगे कि अब प्रार्थना क्यों न कर ली जाय।

बापू प्रार्थना के लिए तैयारी कर ही रहे थे कि बंध ने आकर कहा कि बे चिन्ता के मारे रात भर सो नहीं सके; क्योंकि बा का इलाज करने में वे सफल नहीं हो रहे हैं।

रात में बंध ने बा को अच्छे-से-अच्छे रसायनों की दवा दी, मगर नतीजा कुछ न निकला। उनके कहने पर बापू ने मुझसे और डा० गिल्डर से कह दिया है कि हम लोग बा का इलाज जैसे चाहें वैसे करें। इसलिए मैंने तुरंत पेशाब लाने और बिल को ताकत पहुंचाने के लिए दवाइयां दीं। डा० दीनशा ने मैगसल्फ का एनीमा बा को दिया। बाव में कहते थे कि मल बहुत निकला। मैं आई तबतक सब फेंक चुके थे।

बोपहर को डरते-डरते पारे के इंजेक्शन की आधी मात्रा बा को नस में दी । इंजेक्शन का पता बा को नहीं चला और प्रयत्न सफल रहा । संकड़ों में एक को ही इस इंजेक्शन से तुरन्त नुकसान होता है । पांच बजे पांच औंस पेशाब हुआ । हम सबको बड़ी प्रसन्नता हुई । बा भी दिन में खूब सोई । चार बजे एक संगीत-मण्डली आ गई । बा उठीं, तब कुछ संगीत हुआ । पीने पांच बजे बा को पेशाब लगा, इसलिए उसे रोक दिया गया ।

बापू ने बंध के आने के विषय में भण्डारी को फिर लिखा । भण्डारी ने शाम को आकर कहा कि वे आते रह सकते हैं, लेकिन रात को भीतर नहीं ठहर सकेंगे । आज हरिलालभाई नहीं आए । मेहता के यहां टेलिफोन करने को कह गये थे । जब फोन से बताया गया कि उन्हें आने की इजाजत मिल गई है तो पता चला कि वे वहां गए ही नहीं । शाम को मेहता के आने तक उनकी खबर न थी ।

शाम को छः-सात बजे बा को बेचनी शुरू हुई । परीक्षा करने पर पता लगा कि बाहिन फेफड़े के उपरी भाग में निमोनिया के चिह्न मिले । रात को ये चिह्न और बढ़े । यह देखकर रात की दवा में सल्फा की दो गोलियां भी शामिल कर दीं । डर था कि पेशाब कम है, सल्फा कहीं गुदों में बँठकर और अधिक तकलीफ न दे । मगर अखिर खतरा उठाया ही । रात को बुखार १०० डिगरी रहा । मैं बा के पास २ बजे तक बैठी । १२ बजे तक नींद की आधी मात्रा दवा देने पर उन्होंने २ बजे तक अच्छी नींद ली । दो-ढाई घंटे तक आक्सीजन भी ली ।

माताजी और मोहनलाल के मुझे पत्र मिले ।

१९ फरवरी '४४

आज बा को १॥ सी० सी० पारे की दवा और २५ प्रतिशत ग्लूकोज भी नस में दिया, मगर पेशाब नहीं हुआ । इससे निराशा हो रही है । सुबह कुनीन में आधा चम्मच सुनहरी मँगसल्फ दी थी, इसलिए दो-तीन पाखाने हो गए और पेशाब केवल एक बार चार औंस हुआ । बाव में दो बार करके एक औंस और हो गया । अगर सेलिंगन (Salyrgan) का असर हो जाता तो देती । दिन में बा काफी सोई, मगर नींद थकान और दवा के कारण है । बहुत चिन्ता हो रही है ।

बापू बा के पास काफी समय तक बँठते हैं । बंधा भी आए थे । बापू से बातें करते रहे । बापू पर उनका बहुत अच्छा असर पड़ा है ।

२० फरवरी '४४

रात को बा ने खासी नींद ली । लगभग रात भर आक्सीजन चलती रही । बार-बार 'राम-राम' चिल्लाती थीं । साढ़े तीन बजे आक्सीजन की नली बा ने निकाल डाली । सुबह सवा पांच बजे से उन्हें बड़ी बेचनी लगने लगी । मैंने आक्सीजन की नली फिर डाली, तब थोड़ा शांत हो सकीं । बापू आए और बा की खाट पर बँठकर ही प्रार्थना करने लगे । कल के सेलिंगन के इंजेक्शन का असर न होने के कारण निराशा छाई थी ।



तिसपर बा की बेचनी ने और चिंता बढ़ा दी। दो बजे के बाद बापू ने मुझे बा के पास से भेज दिया।

सबको लग रहा है कि अब बा जाती है। बा 'हे राम, हे राम' इतने करुण स्वर से कहती है कि मुना नहीं जाता।

१ बजे बा की नाड़ी खराब हो गई, मगर थोड़ी देर में सुधर गई और बिन भर इधर-उधर चलती रही। रामधुन और भजन बा के पास दिन भर होते रहे। वे भी बीच-बीच में जोरों से गाती थीं। बापू काफी समय तक बा के पास बैठे।

सुबह सवा नौ बजे विभाग शांत करने की दवा दी। परिणामस्वरूप बा घंटे-डेढ़-घंटे के लिए सो गई। उठी तो दातुन मांगी। अच्छी तरह घिस-घिसकर दातुन की। नाक में पानी चढ़ाया। तत्पश्चात् चाय भी पी।

सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बा में इतनी शक्ति कहां से आ गई, मगर थोड़ी देर बाद बेचनी शुरू हुई। पेशाब बहुत कम हुआ।

बा शाम को एनीमा के लिए चिल्लाने लगीं। बापू बोले, "अब बा की दवा राम-नाम ही है, दूसरा सब उपचार छोड़ दो।" सुबह दवा देने के अलावा मैंने फिर दवा नहीं दी, लेकिन मुझे यह बात पसन्द नहीं आई। इच्छा थी कि दिल की ताकत बढ़ाने वाली दवा पूरी मात्रा में दूँ। बापू मे मैंने इसके लिए कहा भी, पर वे बोले, "मेरी तो वृत्ति है कि बा को पानी और शहद के सिवा कुछ भी न दो। वह खुद मांगे तो अलग बात है। एसी ही दवा की बात है। बा जाए तो भले। बा की व्यथा का दृश्य करुण है, मगर मुझे बहुत प्रिय है। बस राम-धुन के सिवा उसे चैन नहीं। आज मैंने उसके मुंह से 'राम' के सिवा और कुछ सुना ही नहीं। मैं दवा को मानता ही नहीं। लड़कों की कैसी-कैसी बीमारी में भी मैंने दवा नहीं दी। बा के बारे में मैंने ऐसा नहीं किया। अब समय आ गया है कि अब तो दवा छोड़ूँ। ईश्वर को बचाना होगा तो ऐसे ही बचा लेगा, नहीं तो बा को मैं जाने दूंगा।"

इसलिए बा ने जब एनीमा मांगा तो बापू ने उसे टालने का प्रयत्न किया और कहा, "अब राम-नाम ही तेरी दवा है।" मगर मैंने कहा, "वे चाहती है तो लेने दीजिए।" तब बापू मान गए। एनीमा दिया, खूब मल निकला। बा तब शांत होकर करीब दो घंटे तक सोई।

डा० वीनशा मेहता दिन भर यही रहे। रात के लिए भी इजाजत मांगी। बम्बई से टेलीफोन आया है कि वे रह सकेंगे।

शाम को एनीमा के बाद बा की हालत इतनी अच्छी रही कि मैंने बापू से कहा कि यदि ऐसी ही हालत रात के बारह बजे तक रही तो मैं दवा देना शुरू कर दूंगा।

भण्डारी, शाह और बंधु सुबह बा की हालत पूछने आए। तभी खबर मिली कि बा की मृत्यु यदि हो गई तो कोई व्यक्ति बाहर न जा सकेगा। बंधु यह सुनते ही जल्दी चले गए। उन्हें साठे तीन बजे की गाड़ी से जाना था।

इस खबर से जान पड़ता है कि सरकार का इरादा महादेवभाई की तरह बा की अंतिम क्रिया यहीं होने देने का है, मगर क्या सरकार उनके लड़कों के भांगने पर भी शक उनको न देगी ?

मुना है कि रामदासभाई नागपुर से चल पड़े हैं। शायद देवदासभाई भी आ रहे हैं। शाम को बा एकाएक बहुत तेजी में आकर हरिलालभाई के न आने पर नाराजी बिलाने लगी। जब उन्हें बताया गया कि दो लड़के आ रहे हैं तब कुछ शांत हुई।

मंने भण्डारी से पेनिसिलीन के लिए कहा। वे कोशिश करेंगे। फौजी अस्पताल में तो नहीं मिली। डा० बिधान राय यहां होते तो ऐसी चीजें उनके द्वारा खोजी जा सकती थीं। जेल में बंटे-बंटे आदमी क्या कर सकता है।

साढ़े नौ बजे से बा की बेचैनी फिर शुरू हुई है। मीराबहन रामधुन मुना रही है।

: ६५ :

## अंतिम रात्रि

२१ फरवरी '४४

रात में नींद की दवा देने पर १२ बजे तक खूब सोने के बाद बेचैनी फिर शुरू हुई, पर आक्सीजन देने पर वे सो गईं।

अब बा के पास एक व्यक्ति से काम नहीं चलता। मनु के आग्रह पर मंने उसे बारह बजे जगाया। मेहता भी १। बजे आ गए। डेढ़ बजे मंने मनु को मुला बिया। बापू रात को दो बार आए। १ से १॥ बजे तक वे बा के पास बंटे, मगर बा ने बंठने नहीं बिया। इतनी बीमारी में भी उन्हें बापू के आराम का खयाल था। बापू १॥ बजे उठकर चले और साय ही बा का धूक पोंछने के दो रुमाल उठाकर धोने ले गये। मंने कहा, "लाइये, मैं थो वूं।" मगर उन्होंने धोते-धोते कहा, "मुझे ही धोने दे।"

कल दिन में डा० गिल्डर मुझसे कहने लगे, "जरा ध्यान रखो। निमोनिया है। बा के आसपास काफी जहरीले कीड़े फैल रहे हैं। बापू वहां बहुत न बंठें।" मंने कहा, "मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं कुछ कहूं। कल दोपहर खाने-पीने के बाद बापू बा के पास बंठे थे। बा ने उनसे जाने को कहा; क्योंकि वे सोना चाहती थीं। मंने कहा कि आप अब उठ जाइए; क्योंकि अगर बा आपका सहारा लेकर सो गई तो फिर आप उठ न सकेंगे। तब बापू उठ तो गए, मगर बाद में बोले, "मुझे थोड़ी देर बंठने बिया होता तो क्या था!" मुझे लगा कि मंने उन्हें उठने के लिए कहा ही क्यों। वे लुशी से बंठें। इसीलिए आज मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं बापू से कुछ भी कहूं।

डा० गिल्डर कहने लगे, "पास भले बंठें, मगर मुंह के नजदीक न रहें।" मंने कहा, "यह कहना भी कठिन है।" तो वे बोले, "हां, मैं अब समझा। आखिर, बापू यह देखते

हैं कि साठ साल का साथ छूट रहा है, इसलिए वे बा से दूर नहीं रह सकते। हम भी उनसे कुछ कह नहीं सकते।" रात के करीब ११। बजे बा मेरी गोद में पड़ी थीं। मेरा एक हाथ उनकी नाड़ी पर था। एकाएक नाड़ी इतनी कमजोर हो गई कि मिलती ही नहीं थी। मुझे लगा कि बा क्या सोते-सोते ही चली जावेंगी। प्रभावतीबहन को आवाज दी कि नाड़ी बापस आ गई और रात भर ऊंची-नीची चलती रही। वो बजे में सोने को गई और सात बजे तक सोती रही। यहां तक कि बापू ने मुझे जगाकर कहा कि डा० गिल्डर बहुत देर से बा के पास खड़े हैं। उन्हें मुक्त कर में गई तो गिल्डर जा चुके थे। नाड़ी बगैरह ठीक थी।

मैं जब बा के पास गई तो वे मुझसे कहने लगीं, "मुझे अण्डी का तेल दे।" मैंने समझाने की कोशिश की कि अब उसकी आवश्यकता नहीं, उससे आपको थकान होगी। वे तेल मांगना भूल जावें, यह सोचकर मैं वहां से हट गई। इतने में प्रभावतीबहन आई और कहने लगीं, "बा अण्डी के तेल के लिए चिल्ला रही हैं।"

मैं और डाक्टर दोनों नहीं देना चाहते थे। इतने में बापू ने जाकर बा को समझाया, "एक बात तो यह कि तू गुस्सा करना छोड़ दे। करना हो तो अकेला मुझपर कर। दूसरे, अब दवा लेनी छोड़ दे। कल से तू राम-नाम लिया करती है, वह मुझे बहुत भला लगता है। अब तो राम-नाम को हृदय पर अंकित कर ले। राम-नाम जिनवा रखेगा तो जीवेंगे, नहीं तो चले जावेंगे।"

बा ने बापू की सब बातें शर्तित से सुनीं। ऐसा लगता था मानो उन्होंने सब कुछ स्वीकार भी कर लिया। थोड़ी देर बाद जब मैं बा के पास गई तो बापू बा से कह रहे थे, "रोगी कभी अपनी दवा खुद नहीं करता। और मैं तो तुझे कहता हू कि अब तू दवा छोड़ दे। सब कुछ भूल जा। मुझे भी भूल जा। राम में ही मन को पिरोले।"

बाद में बापू मुझसे बोले, "बा अब अण्डी का तेल नहीं मांगेगी।" मैंने कहा, "अच्छी बात है।" फिर बापू घूमने को गए। बा मेरी गोद में पड़ गईं। १० बजे मैं उठकर गई। थोड़ी देर बाद जब बा के पास फिर पहुंची, बापू भी आ गये। बा मेरी तरफ उंगली हिलाकर बोलीं, "तो अण्डी का तेल नहीं बिया न?" मैंने कहा, "शाम तक अगर पाखाना न होगा तो अण्डी का तेल दूंगी।" डा० गिल्डर ने भी समझाया। बीनशा ने भी। आखिर आधी चमची अण्डी के तेल में लिक्विड पेराफीन डालकर दी। बा ने वह लिया। बाद में पानी भी। डेढ़ बजे आबसीजन शुरू करके मैं सोने गई। डा० गिल्डर उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। बा सो गईं। मैंने बापू से कहा, "बा जब अण्डी का तेल लेने के लिए इतना आग्रह करती है तो दूसरी दवाएं रोकना कहां तक ठीक है।" बापू का मौन था। उन्होंने लिखकर बिया, "विरोध करने की अब मेरे लिए बात ही नहीं रहती।"

एक प्याले में हृदय को ताकत देने वाली दवा निकाली और डा० गिल्डर से यह कहकर कि बा के जागने पर दवा पिला दें, मैं सोने चली गई।

एकाएक चार बजे गीता-पाठ की ध्वनि सुनकर उठ बंठी, मगर कोई खास बात न थी। बा को सुनाने के लिए गीता-पाठ हो रहा था।

बापहर साढ़े तीन बजे हरिलालभाई आए।

मैंने रामधुन सुझाना शुरू कर दिया। बा शांत होकर सुनने लगीं। छाती में बर्द बताने लगीं। मैंने उन्हें दबा दी और वे मेरी गोद में पड़ी रहीं। ५ बजे में खेलने गईं।

सवा छः बजे के करीब देवदासभाई वगैरह आए। बा उनसे मिलकर रोने लगीं। मनु भी रोने लगी। मैंने बा से पूछा, "क्या मनु भजन सुनावे? बा ने 'हां' कही। मनु ने गाना आरम्भ किया तब दोनों का रोना बन्द हुआ। बा देवदासभाई से भी मिलकर रोईं और बोलीं, "बापू तो साधू हैं। उनको तो बहुत काम है और बहुत जिम्मेदारियां हैं। ... इसलिए तू सबको संभालना।"

देवदासभाई ने बताया कि बा के पास रात को रहने की इजाजत तो उन्हें है, मगर दूसरों को नहीं है। कहने लगे, "संतोकबहन और मनु बा के पास रहें तो बा को अच्छा लगेगा। देवदासभाई ने इसीलिए मुझे बापू के पास भेजा कि वे जाकर श्री कटेली से संतोकबहन के रहने की इजाजत लें। बापू ने कागज पर लिखा, "कटेली सरकार को फोन करें कि बा को सेवा के लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी शांति के लिए संतोकबहन को रहने के लिए सरकार इजाजत दे तो अच्छा हो।"

आठ बजे तक तो उन लोगो को जाना था ही, वे चले गए।

करीब सात-साढ़े सात बजे से मैं बापू के पास बंठी। कनु ग्रामाफोन बजा रहा था। बा मेरा सहारा लेकर १॥ घंटा सो गईं। साढ़े नौ-पौने दस पर प्रभावतीबहन को बा के पास बिठाकर मैं बापू की मालिश करने गईं। लौटकर देखा तो बा सो रही थीं।

बा ने आज न के बराबर खाया। खाने में उनकी अरुचि कई दिनों से बढ़ती जा रही है। बापू ने कहा था, "अभी बा को दूध-चाय भी न दो। अपने आप मांगें तो अलग बात, नहीं तो शहद और पानी ही दो।"

आज बा को पानी और शहद से भी अरुचि हो गई। नियलने में कठिनाई होती थी। मैंने पूछा, "खांसी की दबा लोगी?" पर 'हां' कहकर भी उन्होंने दबा नहीं ली। कहती थीं, "मुझे सुला दो।" प्रभावहन से बोलीं, "हम दोनों यहीं सो जाएं।"

बा को दबा देने के लिए बत्ती जलाई तो देखा कि बिस्तर में उन्होंने पाखाना किया है और उन्हें कुछ मालूम न था। प्रभावहन की भदद से मैंने बा के सब कपड़े बदले। फिर बा को सहारा देकर बंठी। प्रभावहन कपड़े धोने गईं और फिर आकर बा के पास बंठीं। मैंने उठकर बा की बीमारी की नोट-बुक में सब हाल लिखा। ११ बजे देवदास-भाई आए और १ बजे तक बा के पास रहे। मैंने १ बजे प्रभावतीबहन को सोने भेज दिया।

बा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आधी नींद में रहती जान पड़ती है। सिर में बर्द भी बताती है। देवदासभाई खड़े-खड़े उनका सिर दबा रहे थे। उन्हें लगा कि बा सो गईं हैं, इसलिए उन्होंने दबाना बन्द किया, पर बा फिर मुझसे कहने लगीं,

“सुशीला, तू भी थक गई !” मंने कहा, “मुझे थकना क्या ! लाजो न, मैं दबाऊं !” मंने सिर दबाना शुरू किया ।

बेड़ बजे बा को पेशाब की हाजत हुई । पेशाबदान मांगा । डा० मेहता का लाया हुआ रबड़ का पेशाबदान काम में लाई । पेशाब ढ़ाई औंस हुआ— कुछ चादर पर भी पड़ा । बा पेशाबदान पर बैठी थीं तभी बापू भी आ गए । बा कुछ अस्पष्ट शब्दों में बोलीं । दो बजे तक नशे की-सी हालत में पड़ी रहीं । सिर में चक्कर था— दर्द था । तीन बजे के बाद सोई । बा की स्थिति अच्छी नहीं लगती थी ।

२२ फरवरी '४४

सात बजे उठकर मैं हाथ-मुंह धोकर बा के कमरे में धुती ही थी कि बा ने मुझे आबाज दी— “सुशीला ।” मंने पास जाकर पूछा, “क्या है बा ?” कहने लगीं, “सुशीला, मुझे घर के अंदर ले जा । मेरी टहल कर ।” मंने कहा, “बा, तुम घर के अंदर ही तो हो । यह देखो, तुम्हारे पास ‘हे राम’ का चित्र है ।” थोड़ी देर में वे फिर बोलीं, “मुझे घर में ले चलो ।” मंने कहा, “बापू के कमरे में जाना है ?” बा बोली, “हां !” मंने कहा, “बापू के कमरे में ही तो हो ।” मुझे लगा कि बा शायद बापू के पास जाना चाहती हैं । बापू बगल के कमरे में फल के रस का नाश्ता कर रहे थे । जब घूमने जाने को निकले तो मंने कहलाया कि नीचे जाने से पहले दो मिनट बा के पास हो जाए । बापू बा वाले कमरे में गए । थोड़ी देर खड़े रहे, फिर बोले, “मैं घूम आऊं ।” बा ने कहा, “ना ।” बा हमेशा खुद ही बापू को कहा करती थीं कि घूमने जाओ, मगर आज उन्हे लगा कि मेरे पास बैठें तो ज्यादा अच्छा हो । सो बापू बा की खाट पर बैठ गए । दस बजे तक बैठे रहे । बा बस उनकी गोद में पड़ी थी ।

बापू उनसे ‘राम’ में ध्यान लगाने को कहते थे । दूसरी जो सेवा चाहिए, बंटे-बंटे करते थे ।

म दस बजे तक आई । देवदासभाई के साथ बंठी । उन्हें नाश्ता कराया । उन्होंने बा के बारे में टॉटेनहम से जो बातें हुई थी, वे सुनाई । उसने साफ कहा था, “अगर हम बा को छोड़ दें और उनकी हालत ज्यादा बिगड़े, पीछे गांधीजी को न छोड़ा जाय तो तुम्हें वह निष्ठुरता की पराकाष्ठा लगेगी ।”

बा बापू को गोद में शान्ति से पड़ी रहीं । उनके चेहरे का भाव इतना शान्त था और उस समय बा और बापू की जोड़ी इतनी भव्य लगती थी कि डा० गिल्डर कह उठे कि यह दृश्य तो चित्र लेने लायक है ।

दस बजे मंने बा से कहा, “अब मैं बंठूं । बापू नहाने-धोने जाएं ।” बा ने ‘हां’ कहा । बापू उठे । पहले थोड़ा घूमे, फिर थोड़ी मालिश कराई और स्नान किया । मैं अकेली बा के पास थी ।

एकाएक मन में विचार उठा कि बा से अपनी सब जाने-अनजाने की हुई भूलों की माफी तो मांग लूं । मगर मेरे मंह से शब्द निकले ही नहीं । यह भी विचार आया कि

बा कहीं ऐसा न समझ बैठें कि वे जा रही हैं, इसलिए मैं उनसे माफी मांग रही हूँ।

आज सुबह साढ़े सात बजे जब बा मेरी गोद में पड़ी थीं तब बोलीं, “सुशीला, कहां जाएंगे ? भर जाएंगे ?” बा जब पहले कभी ऐसी बात करती थीं तब मैं कहती थी, “नहीं, नहीं बा, यह क्या बोलती हो ? हमें सब साथ घर जायेंगे। मगर आज बा को इस तरह कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा, “बा, एक दिन हम सबको मरना ही है न ? किसीको आगे, किसीको पीछे, एक ही ठिकाने जाना है।”

इसपर बा शान्त हो गईं। सिर हिलाकर ‘हां’ कहा। उस भावना को मैं फिर जगाना नहीं चाहती थी। कठिनता से मैंने कहा, “बा, तुम मुझे नाराज हो ? कल अण्डी के तेल के लिए नाराज हो गई थीं न।” मुझे लगा कि किसी बात को लेकर मैं बा से आगे-पीछे की माफी मांग लूं। मगर बा थकी बहुत थीं। उन्होंने कुछ जवाब दिया, शायद कहा, “नाराज नहीं हूँ।” मगर मैं पूरा समझ न सकी। आगे नहीं बोली।

आज पहली बार बा ने दातुन करने से इन्कार कर दिया। मैंने उनकी जीभ बोरे गिलसरीन से साफ करने का प्रयत्न किया, मगर वह भी न कर पाईं।

मेहता और देवदासभाई गए। मेहता घर गए हैं और देवदासभाई पेनिसिलीन लेने। एकाएक बा ने कहा, “मेहता कहां गया ? मालिश करे।” मैंने कहा, “घर गए हैं, थोड़ी देर में आते हैं।” मगर कन्नु ने कहा, “अभी गए नहीं हैं, जा रहे हैं।” बुलाने पर मेहता आए और पाउडर की मालिश बा के हाथ-पैरों पर कर दी। दस-पंद्रह मिनट बाद वे चले गए।

भण्डारी बापू से मिलने आए। बोले, “देवदासभाई बा का फोटो लेना चाहते हैं। सरकार ने आपकी राय लेने के लिए मुझे भेजा है।” बापू ने कहा, “जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं; मगर बेटे, रिश्तेदार और मित्र फोटो लेने का आग्रह कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकार को फोटो लेने की इजाजत देनी चाहिए और आजकल तो ऐसे फोटो लेने का रिवाज हो गया है।”

भण्डारी ने आश्चर्य-भरे स्वर में कहा, “ऐसी बात है ?” बापू बोले, “आप क्या मृत्यु-शय्या पर पड़े या मरे हुए लोगों के फोटो हर रोज अखबारों में नहीं देखते ?” भण्डारी ने उत्तर दिया, “हां, तो मैं सरकार से यही कहूँ कि आपके लिए फोटो लेना या न लेना—दोनों बातें समान हैं।” बापू कहने लगे, “हां, मुझे दोनों समान लगते हैं, मगर मैं देखता हूँ कि सरकार की शोभा यह दरल्हास्त स्वीकार करने में है।”

भण्डारी चले गए। प्रभावतीबहन को बिठाकर मैं भी चली गईं। स्नान किया और पंद्रह मिनट घूमने में प्रार्थना की।

लगातार दो रोज से मेरे हृदय में ‘मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिम्’ की भावना उठा करती है। भगवान्, क्या तुम बा को अच्छी नहीं कर सकते हो ? पीने बारह बजे मैं बा के पास आई और प्रभावतीबहन को खाने को भेजा। बापू नहाकर निकले, मगर बाहर चले गए। एक बार खाकर बैठें तो अच्छा है। उनकी

यही इच्छा रहती है; क्योंकि एक बार बा के पास बैठकर उनका वहां से उठने का मन ही नहीं होता। आजकल वे तीन-चार रोज से मशीन की पीसी हुई सब्जी और दूध ही लेते हैं। सो बस-पंद्रह मिनट में पूरा हो जाता है। साढ़े बारह बजे के लगभग बापू बा के पास आकर बैठे। थोड़ी देर में बा खाट पर सीधी सो गईं। महीनों से वे सीधी न हो सकी थीं। हमें लगा कि कहीं जाती तो नहीं हैं। देवदासभाई को फोन कराया। वे सोने की तैयारी में थे। फौरन आ गए। थोड़ी देर में वीनशा मेहता भी आ पहुंचे। बा से भजन और रामधन के बारे में पूछा तो उन्होंने इन्कार कर दिया। बापू की सलाह से महादेवभाई वाले कमरे में गीता-पाठ होने लगा जिससे बा के कान में भी ध्वनि जाती रहे। पहले कन् बंठा। इतने में देवदासभाई कमरा लेकर आए और उन्होंने गीतापाठ शुरू कर दिया। कन् देवदासभाई का लाया हुआ कमरा सुधारने लगा, लेकिन सुधार न सका। तब देवदासभाई दूसरे कमरे का प्रबंध करने गए। वीनशा को इसके लिए बाहर भेजा।

कल रात से बा को पानी पीने में अरुचि हो गई है, मगर जब सुना कि देवदास-भाई गंगाजल लाए हैं तो मुह खोल दिया। बापू ने एक चम्मच गंगाजल मुंह में डाला। बा तुरंत पी गईं और बोलीं, “बस?” मानो कि उन्हें और चाहिए। बापू कहने लगे, “बस, अब फिर लेना।” बाब में गंगाजल फिर लिया। जल में तुलसी के पत्ते भी डाले गए थे।

थोड़ी देर में बा को कुछ शक्ति मिली। उठ बैठें और संतोकबहन, केशुभाई, मनु, रामीबहन वगैरह से बातें कीं। भीड़ न हो, इसलिए दूसरे सब चले गए।

गीता-पारायण के बाद संतोकबहन और मनु ने बा को भजन सुनाए।

संतोकबहन वगैरह के आते ही बापू बा के पास से उठकर बाहर चले गए और अपनी खाट पर जाकर सो गए। मैं तो बा के पास थी। कभी बा मेरी गोद में लेट जाती थीं, कभी बंठ जाती थीं। दो बार बा को थोड़ा पाखाना हुआ। सफाई की। पीछे मैं थोड़ी देर आराम करने को चली गई। मगर कोई बुलाकर ले आया। बा का फोटो लेना था। चार बजे के करीब बा के पास से उठी। बापू अकस्मात् बा के पास बैठे हों तो भले हम फोटो ले लें।”

फोटो के ल्याल से बापू बा के पास बैठने वाले नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि अभी आप बा के पास बैठें। मैं थोड़ा सो लूं। बापू मान तो गए, पर बा के पास बैठे नहीं। बा दोपहर उनपर थोड़ा नाराज हो गई थीं। वे दुःखी थीं। सब पर कभी-कभी नाराज हो जाती हैं। बापू कहने लगे, “अभी उसको अच्छा नहीं लगेगा। जब बुलावेगी तब जाऊंगा।

मैं दूसरे कमरे में गई। वहां देवदासभाई आबि बैठे थे। पेनिसिलीन आ गई है, मगर दोपहर बा की हालत इतनी खराब थी कि वह उनके लिए इस्तेमाल नहीं कीं। अभी हालत अच्छी थी, सो देवदासभाई को लगता था कि क्यों न आजमाई जावे।

दोपहर बा संतोकबहन से कहने लगीं, “देवदास ने मेरे लिए बहुत धक्के खाये

हैं। बहुत सेवा की है।”

देवदासभाई से भी कहा, “तूने मेरी बहुत सेवा की है। बहुत धक्के खाये हैं। अब तू अपना कर्त्तव्य पूरा कर।”

देवदासभाई बोले, “बा, सेवा तो डा० गिल्डर, सुशीला, मनु, इन लोगों ने की है। मैंने क्या किया है ?”

अंतिम समय पर देवदासभाई के आ जाने से बा को बड़ा आनन्द और संतोष था। रामदासभाई के विषय में देवदासभाई ने कहा, “बा, रामदासभाई आये हैं।” बा बोली, “क्या जरूरत थी ?” उनके मन में हमेशा यह भावना रहती है कि रामदासभाई को सफर का खर्च नहीं पढ़ने देना चाहिए। देवदासभाई से बात करके बा ने आँसू बन्द कर लीं और ईश्वर की प्रार्थना करने लगीं—“हे कृपालु राम, अब तो तेरी भक्ति चाहिए, तेरा ही प्रेम चाहिए।” पीछे बोलीं, “हे भगवान्, पशु की तरह पैद भर-भर कर लाया है। क्षमा करना।”

उनकी वृत्ति बिलकुल सात्त्विक हो गई थी—उनका चेहरा उस समय देखने लायक था।

शाम को साढ़े पांच बजे भण्डारी और शाह पेनिसिलीन लाये। डा० गिल्डर को बापू का मत जानते हुए उसे देने में संकोच होता था। भंडारी और शाह ने बापू से पूछा तो वे बोले, “सुशीला और डा० गिल्डर देना चाहें तो भले दें।” थोड़ी देर बाद डा० गिल्डर ने मुझसे आकर कहा कि बापू बिगड़ रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि पेनिसिलीन के इंजेक्शन बार-बार देने पड़ेंगे। बापू का मत है कि बा मृत्यु-शय्या पर है, इसलिए अब पेनिसिलीन क्या देना। और लोगों का मत है कि जबतक श्वास है तबतक उपाय करना चाहिए। इतने में बापू ने मुझे देखा, पूछा, “तुमने क्या तय किया है ?” मैंने कहा, “पेनिसिलीन देंगे।” बापू बोले, “क्या तुम और डा० गिल्डर, दोनों मानते हो कि देनी चाहिए ?” मैं ‘हाँ’ न कह सकी। देवदासभाई से बातें करते समय यही बात हुई थी। मुझको निराशा हुई—इसलिए कि बा को बचाने का उपाय होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पा रही हूँ। साथ ही मानसिक शांति भी मिली कि व्यर्थ ही बा के शरीर को छेवना नहीं पड़ेगा।

प्रभावतीबहन अभी बा के पास जा बैठी थीं तब बा ने करुण स्वर में पुकारा था—“बापूजी !”

प्रभावतीबहन ने कहा, “बुलाऊँ ?” बा कुछ बोलीं नहीं। बापू सवा सात बजे घूमने को चले जाते हैं। आज पेनिसिलीन के कारण पहले डा० गिल्डर से बात की, पीछे देवदासभाई को समझाया। सो उन्हें देर ही गई थी। जाने के लिए गुसलखाने में तैयार होने को आया। इतने में प्रभावतीबहन ने बुलाया। बापू आकर बा के पास बैठ गए। बा दो बार उठकर सीधी बैठीं। बहुत बेचैन थीं। बापू ने पूछा, “क्या होता है ?”

अजाने प्रदेश में खड़े एक छोटे बालक की तरह अत्यन्त करुण स्वर और



तोतली जबान से उन्होंने उत्तर दिया, “कुछ पता नहीं चलता।”

मैंने नाड़ी देखी—बहुत कमजोर थी। मगर मुझे लगा कि ऐसा तो कई बार हो चुका है, बा अभी ठीक हो जावेंगी। इसलिए मैं बरामदे में कानू से कहने गई कि अब फोटो ले लो। मगर उसने कहा कि बापू ने मना किया है। मैंने कहा कि फोटो के बारे में उन्होंने कहा था कि अकस्मात् ले लो तो भले ले लेना, अब उसके लिए भी मना कर रहे हैं।

बा के भाई माधवदास आए। बापू कहते थे कि बा ने उन्हें पहचाना, उनकी आंखों में पानी आया, परन्तु वे उनसे बात नहीं कर सकी।

इतने में भीतर कुछ गड़बड़ सुनी। देखा कि बा अंतिम बार उठने की कोशिश कर रही है और बापू कह रहे हैं, “अब पड़ी ही रह न !” बा उनकी गोद में पड़ गईं, आंखें पथरा-सी गईं और गले में घड़घराहट आरम्भ हो गई। ये सब मृत्यु के स्पष्ट लक्षण थे। अचानक श्वास लेने के लिए मुंह खुल गया और दो-चार श्वास लेकर बा सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो गई।

: ६६ :

## बा चली गईं

बापू ने सब तकिये निकालकर बा का सिर अपने हाथ पर ही टिका लिया। खाट की आड़ की गई थी, वह नीची कर दी गई। सब लोग आसपास खड़े थे। बापू ने आंखें बंद कर लीं। अंत समय में सब लोग ‘राजाराम राम राम सीताराम राम राम’ गाने लगे। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। किकत्संख्य विमूढ़ की भांति मैं खड़ी रह गई। डाक्टर होकर भी मृत्यु को तटस्थता से देखना मैंने नहीं सोखा।

दो-तीन रोज से बार-बार यही भावना उठती है कि ईश्वर किस प्रकार मनुष्य का घमण्ड उतारता है। जमनालालजी की मृत्यु की खबर सुनी तो लगा कि मैं पास होती तो उन्हें बचा लेती। उसके बाव ईश्वर ने मिनटों में दूसरा अवसर मेरे सामने महा-देवभाई की मृत्यु का रखा तब मुझे लगा कि मेरे पास सब साधन न थे—जेल में सब साधन कहां से होते। आज ईश्वर ने बा को मेरे ही सामने उठाया और झुनीती-सी दी कि कुछ कर सकती हैं तो कर; मैं कुछ न कर पाई। गिल्डर-जैसे अनुभवी डाक्टर, शर्मा-जैसे कुशल वंश और वीनशा-जैसे प्राकृतिक चिकित्सक, कोई बा के काइल को न टाल सका।

७-३५ पर बा की आत्मा मुक्त हुई। रामधन पूरी हुई। देवदासभाई फूट-फूट कर रोने लगे और ‘बा-बा’ पुकारने लगे। बापू ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। सब की आंखें भोग गईं, पर मेरी सूखी थीं। अभी तक मेरी विमूढ़ता दूर न हुई थी। अबसर



आखें मूदली और प्रार्थना करने लगी .

"हे कृपालु राम, अब ता तेरी भविष्य ही चाहिए । तेरा ही  
प्रेम चाहिए . क्षमा करना ।" पृष्ठ २९३



“दो-चार ध्वास लेकर वा  
मासार्थिक बधनों से मुक्त  
हो गई।” पृष्ठ २०६



“वह मुझ से ममा गई।”  
—बापू

आने पर हमेशा मेरा ऐसा ही हाल रहा है। महादेवभाई की मृत्यु के समय भी ऐसा ही हुआ था और अपने काका की मृत्यु के समय भी।

आखिर बापू उठे और मुझसे कमरा खाली करवाने को कहा। बा को स्नान कराने के बारे में आदेश देते हुए बोले, “तू और मैं दोनों मिलकर बा को स्नान करावेंगे, जैसा कि महादेव के वक्त किया था।”

बा को आज विशेष लाल किनारी की साड़ी, जो बापू के काते हुए सूत से बनाई गई थी, पहनाई जायगी। बा जब बापू के साथ सेवाग्राम से बम्बई जाने लगीं तब यहीं साड़ी उन्होंने मनु को दी थी।

अकबाहू थी कि आश्रम जलत हो जावेगा। इसलिए बा ने कहा, “यह मेरी साड़ी संभाल कर रखना। जब मैं मरूँ तब मुझे यह पहननी है। दूसरी तो बापू के हाथकते सूत की कौन जाने कब मिलेगी।”

मनु ने तब यह जानकीबहन के यहां रखवा दी थी। बा यह साड़ी यहां मँगवाना चाहती थीं, मगर पता न चला था कि कहां रखी है। मनु जब यहां आई तो उसने आश्रम वाले को एक पत्र लिखा और बा के लिए उसे मंगवा लिया। आज बा के लिए यह साड़ी पहनने का दिन आ गया।

बा के शव को बापू के स्नान-घर में रखा। इतने में भण्डारी आ गए। सरकार ने पुछवाया था कि शव के बारे में बापू की क्या इच्छा है। बापू ने तीन प्रस्ताव सरकार के सामने रखे :—

“(१) सबसे अच्छा तो यह होगा कि शव मेरे लड़कों व रिश्तेदारों को सौंप दिया जाय। इसका अर्थ यह होगा कि अत्येष्टि-क्रिया आम जनता के सामने होगी और सरकार उसमें रुकावट न डालेगी।

“(२) अगर यह न हो सके तो महादेव की भांति दाह-क्रिया यहीं हो। सरकार यह कहे कि सिर्फ रिश्तेदार ही क्रिया के समय हाजिर रह सकते हैं तो मैं इसे स्वीकार न कर सकूंगा, जबतक कि वे सब मेरे मित्र, जो मेरे लिए कुटुम्बियों के समान हैं, उसमें शामिल न हो सके।

“(३) अगर सरकार को यह भी मंजूर न हो तो वे सब लोग, जिन्हें बा से मिलने के लिए यहां आने की इजाजत दी गई थी, वापस चले जायेंगे और अत्येष्टि-क्रिया मैं वे ही मौजूब रहेगें, जो मेरे साथ यहां नज़रबंद हैं।”

तब बापू भण्डारी से कहने लगे, “बा अपना राज्य लेकर चली गईं, अब मेरा राज्य है। उसकी खातिर मैं बहुत-सी बातों को बर्बाद कर लेता था, मगर अब मुझे बैसा करने की जरूरत नहीं। मेरे लिए मित्रों और रिश्तेदारों में कोई फर्क नहीं है।”

बापू कहते गए, “आप साक्षी हैं कि अपनी पत्नी की इस सबल बीमारी से किसी प्रकार का राजनैतिक लाभ न उठाने की मेरी हमेशा कोशिश रही है, मगर हमेशा मेरी इच्छा यह रही है कि सरकार जो कुछ भी करे, अच्छे ढंग से करे। मुझे डर है कि आज तक

उसका अभाव रहा है। क्या यह आशा रखना बड़ी बात होगी कि कम-से-कम मरीज की मृत्यु के बाद सरकार जो कुछ करेगी, अच्छा ही करेगी !”

भण्डारी के पूछने पर बापू ने बताया कि मित्रों की संख्या लगभग सौ होगी और देवदास ही निश्चित करेगा कि कौन आवे, कौन नहीं।

उन्होंने व्हा भी स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक बाह-क्रिया होगी ती जनता का प्रदर्शन पूर्णतया शान्त होगा। “मेरे लड़के मर जायेंगे, मगर अशान्ति नहीं फैलने देंगे।”—बापू ने कहा।

बा जब बिदा ले रही थीं तब मथुरादासभाई सपरिवार दरवाजे पर खड़े थे, मगर उन्हें अन्दर नहीं आने दिया गया। भण्डारी ने बापू से कहा, “अगर वे अन्दर आकर फिर बाहर गए तो खबर फल जायगी और फलस्वरूप शहर में गड़बड़ हो सकती है।”

बापू बोले, “अगर वे भीतर आ जावें और एक-दो घंटे यहीं रहें तबतक आप सरकार से हुक्म जारी करा सकेंगे तो सब काम ठीक हो जाएगा न ? बजाय इसके कि सड़क पर खड़े-खड़े इंतजार करें, अंदर हों तो ज्यादा अच्छा होगा।” इसपर मथुरादासभाई को भीतर आने की इजाजत मिली।

बापू बा के शव को नहलाने से पहले मुंह-हाथ धोने लगे। इतने में कटेली साहब बापू के पास आए और बोले, “बाह-क्रिया यदि सार्वजनिक रूप से हो तो आप बाहर तो न जाना चाहेंगे ?”

बापू ने उत्तर दिया, “मैं नहीं जाऊंगा। मेरे लड़के ही सब-कुछ कर लेंगे।”

शव को स्नान कराते समय बापू ने कहा कि जो बहनें चाहे, अन्दर आ सकती हैं। मैं और बापू साबुन लगाकर बा का शरीर साफ करने लगे और प्रभावतीबहन पानी डालने लगीं। मनु और कनु बा के कमरे में फिनाइल का पोता लगा रहे थे। मैंने बा के बाल धोये और पैर साफ किये। फिर पीठ साफ की।

बा को साफ-सुंधरा करके जेल की एक चादर पर लिटा दिया और उसपर गंगाजल छिड़का। इसके बाद उन्हें बापू के सूत की लाल साड़ी पहनाई। श्रीमती ठाकरसी की भेजी हुई हरे किनारे की एक साड़ी को गंगाजल में भिगोकर सुखाया और शव के नीचे बिछा दिया। बा के बालों को कघी की। बापू कहने लगे कि बालों को खुले ही रहने दो। बा के बाल बांधने की डोरी उन्होंने स्वयं धोई।

बा की कंठी और चूड़िया उतार ली गईं। मनुजयमुखलाल ने बा की कंठी के साथ-साथ बापू से बा की चूड़ियां भी ले लीं।

संतोकबहन ने तुलसी की एक नई कंठी बा को पहनाई और बापू के सूत का हार भी उनके गले में डाला। बापू के सूत को रंगकर उसके गजरे बनाए और बा के हाथों में पहनाए। मनु मशरूफाला ने माथे पर कुंकुम का लेप किया और चन्दन का टीका लगाया। ऐसा लगता था, बा सो रही है। बहुत सुन्दर लगती थीं।

उन्हें उठाकर बाहर लाए। एक जेल की चादर पर उन्हें लिटाया। मीराबहन

ने धूने से एक लम्बी चौकी बनाई थी। चौकी के सिरहाने ॐ बनाया था और पैताने ५॥ बनाई थी। मृत्यु के बाद व्यक्ति लम्बा हो जाता है। यह अनुभव मुझे महादेवभाई की मृत्यु के समय पर पहली बार हुआ और आज भी उसी की पुनरावृत्ति हुई। बा के पैरों ने ५॥ को ढंक लिया। उनके सिरहाने और पैताने 'हे राम' के चित्र शोभित हो रहे थे। हम लोग कम्बल बिछाकर बा के चारों ओर बैठ गए।

इतने में भण्डारी सरकारी जवाब लेकर आए और बताया कि आम जनता के सामने वाह-क्रिया करने की इजाजत तो सरकार नहीं दे सकती, मगर मित्र और रिश्तेदार सौ तक की संख्या में यहां सम्मिलित हो सकते हैं। देवदासभाई दरवाजे पर रहकर जिसे अन्दर आने देना चाहेंगे, वे सभी अन्दर आ सकेंगे। स्वामी आनन्द, श्रीमती ठाकरसी और शक्तिकुमार भी आ पहुंचे। मीराबहन और मनु बरबरह ने शव पर फूल चढ़ाए। जो दीपक बा तुलसी के पाँवों के पास रखी करती थीं, वही घी का दीपक बा के सिर के पास आज जल रहा है। दोनों तरफ धूप सुलगाई गई है।

बापू सिर के पास एक ओर बंटे। प्रार्थना करवाई गई। गीता-पाठ करने वाले बा के पाँवों के पास बंटे। उनमें जमनादासभाई, केशुभाई, राधाबहन, भाई, कनु, प्रभावहन, मनु और मैं थे। पहले बापू ने कहा कि सब जने दो-दो अध्याय बोलें, मगर वह ठीक न लगा। कनु कहने लगा कि सबकी ध्वनि बबला करेगी—अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि देवदासभाई स्वर उठावें—हम सब उनके पीछे बोलेंगे। बापू कहने लगे, "पाठ मधुर नहीं होगा तो मैं कहीं भी बन्द कर दूंगा।" अन्य भजनों के साथ-साथ गीता का सम्पूर्ण पारायण एक घंटा २५ मिनट में पूरा हुआ। बापू उसमें एकदम तल्लीन हो गए। बाद में कहने लगे, "बहुत ही अच्छा चला। बड़ा ही मधुर पाठ था। देवदास अपनी पुरानी चीज को भूल नहीं गया, यह मुझे बड़ा अच्छा लगा।"

अब कल कौन-कौन आवेगा, इसपर बात चली। प्रस्ताव रखा गया कि बम्बई से आने वालों के लिए बा की वाह-क्रिया का समय कल क्या ९ बजे से बढ़कर ११-१२ बजे का नहीं हो सकेगा? बापू ने उत्तर दिया, "मैंने मित्रों को बुलाने की बात जब की थी तब बम्बई मेरी कल्पना से बाहर थी। मैंने तो सोचा था कि पूना से ही मित्र लोग आएंगे। इसलिए तुम लोग बम्बई की बात छोड़ दो।"

हम लोगों ने प्रार्थना की, "बापू, बा को देखने की कितनी अधिक लालसा लोगों में होगी, आप इसका खयाल करें। और इसी निमित्त आपके भी दर्शन उन्हें हो जाएँ तो वे शांति पावेंगे और आज के बाद तो इस महल के दरवाजे पर दोहरा ताला लगने वाला है ही।"

तब बापू बोले, "तो भी मैं बा की मृत्यु का ऐसा उपयोग नहीं करना चाहता। लोगों को खबर हो जाएगी तो वे आना ही चाहेंगे। फिर हम जामजा क्यों किसीको तकलीफ दें।"

किसीने कहा, "कम-से-कम फोन तो करने दीजिए कि जिसके पास साधन

हों, वे आ सकते हैं।”

मगर बापू नहीं माने। उन्होंने श्रीमती ठाकरसी से कहा कि स्थानीय लोगों को ही बुलावें। इसके बाद मनु और संतोऋबहन के सिवा अन्य लोगों को बाहर भेज दिया जाय।

एक बजे के करीब बापू खाट पर लेटे। बा को पेनिसिलीन देने के बारे में बापू ने मना किया था। उसकी बात करते हुए वे कहने लगे, “ईश्वर ने मेरी श्रद्धा की परीक्षा ली। मना करके मैंने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और सिद्धांत की दृढ़ता बता दी। ऐसा न करता तो भी बा को इंजेक्शन देने का समय ही नहीं रहा था।”

मैंने कहा, “हा, पिचकारी अभी उबल ही रही थी कि बा चल दें।”

बापू बोले, “कुछ होने वाला तो था ही नहीं। मैंने अगर मना न किया होता तो बस मेरी लाज जाने वाली थी।”

देवदासभाई कह उठे, “फोटो के बारे में भी यही बात है। बापू ने मना न किया होता तो भी कनु कुछ कर नहीं पाता। कमरे में फिल्म बँटाता ही कि इतने में बा चल देती।”

एक बजे के करीब बापू खाट पर लेटे। २॥ बजे तक मैं देवदासभाई के पास बँठी। बा के स्मरणों की बात करती रही। प्रभाबहन और मनु मशरूबाला शव के पास देवदासभाई के पास तीन बजे तक बँठे। तीन से पांच तक कनु और सतोक बँठे। पांच से सात बजे तक मैं और भाई बँठे। शव के पास बँठकर बापू ने प्रातःकाल की प्रार्थना कराई।

: ६७ :

### अंत्येष्टि-क्रिया

२३ फरवरी '४४

बापू साढ़े छः बजे उठे, प्रार्थना कराई और फल का रस लिया। तब उन्होंने सबको नाश्ता करने की सलाह दी, मगर सतोऋबहन ने कहा कि शव को जलाकर रानान किये बिना पानी नहीं पिया जा सकता। यह जानकर हम लोगों ने कुछ नहीं खाया-पिया। केवल डा० गिलडर और श्री कटेली ने चाय पी।

७॥ बजे बापू फिर रात की जगह आकर बँठ गए। हम लोगों ने बगीचे में से ताजे फूल लेकर सजावट की।

मैं, कनु और कटेली दाह-क्रिया की जगह देखने गए। महादेवभाई की समाधि के पश्चिम की तरफ वाली दीवार हटा दी गई थी। समाधि के पास ही बा के शव के लिए स्थान तैयार हो रहा था। बा हमेशा कहा करती थीं, “मुझे कहां बाहर जाना है !



"एक जेल  
की चादर  
पर उन्हें  
लिटाया।"  
पृष्ठ ३९६



और बेटे ने अर्घ्य सजाई



मुझे तो महादेव के पास ही आखिरी नींद में सो जाना है ।”

यह सब ही हुआ । मुझे हमेशा आशा रही थी कि बा को अपने साथ लेकर जावेंगे । वह आशा मिट्टी में मिल गई । स्वतंत्रता की वेदी पर इस जेल में यह दूसरा बलिदान हुआ । क्या ऐसे-ऐसे बलिदान हर साल देने पड़ेंगे ? हमें यह सहषं स्वीकार हो सकता है, मगर भगवान् बापू को इस जेल से सही सलामत बाहर निकाले और पूर्ण विजयी बनने की शक्ति प्रदान करे । यही अन्तरात्मा की प्रभु से विनती है ।

धीरे-धीरे लोग बाहर से आने लगे । सबसे पहले नरगिसबहन, पीछे और सब लोग । श्रीनिवास शास्त्री, केलकर, कृष्णा हठीसिंग और उनके पति आदि आए । पता लगा कि शांतिकुमार की पत्नी हवाईजहाज से आ रही है ।

महादेवभाई की वाह-क्रिया जिन ब्राह्मणों ने कराई थी, वे ही फिर आ पहुंचे । कटेनी ने शव के लिए शुद्ध खादी मांगई थी, लेकिन बापू ने उसे यह कह कर अलग करा दिया कि खादी बेकार जलाना नहीं चाहता । यह गरीबों के काम आवेगी ।”

रात को श्रीमती ठाकरसी ने चन्दन की लकड़ी के बारे में बापू से बात की । बापू ने उत्तर दिया, “जब मैं गरीबों को चन्दन की लकड़ी से नहीं जला सकता तो बा को, जो उस व्यक्ति की पत्नी है जो अपने आपको गरीब-से-गरीब मानता है, चन्दन से कैसे जला सकता हूँ ।”

कटेनी बोले, “मेरे पास चन्दन के दो पेड़ कटे पड़े हैं ।” बापू कहने लगे, “तुम तो जो दोगें, वही काम में आएगा । आखिर सरकार को ही तो सारा इंतजाम करना है ।”

ब्राह्मणों और रिश्तेदारों ने मिलकर अर्था तैयार की । ब्राह्मण लोग देवदास-भाई से पूजा करवाने लगे । इसके पहले मनु मशरूबाला ने बा की आरती उतारी थी । ‘वैष्णवजन’ वाला भजन गाया गया और रामधुन चलाई गई । यह सब हो चुकने पर सब लोगो ने बा को प्रणाम किया । मैं स्वयं बा के चरणों पर सिर रखकर अपनी भूल-चूकों के लिए क्षमा मांगने लगी । उस समय मैं अपने आपको रोक न सकी, आँसों से आंसू गिरने लगे । मैं जल्दी से गुसलखाने की ओर चली गई । कल से मैं मनु और प्रभावतीबहन वगैरह को समझा रही थी कि रोने से मृतक की आत्मा को क्लेश होता है, सो मुझे रोते देखें तो ठीक नहीं ।

लोलावती आसर आई, कल विन भर पूना में थी, मगर जीवित बा के दर्शनों का सौभाग्य उनके लिए नहीं था । बापू को गोद में गिरकर फूट-फूट कर रोने लगीं । जब लोग आने लगे तो बापू दरवाजे के पास ही खड़े हो गए । मृदुला भी पहुंच गई । बालुकाका गेरुवे कपड़े पहने एकतारा और करताल बजाते हुए कीर्तन कर रहे थे । लोग दर्शन करके बगीचे में जाकर बैठते थे ।

साढ़े नौ बजे के बाद अर्था सजी । बालुकाका के लाये हुए तिरगे शण्डे से शव को ढंक दिया गया । सिवूर में रंगे हुए सूत की आटियों से शव को अर्था पर बांधा गया ।

यह सूत मेरा काला हुआ था। शंभे को फूलों से सजाया।

कनु ने उस समय कई फोटो लिये। जीवित बा के पास बैठे हुए बापू का चित्र तो वह न ले सका, पर मृत बा के पास बैठे हुए बापू का फोटो लिया। फोटो लेकर कैमरा भी कटेली को सौंप दिया गया। वे ही सब सामान अपने पास रखेंगे।

इमशान में कुछ आवश्यक पूजा आदि के पश्चात् कनु, जयमुखलालभाई, शांतिकुमारभाई, कमलनयन बजाज वगैरह ने चिता की लकड़ी चिनी। शव को चिता पर रखवाकर बापू ने प्रार्थना करवाई। ईशावास्थमिदं सर्वं, असतो मा सद्-गमय, अउज्ज-अ-बिल्ला, मज्जा अ मोह बहिस्ता, ध्मेन आई सर्वे वि बंडरस फ़ॉस, मंगल मन्दिर खोलो, रामधनु (राजा राम राम) तथा गीता के बारह अध्याय चले। तब देवदासभाई ने साढ़े दस बजे चिता में आग दी।

बापू एक लकड़ी का सहारा लिये खड़े थे। कुछ लोगों ने दौड़कर कुर्सी का प्रबंध किया और कुछ ने उनसे बँठने की प्रार्थना की; पर बापू ने बँठने से इन्कार कर दिया। मीराबहन ने बापू के ऊपर अपने छाते से छाया कर ली।

ज्वाला जब खूब भड़की तब लोगों को कुछ पीछे हटना पड़ा। बापू भी हटे और इमली के पेड़ के नीचे जाकर कुर्सी पर बँठे। आशा थी कि बारह बजे तक क्रिया पूरी हो जायगी, मगर अग्निबाहू ही साढ़े दस बजे शुरू हुआ।

बा के शरीर में पानी भरा था। चिता भी उचित रीति से चिनी नहीं गई थी, इसलिए जलने में बड़ा समय लगा। अधजला शव जब बांस से चिता पर ठीक रखने के स्थाल से हटाया जाता था तब बार-बार नीचे लुढ़क जाता था। भयानक वृष्य था। सिर के पास अभी और लकड़ियाँ रखने की आवश्यकता थी। दूर से फँकने पर लकड़ियाँ ठिकाने पर न पड़कर इधर-उधर गिरती थीं। आखिर कनु हिम्मत करके पास जाकर लकड़ी ज्वाला में रखकर आया। उसकी आँखों की पलकें, मुँह और हाथ झुलस गए। शांतिकुमारभाई सब समय लकड़ी डाल रहे थे। सगा पुत्र अपनी माँ के शव की दाहक्रिया में इससे अधिक प्रेम और भक्ति से काम नहीं कर सकता।

लगभग दो घंटे बाद बापू से कहा गया कि वे जाएँ, हम लोग पूरा करके आवेंगे। बापू उठने वाले थोड़े ही थे, बोले, “६२ वर्ष साथ रहकर अब आखिर के दिन मुझे इतनी क्या जल्दी लगी है! बा भी क्या कहेंगी!” यह सुनकर सब चुप हो गए। बहुत-से लोग चले गए और बहुत-से बँठे रहे, पर बापू नहीं उठे।

साढ़े चार बजे सब क्रिया सम्पन्न हो गई। बापू तब ऊपर आए। मैं स्वयं साढ़े तीन बजे के बाद बहुत धबरा गई थी। धूप में खड़े रहने से प्यास बढ़ रही थी, थकान-सी चढ़ी थी और सिर चकरा रहा था। इतने में आई हुई एक बहन ने कहा कि उसे गुसलखाने में ले चलूँ। कटेली से पूछकर मैं उसे ऊपर ले गई। जाकर पहले तो ठंडे फर्श पर लेट गई, फिर स्नान किया, जिससे कि लोगों के आने पर उनकी भबद कर सकूँ। फिर नीचे गई, मगर बापस आना पड़ा। इमशान में खड़े रहने की शक्ति

“बादी बेकार  
जलाना नहीं  
चाहता। यह  
गरीबों के काम  
आवेगी।”  
पृष्ठ ३९९



कटेली ने कहा,  
“मेरे पास चदन  
के दो पेड़ कटे  
पड़े हैं।”  
पृष्ठ ३९९.





अग्नि-बाह

"दम बज चिता में धाय दी।" पृष्ठ ४००

"बहुत में लोग चले गए, बहुत में बैठे रहे, पर वापू नहीं उठे।" पृष्ठ ४००



स्नान के बाद भी नहीं आई थी। चार बजे कृष्णा हुईसिंग ऊपर आई। उनके सिर में बर्ब था। 'एस्प्रिन' चमकिए था। डा० गिल्डर ने गोली दी, चाय पिलाई। दुबारा नीचे आई तब बापू ऊपर आ रहे थे। उनके स्नान की तैयारी कराई, मगर उन्हें तो पहले सबको बिदा करना पड़। तो कुछ लोग बरामदे में खड़े रहे। आसिर सब लोग एक-एक करके चले गए तब बापू ने स्नान करके भोजन किया। केवल देवदास-भाई इसलिए रह गए कि उन्हें बा के फूल चुनकर शुक्रवार के दिन जाना है। शुक्रवार तक वे बाहर न जा सकेंगे।

रामदासभाई अभी तक नहीं आए। मगर आए तो यहां रह सकेंगे। छः बजे भण्डारी आए। बापू ने उनसे कहा कि बा की सेवा के लिए जो आए थे, उनमें से कन्तु भले जाये, मगर थोड़े दिन बाद। उसे बाहर बहुत काम है। मनु यहां अभ्यास के लिए रहना चाहती है। बापू रखने को तैयार है—सरकार रहने दे तो। नहीं तो उन्हें अपने पास उसे रखने का कोई कारण नहीं है। प्रभा तो कंठी है। उनको या तो यहीं रहने दें, अगर यहां से ले ही जाना हो तो उन्हें बिहार वापस ले जावें। दूसरी जगह न ले जावें। भण्डारी ने इन बातों को ध्यान में रखने का वचन दिया।

देवदासभाई और भाई साढ़े छः बजे खाने को बैठ ही रहे थे कि रामदासभाई आ पहुँचे। उन्हें बहुत सदमा हुआ था। खूब रो लिये। फिर देवदासभाई उन्हें चिंता पर ले गए। उसके बाद वे स्नान करने गए। देवदासभाई और भाई खाने को बैठे। रामदासभाई को मनु ने खाना खिलाया। ७ बजे हम सब नीचे गए—महादेवभाई व बा को फूल चढ़ाए, फिर सवा आठ बजे प्रार्थना हुई। बा के शव वाले स्थान पर घी का दिया जलाया और धूप-अगरबत्ती सुलगाई। घंटे सुना है। बा का कमरा सुना है। हम् सबका मन सुना है। बा की मृत्यु आवर्षा भले ही हो, मगर करुण भी बहुत है। उनकी तीव्र इच्छा थी कि एक बार बाहर जाकर अपने लड़के-बच्चों के बीच बैठें, अगर ईश्वर को यह मंजूर न था।

बातों के दौरान में बापू से पूछा गया कि बंगाल के बुष्काल के बारे में उनका मत क्या है। बापू ने कहा, "मे मानता हूँ कि कांग्रेस बाहर होती तो यह होता ही नहीं, अर्थात्, कांग्रेस उसको निबटा लेती और इतने लोग नहीं मरते।" इसपर किसीने पूछा, "तो क्या इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस को किसी भी तरह बाहर न जाना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि क्या ऐसी हालत में अपने स्व-मान को लेकर जेल में बैठे रहना अनुचित नहीं है?" बापू ने उत्तर दिया, "अपना स्व-मान रखने के लिए जो जेल में जाता है, वह भूल है।"

प्रश्नकर्ता ने जल्दी से अपना प्रश्न सुधारा, "अपना स्व-मान नहीं, देश का स्व-मान।" बापू बोले, "जो देश के स्व-मान की खातिर प्राणों की बाजी नहीं लगाता, वह भूखों का सरदार है। बात यह है कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस बाहर रहकर भी कुछ नहीं कर सकती। उसके हाथ में सत्ता हो तभी कर सकती है और वह है नहीं।

इसीलिए कांपेस आज बाहर नहीं है।”

इसके बाद दूसरी बातें हुईं। पता चला है कि सरकार के गोपनीय आंकड़ों के अनुसार सन् '४२ की लड़ाई में हमारे ५०,००० आदमी उन्होंने मार डाले हैं। मगर ऐसी चीज वह प्रकट थोड़ा ही करने देने वाले हैं।

प्रार्थना के बाद बापू ने काता। कुछ तार आए थे। भाई वह पढ़कर सुनाते रहे। थोड़ा समय बातें चलीं। सोने को गए तो १२ बजे थे। मैं तो खाट पर साढ़े बारह बजे जाकर पड़ी, मगर नौबत कहाँ! दो बजे का घंटा सुनने के बाद सो सकी। सोचा था कि डायरी पूरी करने के बाद सोऊंगी, मगर सब सोने को चले गए थे। बा के कमरे के सिंघा और कहीं बत्ती नहीं जलाई जा सकती थी; क्योंकि सब जगह लोग सो रहे थे। बा के कमरे में इतना सुना लगता था कि वहाँ बँटना कठिन था, इसलिए जल्दी खाट पर जा पड़ी।

देववास्तभाई ने बापू के पंरों की मालिश की, भाई ने सिर की। रामवास्त-भाई संकोचवश नहीं गए थे—“कहीं ठीक न कर सकूँ तो!” यह बात उनके नम्र स्वभाव की सूचक थी।

: ६८ :

### वियोग-वेदना\*

२४ फरवरी '४४

सुबह प्रार्थना के लिए सब उठे। प्रार्थना मचूर थी। फिर कई लोग सोए। कनु, प्रभा और मनु—तीनों कातने बँठे। देववास्तभाई ने कहा था कि घूमने के समय उन्हें जकर जगा लिया जाय। एक बार उन्हें जगाया। वे फिर सो गए। पहले बिचार किया कि दुबारा न जगाया जाय, मगर फिर उनके आप्रह का बिचार करके और यह सोचकर कि वे यहाँ दो-तीन दिन ही हैं, कौन जाने बापू से फिर कब मिल पावेंगे, उन्हें फिर जगा दिया।

बापू सुबह घूमने जाने लगे तब सभी लोग उनके साथ हो लिये। बापू यह देखकर बोले, “आज तो मण्डल भरा है। जो बात बा के जीते-जी न हो सकी, वह उसके चले जाने के बाद अपने आप हो गई है।”

बा की समाधि के स्थान पर हम लोग गए। चिंता अभी तक धधक रही थी। बापू ने कहा कि राख रखनी हो तो अभी रख ली जाय, मगर देववास्तभाई ने कहा कि अभी तो पूरे २४ घंटे भी नहीं हुए हैं। धी कटेली और डा० गिल्डर भी फूल लाए।

\*यह विवरण २७ फरवरी को लिखा गया था।

कुछ सिपही भी फूल लाए थे। समाधि को सजाकर प्रार्थना की।

महादेवभाई की समाधि को फूलों से खूब सजाया और प्रार्थना पूरी की। बा की एक बात याद आ गई, बिल भर आयी। वे कहा करती थीं— “मुझे तो महादेव के पास आकर आखिरी नींद सोना है।” आज सचमुच ही वे महादेव के पास ही पड़ी हैं। उनकी याद के सामने मुझे शकुन्तला की याद भूल गई है।

साने के समय बापू को समवेदना के १५० तार पढ़कर सुनाये गए। चार बजे के करीब बा का सामान खोला गया और देवदासभाई की सहायता से यह निश्चित किया गया कि बा की कौन-सी चीज किसे देनी है। पिछले साल बा ने एक सफेद शाल मुझे दिया था। देवदासभाई ने वह मुझे फिर दे दिया। मेरा आप्रह यह था कि घर के आवमियों को देने से कुछ बचे तो मुझे दिया जाय। भाई के सूत की एक साड़ी बा के पास थी। वह देवदासभाई मुझे देने लगे। भाई ने वह लक्ष्मीभाभी को देने को कहा। मंने कहा, “मुझे साड़ी देनी ही हो तो राजकुमारी के सूत की कती हुई साड़ी, जो पिछले साल नये वर्ष के दिन मुझे बा देना चाहती थीं, वह दे दीजिए।” अन्त में देवदासभाई ने बा का बिस्तर खोलकर वह निकाली और मुझे दे दी। बा का नमबा बापू के लिए रखा गया।

रात को बापू ११ बजे तक बात करते रहे। बा के स्मरणों की बातें थीं। बा के श्राद्ध के बारे में बातें करते समय देवदासभाई कहने लगे, “गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से कोई लाभ नहीं होगा।” परन्तु बापू बोले, “बा की श्रद्धा और भक्ति के विचार से उसकी अस्थिया गंगा में ही जानी चाहिए।” बाब में प्रयाग ले जाना तय हुआ। बापू १२ बजे के बाब सोए।

रामदासभाई और देवदासभाई ने मिलकर बापू की मालिश की। दोपहर को रामदासभाई ने उनके पैरों की मालिश की थी। सुबह घूमते समय तय हुआ था कि हम लोग जबतक कनु, मङ्गू, प्रभा, देवदासभाई, रामदासभाई यहा हैं, तबतक उन्हें बापू की सेवा करने का मौका है, क्योंकि दोनों भाई कल चले जावेंगे। कनु वगैरह का भी कुछ ठीक नहीं है।

२५ फरवरी '४४

सुबह की प्रार्थना में देवदासभाई ने भजन गाया। बडा ही मधुर था। बेचारे रात को सो नहीं सके थे। बहुत खिन्न-चित्त हैं। अभी कह रहे थे, “जीवन का सब सौन्दर्य और माधुर्य धीरे-धीरे जा रहा है। पहले महादेवभाई गए और अब बा।”

भाई से बातें करते-करते कहने लगे, “क्या कह, तुम लोग अन्दर हो और हम बाहर हैं, मगर बा पर जो यहाँ बीती, वह मुझपर कितने अरसे से बीत रही है। ऐसा लगता है कि जीवन में से कुछ हमेशा के लिए चला गया है और पहले जैसे दिन अब वापस आने वाले नहीं हैं।”

भाई बोले, “हा, एक ही आश्वासन है कि थोड़े ही दिनों में हमें भी अनन्त

विभ्राम करने को मिलेगा। हमारे प्रियजन पहले से ही वहाँ हमारी राह देख रहे हैं। वहाँ जाकर फिर सब इकट्ठे होंगे।”

सुबह जब हम लोग घूमने गए तो मनु और प्रभावती ने बा के शव की राख शीशियों में भर ली। कल शाम को भी भरी थी। चिता पर बा के शव के साथ पांच कांच की चूड़ियाँ भी डाली गई थीं। प्रभावतीबहन और रघुनाथ को पाँचों चूड़ियाँ मिल गईं। इतनी प्रचंड ज्वाला में भी वे न तो पिघलीं और न टूटीं। ब्राह्मण कह रहा था कि यह शुभ शकुन है, अक्षय्य सौभाग्य का चिह्न है।

ब्राह्मण एक बजे आया। देवदासभाई से पूजा कराई। चिता अभी तक बड़ी गरम थी, इसलिए अस्थियाँ चुनने से पहले पानी डालना पड़ा। अस्थियाँ चुनी जाने के बाद राख इकट्ठी की गई। बापू पहले तो खड़े रहे, पर बाद में नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। हरिलालभाई भी आ पहुँचे।

साढ़े बस बजे ब्राह्मण ने बापू से कहा कि पौन घंटे बाद उनकी जरूरत पड़ेगी। इसपर बापू मालिश आदि पूरी करवाकर ११।। बजे फिर नीचे गए और आवश्यक पूजा वगैरह पूरी की। इसके बाद उन्होंने ऊपर आकर खाना खाया।

चिता पर से आकर देवदासभाई और रामदासभाई ने स्नान किया। एक बजे देवदासभाई, रामदासभाई, हरिलालभाई तथा भाई एक साथ भोजन करने बैठे। बापू हरिलालभाई को खाने के समय देखने आए। हरिलालभाई के दांत तो हँ नहीं, इसलिए डबल-रोटी, कोको और सब्जी ले रहे थे। खाते-खाते कहने लगे, “यह सब मुझे दक्षिण अफ्रीका की याद दिलाता है।”

मैं सोच रही थी कि अपने बेटों को एक साथ बैठे देखकर उन्हें खिलाने हुए बा कितनी खुश होतीं। देवदासभाई कहने लगे कि बा होतीं तो वे भी बापू की तरह हरिलालभाई को देखने आतीं।

बापू ने हरिलालभाई से बातें कीं।

बा की चीजों को अपने यहाँ रखने के लिए किसी संग्रहालय ने बापू से प्रार्थना की थी। बापू को यह नापसन्द है। कहते हैं, “यह तो मूर्ति-पूजा हुई। जो बा को पहचानते हैं, जिन्होंने बा की सेवा और भक्ति की है, वे भले ही बा की चीजें अपने पास रखें। मनुष्य का डोरा पहनती हँ तो उसे लगेगा कि यह डोरा पहनकर कोई भी बुरा काम कैसे किया जा सकता है। मैं इस तरह की योजना पसन्द करता हूँ, लेकिन संग्रहालय में कोई चीज रखना मुझे पसन्द नहीं है।”

प्रार्थना के बाद तीनों भाई सामान संभालकर चलने लगे। देवदासभाई ने जो साड़ी लक्ष्मीबहन के लिए निकाली थी, वह मुझे मेरे आग्रह पर दे दी। अब लक्ष्मीबहन को वह साड़ी मिलेगी, जिसे भाई ने बा के लिए बनाया था। मुझे यह बात अच्छी लगी। गर्म के दिनों में बा की साड़ी पहनूंगी और ठण्डक के दिनों में उनका बियर हुआ शाल ओढ़ूंगी।



रात को पीने बस बजे तीनों भाइयों को बिदा किया। देवदासभाई जब बा का बिस्तरा बांध रहे थे तब बापू उधर से गुजरे और बोले, “देखो, बिस्तरा बैसे ही बांधना जैसे बा बांधती थी।” बा सचमुच ही अपना बिस्तरा बड़ी सुघड़ता से बांधती थी।

२६ फरवरी '४४

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है। मगर अब उनके पास बा भी पहुंच गई हैं।

बा की मृत्यु के धक्के से बापू अभी सम्भल नहीं पाए हैं। बासठ वर्ष का साथ—बिलायत के तीन वर्ष और जेल-यात्राओं आदि के कुछ और समय के अलावा वे कभी बा से अलग नहीं रहे। बचपन में भी वे साथ खेला करते थे। शादी से भी पहले यानी बासठ वर्ष से पांच-सात वर्ष पहले से वे दोनों साथ में खेला करते थे। ऐसे साथी का चला जाना साधारण घटना नहीं है।

देश को बा के जाने का भारी धक्का पहुंचा है। संकड़ों तारों के अलावा मालबोजी का भी तार देवदासभाई के नाम आया है कि बा के फूल लेकर त्रिवेणी आओ। देवदासभाई तो पहले से ही तैयार बंटे हैं।

बा की राख का बोरा एक मोटर में रखकर देवदासभाई अन्य लोगों के साथ गए। हरिलालभाई न थे, इससे बापू को दुःख हुआ।

सुबह ८ बजे बापू धूमने निकले। उनके और मनु के अलावा सबने स्नान कर लिया था। ८।।। बजे बा और महादेवभाई के 'मंदिर' पर फूल चढ़ाने गये। बापू ने बा की समाधि पर गुलाब का फूल चढ़ाया। मीराबहन ने इस फूल को बीच में रख कर चारों ओर फूल सजाए। सबने अपनी-अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। डा० गिल्डर और कटेली अभी रोज आते हैं, थोड़े फूल भी लाते हैं। सजावट होने पर बारहवें अध्याय का हमेशा की तरह पाठ होता है। कनु और प्रभावहन ने बापू की मालिश की। प्रभावहन ने स्नान कराया और कनु ने उनके कपड़े धोए। मनु ने खाना दिया।

आज शाम को बापू कहने लगे, “मेरा मन बा को छोड़कर और किसी चीज का विचार ही नहीं करता। आज 'डॉन' में एक लेख पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा कि वेवल कौन है— वाइसराय है या कोई !” मैक्सवेल के व्याख्यान को लेकर जो पत्र बापू ने लिखा था, उन्होंने उसे खाने के समय सुधारा और कनु ने उसे टाइप किया।

मंने बापू से कहा, “बापू, बा के जाने का असर आपपर महादेवभाई के जाने से भी अधिक हुआ है।” बापू बोले, “हां, हो सकता है। महादेव तो क्षणभर में चला गया, मगर बा ने हफ्तों तक कठिन खेवना सही। मुझे वे दिन भूलते ही नहीं हैं।” बापू दो बजे बाव सोए और तीन बजे उठे। तब बा की मृत्यु पर आये हुए गवर्नर के पत्र का उत्तर लिखा। मिट्टी की पट्टी पेट पर रखकर सो गए। उनका रक्तचाप इस समय आदर्श है। सुबह १७०।९८ तथा शाम को १५६।९६ रहा। मगर थकान बेहद है।

जिस मेज पर बा सिर रखकर सोती-बैठती थीं, वह बापू के आदेश से उनके पास लाई गई। इसपर अब उनका नास्ता रखा जाएगा! कहते हैं, “मेरे लिए यह मेज बड़ी ही कीमती हो गई है। इसपर सिर रखे बा का चित्र मेरे सामने हमेशा रहता है। एक ओर मुझे इस बात से संतोष है कि बा मेरे हाथों-ही-हाथों गई और दूसरी ओर ६२ वर्ष से भी अधिक समय की सायिन को लेकर मैं विमूढ़-सा हो गया हूँ।” शाम को घूमते हुए भी बा की बातें होती रहीं।

अन्त समय की बात करते हुए बापू बोले, “बा का इस तरह अन्तिम समय मुझे बलुलाना और मेरी गोब में जाना यह एक अद्भुत बात है।”

मैंने उत्तर दिया, “बापू, इससे साफ जाहिर होता है कि ऊपर से बा चाहे जितनी भी आपसे नाराज रही हों, अन्दर से आपमें उनकी बड़ी श्रद्धा और अटूट प्रेम था। मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि जहां पत्नी इस तरह से पति की गोब में सोई हो।”

बापू बोले, “वह तो है ही, मैंने स्वयं ऐसा उदाहरण कहीं नहीं पाया। हम लोगों में तो ऐसा पति-पत्नी-सम्बन्ध सामान्यतः रहता ही नहीं है।”

मेरे साथ पढ़ने की बात करते हुए बापू बोले, “पढ़ना तो शुरू करना ही है।” मैंने कहा, “बापूजी, थकान दूर हो जाने दीजिए। इसमें एक या दो हफ्ते भले चले जाए।” बापू कहने लगे, “हां, थकान तो मुझे बहुत है। बस अभी मुलतवी रखेंगे।”

शाम को ७। बजे घूमने निकले। फूल चढ़ाकर ८ बजे लौटे। ८। बजे प्रार्थना की। बापू बाद में अखबार पढ़ते रहे।

२७ फरवरी '४४

प्रार्थना के बाद थोड़ा सोए। ७ बजे उठे और अनार के दानों का रस पिया। ७।।। बज गये। मुझे घूमने जाने को देर हो गई। प्रभावहन और मनु के यहां रह सकने के प्रश्न पर आज बापू ने भण्डारी साहब को गुसलखाने में ही बुलवाकर पूछा। भण्डारी ने उत्तर दिया कि वे बम्बई से कुछ जवाब भेजेंगे। बापू ने कहा कि क्या सरकार को इस बारे में पत्र लिखा जाए? भण्डारी बोले कि हां, इससे उन्हें काम बनाने में बड़ी मदद मिलेगी।

एक बजे बापू ने खाना खाया। मनु ने पैंरो की मालिश की। मंगलवार को बा की मृत्यु को आठ दिन हो जावेंगे। मनु के कहने से हम लोगों ने उस रोज अखंड खर्चा चलाने का काम बनाया। बापू सुबह ७-३० से ८-३० तक कातेंगे। अखंड खर्चा शुरू करेंगे और बुधवार को शाम के ६-३५ से ७-३५ तक कातेंगे।

बापू की थकान अभी चल रही है। बा का स्मरण उन्हें उसी तरह व्यथित करता रहता है। आज फिर कह रहे थे, “बा की मृत्यु भव्य थी। मुझे उसका बहुत हर्ष है। जो दुःख है वह तो अपने स्वार्थ के लिए। ६२ वर्ष के साथ के बाद उसका साथ छूटना चुभता है। कितनी ही कोशिश करूं, अभी मैं उन स्मरणों को

भन से निकाल नहीं सकता ।” बापू की पानी की बोतल को गोले कपड़े में लपेटने की जरूरत थी, बापू ने अपना पुराना मिट्टी बांधने वाला पट्टा फाड़कर इस्तेमाल करने को कहा । बोले, “यह बहुत बार बा के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए इसकी मेरे पास बहुत कीमत है ।”

घूमने के बाद प्रार्थना हुई । पीछे प्रभावतीबहन और मनु के यहां ठहर सकने के विषय में बापू ने सरकार को पत्र लिखा । भाई ने उसे टाइप किया ।

२८ फरवरी '४४

बापू रात को दो बजे तक जागते रहे । बाद में पता नहीं, वे कब सोए । उनका आज मौन है । सुबह नाश्ते के बाद भण्डारी को लिखे गए कल वाले पत्र को उन्होंने फाड़ डाला और दूसरे पत्र में लिखा कि दोनों लड़कियों को यहां रखने के विषय में सरकार से दरखास्त करना अनुचित है । इसी विचार के कारण वे सो नहीं सके । अपनी दर-खास्त वापिस चाहते थे । मनु को बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसे स बात से आघात पहुंचा ।

मंने और डा० गिल्डर ने मालिश से पहले बापू के फेफड़ों तथा अन्य अंगों की परीक्षा की । सब कुछ ठीक है । खून का दबाव १७४/१०० है ।

आज मंने कृष्णा हठोत्सव की लिखी किताब 'विब नो रिप्रेट्स'\* पढ़ डाली । बहुत अच्छी है ।

शाम को जाकर देखा कि बा की समाधि भी महादेवभाई की बगल में तैयार हो गई है । कनु ने अलड चर्च का कार्यक्रम तैयार किया ।

: ६६ :

## सत्याग्रह और सत्ता

२९ फरवरी '४४

बा को गए आज एक सप्ताह हो गया । बा के बिना सप्ताह छाना हुआ है । करीब डेढ़ साल पहले ८ अगस्त १९४२ की शाम को किन आशाओं को लेकर मैं बम्बई पहुंची थी । भय था तो यही कि पहुंचने से पहले सब लोग कहीं पकड़ न लिये जाएं । अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल में बापू, भाई और महादेवभाई से मिलकर कितना हर्ष हुआ था ! ९ अगस्त को बापू अंगरह पकड़े गए और बाद में बा, मैं और भाई की बारी आई; लेकिन हृषय में उल्लास था । उमंग थी । हंसते-हंसते सुली पर चढ़ जाने की

\*इसका अनुवाद 'कोई शिकायत नहीं' के नाम से प्रकाशित हुआ है ।

तंगारी थी। आज इस डेढ़ साल की ठोकरें खा-खाकर वह उमंग, वह आशा और उत्साह सब जाक हो चुके हैं।

पुण्यवान् लोग एक-एक करके जा रहे हैं। जो लोग यहां कुछ कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता बाहर भी है; किन्तु जो यहां पर फालतू है, उन्हें ईश्वर भी ठुकराता है।

सुबह मैंने अल्लवार में देवदासभाई का बा-सम्बन्धी लेख पढ़ा तो अपने को रोक न सकी और आंसू बहने लगे।

आज अल्लव चर्खा-कटाई शुरू हुई। पहले बापू ने एक घंटा काता, फिर मोराबहन ने आधा घंटा, मनु ने दो घंटे, प्रभावतीबहन ने दो घण्टे, भाई ने तीन घंटे और मैंने दो घंटे काता। पीछे ४ बजे से ८ बजे रात तक कानु ने काता। बापू ने शाम को ६-३५ से लेकर ७-३५ तक काता; क्योंकि वे जल्दी घूम लिये थे।

जयप्रकाश और प्रभावतीबहन की चर्चा करते हुए बापू ने कहा, "ऐसा उदाहरण जगत में मिलना कठिन है। इन दोनों ने विषय-सुख कभी भोगा ही नहीं। यह बात नहीं कि मैंने प्रभा को मना किया था। मैंने तो उसे समझा दिया था कि अगर कभी जरा-सी भी इच्छा हो जाय तो उसे दबाना नहीं। जयप्रकाश भी समझ गया। इसीलिए उसने कभी प्रभा पर दबाव करने का विचार तक नहीं किया। इन दोनों का प्रेम तो पराकाष्ठा पर है और इनके जीवन का एक-एक अणु देश के ही अर्पण है। यह छोटी चीज नहीं है।"

मैंने पूछा, "स्वतन्त्रता देवी के आगे तो महान् बलिदान चढ़ते जा रहे हैं। मगर देवी प्रसन्न कब होगी?"

बापू बोले, "प्रसन्न तो हो रही है।"


मैंने पूछा, "प्रसन्न होकर अपना साक्षात्कार कब करावेंगी? मैं उस दिन की बात कर रही हूँ, जब हिन्दुस्तान पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेगा।"

बापू ने उत्तर दिया, "सच्चे अर्थों में पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो कौन कह सकता है।"

मैंने कहा, "‘पूर्ण स्वतंत्रता’ शब्द का अत्यन्त व्यापक अर्थ मैंने नहीं लिया। इसका आशय तो इतना ही है कि विदेशी सत्ता हटे और लोग अनुभव करें कि अब उनका अपना राज्य है।"

बापू कहने लगे "वह तो है। वह आवेगी ही।... मगर मैंने तो कहा है न कि सत्याग्रह हमें अपने ध्येय की ओर ले जा सकता है, परन्तु सत्याग्रहियों के हाथ में सत्ता न आवे तो भी वे सत्ताधारियों पर अंकुश रख सकेंगे।"

मैं बोली, "आपने गए वर्ष भी यही बात कही थी, लेकिन स्पष्ट शब्दों में लिखा नहीं है। कांग्रेस-मिनिस्ट्री को पुलिस का उपयोग जब करना पड़ा था तब आपने कहा था कि अगर राजकाज इतनी भी हिंसा के बगैर नहीं चल सकता तो सत्याग्रही सत्ताधारी नहीं बनेंगे, बल्कि उन पर अंकुश रखकर संतुष्ट रहेंगे।"



महादेवभाई और बा की समाधियाँ

"मुझे तो महादेव के पास जाकर आखिरी नींद मानी है ।" पृष्ठ ६०३

बापू कहने लगे, “हाँ, मैंने लिखा है, मगर कलम बदा-बदाकर, ताकि हमारे लोगों को कुछ न हो। कहीं वे यह सोचकर निराश न हों कि अब तो हमें सत्ता मिल ही नहीं सकती। मेरे मन में यहाँ आकर एक विचार और पक्का होता जा रहा है कि हो सकता है कि सत्ता सत्याग्रह की मर्यादा से बाहर की चीज हो।”

बापू की बात पूरी हुई। हम फूल खढ़ाने गए और प्रार्थना की। मन भारी था। किसी भी चीज के लिए उत्साह नहीं है। पता नहीं कहा से आए, कहा आए और कहाँ जा रहे हैं।

१ मार्च '४४

मैंने १० से ११॥ बजे तक काता, १० मिनट में खाना खाया, कपड़े धोए और चर्खे पर बँठी। ३-२० पर मैंने कातना बंद कर दिया। चार बजे तक मीराबहन कातने आने वाली थीं, पर वह सो गई और बेर से उठीं।

बापू के पत्र का उत्तर वेबल ने भेजा। बा की मृत्यु पर उन्होंने सहानुभूति प्रकट की है। बा की बातों का उत्तर उनके भाषण में आ गया था, यह कहकर भाषण की नकल भी पत्र के साथ ही भेजी है। मैं जब खेलने गई तभी बापू ने घूम लिया और ७-३५ पर उनका कातने का समय पूरा हुआ। फिर प्रार्थना की। प्रार्थना में मनु और प्रभावहन रोने लगीं। प्रभावहन तो अचानक उठकर चली गईं। प्रार्थना के बाद मीराबहन ने आकर बताया कि प्रभावहन को हिस्टीरिया का दौरा हो गया था, प्याज बर्गरह सुघाने से ठीक हो गया। उनको ऐसा दौरा कभी-कभी हो जाता है।

रात को दो बजे के लगभग प्रभावहन के रोने की आवाज आई। मैं देखने गई तो बापू ने कहा कि नींद में रो रही है। तुम सो जाओ।

२ मार्च '४४

सुबह पाच बजे सब लोग उठे और गीता पारायण किया गया।

बा की मृत्यु के बाद आज दसवें दिन मैंने और कनु ने २४ घंटे का उपवास किया। मनु ने आठवें दिन फलाहार किया था, इसलिए आज उपवास नहीं किया।

आज से बापू ने मनु को अपने सामने बिठाकर खाना खिलाना शुरू किया है। वह बहुत जल्दी खाती है। मैंने और प्रभावहन ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसकी यह आदत न छुड़ा पाए। अब बापू ने ही यह काम सभाला है।

बापू शाम को कहने लगे, “बा का जाना एक कल्पना-सा लगता है। मैं उसके लिए तैयार था, मगर जब वह सचमुच ही चली गई तो मुझे कल्पना से अधिक एक नई बात लगी। मैं अब सोचता हूँ कि बा के बिना मैं अपने जीवन को ठीक-ठीक बँटा ही नहीं सकता हूँ। इसी तरह इन लड़कियों (मनु और प्रभा) के जाने की बात है। मुझे लगता है कि सरकार इन्हें ले जाएगी। मैं नहीं कह सकता कि इसका मुझ-

पर क्या असर होगा। तुम सभी एक-एक करके चले जाओ तो हो सकता है कि मैं अकेला ही रह जाऊँ। हाँ, वह ब्याजेंनक स्थिति होगी।”

शाम के वक़्त प्रभावहन को एक नोटिस मिला है कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी ?

: ७० :

### फिर अपने-अपने कर्त्तव्य पर

४ मार्च '४४

कल के अखबारों में एक लेख बटलर द्वारा कामन्स-सभा में बा के सम्बन्ध में बिये गए भाषण के आधार पर निकला है। उस लेख को पढ़कर बापू विचार में पड़ गए हैं। सुबह चार ही बजे उठ बैठे और प्रार्थना आदि के बाद भाई को जल्दी से पत्र लिखवाया। पत्र मुझे दिया गया और मैंने उसमें सुधार किये, इसी प्रकार सब के सुधार लिये गए।

एक पत्र बापू ने और लिखवाया। बापू के खर्च के विषय में गृह मंत्री ने असेम्बली में जो भाषण दिया था, उसीके सम्बन्ध में यह पत्र था। बाद में बापू ने इस पत्र में और सुधार किये।

२-१० पर दोनो पत्र लिखवाकर भेजे गए।

शाम को बापू ने उस नोटिस का उत्तर लिखवाया, जो प्रभावहन को दिया गया था। मैंने उसका अपेजी अनुवाद करके साफ नकल तैयार की।

शाम को बापू घूमते समय कनु से बात कर रहे थे कि बा के स्मारक के लिए पैसा इकट्ठा करना है। बापू की अगली जयती पर ७५ लाख रुपया इकट्ठा करने की बात पहले से ही चल रही थी। कनु बापू से इस विषय पर पूछ रहा था। बापू ने कहा, “दोनो फण्ड साथ मिला दो। बा मुझ में समा गई थी। कौन है ऐसी स्त्री, जो इस तरह अपने पति को गोद में प्राण दे ? अंतिम समय में उसने मुझे बुलाया। तब मैं नहीं जानता था कि वह जा रही है। और मैं घूमने नहीं चला गया था, वह भी ईश्वर का ही काम था। पेनिसिलीन के कारण ही मैं रुका। मृत्यु-शय्या पर पड़ी हुई को इन्जेक्शन क्या देना था ? अगर जब बा के पास बंठा तो समझ गया कि बा अब जाती है। बा के नाम से विश्वविद्यालय खोलना मैं एक निकम्मी बात समझता हूँ। उसे विश्वविद्यालय में रस कहाँ था ? चर्खा इत्यादि में तो वह रस लेती थी। यह फण्ड हम दोनों के निमित्त इकट्ठा हो तो लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा। बा का हिस्सा मेरी जयन्ती में हमेशा रहा है। इस फण्ड का उपयोग चर्खा और ग्रामोद्योग के लिए होगा। नारायणदास को उसके कारभार में पूरी मेहनत और जिम्मेदारी लेनी होगी।”

पीछे दूसरी घरेलू बातें उससे करते रहे। इतने में फूल चढ़ाने का समय हुआ। वहाँ से आकर प्रार्थना की।

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है। प्रार्थना-स्थान पर पहले से अधिक गाम्भीर्य और शांति होती है। बा, महादेवभाई और साकुन्तला, यह त्रिमूर्ति अब प्रार्थना के समय मेरी आंखों के सामने रहती है। तीनों के चेहरे प्रफुल्लित देखने में आते हैं।

५ मार्च '४४

बापू सुबह तीन बजे उठ गए। फिर नहीं सो सके। चार बजे प्रार्थना के लिए सब उठे। कनु और भाई रात को बेर से सोए थे। बापू को उन्हे उठाना ठीक नहीं लगता था, मगर कनु का आज यहाँ आखिरी दिन है, सो उसे उठाया। प्रार्थना के बाद बापू सो गए। कनु कुछ लिख रहा था। बापू से उसे कुछ और बातें पूछनी थीं।

बापू सुबह वेबल को पत्र लिखने के बारे में विचार कर रहे थे। सुबह लिखवाने का विचार किया, मगर फिर प्रभावहन के उत्तर का अनुवाद देखने लगे। बोले, "अगर प्रभा को जाना पड़े तो उससे पहले यह जवाब यहाँ से भेज सके तो अच्छा है। सो यह काम पहले करना चाहिए।"

घूमने के बाद भालिश के समय वेबल को जाने वाला पत्र मुझे लिखवाने लगे। कटि-स्नान लेने के समय भी लिखवाया। स्नान-घर से निकलकर फिर थोड़ा लिखवाया। दोपहर में सोने के बाद फिर लिखवाने लगे। शाम को साढ़े छः बजे पत्र पूरा हुआ। कनु साथ-ही-साथ टाइप करता जाता था। यह कच्ची नकल है। नौ बड़े-बड़े फुल्स्केप कागज तैयार हुए। बापू की धारणा से पत्र ज्यादा लम्बा हो गया है।

शाम को घूमने के समय बापू ने कनु से थोड़ी बातें कीं। प्रार्थना के बाद तो उसे जल्दी जाना ही था। सामान उसने तैयार रखा था। बापू मौन लेने लगे तो कनु कहने लगा, "मुझे भेजकर ही अब मौन लीजिए।" उसे जाना अच्छा नहीं लगता था। वह आप्रह करता तो शायद बापू उसे रखते भी, मगर बाहर वह काफी काम कर सकता है। इस दृष्टि से उसे आप्रह करना अच्छा नहीं लगा।

साढ़े नौ बजे कनु को हम सब नीचे छोड़ने गये। मनु बही और शक्कर उसके लिए ले गई थी। सबको प्रणाम करके उसने वह खाया, फिर दो बार बापू को प्रणाम करके चलने लगा। मैंने कहा, "कनु भाई, अब तो बाहर ही आकर मिलेंगे।" डा० गिल्डर बोले, "हा भाई, अब इस तरह न आना।" भाई कहने लगे, "नहीं, हमें लेने के लिए आना।" कटेली हंसने लगे, "आप लोग जाओगे तब खबर किसको होने वाली है। दूसरे दिन अखबार में ही लोग देखेंगे कि बापू छूट गए।" मगर कनु किसी-को उत्तर देने की स्थिति में न था। वह रो रहा था। दरवाजे के पास पहुँचा तब तो सिसकियां लेने लगा। मैंने उसकी पीठ ठोंकी, "कनुभाई, तुम ऐसा करते हो?" मगर मन में मुझे लग रहा था कि उसकी स्थिति में मेरी भी वही हालत होती।



कनु को बिबा करके वापस आए। घर में सन्नाटा छा रहा था। भाई तुरंत सोने को चले गए। हम लोग— प्रभावहन, मनु और मैं— इस बजे बापू के पैरों की मालिश करके फारिग हुए और सोने की तैयारी की।

ग्यारह बजे के बाद जाकर देखा तो भाई अभी तक खाट पर पड़े जाग रहे थे। करीब एक बजे तक उनका सिर दबाती रही, फिर आकर अपनी खाट पर लेटी। वो बजे नींद आई होगी। तीन बजे बिल्ली ने जगा दिया। उसने यहाँ पर छः मुन्बर बच्चे दिये थे। एक सिपाही ने वे बच्चे किसी नर्स को दे दिये। बेचारी माँ अब रातभर अपने बच्चों को हूँदती हैं और रोती फिरती हैं। उठकर बिल्ली को निकाला, फिर सोने को लेटी। नींद बहुत कम आई। विचारों में पड़ी रही।

बापू का आज मौन है। मौन का दिन तो इतनी जल्दी आ जाता है कि क्या कहना।

सुबह की प्रार्थना में कनुभाई की कमी महसूस होती थी। इस कमी को दूर करने के लिए सवा सात बजे की प्रार्थना में खूब जोर-जोर से श्लोक बोलना शुरू किया।

६ मार्च '४४

प्रार्थना के बाद रोज का कार्यक्रम चला। नाश्ता वर्गरह करके सवा आठ बजे बापू घूमने निकले। सड़क पर किसीकी मधुर बसों बजाने की ध्वनि सुनाई दे रही थी।

फूल चढ़ाकर वापस लौटे। प्रभावतीबहन की जगह मनु ने और कनु की जगह डा० गिल्डर ने बापू की मालिश की। डा० गिल्डर इतने दिन बापू की सेवा न कर सकने के कारण बेचैन-से हो गये थे। वे बहुत प्रेम से मालिश करते हैं।

डा० गिल्डर और कटेली सबरे घमते समय समाधि के लिए प्रेम से फूल चुनते हैं, सबके साथ मिलकर समाधि सजाते हैं और प्रार्थना में हिस्सा लेते हैं।

स्नानादि के बाद बापू ने सेवल वाला पत्र और हम लोगों के बारीबारी से मुझाब मांगे। सबके मुझाबों को देखकर कल सुबह बापू पत्रों को फिर पढ़ेंगे।

मनु को शाम के समय सर्दी लगकर बुखार आ गया। दो-तीन घंटे रहा। खाने-पीने में वह बड़ी लापरवाही करती है, इसीलिए कभी जुकाम से पीड़ित रहती है तो कभी बुखार से।

आज भंडारी की राह देखी, मगर वे नहीं आये। प्रभावहन और मनु को इसी बात की चिंता रहती है कि न जाने कब उन्हे बाहर निकलना पड़े। मुझे नहीं लगता कि अब किसीको भी जाना पड़ेगा, मगर निश्चित रूप से तो क्या कहा जा सकता है।

जैसे-जैसे दिन जा रहे हैं, बा के बगैर घर ज्यादा-से-ज्यादा सुना लगता जा रहा है। उनकी बीमारी में चौबीस घंटे की वीड-थूप रहती थी। अब तो कुछ काम ही नहीं। बहुत बुरा लगता है।

बापू ने हम सबसे बा की मृत्यु के बाद तुरंत अपने-अपने संस्मरण लिखने की

कहा था। वे स्वयं भी लिखने का विचार करते हैं। मैंने सम्मरण लिखन शुरू कर दिये हैं।

आज से मैंने प्रभावतीबहन के साथ आई हुई 'स्नेहयज्ञ' नामक किताब पढ़नी शुरू की है।

७ मार्च '४४

बा को गए आज दो हफ्ते पूरे हो गए, मगर कल की जैसी ही बात लगती है। इसी तरह एक के पीछे एक प्रियजन बिवा होते जाएंगे।

सुबह सवा पांच बजे प्रार्थना के लिए उठे। बाब में बापू वेवल वाला पत्र सुधारते रहे। स्नानघर से निकलकर खाते समय, पीछे दोपहर सोने के बाद पांच बजे तक बहो क्रम चला। इतने परिवर्तन हुए कि भाई को उसकी कच्ची टाइप नकल फिर तैयार करनी पड़ी। अभी वह फिर पढ़ा जाएगा।

सुबह और शाम बापू पंद्रह मिनट जल्दी घूमने निकले। शाम की प्रार्थना १५ मिनट देर से हुई—सवा आठ की जगह साढ़े आठ बजे। भण्डारी आज भी नहीं आए।

८ मार्च '४४

सबेरे सवा पांच बजे प्रार्थना के लिए उठे। प्रार्थना के बाद फिर सब सो गए। ६॥ बजे उठे। मनु सोती रही। उसे रात में ९९ डिगरी बुखार रहा।

बापू ने वेवल वाले अपने जवाबी पत्र में फिर इतने सुधार किये हैं कि मीराबहन को बँठकर लिखवाना पड़ा। भाई ने भी दिन का अधिकांश समय उसे टाइप करने में लगाया, खा-पीकर सात बजे फिर बँठे और रात को एक बजे तक पत्र का कार्य करते रहे। मीराबहन एक बजे उठकर चली गईं तब भाई ने अकेले ही काम करने का निश्चय किया, पर पहली ही लाइन में भूल हुई। टाइप किया हुआ पैराग्राफ फिर से टाइप करने लगे। मुझे कहने लगे कि जो कुछ हुआ, वह मैं किसीसे न बताऊँ। मगर बापू स्वयं थोड़ी देर बाद वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने जब पूछा कि कितना टाइप हुआ तो भाई को सब बताना पड़ा।

सुबह मैंने बापू से पूछा कि वेवल को जाने वाले जवाबी पत्र का क्या अच्छा परिणाम निकलने वाला है? वे बोले, "मैं कोई आशा बांधकर नहीं बँठा। उसके भाषण में एक-दो वाक्य ऐसे मिले कि उनके आधार पर मुझे लिखने जैसा लगा, सो लिख डाला है। जो होना होगा सो होगा।"

मैंने प्रभावतीबहन को लाई हुई किताब 'स्नेहयज्ञ' लगभग समाप्त कर ली है।

९ मार्च '४४

कल ११-१५ पर 'स्नेहयज्ञ' को पूरा कर लिया। इतने में बापू भी उठे। बिल्ली ने बिल्लाना शुरू किया। मैंने उसे भगाया। भाई कल वाला पत्र टाइप करने में

लगे हैं। मंने भी हाथ बटाया। मीराबहन ने फिर भाई का साथ बिया और एक बज बिन में पत्र तैयार हुआ। बापू उसे पढ़ते-पढ़ते सो गए और डाई बजे उठे, तब पढ़ना पूरा किया। पत्र सवा तीन बजे रवाना हुआ।

भाई और मीराबहन ने दो बजे खाना खाया।

दोपहर को मंने 'गुड अर्थ' पढ़ना शुरू किया। बापू भी उसे पढ़ते हैं, इसलिए अधिक बेर तक उसे नहीं पढ़ पाती। भाई भी उसे पढ़ने लगे हैं।

भण्डारी कह गए हैं कि मनु और प्रभावहन के यहाँ से जाने के सम्बन्ध में बम्बई सरकार ने विल्ली को लिखा है। बापू को लगता है कि अब इन दोनों के जाने का हुकम आने वाला है।

१० मार्च '४४

सुबह सवा पांच बजे प्रार्थना के लिए उठे। फिर आधा घटा सोए। भाई नहीं सोए। ६॥ बजे उठकर सुबह का काम और बापू का काम—गादी बिछाना, रस निकालना, दूध छानना, चाय तैयार करना वगैरह काम किये। स्नान करके निकली तो आठ बजे थे। घूमते समय बापू पुरानी बातें करने लगे। आजकल मनु बापू की आत्मकथा पढ़ रही है। अफ्रीका में बापू के अपमानो का वर्णन पढ़कर कहने लगी, "अरे, बापू ने कितने अपमान सहे! मेरे जैसा व्यक्ति तो रो-रोकर ही मर जाता।" मंने कहा, "रोने से और ज्यादा अपमान होता।"

फिर यह चर्चा होने लगी कि कुछ वर्ष पहले जब बापू आए तो भारत के लोग अप्रेजों के सामने कितना झुककर रहते थे। मंने स्वयं फीरोजशाह मेहता की जीवनी में पढा है कि वे इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हुए भी अप्रेजो के प्रति मधुर और खुशामद-भरी बातों से काम लेते थे। बापू बोले, "यह ठीक है। मेरी भाषा में वही चीज थी, जो लोयो के अपने मन में थी, मगर लोग यह बात कह नहीं पाते थे। इसीलिए तो लोग मेरे पीछे पागल हुए। फिर मैं लोगो की ही भाषा में बोलता था, जिससे वे मेरी बात समझ सके। अप्रेजो कभी नहीं बोलता था। उस समय का रिवाज था कि ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, जिसे जनता समझ ही न पाए। मंने इससे उल्टा शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि बिहार में मैं अबालत में हाजिर हो ही रहा था कि जनता ने दरवाजे तोड़ डाले। सारा बिहार मेरे पीछे पागल हो गया।"

मंने कहा, "कितने ही लोग टीका करते हैं कि गांधी और नेहरू आज जो हैं, उसका कारण अप्रेजों द्वारा उनका अपमान करना है। अप्रेज लोग भी यही कहते हैं कि इन लोगो में हमने ऊँच-नीच का भाव पैदा किया, इसीलिए ये आज हमें तकलीफ दे रहे हैं।"

बापू बोले, "बात सचची है। दक्षिण अफ्रीका में मेरा अपमान न होता तो मेरा जीवन दूसरा ही होने वाला था। अपमान वहाँ से शुरू हुआ। उसीके परिणामस्वरूप मंने काठियावाड छोडा। फीरोजशाह का यह कहना कि 'ऐसे अपमान तो अनेक सहने पड़ेंगे',

जुझपर बड़ा असरकारी हुआ। मगर इस बात को ऊँच-नीच का भाव नहीं कह सकते।”

मैं कहने लगी, “बहुतसे लोग कहते हैं कि रूस के गत बीस वर्षों का और हिन्दुस्तान का इतिहास देखो तो पता चलेगा कि कितना फेर है।”

बापू ने उत्तर दिया, “यह बात भी ठीक है, मगर उन लोगों ने हिंसा के आधार पर ही सब कुछ किया है। हमारी अहिंसा की शक्ति ऐसी है कि उसका माप ही नहीं हो सकता। उन लोगों की हिंसा के द्वारा पाई हुई चीज कितने दिन टिक सकेगी, यह कौन जानता है।”

मैंने कहा, “मेरे विचार से हिन्दुस्तान के आज के इतिहास की तुलना रूस के पिछले बीस वर्ष के इतिहास से नहीं करनी चाहिए, बल्कि आने वाले सौ वर्षों के इतिहास से करनी होगी। ये हमारी तैयारी के दिन हैं—जाप्रति लाने के दिन। अहिंसा के द्वारा जनता में जाप्रति ज्योदा जल्दी आई है। इतना तो सब लोग मानते हैं कि गांधीजी ने देश में जाप्रति तो पैदा कर दी है, मगर आगे क्या? मेरा उत्तर है कि जाप्रति जल्दी आ सकी है; क्योंकि अहिंसा को हिंसा की तरह छिपकर काम नहीं करना पड़ा। स्वतंत्रता भी इस रास्ते से हिंसा के रास्ते की अपेक्षा जल्दी आने वाली है।”

बापू कहने लगे, “मुख्य बात अहिंसा की है। हिंसक रास्ते से पाई हुई स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता नहीं होती, स्थायी नहीं होती। हिन्दुस्तान का प्रयोग बिलकुल नया है। इसका परिणाम क्या आता है, वह देखने की बात रही।”

प्रभावतीबहन ने बापू की मालिश की। मनु को रोज बुझार आता है। वह खाट पर पड़ी थी, मगर बापू को खाना देने के लिए आई। दिन में भी काफी घूमती रही, इसलिए शाम को फिर बुझार आया।

मोराबहन को लगता है कि बापू के पत्र के परिणामस्वरूप अगर सरकार उन्हें छोड़ दे तो उसके लिए उनकी तैयारी होनी चाहिए। वे अपने आश्रम के नक्शे भी बना रही हैं और कनु से इस बारे में काफी चर्चा कर चुकी है।

शाम की प्रार्थना साढ़े आठ बजे होती है। बापू साढ़े नौ बजे खाट पर पहुँचते हैं। इस बजे उनका काम पूरा होता है। हम लोग साढ़े दस-द्वारह बजे सोते हैं। मैं पर्ले बक की ‘गुड अर्थ’ पढ़ती रही।

बापू ने बा के मृत्यु-संबंधी आये हुए पत्रों की सूची बनाने और उन्हें नम्बर देने का काम प्रभावतीबहन को सौंपा। दोपहर को भाई के साथ कागज फाइल कराने का काम किया। समय जाते पता नहीं लगता।

कल से बापू ने प्रभावतीबहन को गीताजी का उच्चारण, संस्कृत और अंग्रेजी सिखाने का निश्चय किया है। रोज भण्डारी की राह देखते थे कि आये तो पता चले कि प्रभावती और मनु के बारे में क्या तय हुआ। वे कल आए तो, पर कुछ खबर न दे सके, इसलिए बापू को और प्रभावतीबहन को लगा कि जितने दिन हैं, उनका तो ठीक उपयोग कर लिया जावे।

११ मार्च '४४

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है। बा की मृत्यु का दिन मंगल का है। इसलिए अब समाधियों की लिपाई हफ्ते में दो बार हुआ करेगी। आजकल फूल बहुत होते हैं। डा० गिल्डर और कटेली फूल इकट्ठे कर लाते हैं, इसलिए सारे हफ्तेभर अच्छी सजावट होती है। प्रभावतीबहन बापू से रोज कहा करती हैं कि समाधियों के दरवाजे के स्थान पर एक ऊँचा दरवाजा बने और उसपर बेलें चढ़ाई जाएं। पहले तो बापू उनसे यही कहते रहे कि उनका यहां रहना निश्चित हो जाय तो दरवाजे का काम करेंगे, लेकिन इतने दिनों से किसी प्रकार का सरकारी आदेश नहीं आया, इसलिए बापू आज मान गए। बापू काफी देर तक 'गुड अर्थ' पढ़ते रहते हैं और रोज के अखबार देखते हैं।

मीराबहन आजकल दोपहर को पौन घंटे तक और शाम को एक घंटे तक बापू से सवाल पूछती हैं।

बापू अभी तक स्थिर-चित्त नहीं हो पाए। कहते हैं कि सुचित्त हो जाने पर बे बा के संस्मरण लिखना शुरू करेंगे।

मनु को आज बुझार नहीं था, मगर दो बार उल्टी हुई। मलेरिया की दवा का असर हुआ लगता है।

१२ मार्च '४४

सुबह पांच बजे प्रार्थना को उठे। पीछे हमेशा का कार्यक्रम चला। ९ बजे घूमकर लौटे। मनु व प्रभावतीबहन को ४ से ५ तक सिखाया। आज शाम को खेलते वक़्त वर्षा के साथ-साथ ओले पड़े और बाब में इतनी गरमी बढ़ गई कि प्रार्थना के समय बापू ने पंखा उठाया।

भाई आजकल टाइप करने और फाइलो को व्यवस्थित करने में लगे हैं। शाम को घूमने भी नहीं निकलते।

आज मैं साढ़े दस बजे रात तक बापू का काम करती रही। फिर डायरी लिखी। नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बापू का कहना है कि समय होने पर तो खाट पर जाना ही चाहिए।

: ७१ :

## मीराबहन की आश्रम-योजना

१३ मार्च '४४

बापू का आज मौन है। एक-दो रोज पहले बे और अधिक मौन लेने का विचार करते थे। एक सोमवार का ही मौन हम लोगों के लिए इतना कष्टकर होता है तो बापू के अधिक मौन लेने से हमारी क्या गति होगी! असल बात तो यह है कि आजकल

बापू की मनःस्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनसे कुछ भी कहने में डर लगता है। उनमें भीतर-ही-भीतर बड़े-बड़े परिवर्तन होते दीखते हैं, पर यह सब है क्षी, इसका पता नहीं लगता।

मैंने 'गुड अर्थ' पढी, थोडा लिखा और प्रभावतीबहन को एक घटा सिलवाया। मीराबहन ने मान लिया है कि वे अब जल्दी ही छूटने वाली हैं। उनकी हरेक बात से यही ध्वनि निकलती है, परंतु छूटने की सम्भावना बहुत कम है। बापू भी कहते थे, "इसके भोलेपन और इसकी कल्पना-शक्ति का कोई पार नहीं है।"

समाधियों के दरवाजे पर हरे बांसों का एक तोरण बनाया है। उसपर तीन तरह की बेलें चढाई जाएगी, जो बकरियों से बच जाए तो ठीक है। वर्षा ऋतु के बाद समाधि-स्थान के चारो कोनों में सरब के चार वृक्ष लगाये जाएंगे।

मीराबहन ने अपने आश्रम की सारी योजना बनाकर बापू से उसे स्वीकृत करा लिया है। आश्रम के ध्येयों में से एक बात भाई को खटकी है। वह यह कि 'लोगों को आत्म-रक्षा (Non-aggressive defence) के लिए तैयारी कराना।' अहिंसा के सिद्धांत के साथ यह ध्येय कहा तक सगत है, भाई की समझ में यह नहीं आता। वे कहते हैं, "मैं जानता हू कि मीराबहन के द्वारा इस ध्येय का दुरुपयोग नहीं होगा, मगर दूसरे लोग इसे लेकर इसका दुरुपयोग अवश्य करेंगे।" बापू का मौन छूटने पर वे उनसे इस बारे में पूछेंगे।

१४ मार्च '४४

समाधियों के नए दरवाजे को मनु ने आज खूब सजाया। बडा सुन्दर दीखता है। घूमते समय बापू भाई को मीराबहन के आश्रम सम्बन्धी प्रश्न को लेकर समझाने लगे, "किसीपर हमला किये बिना अपनी रक्षा करने में हिंसा का समावेश नहीं है। यह देखना चाहिए कि मीरा ने कौनसी भाषा का प्रयोग किया है। एक जगह उसने लिखा है—'गाधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम चलाना ही उसके आश्रम का ध्येय होगा। तो वह तो शुद्ध अहिंसा हुई।"

भाई ने कहा, "'हमला किये बिना आत्म-रक्षा' (Non-aggressive Self-defence) एक खास अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है "

बापू बोले, "लोग क्या समझेंगे या क्या कहेंगे, मुझे इसकी कुछ नहीं पडी है। 'अहिंसा-अहिंसा' कहने से ही अहिंसा थोडे आती है! जब हम अहिंसा पर अमल करके दिखा देंगे तब लोग अपने-आप देख सकेंगे कि हम क्या करना चाहते है या क्या कर रहे हैं। सौ इसका काम भी जब आगे बढ़ेगा तब लोग अपने आप उसे देख सकेंगे।"

## अंग्रेजों की नीति

खाने के समय मीराबहन उस पत्र की चर्चा करने लगीं, जो बापू वेवल वाले पत्र के जवाब में भेज रहे हैं। बापू ने उसमें बा के विषय में काफी लिखा है। बापू कह रहे थे कि उनके मनोभावों को समझाने के लिए उस भूमिका की आवश्यकता थी। वे कहते हैं, "सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि हिन्दुस्तानियों को अपनी पत्नियों की परवाह नहीं होती है। उनकी इस मान्यता के कारण भी है। पत्नी की परवाह करना हिन्दुस्तान में कुछ हद तक नई चीज है, मगर मेरे लिए बा की कितनी कीमत थी, यह बताने के बाद ही वेवल को मैं यह समझा सकता था कि उसके झूठे वक्तव्य से मुझे कितना दुःख हुआ।"

इसके बाद वेवल के पत्र में एक जगह आता था 'पीपल्स ऑफ इंडिया' (Peoples of India), इसके बाव 'हकूमत जाओ', और यह बापू को अखरा।

मैंने और बापू ने 'गुड अर्थ' पढ़ लिया है।

१५ मार्च '४४

खाने के समय मीराबहन से 'पीपल' और 'पीपल्स' वाले पत्रों की बात करते हुए बापू कहने लगे, "अगर वह (वेवल) हिन्दुस्तानियों को एक 'प्रजा' मानता है तो हिन्दुस्तान के कुवर्ती ऐक्य की दलील को भी अपनी बात के समर्थन में इस्तेमाल कर सकता है। अगर वह यह मानता है कि हिन्दुस्तान में एक से अधिक 'प्रजाएं' हैं तो देश के कुवर्ती ऐक्य की बात करना फिज़ूल है। कुवर्ती तौर पर तो यूरोप भी एक मुल्क है, मगर हम जानते हैं कि वहां कई राष्ट्र हैं। इसलिए उसे एक मुल्क या वहां के लोगों को एक नहीं कह सकते।

"इसी तरह अगर हिन्दुस्तानी लोग एक प्रजा नहीं हैं तो पर्वतों की दीवार या समुद्रों का विस्तार हिन्द को एक राष्ट्र नहीं बना सकता।

"अंग्रेज लोगों को गर्व है कि राजनैतिक दृष्टि से उन्होंने हिन्दुस्तान को एक राज्य बनाया। एक तरह से यह सही भी है। भूतकाल में भी ऐसे प्रयत्न हुए हैं। अशोक और दक्षिण भारत के कुछ राजाओं ने इस प्रयत्न में काफी सफलता पाई थी, मगर पूरी सफलता अंग्रेजों ने ही पाई है, चाहे इसमें भी उनका निजी स्वार्थ ही क्यों न रहा हो। अब अंग्रेज अपने किये पर पानी फेरना चाहते हैं। यह कंसी शर्म की बात है कि अगर वे हिन्दुस्तान का शोषण नहीं कर सकते तो उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालेंगे।"

'हकूमत जाओ' के आंदोलन की बात करते हुए बापू बोले, "उन्हें समझना

चाहिए कि उन्होंने किस तरह से हिन्दुस्तान को चूसा है। हिन्दुस्तान का सारा खून चूसा जा रहा है। एक-एक विदेशी सिपाही हिन्दू को भारी पड़ता है। तुम तो यहां सरकारी अमलदार की बेटी की हँसियत से भी रही हो और मेरे साथ एक हिन्दुस्तानी की तरह भी। तुम जानती हो कि दोनों के रहन-सहन में कितना फर्क है। तुम्हारा खर्च तब कितना होता था और अब कितना होता है? हिन्दुस्तान कहा से उनके लिए खाना लावे? मुझे यह मत कहो कि वह सब खर्च हिन्दुस्तान में ही होता है। खर्च तो हिन्दुस्तान का खून ही होता है न! आज हिन्दू में जो कागजों रपया चल रहा है, उसकी कीमत ही क्या है? फौजी लोग नोटों की गड़डी उठा लाते हैं और सब्जी, दूध, घी, फल जो भी चाहे, उठा ले जाते हैं। गरीब हिन्दुस्तानियों के लिए कुछ नहीं बचता, उनके बच्चों के लिए दूध नहीं मिलता और वे सब कठिनाइयां सहन करते हैं विदेशी सरकार की खातिर। सिपाहियों की कुर्बानियों की बातें करते हैं। कहते हैं कि परदेशी लोग हमारी रक्षा के लिए यहां आए हैं, मगर क्या सचमुच वे हमारी सेवा करने के लिए हैं? मैं कहता हू कि वे यहा इसलिए हैं कि उन्हें वेतन मिलता है। वेवल से लेकर नीचे तक के सरकारी अमलदारों को लो। उनमें से कोई भी 'वालंटियर' कहलाने का अधिकारी नहीं है। कहा यह जाता है कि हिन्दुस्तानी सिपाही 'वालंटियर' हैं। सिपाहियों को 'वालंटियर' कहते हैं। वह बिचारा गरीबी का भाग्य भरती होता है और भूख का मारा होने से सिपाही बनता है। जितने विदेशी लोग यहां पड़े हैं, वे यहां की गरीबी को और जनता की भुखमरी को बढ़ाते हैं। ये सिपाही यहां चाहे थोड़े-से ही हों, मगर उनका खर्च इतना हो जाता है, जितना खर्च हिन्दुस्तान के करोड़ों भूखों पर होता है।

“इससे जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति कटुता का भाव आने लगा है। इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। शायद वे कहें, 'हम हिन्दुस्तान को आजादी देना चाहते हैं, मगर जरा धीरज रखो।' तुम्हारा जवाब यह होना चाहिए, 'नहीं, हिन्दू को आजाद करने का मौका आज है। आज ही यह कटुता मित्रभाव में बदली जा सकती है।' मैं जानता हू, वे कहेंगे कि जो चल रहा है, उससे उन्हें संतोष है। और ऐसा क्यों न कहे? उन्हें जो चाहिए सो हिन्दू से मिल सकता है। बाल्डविन से जब मैंने क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स के कारनामों की बात की तो उसने मुझे जवाब दिया, 'हमने हिन्दुस्तान में जो किया है, उसका हमें गर्व है।' वे अब भी ऐसा ही कह सकते हैं। तब मेरा जवाब वही होगा, जो मैंने बाल्डविन को दिया था कि 'ऐसी हालत में मुझे आपसे कुछ कहना नहीं है।'

“'हकूमत जाओ' आन्दोलन ने लोगों के हृदय में अंग्रेजों के प्रति अपना गुस्सा प्रकट किया। उस गुस्से की निकालने का यह एक सीधा और निर्दोष रास्ता था और ब्रिटेन को समझाने का प्रयत्न था कि वह कुछ करे, जिससे इस गुस्से की जगह मित्रता और कुतज्ञता की भावना लोगों के हृदय में उठे। मगर मेरी शिकायत यह है कि उन्होंने



कांग्रेस के दृष्टिबिंदु को समझने की कोशिश तक न की। 'हकूमत जाओ' आंदोलन के नाम-मात्र से वे इतना चमकते हैं, यही बताता है कि उनकी नीयत साफ नहीं। हिन्दू को लूटना बन्द करने का उनका इरादा नहीं, नहीं तो मौलाना साहब और जवाहरलाल की अपील की तरफ ध्यान देते और मेरे भाषण पर गौर करते। आठवाँ अगस्त के 'हकूमत जाओ' प्रस्ताव में भी कांग्रेस ने ब्रिटेन के प्रति उचित मित्रता बताने की कोशिश की। कांग्रेस चाहती है कि मित्रराष्ट्र युद्ध में जीते और उनकी जीत पक्की करने के लिए ही कांग्रेस ने कहा, 'हिन्दुस्तान के साथ न्याय करो।' अगर वे इस चीज को समझते तो चाकी सब ठीक हो सकता था। अब भी समझें तो हो सकता है।"

१६ मार्च '४४

डा० गिल्डर को टांग में 'साइटिका' का दर्द है। मनु और भाई ने मिलकर बापू की मालिश की। मुझसे ही मालिश करवाने वाले थे, मगर कुछ कारणों से ऐसा हो न सका।

आज मनु को कुनीन का इजेक्शन दिया, इससे उसे रात के समय सिर में चक्कर आते रहे।

गृह-मन्त्री ने असेम्बली में बा को दी गई सुविधाओं के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया था, वह अखबारों में प्रकाशित हुआ है। हम सबको वह चुभा है। इतनी तकलीफें देकर और झगड़े करने के बाद अब सरकार यह बताना चाहती है कि उसने बा की सभी आवश्यकताएं पूरी की।

बापू शाम को भाई से कहने लगे, "हो सके तो तुम इसका उत्तर लिखो।" भाई ने मुझसे भी अभ्यास के तौर पर उत्तर लिखने को कहा।

१७ मार्च '४४

भाई पत्र लिखने में व्यस्त है, इसलिए बापू ने मनु से मालिश कराई।

१८ मार्च '४४

भाई ने दिन में वह पत्र लिखकर बापू को दिया तो बापू ने देखा कि उस पत्र में लिखी हुई लगभग सभी बातें वे अपने पत्र में संक्षेप में पहले ही लिख चुके हैं। इसलिए पत्र को रोक दिया। वे खुद ही फिर लिखेंगे।

खाने के समय बापू मीराबहन से बोले, "मानो कि बाइसराय आज कहे कि 'हमें हिन्दुस्तान से इतना रुपया मिल रहा है, इतने सिपाही मिल रहे हैं तो कांग्रेस क्या इससे ज्यादा देगी? कांग्रेस को खुश करने से हमें और क्या मिलेगा?' तब मैं कहूंगा कि 'कांग्रेस और कुछ भी करने वाली नहीं। हां, उसके द्वारा आपको लोगों का बिल और आत्मा मिलेगी और आम लोगों की सवभावना।' सिपाही को अपनी तनख्वाह की पड़ी है और व्यापारी को अपनी तिजारत की। मगर किसान, जो हिन्दुस्तान की ९० प्रतिशत जनता है, हिन्दुस्तान की जमीन के साथ बंधे हैं। अगर किसान

आजादी के उल्लास का अनुभव करेगा तो अपने देश की आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा ।

“अगर हिन्दुस्तान खुश होगा, संतुष्ट होगा तो आप एक-एक हिन्दुस्तानी सिपाही को पूर्वी लड़ाई के मँवान में भेज सकते हैं । हिन्दुस्तानी सिपाही ब्रह्मदेश को लड़ाई में लड़ने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं । अंग्रेज या अमरीकन सिपाहियों की निस्वतः हिन्दुस्तानी सिपाही सस्ते भी पड़ेंगे । आज आप हिन्दुस्तानियों को पूर्व में इस्तेमाल नहीं कर सकते; क्योंकि आपको डर है कि हिन्दुस्तानी सिपाही हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने लगेंगे ।

“हिन्दुस्तानी सिपाहियों को आपको आधुनिक लड़ाई की तालीम देनी होगी, मगर उसके लिए हम आपके कुछ अफसर मांग लेंगे, चाहे वे अंग्रेज हों या अमरीकी या रूसी ।”

मीराबहन बोलीं, “आपने फिशर से कहा था कि मित्रराष्ट्रों की फौजें अपने खर्च पर यहां रह सकती हैं । तो फिर इन हिन्दुस्तानी फौजों के खर्च का क्या होगा ?”

बापू ने उत्तर दिया, “खर्च के बारे में जो आज व्यवस्था है, वही रहेगी । एक तो बाकायदा हिन्दुस्तानी फौज होगी । उसके अलावा मित्रराष्ट्र अपने लिए सहायक सेना की भरती करेंगे और उसका खर्च उन्हे देना होगा, सिवा इस हालत के कि हिन्दुस्तान की रक्षा के लिए इस्तेमाल हो या लड़ाई लड़ने में हिन्दुस्तान का अपना हित सधता हो, जैसे कि ब्रह्मदेश में और उसके लिए वह अपने सिपाही वहा भेजें ।

“मे यह कहूंगा कि अगर अंग्रेजों को इनमें से कोई भी बात नहीं अंचती तो उन्हें जापान पर जीत बहुत महेगी पड़ेगी । लड़ाई के अंत में गुस्से से भरा असंतुष्ट हिन्दुस्तान उनके सामने खड़ा होगा ।”

बापू के कहने से भाई ने मीराबहन से ‘Non-aggressive Self-defence’ के अर्थ के बारे में स्पष्टीकरण के लिए बात की थी । मीराबहन का कहना था कि उनका इससे तात्पर्य ‘अहिंसात्मक ढंग से आत्मरक्षा’ (Non-violent Self-defence) ही है । भाई ने जब कहा कि आजकल ‘अहिंसात्मक ढंग से आत्म-रक्षा करने’ का अर्थ रुड़ हो गया है तब मीराबहन ने स्वीकार किया कि एक प्रसिद्ध संस्था के विधान की भाषा ऐसी चौकस होनी चाहिए कि कोई भी उसका दूसरा अर्थ न कर सके । उसमें विपरीत अर्थों को गुजाइश नहीं रहनी चाहिए ।

मनु को मने आज कुनीन का दूसरा इंजेक्शन दिया ।

अखबार में किसीने बापू को यहां से हटाने की मांग की है । गृह-मंत्री ने उत्तर दिया है कि इसपर विचार किया जायगा । इस परबहुत चर्चा चली । बापू को लगता है कि यह उनके पत्र का परिणाम है । उन्होंने लिखा था कि सरकार उनपर इतना खर्च क्यों करती है । वे मानते हैं कि उन्हें अब यहां से हटाया जावेगा, लेकिन मुझे इसमें शक है ।

१९ मार्च '४४

आज सुबह जब भण्डारी आए तो बापू को यहां से हटाने की बात पर मजाक खलता रहा ।

आज बहुत दिन बाद मैंने बापू की मालिश की और स्नान कराया ।

मनु बुखार के कारण तीन दिन तक आराम करेगी, इसलिए उसका काम प्रभावतीबहन करेंगी ।

दोपहर बाद कनु, रामदासभाई, नीमूभाभी और मामाजी के पत्र आए । उन्हें पढ़ते-पढ़ते मनु और प्रभावतीबहन को सिखाने का समय हो गया ।

बा को दी गई सुविधाओं के सम्बन्ध में गृहमंत्री ने जो वक्तव्य दिया था, बापू ने उसका जबाब एक संक्षिप्त किन्तु शानदार विरोध-पत्र द्वारा दिया है ।

कल डा० सिम्काक्स मीराबहन को देखने आवेगें । मनु और प्रभावतीबहन के जाने के बारे में अभी तक कोई हुक्म नहीं आया, मगर बापू मानते हैं कि कुछ-न-कुछ हुक्म तो जरूर आवेगा । बापू को यहां से हटाने का विचार होता होगा, इसलिए हुक्म आने में देरी लगी है ।

: ७३ :

## जेल में मन-बहलाव

२० मार्च '४४

बापू का बा के बारे में विरोध-पत्र आज गया है । उनका आज मौन-दिन है, इसलिए वे दिनभर 'अरेबियन नाइट्स' पढ़ते रहे ।

डा० सिम्काक्स सुबह दस बजे आए और मीराबहन को बेहोश करके उनकी बांह को खूब हिलाते-डुलाते रहे । शाम को उन्हें फिर देखने आए । मनु को बुखार नहीं था । उसे मैंने आज तीसरा इंजेक्शन दिया । दोपहर को भाई की फाइल का सूची-पत्र तैयार कराने का काम किया । आधा कर पाई । हम रोज गाते हैं : 'यततोह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मनः ॥' आवामी अपने विचार और वाणी से कभी-कभी अनिच्छा और विरोधी प्रयत्न के बावजूद भी अपना काम कर लेता हूँ । दूसरी ओर खूब सतर्क रहने पर भी वह नासमझी कर बैठता है ।

२१ मार्च '४४

आज बा की मृत्यु का दिन है । सिपाही काफी फूल इकट्ठे कर लाए, मगर दरवाजे पर रखने के लिए फूल जरा ढेर से पट्टे । समाधियों के दरवाजे को फूलों से सजाया गया ।

पारसी लोगों का आज त्यौहार है। बा हमेशा त्यौहार के दिन डा० गिल्डर और कटेली के लिए कुछ-न-कुछ बनाने की ध्यवस्था करवाया करती थीं, मगर आज उनके लिए बाहर से इतना खाने की आ गया कि और बनाना बेकार लगा। आज की जगह कल पूरन-पूरी बनाने का बिचार किया। मालिश के समय डा० गिल्डर जरा देर से आए। बापू ने कारण पूछा। मंने बताया कि बाहर से खाना आने में देर हो गई थी, इसलिए डाक्टर साहब को नाश्ता करना पड़ा। इसपर बापू को लगा कि उनके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए था। दोपहर को बापू के फिर कहने से मंने लकड़ी के एक छोट-से रंगीन छिब्वे में एक रुमाल पर डा० साहब का नाम लिखकर उसमें रखा और पासल बनाया। रामनायक ने बापू के लिए एक बड़ा चौरस रुमाल बनाया था, जिसके बीच में रंगीन धागे का काम था—इसे भी लिया। प्रभावहन से बारीक खादी लेकर रामनायक ने दो रुमाल और बना दिये। बड़े रुमाल के किनारे हम तीनों ने मिलकर बनाए और उन्हें धोकर और इस्त्री करके तीनों रुमालों पर नाम डालकर एक दूसरा पासल बनाया।

शाम को प्रार्थना होने के समय डा० साहब को कुंकुम का तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाई और पासलो की भेट दी। बक्स पर स्वयं बापू ने नाम लिख दिया था, इसलिए उसकी बड़ी कीमत हो गई। आज का दिन इसी काम में गया।

डा० सिम्कोबस भी आए थे। वे मीराबहन को देखकर चले गए। अगले महीने फिर आवेगे।

: ७४ :

## बा की स्मृति

२२ मार्च '४४

बा को गए आज एक महीना पूरा हुआ। इसी तरह उस दिन तारीख २२ और तिथि तेरस थी। सुबह प्रभावतीबहन ने पूजा की। मनु ने बा की तस्वीर रखकर पूजा की। जहां महादेवभाई की राख रखी थी, वही बंठकर प्रभावतीबहन पूजा करती हैं। यह विचित्र बात है। उन्हें इस बात की खबर तक न थी, अकस्मात् ही उन्होंने उस जगह को पूजा के लिए चुन लिया था। ८॥ बजे प्रार्थना में ईशावास्यमिदं, नम्यो, असतो मा सदगमय, अउजबिल्ला, मज्जदा और गीता के बारह अध्याय पढ़े। सजावट बड़ी अच्छी थी। कंदियों को खिलाने और प्रार्थना का कार्यक्रम रखा गया।

पकोड़ी, हलुवा और पूरनपूरी बनाई। दो बजे बापू पूछने आए, “बा पुछवाती है कि कितनी देर है।” उसी समय मंने कंदियों को बुलवाया था। सबको साथ ही पौने तीन बजे खिलाना शुरू किया और सबने भरपेट खाया। ६॥ बजे बापू को घूमने निकलना

था और ७-३५ पर प्रार्थना शुरू करनी थी ।

बीमारी के दिनों में बा की लाट बापू के कमरे में रहती थी । वहाँ जिस मेज पर बा सिर रखा करती थीं, उसपर मने मेजपोश डालकर विष्णु और लक्ष्मी की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कीं । उनके चरणों के पास वह चित्र रखा, जिसमें बा बापू के पांव पत्थारती हुई दिखाई गई हैं । इसके नीचे मीराबहन का बनाया हुआ मिट्टी का विष्णु-मंदिर रखा । लगता था, मानो बा मन्दिर से उठकर भगवान् के चरणों में पहुंच गई हैं । इस दृश्य के पीछे तुलसी के पीछे रखें, ऊपर दीवार पर 'हे राम' की तलती लटकाई और सामने के भाग में रागोली से सजावट की । उसमें ॐ और 卐 बनाए, सुन्दर दृश्य था ।

बापू और भाई के नाम माताजी के पत्र आए हैं । मोहनलाल का पत्र भाई के नाम आया है—वे जल्दी मुलाकात के लिए आवेंगे ।

७-३५ पर प्रार्थना शुरू हुई । हमेशा की प्रार्थना के साथ-साथ 'वैष्णवजन,' 'गोपाल राधाकृष्ण' 'गोविन्द गोविन्द गोपाल' ( यह धुन बा को बहुत प्रिय थी ), 'द्वेन आइ सर्वे वि बंडरस फ़ास', तथा रामायण हुई । मीराबहन ने करताल बजाई । पीछे गीताजो का पारायण किया । ९। बजे सारा कार्यक्रम अच्छी तरह समाप्त हुआ । प्रभा, मनु ओर मं नीचे जाकर समाधि पर बत्ती रख आए । रात को बँठकर कातने की बापू ने मनाही की ।

२३ मार्च '४४

बापू से मने रामायण और व्याकरण ११। से १२। तक पढ़ना शुरू किया है । शाम को आधा घंटा लिन्-यू-टांग की किताब पढ़ी ।

शाम को घूमते समय बापू कुछ थके-से लगे । पूछने पर कहने लगे, "एक तो मेरे पत्रों के सरकारी जबाब नहीं आते हैं, इसलिए मन पर बोझ है । दूसरे, बा के जाने का धक्का अभी तक दूर नहीं हुआ । बुद्धि कहती है कि इससे अच्छी मृत्यु बा के लिए हो नहीं सकती थी । मुझे हमेशा यह डर रहता था कि बा अगर मेरे पीछे रह जाएगी तो अच्छा नहीं । मेरे हाथों में ही चली जाए तो मुझे अच्छा लगे; क्योंकि बा मुझमें समा गई थी । मैं शोक में पड़ा रहता हूँ, ऐसा भी नहीं है । बा का विचार करता रहता हूँ, वह भी नहीं । बया है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता ।"

: ७५ :

## असंतोष और प्रगति

कटेलो साहब ने खबर दी है कि २७ तारीख (सोमवार) के दिन माताजी मुलाकात करने आवेंगी । मनु बेबी के लिए फ़ाक बनाना चाहती है । मेरे पीछे लगी है कि मैं कपड़ा काट दूँ, मगर मैं तो फ़ाक काटना जानती नहीं हूँ । कैंदियों में एक बर्ज़ी है । कल

उससे पूछूंगी ।

२४ मार्च '४४

प्रभावतीबहन ने रोटी बनाई । हम सबको बड़ी अच्छी लगी । जबतक आटा है, डबल रोटी नहीं मंगाएंगे ।

वोपहर को भाई रामायण पढ़ने के समय कातते हैं; पीछे खाने को बँठते हैं । इस-लिए इस समय का उपयोग करने के लिए भाई से मने भूगोल सीखना आरम्भ किया है ।

सबेरे घूमते समय चर्चा चली थी कि जापानी अगर सबमुच आगे बढ़ें तो हमें क्या करना होगा । बापू बोले, "हो सकता है कि जब भी हम जेल से निकले, हमें जापान का सामना करना होगा । उनके वश में होने का तो सवाल उठता ही नहीं । लोगो से हम क्या करवा सकते हैं, किस प्रकार उनपर काबू रख सकते हैं, यह तो उन्हें देखकर ही तय करना होगा ।" आश्चर्य है कि ऐसे आदमी को सरकार जापान की तरफ झुकने वाला कैसे कहती है ।

२५ मार्च '४४

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है । उनको डेढ़ वर्ष से अधिक हो गया है, इसलिए हफ्तो की गिनती तो भूल गई है; मगर वह दिन इतना ताजा है कि मानो सारो घटना कल ही हुई हो । अब उनके साथ बा भी जा मिली है । मन में आया है कि यह चिन्तास्थान जगदम्बा और महादेव के मन्दिर के नाम से पूजा जाएगा । वहाँ जो नीम लगाया था, उसपर नये पत्ते आ रहे हैं ।

गर्मी बढने लगी है, इसलिए बापू सुबह शाल लेकर नहीं निकलते ।

शाम को माताजी की मुलाकात के बारे में बात हुई । प्रभावहन ने कहा, "इतनी दूर से आने वाले को एक से अधिक मुलाकातें मिलनी चाहिए । देवली में मिलती थीं ।" बापू बोले, "वे दिन गए ।" रात में मने भाई को फाइलो का काम किया ।

२६ मार्च '४४

बापू ने भण्डारी और शाह से पूछा, "सुशीला की माताजी इतनी दूर से फिर नहीं आ सकेगी, इसलिए एक से अधिक बार मिलने नहीं दिया जा सकता क्या ?" भण्डारी ने बम्बई सरकार से दरियाफ्त करने को कहा । बाद में बापू कहने लगे, "माताजी को अनुकूल हो तो उन्हें एक महीना रोक लिया जाए । दीनशा के वहाँ वे अपना इलाज भी करावे, लड़की की भी सम्भाल हो । फिर दुबारा मिलकर महीने के बाद जावें ।"

भाई को संकोच हो रहा था कि दीनशा पर इतना बोझ कैसे डाला जाय, लेकिन बापू को कोई हर्ज नहीं लगता था । बोले, "उसके यहाँ मैं किसी भी रोगी को भेज सकता हूँ, यह बरसों से उसके साथ समझौता है ।"

भण्डारी कहते थे कि माताजी का पत्र देर से आया था, इसलिए उसका जवाब

२२-२३ को भेजा गया। उनको वह समय पर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है।

२७ मार्च '४४

बापू का मौन है। मुलाकात के लिए उन्हें मौन में ही जाना होगा, यह अच्छा नहीं लगा। पर इससे यह फायदा भी था कि आज जाने से रामायण वगैरह में नाग्य नहीं पड़ेगा। सोमवार को यो ही नाग्य होता है।

दोपहर की डाक से मोहनलाल का पत्र आया कि वे आज आ रहे हैं। हमने तो मुलाकात की आशा छोड़कर दिन का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। मंने ६-७ अंक 'डान' के पढ़े, मनु और प्रभा को सिखाया, खेलने गई और खाने के बाद बापू के पास लिन्-यू-टांग की किताब पढ़ी। इतने में घूमने का समय हो गया।

बापू की शिकायत का सरकारी उत्तर आया है। बुरा है। काशीबहन का भी पत्र आया है।

बापू ने मोरारबहन के साथ बातें करते हुए उन्हें बताया कि चीनी सहयोग मंडलियां (Chinese Coops) हिन्दुस्तान के लिए क्यों उपयोगी नहीं हैं? चर्खासिध में और इंडस्को \* (Industrial Co-operatives) में क्या फर्क है?

रात को एक बड़ा सांप बरामदे में पाया गया। मोरारबहन के हाथ में टार्च थी, इसलिए वे बाल-झाल बच गई, नहीं तो पैर उसीपर पड़ता। सिपाहियों ने आकर उसे मार डाला।

कटेली साहब ने बताया कि कल ११ बजे हम लोगों की मुलाकात होगी।

२८ मार्च '४४

आज सुबह घूमते समय बापू सात्त्विक, राजसिक और तामसिक असंतोष का भेद समझाने लगे, "प्रगति के लिए असंतोष आवश्यक है, मगर असंतोष जिस प्रकार का होगा, प्रगति उसीके आधार पर होगी। तामसिक असंतोष वाला मनुष्य मात्र ईर्ष्या के वश होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। राजसिक असंतोष वाले के मन में निर्दोष स्पर्धा का भाव रहेगा, किन्तु सात्त्विक असंतोष में किसीके साथ मुकाबले का सवाल ही नहीं उठता। मनुष्य स्वतंत्र होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। फिर राजसिक असंतोष वाला मनुष्य राजसी वृत्ति से काम करेगा। वह दौड़-धूप से भरा रहेगा। सात्त्विक भाव से प्रयत्न करने वाला शान्ति से—सौम्यता से काम करेगा।"

डेढ़ वर्ष से ऊपर हो गया जब इस दरवाजे के अवर हम सब आए थे। उस रोज बा भी मेरे साथ थीं और मंने आशा की थी कि हम लोग बाहर भी एक साथ ही जाएंगे, मगर वह कुछ न हुआ।

\* औद्योगिक सहयोग मण्डल

जमाबाब ... हमें मोटर में इंस्पेक्टर-जनरल पुलिस के ऑफिस में ले गया। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तब ऊपर के दरामदे में से माताजी को जाते देखा। बेबी ने पेशाब कर दिया था, इसलिए वे कपड़े धोने गुसलखाने गई थी और वहाँ से आ रही थीं। उन्होंने हमें नहीं देखा। आफिस के दरवाजे पर हम उनसे मिले और साथ ही भीतर गए।

बेबी बड़ी सुन्दर लगती हैं। वह भूखी थी, इसलिए दूध पिलाने पर सी गई। थोड़ी देर में माताजी ने उसे जगा दिया। वह खेलने लगी, मगर बाद में रोने लगी और तूफान मचाने लगी। माताजी ने उसे सतरा चुसाया। शकुन्तला की बाते चली।

हमें आशा थी कि दूसरी मुलाकात मिलेगी, मगर भण्डारी तो बम्बई चले गए थे। अदबानी इस बारे में कुछ जानते न थे। इसलिए यह तय हुआ कि खुब मोहनलाल बम्बई जाकर पता करें और माताजी को दीनशा के यहाँ छोड़ जाएँ।

हम लोग दो बजे वहाँ से वापस लौटे। बापू तभी उठे थे। उन्हें सब बताया तो बातों में तीन बज गए। मुलाकात पूरी हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता; क्योंकि दूसरी मुलाकात की आशा है।

: ७६ :

## बा के बारे में सरकार की सफाई

बापू रात भर सो नहीं सके। सुबह चार बजे उठकर बा-सम्बन्धी सरकारी उत्तर का जवाब तैयार करने लगे।

२९ मार्च '४४

आज बा की मृत्यु पर लायड जाज़ का समवेदना-पत्र बापू को मिला।

३० मार्च '४४

आज पता चला कि हमें दूसरी मुलाकात न मिल सकेगी। बुरा लगा।

बापू ने अपना पत्र सुधारा। हम सबने भी उसे देखा। प्रार्थना के बाद बापू कहने लगे कि बा की अत्योष्ठि-क्रिया के बारे में सरकारी पत्र में था—'पूछने पर पता चला कि पहले या दूसरे चुनाव में आपका किसी तरफ खास पक्षपात न था।' और यह उनको खटका था। मैंने और भाई ने इस वाक्य की ओर उनका ध्यान दिलाया था, मगर बापू ने आज इस वाक्य को पकड़ा और हम लोगों से कहने लगे, "मैं ध्यान न दूँ तो मेरे साथ झगड़ा करना चाहिए। अगर डरते रहोगे कि बापू का रक्तचाप बढ़ जायेगा या बापू नाराज हो जायेंगे तो मेरा काम नहीं कर सकोगे।"

३१ मार्च '४४

प्रार्थना के बाद बापू सोए नहीं। सरकार को पत्र लिखने के विचार से इतने



भरे थे कि घूमने के बाद २०४। ११६ रक्तचाप निकला। स्नान करते समय भी उसी विचार में लीन रहे। उसके बाद बाहर निकलकर लिखवाना शुरू किया।

साढ़े छः बजे बापू मुझसे बोले कि मैं उन्हें लिन्-यू-टांग की किताब पढ़कर सुनाऊँ, मगर मैंने उनसे आराम लेने को कहा--तब वे आँसू मूँदकर लेटे और सो गए।

१ अप्रैल '४४

मैंने जब डा० गिल्डर से कहा कि बापू के पत्र का पांच बार संशोधन हो चुका है तो वे बोले, "छठी बार में संशोधन कराऊंगा।" उन्होंने जो कमियाँ निकालीं, वे मुझे भी खटकी थीं। मैं एक पत्र तैयार करके बापू के पास ले गई। उन्होंने पत्र को खूब काट-छांट डाला था। हमारे सुधारों को समझकर वे घूमने गए। अपना सुधारा हुआ पत्र वे हमें दे गए कि जिससे हम उसे अच्छी तरह देख ले और दोनों में से जो पसन्द करे, वे उसे ही भेजने का निश्चय करेंगे। हम लोगो ने दोनों पत्रों को मिलाकर एक तीसरा पत्र तैयार किया। बापू पीने दस बजे वापस आए तब डा० गिल्डर ने किये हुए परिवर्तनों को पढ़कर उन्हें सुनाया। बापू ने स्वीकार किया। स्नानघर में मुझसे उन्होंने वह पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। उन्होंने उसमें कुछ और सुधार करवाए, यहाँ तक कि खाते समय भी सुधार करवाते रहे। बारह बजे पत्र पूरा हुआ। भाई ने तीन बजे तक टाइप कर दिया और चार बजे वह साधारण डाक से चला गया। सोमवार को इसी पत्र की एक नकल रजिस्ट्री से भेजी जावेगी।

भाई रात गए तक पत्र की नकले टाइप करने रहे। चाहते हैं कि सोमवार के लिए नकले तैयार हो जावे। नकलों के साथ परिशिष्ट भी टाइप की, यहाँ तक कि उनके सिर में दर्द हो गया।

प्रभाबहन के सिर में भी बड़ा दर्द रहा। उनमें खून की कमी है। मैंने उन्हें लोहा सेवन करने को सलाह दी है।

२ अप्रैल '४४

सबेरे बापू को घड़ी देखने में देर ही गई, इसलिए छः बजकर बीस मिनट पर प्रार्थना के लिए उठे, यह भी प्रभाबहन के उठाने में। वे उस समय साढ़े चार का समय समझ रहे थे। घंटे और मिनट की मुद्दियाँ देखने में भूल हो गई थी।

घूमते समय बापू कहने लगे कि पिछले साल की निस्बत इस साल कम गर्मी पड़ रही है। पिछले साल उपवास के बाद माचं में पखा चलाना पड़ता था, मगर इस साल अभी तक पखे की जरूरत नहीं है।

बा की शिकायतों वाले बापू के पत्र में स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार बार-बार बा के लिए सहूलियते मांगी गईं और किस तरह बार-बार कहने के बाद भीका निकल जाने पर सहूलियतें मिलीं—इससे भण्डारी को चिन्ता हो गई कि कहीं उनपर विपत्ति न आ पड़े, इसलिए वे अपने बचाव की खातिर आज आकर कहने लगे, "यह पत्र की क्या

बात है ? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया ? ” डा० गिल्डर बोले, “बुलाया तो था, मगर आप यहां नहीं थे ।” भण्डारी ने कहा, “वीनशा को इसीलिए पहले नहीं भेजा कि आप उनकी जरूरत नहीं समझते थे ।” गिल्डर बोले, “मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि वीनशा की सेवाओं की आवश्यकता नहीं ।” भण्डारी ने उत्तर दिया, “हां, वह तो ठीक है । मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा । मैंने यह कहा था कि उन्हें सलाह के लिए नहीं बुलाया जा सकता; क्योंकि वे डिग्रीधारी डाक्टर नहीं हैं । पता नहीं, सरकार इससे क्या समझी ।”

बापू बोले, “और बाह-क्रिया के बारे में सरकार कहती है कि उसने पूछा और पता चला कि मुझे पहले दो चुनावों में कोई पक्षपात नहीं था, यह क्या बात है ? ”

भण्डारी ने जवाब दिया, “मैंने तो शब्दशः आपका संदेशा टेलीफोन पर पढ़कर सुनाया था । और मैंने कुछ नहीं कहा ।”

फिर भण्डारी भाई से पत्र लेकर डा० गिल्डर के कमरे में बंठकर पढ़ने लगे । बापू की मालिश पूरी करके डा० गिल्डर वहां गए और भण्डारी से बातें करते रहे । बापू ने मुझसे कहलाया कि वे भण्डारी को भी एक पत्र लिखेंगे । मैं कहने गई तो भण्डारी मुझसे बोले, “यह पत्र लिखने से पहले मुझे दूला क्यों न लिया ? ” मैंने बताया, “आपको बुलाया तो था, मगर आप चले गए थे । मैं तो खुब आपसे मिलना चाहती थी; क्योंकि आपने कहा था कि माताजी से मेरी दूसरी मुलाकात हो सकेगी ।” वे बोले, “हां-हां, वह तो अबवानी कर सकता था ।” मैंने कहा, “अबवानी से कहा था । उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं कर सकते ।” भण्डारी बोले, “मुझे तो लगता है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी ।” डा० गिल्डर ने बतलाया, “सुशीला का भाई आयुद्धर के पास गया था, वहां से ‘न’ मिली ।” भण्डारी बोले, “मैं करता तो ऐसा न होता ।”

मैंने कहा, “मेरी माताजी इस समय बम्बई में हैं । यहां आने वाली हैं । बापू ने उन्हें इलाज के लिए वीनशा के यहां रहने को कहा है । इसलिए आप अब भी कुछ कर सकते हैं तो करे ।” वे कहने लगे, “उनके आने पर मुझे खबर करना ।” बाव में उन्होंने किया-कराया कुछ नहीं ।

सुबह बापू ने भण्डारी को पत्र लिखा । शाम को भंडारी स्वयं आए और फिर वही बातें कहने लगे, “वीनशा के बारे में मैंने पहले समझा था कि आप उसे डाक्टरों सलाह के लिए बुलाते होंगे । इसीलिए मैंने कहा था कि उसे बुलाया नहीं जा सकता ।” बापू बोले, “मैंने तो आपसे स्पष्ट कहा था कि वह डाक्टरों के नीचे काम करेगा ।” भण्डारी ने कहा, “जब आपने यह कहा तब मैंने उसके आने की इजाजत मांगी थी ।” बापू बोले, “बा तो बहुत दिनों से कह रही थी । मुझसे जैसे ही आपने पूछा, मैंने स्पष्ट कर दिया था कि वह आकर क्या करेगा ।”

भण्डारी कहने लगे, “बा ने पहले अबवानी से कहा था कि वीनशा को भेजे । अबवानी ने मुझसे कहा था नहीं, यह मुझे याद नहीं । मैं १७ जनवरी को आया । उसके

बाद ही बा ने मुझसे कहा। बा के कहने पर तो मैंने कुछ किया नहीं, मगर आपके कहने पर फौरन अमल किया।” बापू बोले, “मैंने तो हताश होकर सरकार को लिखा था; क्योंकि जबानी कहने का कोई असर देखने में नहीं आया।” भण्डारी ने जवाब दिया, “यह पता चलते ही कि आप उन्हें सलाह के लिए नहीं, बल्कि इलाज और एनीमा या मालिश करने के लिए बुलाते हैं, मैंने उनके आने का इंतजाम किया।” डा० गिल्डर ने बताया, “मगर सलाह के लिए उन्हें बुलाने का कभी सवाल ही नहीं उठा।”

वाह-क्रिया के बारे में भी भण्डारी ने कहा, “मैंने तो अक्षरशः आपकी वरस्वास्त उन्हें सुना दी थी। कल जाकर मैं सब कागजात देखूंगा। आपको उत्तर को जल्दी तो नहीं है न?” बापू ने कहा, “नहीं।” अपने और कागजों के साथ भण्डारी बापू का कल वाला पत्र भी माग गए।

बापू ने कौंसिल आव स्टेट में दिये गए कोनरन स्मिथ के वक्तव्य के बारे में भी एक पत्र सरकार को लिखा। शर्मा को बुलाने की तारीख उन्होंने ९ फरवरी बताई थी, जब कि ३१ जनवरी के अखबारों में शर्मा का नाम आ गया था और ३ फरवरी को फिर से याव विलाई गई थी।

: ७७ :

## बापू की जागरूकता

३ अप्रैल '४४

भाई ने आज भी काफी टाइप का काम किया। बापू का मौन है। वेबल का उत्तर आया है जिसमें मुझे तो सूखी 'न' लगती है। मीराबहन और भाई उसमें से कुछ आशाजनक अर्थ निकालने की सोच रहे हैं। अभ्यास के तौर पर बापू ने उसका उत्तर लिखने की कहा। परसों वाले पत्र की आज एक नकल रजिस्ट्री से गई।

डा० गिल्डर को थोड़ा बखार है।

४ अप्रैल '४४

आज सबका बज्रन लेने का दिन है। डा० गिल्डर का बज्रन ६ पौण्ड घटा। मनु का और मेरा वही-का-वही रहा। मीराबहन और बापू एक-एक पौण्ड घटे। प्रभा-बहन और भाई का बज्रन बढ़ा।

बा की समाधि पर मीराबहन ने शंखों का 'हे राम' बनाया। हम लोगो ने शाम की देखा।

मीराबहन ने अपना उत्तर पाठरूप में लिखकर दोपहर में बापू को दिया। मैंने भी चालीस मिनट में अपना जवाब लिखकर बापू को दिया। उन्हें अच्छा लगा। शाम को धूमते समय पाकिस्तान की बात होने लगी। बापू कहने लगे, “मैंने

कहा है कि जिसे मैं पाप समझता हूँ, उसमें 'हां' कैसे करूँ ! मगर तुम्हें लेना हो तो लो । तुम्हें कौन रोक सकता है । मैं गौ-हत्या को पाप मानता हूँ, मगर उसके लिए मुसलमानों के साथ झगड़ा नहीं करता । अपनी बात मैं उन्हें सुना देता हूँ । उन्हें वह चुभती नहीं । खिलाफत के विनों में मैं उनसे कहता था कि खिलाफत तुम्हारी गाय है । मैं उसे अपनी गाय मानता हूँ । मेरी गाय को तुम अपनी गाय मानो । मगर मुझे तुम्हारे साथ सौदा नहीं करना है । जो करना है, अपने आप करो । एक साल तक यह चला भी । लाखों गाएँ बची । मुसलमानों ने अपने-आप उन्हें बचाया ।”

५ अप्रैल '४४

डा० गिल्डर ने अपना उत्तर लिखकर आज बापू को दिया । भाई तो रात उत्तर लिख चुके थे । आज उसे टाइप किया ।

शाम को चार बजे बापू प्रभावहन की डायरी देखते-देखते उन्हे गुजरती भाषा के बारे में और बाद में दूसरी और बातें बताते रहे । एक घंटे तक उनकी बात चलती रही । मैं भी सुनती रही । बाद में उन्हीं बातों का विचार आता रहा ।

आज मुबह खाने के कमरे से जाते समय बापू ने देखा कि वहाँ लिखने की मेज पर खाने का सामान रखा है । उन्हें वह चुभा और सबको उन्होंने ऐसा न करने की हिदायत दी, “लिखने की मेज पर यह सब सामान देखा तो मुझे चुभा । मुझे लगा कि कटेली को भी बुरा लगता होगा, मगर हमें बुरा न लगे, इसलिए वे कुछ कहते नहीं । मैं उन्हे इम परिस्थिति में नहीं डालना चाहता । उनसे मेहरबानी भी नहीं चाहता । वे मेहरबानी करके हमें यह मेज इस तरह इस्तेमाल करने दें तो उससे तो बेहतर यह है कि हम उसे काम में न लें । इसीलिए मैंने यह हिदायत की । पहली बात तो यह है कि कटेली से पूछना चाहिए । उन्हे इसके इस तरह इस्तेमाल में लाने में कोई हर्ज न हो तो मुझे भी नहीं है । मुझे खुश करने के लिए तुम कुछ न करो ।”

मीराबहन ने कटेली से बात की । परिणामस्वरूप वहाँ संगमरमर की एक मेज आ गई और लिखने की मेज कोने में चली गई । उस मेज के खाने इस्तेमाल किये जाएंगे । दूसरा सामान संगमरमर की मेज पर रखा जावेगा ।

: ७८ :

## जेल में दूसरा राष्ट्रीय सप्ताह

६ अप्रैल '४४

आज राष्ट्रीय सप्ताह शुरू होता है । कल शाम बापू बता रहे थे कि सन् १९१९ में उन्होंने ६ अप्रैल के दिन सत्याग्रह को जन्म दिया और रौलट एक्ट का विरोध करने

के लिए प्रार्थना, उपवास और हड़ताल का एलान किया। देश-भर में जबर्दस्त हड़ताल हुई। उससे पहले हड़ताल शहरों में ही होती थी। अब देहातों में भी आरम्भ हुई। हड़ताल का निश्चय जिस समय किया गया, उस समय वक्त इतना कम था कि लोगों तक संदेश पहुंचाना कठिन था। मगर इस चीज में ईश्वर का हाथ था। इसलिए जागृति की लहर तो अपने-आप ही लोगों में फैल गई और छः अप्रैल को देशभर में श्यापक हड़ताल हुई। अधिकाधिक संख्या में लोगो ने २४ घंटे का उपवास किया। हड़ताल कई-कई स्थानों में १३ अप्रैल को मनाई गई। लोगों की मांग थी कि सत्याग्रह करने से पहले एक हफ्ते का समय और दिया जाय ताकि सत्याग्रह के लिए कुछ तैयारी की जा सके। अमृतसर में सारा हफ्ता मनाया गया। लोगो को मान्यता थी कि १३ तारीख को जनरल डायर द्वारा गोली चलवाने से पहले सरकार ने डुग्गी पिटवाकर घोषणा की कि जलियांवाला बाग में सभा होगी और वहा जो आदमी भाषण करने वाला था, वह सरकार का ही आदमी था। इस तरह लोगो को वहा इकट्ठा करके, बिना किसी तरह का नोटिस दिये, डायर ने उनपर गोली चलवाई। वह तो मशीनगन लाने वाला था, लेकिन गली तंग थी, इसलिए नहीं ला सका। बाद में उसने स्वयं कबूल किया कि अगर बारूद न खत्म हो गई होती तो वह गोली चलवाता रहता।

प्रभाबहन ने पूछा, “उसे सजा नहीं हुई?” बापू ने उत्तर दिया, “जाच करवाई गई थी और कामगस-सभा ने उसे जनरल के पद से हटा दिया, किन्तु लार्ड-सभा ने उसका स्वागत किया और उसे हीरो से जटित तलवार भेंट की।” भाई बोले, “बर्मिंघम नगर के निवासियों ने भी उसका ऐसा ही स्वागत किया था। आश्चर्य है कि उस समय को इन घटनाओ के बावजूद भी अगस्त १९४२ के समय सरकार हमारे लोगो से बम्बई में सड़को पर झाड़ू लगवा सकी।”

प्रभाबहन ने कहा, “बिहार में ऐसा ही हुआ।” बापू बोले, “हां, एक तरफ सारे देश में जाग्रति आई है और दूसरी तरफ यह है कि लोग आज भी डरकर ऐसे काम कर बेते हैं। मगर बात तो यह है कि उस वक्त लोग सरकार के डर से थर-थर कापते थे। आज दो वर्ष से सरकार का जो दमन चल रहा है, उसके सामने रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग कोई चीज नहीं है। तो भी लोग इस समय कापते नहीं हैं, उनपर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ है।”

बापू एक और अबसर पर बात करते हुए कहने लगे, “सरकार की इतनी सख्ती के परिणाम से कांग्रेस बहुत ऊंची उठ गई है। आज सब कांग्रेस का ही नाम लेते हैं। दूसरे दलों के लोग सरकारी झगड़ों में नहीं पड़ते। पड़ें तो बहुत कुछ उन्हें मिले भी। लेकिन ऐसे दलों के लोग समझ गए हैं कि इससे देश को कोई फायदा नहीं होने का। देश के लिए कुछ करना हो तो वह कांग्रेस के ही मार्फत हो सकता है। इसीलिए सभी लोग कांग्रेस को रिहा किये जाने की मांग करते हैं।”

आज सभी का २४ घंटे का उपवास रहा। सुबह छः से शाम के छः बजे तक

अक्षय्य चर्खा चलाया। मंने, मीराबहन ने और भाई ने दो-दो घंटे, मनु ने साढ़े तीन घंटे, प्रभाबहन ने ८ घंटे तथा बापू और डा० गिल्डर ने एक-एक घंटा काता।

बापू ने सुबह प्रार्थना के बाद उठकर बेवल के पत्र का उत्तर तैयार किया। हम सबको वह जरा तीखा लगा, मगर बापू को लगता था कि दूसरा रास्ता नहीं है। कहने लगे, "वह पत्र तीखा है ही नहीं।" स्नान के बाद उसे फिर से पढ़ा। दोपहर को भाई ने कच्ची नकल टाइप की। मंने उन्हें लिखवाया।

मंने और भाई ने बापू से कहा, "इस तरह का पत्र न लिखें तो क्या हर्ज है?" वे बोले, "लिखना तो चाहिए। न लिखूं तो मैं नीचे उतरता हूं और लिखूं तो ऐसा ही लिख सकता हूं।"

रात को डा० गिल्डर प्रार्थना के बाद बोले, "यह पत्र लिखने का हेतु क्या है? क्या आगे के लिए पत्र-व्यवहार बन्द करने का?" बापू ने कहा, "हां, यह परिणाम हो सकता है।" डा० गिल्डर ने कहा, "मगर इसका असर क्या होगा? न सिर्फ आप, बल्कि सारा आंदोलन, सारी लड़ाई बबनाम होगी।"

बापू ने कहा, "हां, वह भी हो सकता है। लोग कह सकते हैं कि इस आदमी से तो हमारी कभी पट ही नहीं सकती। इसके साथ बात क्या करना? मगर इस घर से कि जगत क्या कहेगा, सत्याग्रही कभी कोई काम नहीं करता। वाइसराय के पत्र में मैं कोई रास्ता खुला पाता ही नहीं हूँ। देखूं तो झट कूद पड़ूं। जैसा उसका पत्र है, वैसा ही जवाब होना चाहिए, ताकि वह समझ ले कि मैं उसका अर्थ समझ गया हूँ। अगर कोई रास्ता निकलना भी होगा तो इसी तरह निकलेगा।"

बापू फिर दक्षिण अफ्रीका की बात करने लगे कि कैसे स्मट्स ने वहाँ उनसे बात करने से भी साफ इन्कार कर दिया। वे ट्रान्सवाल पर चढ़ाई कर रहे थे और ३,००० आदिमियों को अपने हाथों खिलाने थे। स्मट्स ने कहा, "बात करना है तो यहाँ से लौट जाओ।" मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे और आगे बढ़े। अन्त में उसे उनके साथ समझौता करना पड़ा।

बापू कहने लगे, "उस लड़ाई के आरम्भ में सब लोग मेरे विरुद्ध थे। वा समेत सोलह आधमवासियों को लेकर मंने लड़ाई शुरू की। जो लोग मेरे साथ चर्चा करते, उनसे मैं कहता, 'भाई, मैं कहां यह लड़ाई चला रहा हूँ। भगवान् मुझसे जो कराता है, मैं करता हूँ।' आखिर छः महीने में उस लड़ाई का सफल अन्त आया। सत्याग्रह का यह नियम है कि 'कोई क्या कहेगा' इस विचार से सत्याग्रही कभी कोई कदम न उठावे। मैं सच्चा हूंगा तो मेरे हाथों हिन्दुस्तान का बुरा कभी होने वाला नहीं है। अभी मैं जो कहता हूँ, उसे घमण्ड न माना जाय, मगर मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिगाड़ूं तो मैं ही बिगाड़ सकता हूँ। मैं कभी हिन्दुस्तान को बिगाड़ूंगा नहीं। लोगों को लगे कि मुझसे निभ ही नहीं सकती तो वे मुझे छोड़ सकते हैं। मैं तो नाचूंगा। मैं तो यहाँ बंठा हूँ। उन्हें जो करना है, करे।"

डा० साहब बाद में कहने लगे, “बापू जब सत्याग्रह के कानून की बात करने लगते हैं तब हमारा मुंह बन्द हो जाता है।”

७ अप्रैल '४४

सुबह घूमते समय मैंने बापू से पूछा कि जिस सत्याग्रह की बात वे कल कर रहे थे, क्या वह बंशियन अफ्रीका का आखिरी सत्याग्रह था? उन्होंने जवाब दिया, “हां, वह आखिरी सत्याग्रह था। शुरु किया गया था १६ जनों को लेकर, मगर वह जंगल की आग की तरह फैला और इतना प्रचण्ड साबित हुआ कि छः महीनों में समझौता हो गया। हमारी गैरहाजिरी में बच्चों ने फिनिकस का आश्रम चलाया। देवदास और प्रभुदास-जैसे १२-१२ बरस के लड़के रह गए थे और १६ बरस से ऊपर के सभी जेल में थे। पहाड़-जैसे जूल लोग आसपास पड़े थे। गोरो का मिजाज इतना बिगड़ रहा था कि कुछ ठिकाना न था, मगर बच्चों के साथ क्रूरता करना कठिन था। बच्चों का काम बहुत अच्छी तरह चला। जोहान्सबर्ग के डपतर का काम मिस श्लेडन ने संभाला। वह करीब २२ वर्ष की थी, मगर बड़े-बड़े तक उससे सलाह लेने आते थे। उसने वास्तव में अद्भुत काम किया— हिसाब संभालना, लड़ाई चलाना और ‘इंडियन ओपीनियन’ प्रकाशित कराना, यह सब उसके जिम्मे था। उसके लेख भी उन विनो अद्भुत हुआ करते थे।”

मैं बोली, “यह तो यही हुआ कि उन विनों उसकी जीभ में सरस्वती आकर बंठी थी।”

बापू ने कहा, “बस यही है, नहीं तो उसने इस तरह का काम न पहले किया था, न बाद में।”

भाई को बापू वाले मसबिदे से सतोष नहीं था, इसलिए उन्होंने एक नया तैयार किया है। खाने के समय बापू उसे लेकर बैठे और मुझे एक नया ही पत्र लिखवा डाला। तीन बजे मैंने, मीराबहन ने और भाई ने अपने-अपने सुझाव उनके सामने रखे। बहुत-से सुधार किये गए और ७-८ बजे बापू ने फिर से नया पत्र लिखवा डाला। लिखाते समय भी सुधार करवाते रहे। आठ बजे घूमने निकले और २० मिनट घूमे। रात को विचार आया कि डा० गिल्डर की भी राय ली जाय और सुधार किये जायें। चाहते थे कि पत्र आज चला जाय अथवा न जा सके तो कम-से-कम पूरा तो हो ही जाय।

डा० गिल्डर कल सुबह बापू के सामने अपने सुझाव पेश करेंगे।

८ अप्रैल '४४

बापू ने अपने पत्र में कहा है कि समानता के बिना सहयोग नहीं हो सकता। डा० गिल्डर ने अपने सुझाव में इसका विरोध किया। इसी तरह बापू ने लिखा है कि हाकिम और रैयत एक होकर काम नहीं कर सकते। इसका विरोध भी डा० गिल्डर ने किया। बापू ने कहा, “सचमुच राजा-प्रजा एक मंच पर नहीं इकट्ठे हो सकते। जब ऐसा सम्भव नहीं होता तब राजा प्रजा का सेबक बन जाता है, राजा नहीं रहता।”

अनेक राजतंत्रों की चर्चा करते हुए बापू ने कहा, “इंग्लैण्ड, अमेरिका या रूस— कहीं भी राजा-प्रजा में सच्चा सहयोग नहीं है।” बाद में उन्हें विचार आया कि कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आ सकती हैं, जब राजा-प्रजा में तथा स्वामी-सेवक में सहयोग हो सकता है।

धूमते समय बापू ने हम लोगों को समझाया, “मानो कि एक मार्मिक ज्वलकुल गुण्डा है और नौकर पर जुल्म करता है। मगर एकाएक सर्प निकलता है और दोनों पर हमला करता है। तब वे दोनों सहयोग करेंगे और मिलकर सर्प को मारेंगे। इस तरह अनेक परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, जिनमें असमान व्यक्तियों या दलों में सहयोग हो सकता है, इसलिए मेरा यह कहना कि सच्चा सहयोग समान दलों में ही हो सकता है, ठीक नहीं है। यह सब है कि इस खास जगह पर समानता के बिना सच्चा सहयोग नहीं हो सकता, मगर सामान्य नियम के रूप में यह चीज सच्ची नहीं है। मुझे यह बात सूझती ही चाहिए थी, मगर हम सब अक्सर ऐसी भूल करते हैं और सट सामान्य नियम पर आ जाते हैं। अगर मेरा यह पत्र ज्यों-का-त्यों चला जाता तो मेरी हसी होनी। डा० गिलडर ने तो सिर्फ इशारा किया, मगर अब मैं उनसे भी आगे जाता हूँ। अब यह पत्र नया ही लिखास पहनेगा और छोटा भी हो जावेगा।”

सबरे धूमकर, फूल चटाकर ऊपर आए और स्नानादि के बाद बापू पत्र लेकर बैठे। बारह-साढ़े बारह बजे से लिखाना आरम्भ किया। पत्र दो बजे से पहले पूरा हो गया।

बापू ने कल से प्रभावहन की गीता का उच्चारण लिखाना आरम्भ किया है। आज उन्हें और मनु को २० मिनट लिखाया, साथ ही संस्कृत भी पढ़ाई।

९ अप्रैल '४४

खाने के समय रोज की तरह रामायण बगैर पढ़ा। आजकल बापू थके-से रहते हैं। रामायण दो-चार मिनट पहले ही बन्द कर देते हैं। पहले वे नियत समय से अधिक पढ़ा करते थे। मैंने पूछा तो बोले, “रामायण में रस तो और ज्यादा आता है, मगर आजकल शक्ति कम है।”

खबर मिली है कि प्रभावहन को मंगलवार के रोज भागलपुर भोजने का हुक्म आया है। बापू की बात सच निकली कि एक-न-एक दिन प्रभावती को जाना ही होगा।

बापू कहते लगे, “यह तो बस चलने का आरम्भ है। दूसरा नम्बर मनु का होगा, पीछे बाकी सबको यहाँ से हटावेंगे। मैंने तो तीन चीज में भविष्य कहा है। तीनों होने ही वाली हैं। लेकिन इसमें भविष्यवेत्ता की बात नहीं है; केवल अनुभव की ही है।”

मैंने प्रभावहन और मनु के लिए एक डिब्बे पर चित्रकारी करनी शुरू की है, कल सुबह पूरी होगी।

सुबह भण्डारी आए थे। उस समय प्रभावहन के बारे में कुछ नहीं कहा।



शायद बाद में खबर आई होगी ।

१० अप्रैल '४४

प्रभावहन को कल सवा पांच बजे जाना है । बड़ी हिम्मत से काम ले रही है । बापू का मौन उन्हें आज बहुत अखर रहा है । उन्होंने ही आज बापू को मालिश बगैरह की ।

११ अप्रैल '४४

सबेरे उठते ही प्रभावहन कहने लगीं, “कल इस वक़्त में कहां हूंगी । बापू, अब तो थोड़े ही घंटे रह गए ।” बापू बोले, “इसी तरह थोड़े मिनट रह जाएंगे और फिर तू चली जायगी ।”

धूमते समय बापू बोले, “तेरा जाना चुभता तो है । एक तरफ से लगता है कि तू यहा पर रहती तो तेरा अभ्यास बगैरह अच्छी तरह से चलता । दूसरी तरफ से खुशी होती है कि भले तू जावे । यहां पर तो सुख का जीवन बन गया है । जेल में हम तकलीफें सहन करने के लिए जाते हैं, तपश्चर्या करने जाते हैं । यहां तकलीफ नहीं है । दूसरी जगह तुझे कुछ तकलीफें तो सहन करनी पड़ेंगी । मेरी वृष्टि से वह इष्ट है । मने तुझे समझाया है कि कैसे अपने-आप अभ्यास किया जाता है । ऐसा करेगी तो तेरा कल्याण ही है ।”

सुबह नाश्ते के समय और बाद में खाने के समय प्रभावतीबहन बापू से कुछ प्रश्न पूछने लगीं ।

बापू को लगता है कि सम्भव है, थोड़े दिनों बाद बिहार सरकार प्रभावती को छोड़े । छूटने के बाद वह क्या करेगी, इस बारे में वे बोले, “मैं यहां बंठा तुझसे बहुत नहीं कह सकूंगा । बाहर का क्या वातावरण है, दूसरे कार्यकर्ता व मित्रगण क्या राय देते हैं—वह सब देखकर तू तय करेगी । इतना कहे देता हूँ कि आज जेल जाने की खातिर जेल जाने की बात मेरे पास नहीं । मगर तू देखे कि बाहर रहकर कोई काम ही नहीं कर सकती, खादी का काम भी नहीं कर सकती, तो जेल में जायगी । जेल से बचने की खातिर तू कुछ न करेगी । काम करते-करते तुझे पकड़ लें तो भले पकड़ लें । मगर मुझे लगता है कि तुझे इस बारे में विचार करने में कुछ कठिनाई नहीं आने वाली । वातावरण में से तू अपना रास्ता अपने आप ढूंढ़ लेगी ।”

साढ़े बारह बजे से लेकर अठारह-तीन बजे तक कटेली ने प्रभावहन के सामान को तलाशी ली । पीछे सब सामान बन्द करके चाभी अपने साथ ले गए । जो सिपाही प्रभावतीबहन को लेने आवेंगे, उनके मुखिया को वे चाभी दे देंगे । प्रभावतीबहन कहती थीं कि इतनी बारीकी से उनकी तलाशी आज ही हुई है ।

तीन बजे के करीब कटेली साहब आए— कहने लगे, “अभी-अभी टेलीफोन आया है कि जिस गाड़ी से प्रभावहन को ले जाना था, वह आज नहीं जा रही है । अब उन्हें कल सुबह दस बजे तैयार रहना होगा ।” हम सब बहुत खुश हुए ।

प्रभावहन के पास रास्ते में पहनने के लिए रंगीन साड़ी नहीं है। बबूल के रंग में रंगी एक साड़ी, जो बा ने दो-एक महीने यहां पहनी थी और मुझे दी थी, मेने उन्हें दी। उन्होंने बापू की दो घोटियां, एक तौलिया, एक छोटा रुमाल और उनके सूत की आंटी भी ली।

१२ अप्रैल '४४

सुबह उठे तो लगता था कि कौन जाने आज भी पुलिस जाना मुलतवी कर दे। धूमने के बाद प्रभावहन और डा० गिल्डर ने बापू की मालिश की। मैंने डिब्बे पर चित्र पूरा किया। सबको बहुत पसन्द आया। प्रभावहन इस 'हे राम' वाले डिब्बे में बा का कोई चिह्न रखेंगी।

ऐसा लगता था कि बापू स्नानघर में होंगे, तब प्रभावहन चली जावेंगी। पर जब कोई नहीं आया तो बापू ने हम दोनों को खाना खाने के लिए भेज दिया। १२॥ बजे बापू सोने के लिए लेटे। वे कह रहे थे, "अगर आज नहीं ले जावेंगे तो कल में भेजंगा नहीं।"

इतने में खबर मिली कि मोटर आ गई है और सामान नीचे जा रहा है। बस उठे। प्रभावहन तार के अन्वर से जाकर समाधियों को प्रणाम कर आई। मैं और मनु साथ थीं। हम सब उन्हें पहचाने दरवाजे तक गए। एक बड़ी-सी पुलिस-लारी खड़ी थी; उसमें करीब आधे दर्जन सिपाही और एक मेट्रन थी। वह तो यहां सुबह से ही आकर बंठी थी।

प्रभावहन ने बड़े धीरज से काम लिया, मगर तार के दरवाजे से बाहर जाने के बाद मैंने उन्हे साडी के फल्ले से आंस पोंछते देखा। क्या स्थिति है कि मन का दुःख हलका करने के लिए अगर आंसू भी आवे तो इतने लोगों में उनकी नुमाइश होगी, इस डर से उन्हें रोकना पड़ता है। आखिर जेल जेल है और कंद कंद ही है !

एक बजे उन्हें विदा करके हम लोग ऊपर आए। प्रभावहन के जाने से घर इतना सूना हो गया है कि बा के अवसान के समय का-सा वातावरण फिर बन गया है।

बापू तीन दिन से शाम को इतना थक जाते हैं कि बड़े धीरे-धीरे चलते हैं। अच्छा नहीं लगता। विचार आता था कि क्या किसी रोज सचमुच इतने दुबल हो जाएंगे कि इतना धीमा चलें !

१३ अप्रैल '४४

आज राष्ट्रीय सप्ताह पूरा हुआ। सुबह से प्रभावहन की याद आ रही है। बेचारी को रास्ते की गर्मी में उपवास भारी पड़ेगा। बापू ताकीद करने वाले थे कि रास्ते में मौसम्बी का रस तो ले ही, मगर कहना भूल गए। आशा रखते हैं कि वह लेगी। रास्ते में काता भी होगा। उनकी गैरहाजिरी में आज भी १२ घंटे का अखण्ड चर्खा चलाया, मगर सूत छः तारीख वाले बिन से बहुत कम निकला; क्योंकि उस बिन प्रभावतीबहन ने ८ घंटे काता था। दो हजार से ऊपर के तार तो उन्हींके हो गए थे।

बापू का लिखा हुआ टॉटेनहम के पत्र का उत्तर आज डाक से गया। छः तारीख को उसका पत्र आया था। बापू ने दिन में बिल्कुल आराम नहीं लिया। उपवास भी था। शाम को उनकी कमजोरी के कारण धूमते समय कुछ कम धीमे चलते थे। पांच घंटी तक चलने जैसी बात न थी। पिछले दो दिन की कमजोरी का कारण मुझे तो हल्का बुखार लगता है। परसो प्रभावहन ने रात में उनसे कहा था, “बापू, लगता है कि आपकी बुखार है।” बापू ने हंसकर टाल दिया। मगर कल रात को उन्हें खूब पसीना आया। पसीना आने का दूसरा कोई कारण न था, बुखार उतरा होगा। सो आज जब कि उपवास था, बुखार न होने से शक्ति अधिक लगी।

शाम को सवा सात बजे शंखा-वंदन हुआ। वहाँ से सीधे फूल चढ़ाने गए, धूमे, प्रार्थना इत्यादि के बाद सोने की तैयारी की। बापू आज कहने लगे, “जो आबमी प्रार्थना के समय नियम का पालन नहीं करता, मेरी दृष्टि से वह दूसरा कोई नियम पालन नहीं कर सकता।”

डायरी लिखने की चर्चा करते हुए बोले, “भले लगे कि यह काम तो रोज करते हैं, इसे लिखने में क्या फायदा, तो भी लिखने में फायदा तो है ही। आखिर सूर्य रोज निकलता है तो वह निकम्मा थोड़े ही है। हम अपना कार्यक्रम व्यवस्थित बना लें, समय पर सब काम करें तो पीछे डायरी लिखने में कोई मुश्किल आ ही नहीं सकती। हम अपना काम यन्त्र के समान समय पर करें, मगर यन्त्र बनकर नहीं। यह सब प्रकार की प्रगति और सफलता के लिए अमोघ शस्त्र है।”

: ७६ :

## बापू की मलेरिया

१४ अप्रैल '४४

प्रातः हमेशा की तरह प्रार्थना के लिए उठे। नाश्ते के बाद धूमने गए। खाने के बाद मैंने उनके साथ रामायण पढ़ी, फिर भाई के साथ शेक्सपियर पढ़ा। पीछे सो गई। ठाई बजे उठी तो देखा कि भाई ने मोहनलाल का एक पत्र बापू को दिया। उसके साथ और कई कागज थे। मैं मनु को सिलाने दूसरे कमरे में चली गई। बापू पेट पर मिट्टी रखकर वह पत्र पढ़ने लगे। तभी आकर भाई मुझे बताने लगे कि पत्र पढ़ते समय बापू के हाथ बहुत ही कांप रहे थे।

तीन बजे बापू की आवाज सुनी। मुझे लगा कि भाई के साथ बातें कर रहे हैं। मगर मनु ने कहा—“नहीं, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं गई तो कहने लगे, “पूरी दस आवाजें दी हैं। पेशाब की बोतल ले आ।” मुझे बड़ा दुःख हुआ। देखा कि बापू कांप रहे हैं। पूछा, “क्या हुआ बापू?” कहने लगे, “बुखार आवेगा। बोतल लाई?” बाद में

मैंने उनकी पीठ और मनु ने उनके पैर दबाए। पेट पर मिट्टी रखते ही बापू को सर्दी लगने लगी थी। उठकर किसी तरह पिछला दरवाजा बन्द कर आए, मगर गुसलखाने जाने की हिम्मत न हुई, गिर जाने का डर लगा और इसीलिए मुझे आवाज दी। मनु-ही-मनु में निश्चय किया कि कुछ भी हो, बापू को अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। जो कुछ करना होगा, यहीं बँठकर कसंगी और दूसरा कोई पास बैठा होगा तभी उठकर जाऊंगी।

थोड़ी देर बाद उनका कांपना कम हुआ। बुखार ९८.६ डिगरी था। 'ब्लड-स्लाइड' लेने का विचार किया। स्लाइडें घर में न थीं। कटेली से कहकर अस्पताल से मंगवाईं। चार बजे खून की फोटो (Blood Smears) लीं। उस समय बुखार १०२.६ डिगरी था। पाँच बजे भण्डारी आए। तब बुखार १०३.६ डिगरी था। मैंने, भण्डारी और डा० गिल्डर ने बापू से कुनीन लेने को कहा। मगर वे कहने लगे, "कल बुखार आवेगा तो लूंगा।" हम सबने कहा, "मगर कल तो बुखार की बारी है न?" वे बोले, "तो परसों सही। अगर परसो बुखार आया तो मैं कुनीन लेने में हुज्जत नहीं करूंगा। मैं मानता हूँ, आज दोपहर को मैंने कुछ भी न खाया होता तो बुखार आने वाला नहीं था। अब मुझे खाना छोड़ने का उपचार करके देखने दो।" आखिर हम लोगो ने आग्रह छोड़ दिया। बुखार में उनके साथ दलोल करके उन्हें थकाना ठीक नहीं लगा।

भण्डारी के जाने के बाद बापू को सरसाम होने के कुछ आसार बीस पड़े। बापू पाँच-पाँच, दस-दस मिनट पर समय पूछते थे। एक बार तो हठपूर्वक पेशाब करने गुसल-खाने गए। बाद में उन्हें यह बात याद तक नहीं रही। साढ़े पाँच बजे हम लोगो से घूमने जाने को कहने लगे। उन्हें लगा कि साढ़े सात बज गए हैं। छः बजे बुखार उतरना शुरू हुआ। रात को नौ बजे ९९.६ डिगरी था। पसीना खूब आया। नींद भी अच्छी ली। खाने में नींबू का पानी तथा शहद लिया।

१५ अप्रैल '४४

आज महादेवभाई का मृत्यु-दिन है। मैं सोचती हूँ कि बापू के बुखार के कारण वे कितने घबरा गए होते और बा का तो न जाने क्या हाल होता!

कल बापू कह रहे थे, "अच्छा हुआ, बा के सामने मुझे बुखार नहीं आया, नहीं तो बा तुम सबको मेरी सेवा में धकेलती और खुद किसीकी सेवा न लेती।" मैंने कहा, "बह तो है ही। मगर वे तो उससे भी आगे जातीं। बीमार होकर भी वे उठकर आप की सेवा करने लगतीं।" बापू बोले, "हां, बा का काम ऐसा ही है।"

फिर जरा सम्भले। कहने लगे, "मैंने कहा, 'ऐसा है,' मगर कहना चाहिए था 'ऐसा था।'" मैं बोली, "आपके लिए तो बा आज भी हाजिर हैं, चली थोड़े ही गई हैं।" बापू ने कहा, "हां, यह ठीक है।"

दोपहर को उन्हें बुखार न लगता था, मगर पेट पर मिट्टी रखकर बुखार मापा तो ९९.६ डिगरी निकला। सुबह बापू समाधि-स्थान पर आए थे। समाधि की शोभा

अद्भुत थी। बहुत सुंदर फूल सजाए थे। बाव में मोराबहन के बालकृष्ण-मंदिर में भी गए थे। साढ़े चार बजे १०१ डिगरी था। बापू को स्वयं इतना बुखार नहीं लगता था। पांच बजे भण्डारी आए तब बापू का बुखार १०२.१ डिगरी था। सबके कहने पर भी बापू ने कुनीन नहीं ली। केवल फलों का रस और मोसम्बी के रस में पानी मिलाकर पिया। वे मानते हैं कि इससे कल बुखार नहीं आएगा। शाम को साढ़े छः बजे उनका बुखार उतरना शुरू हुआ। रात को नौ बजे ९९.४ डिगरी था।

वे दिनभर लेटे रहे और 'कान्स्टिपेशन एण्ड अचर सिविलाइजेशन' किताब पूरी की।

कल से आज उनकी तबीयत अच्छी है।

१६ अप्रैल '४४

सुबह बापू प्रार्थना करने के लिए उठे। दातुन करने गुल्लखाने गए और कुर्सी पर बंठकर की। मगर कहते थे कि उन्हें कुर्सी की जरूरत नहीं थी। प्रार्थना के बाद रोज की तरह सोए। ६॥ बजे उठे, तैयार हुए और नाश्ते के बाद लेटे-लेटे पढ़ते रहे। समाधि पर फूल चढ़ाने नीचे आए।

साढ़े ग्यारह बजे तक बापू की तबीयत ठीक रही। इतने में मोराबहन ने आकर कहा कि बापू को बेचैनी-सी है और उन्हें बुखार आने वाला है। मैं आई तब बापू आंखें मूंदे पड़े थे और भाई पांच दबा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने करबट ली तो मैंने बुखार मापने की बात की, मगर बापू ने कहा कि सोकर उठूँ तब लेना। एक बजे वे सोकर उठे तो बुखार १०१.७ डिगरी था। मैंने कुनीन लेने की बात की तो बोले कि शाम को लेगे, मगर बाद में मान गए और सेवाग्राम से आई हुई कुनीन में से अंवाज से तीन ग्रैन ली। उसे नीबू के रस में घोलकर छः औंस पानी और थोड़ा-सा सोडा बाईकार्ब डाला तब धीरे-धीरे दस मिनट में उस कड़वे शरबत को पिया। पीते जाते थे और मजाक में कहते जाते थे, "खूब, बहुत खूब।" हमसे (मनु और मृगसे) कहते थे, "तुम भी बोलो, 'बहुत खूब।'" बाद में अफीमचियों का किस्सा सुनाने लगे। फिर नीलाम की बातें करते रहे। मनु हँसते-हँसते लोट-पोट हो गई। मैंने दो-तीन बार कहा, "बापू, बोलने में शक्ति न खर्च करें।" लेकिन वे माने नहीं, "यह तो कुनीन का अमल चढ़ाने के लिए है। 'राम अमल मां राता माता...।'" भजन की यह कड़ी दो-तीन बार जोर-जोर से बोले। मुझे शक होने लगा कि यह बुखार का विभाग पर असर तो नहीं है। थोड़ा कुछ ऐसा ही।

कुनीन पी चुकने के बाद ही उन्हें जोर-जोर से सर्दी लगनी शुरू हुई। बहुत कांपने लगे। पीने दो बजे उल्टी हुई, पीछे चुपचाप पड़े रहे। सवा दो बजे भाई ने मुझसे आग्रहपूर्वक आराम लेने को कहा। तीन बजे जब मैं वापस आई तो पता चला कि डाई बजे फिर उल्टी हुई थी। उस समय बापू बहुत थक गए थे, पेशाब भी हुआ था। मैंने पेशाब देखा, उसमें उल्टी पड़ी थी—पीली, पित्त की उल्टी थी। मैंने बापू से पूछा कि मतली

शान्त हुई या नहीं तो कहने लगे कि अब शान्त है। कुछ पानी बर्गरह लेने को कहा तो इन्कार कर दिया। थर्मामीटर कांपते हुए हाथ से मुंह में रखकर उन्होंने बुखार मापा तो १०४.८ निकला। उन्होंने कई बार कहा कि गुसलखाने जाएंगे, मगर रोकने से रुक गए। बोटल में पेशाब किया। वे बुखार की बेहोशी में बोल रहे थे। मंने डा० गिल्डर की सहायता से उनको स्पंज किया और सिर तथा पेट पर ठंडी मिट्टी रखी। बुखार उतरना शुरू हुआ। मीराबहन ने श्री कटेली से कहलाया कि वीनशा को बुला दें। पांच बजे भण्डारी और वीनशा आए। सबेरे जब भण्डारी आए थे तब बापू अच्छे थे और वे उनसे ऊपर छत पर सोने को कह रहे थे कि जिससे मच्छरों से बचाव हो सके।

वीनशा बिना कुनोन के इलाज करने की बात कर रहे थे। मंने और डा० गिल्डर ने विरोध किया। बिना कुनोन लिये बुखार रुक भी जाए और बार-बार आए तो यह खतरा उठाना हम नहीं पसन्द करते थे। बापू के लिए एक ऊंचा पंलग बिछाया। रात में पीने सात बजे वे सो गए और साढ़े सात तक सोए। खूब पसीना आया। भोगे हुए कपड़े बदलकर पीछे कुनोन की दूसरी मात्रा दी। इस बार उसमें दो औंस पानी डाला। ऊपर से मौसम्बी का रस पिलाया। थोड़ी देर तक मतली हुई, फिर थम गई। आठ बज गए थे। मं और मनु समाधि पर फूल चढ़ाने गए, मगर चाबी न मिलने के कारण तार में से ही सिपाही को फूल देने पड़े। वह उन्हें समाधि पर रख आया। प्रार्थना के बाद डा० वीनशा अपने घर चले गए।

बापू का बुखार ९८.४ डिगरी रहा। कमजोरी अभी काफी है।

१७ अप्रैल '४४

बापू को आज तीन खूराक कुनोन (एक बार में तीन घेन की मात्रा) दी। उन्होंने मौसम्बी का रस, नींबू, पानी और शहद ही लिया। दूध नहीं लिया। उन्हे चार वस्त आएं, चौथा कुछ पतला आया। इसलिए डर लगने लगा कि अधिक वस्त आ गए तो काम कठिन हो जाएगा।

उनका बुखार आज साधारण से भी नीचे रहा, पर रात को ९९ डिगरी हो गया। आज उनका मौन-बिन है। सुबह पांच बजे वे बोले थे; क्योंकि उनके विचार से अपनी या दूसरों की बीमारी के समय मौन रखना कठिन हो जाता है। बाद में हमेशा की तरह उन्होंने पूरा मौन धारण किया।

सरकार ने एक छोटी-सी विक्रमि बापू की बीमारी के सम्बन्ध में अखबारों में दी है। 'टाइम्स' ने इस विक्रमि को स्थान तो मुखपृष्ठ पर ही दिया है, लेकिन इतने छोटे टाइप में कि पहली निगाह में उसपर ध्यान ही नहीं जा पाता। विक्रमि में लिखा था कि गांधीजी को तीन बिन से मलेरिया है और कमजोरी भी है, किन्तु उनकी हालत इस उमर में जितनी अच्छी हो सकती है, उतनी है। लगा कि आखिरी वाक्य लिखकर भविष्य में किसी भी प्रकार की गम्भीर स्थिति पैदा होने पर सरकार ने अपना बचाव

कर लिया है ।

शाम को बापू बालकृष्ण-मंदिर में पहिचेवाली कुर्सी पर बैठकर गए और बरामदे का एक चक्कर लगाया । मुझे बा की याद आ गई । ईश्वर बापू को दीर्घायु दे और अन्त तक उनकी सब शक्तियां कायम रखे, यही मेरी प्रार्थना है ।

१८ अप्रैल '४४

बापू की आज बुखार की बारी थी, पर बुखार नहीं आया । कुनीन की तीन मात्रा लीं । कुनीन तो लेते ही हूँ, दूध लेना भी शुरू किया है । शाम को वे कुर्सी पर बैठकर समाधि-स्थान पर आए । वहाँ से लौटकर थोड़ी बेर नीचे ही हवादार स्थान में बैठे । सब सामान नीचे लाए । सिपाहियों की लालटेन ली और प्रार्थना की, किन्तु लालटेन का तेल कम होने से रामायण की एक ही चौपाई हो सकी ।

कनैल शाह बाहर गये हुए हैं, इसलिए भण्डारी को रोज यहाँ आना पड़ता है । रात में सस्त गर्मी पड़ी । अब तो ऋतु-परिवर्तन-सा हो गया है और गर्मी के दिन आरम्भ हो गए हैं ।

: ८० :

## मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य

१९ अप्रैल '४४

आज सुबह बापू ने कुनीन नहीं ली । उन्हें चक्कर-से आने लगे हैं और कम सुनाई देने लगा है । कहते थे कि मेरा सिर चकराया हुआ-सा महसूस होता है । कुनीन बन्द कर देना चाहते थे । बहुत समझाने-बुझाने के बाद उन्होंने और दो दिन तक तीन-तीन घेन की मात्रा में कुनीन लेना स्वीकार किया था, किन्तु आज फिर छोड़ दिया । बुखार नहीं आया और सुबह-शाम चलकर समाधियों तक गए । थकान महसूस नहीं हुई ।

रात में सोते समय भी कुनीन की ही बातें करते रहे । कुनीन लेना उन्हें अच्छा नहीं लगता ।

२० अप्रैल '४४

सुबह प्रार्थना के बाद बापू सोए नहीं । दोपहर को अच्छी नींद ली । दोपहर के भोजन के बाद बापू भाई से बोले, "मुझे लगता है कि मनु की भलाई अब उसे यहाँ से भेज देने में है । वह बा की खातिर आई थी, सो अब वह बात तो रही नहीं । मेरी सेवा के लिए रखने का तो कभी सवाल था ही नहीं । मुझे सेवा की आवश्यकता भी नहीं है । रहा उसे उसके अभ्यास के लिए यहाँ रखने का प्रश्न, सो मुझमें अब वह आत्म-विश्वास नहीं है जो पहले था कि मैं उसे बहुत कुछ दे सकूँगा । इसलिए उसे रखने का

उत्साह नहीं होता। मैं मानता था कि वह जो मुझसे पा सकती है, वह कहीं से नहीं पा सकती, मगर आज मैं टूट गया हूँ। मैं मानता था कि मुझे मलेरिया कभी नहीं आवेगा, तुम सबको भले ही आ सकता है, मगर मेरा वह घमण्ड दूर हुआ। मैंने हमेशा माना है कि मनुष्य बीमार पड़ता है अपने पाप के कारण। जिसका अपने मन पर पूरा काबू है, जिसका मन पूर्णतः स्वस्थ है, वह बीमार नहीं पड़ सकता। मैं कहता हूँ, यह नहीं जानता, मगर अपने-आपको जहाँ मानता था, वहाँ तो नहीं हूँ। इस विचार ने आज मुझपर काबू पा लिया है। मेरे मन की कौसी दयाजनक स्थिति है, वह तुम लोग नहीं जानते हो।”

मैंने कहा, “यह तो मलेरिया के कारण आई हुई कमजोरी और कुनीन का असर है। थोड़े दिनों में यह सब दूर हो जाएगा। शरीर में शक्ति आवेगी और उदासी चली जाएगी।”

बापू बोले, “शरीर में शक्ति भले आ जावे, मगर पहले-जंसा आत्मविश्वास कैसे वापस आ सकता है।”

मैंने उत्तर दिया, “मलेरिया तो आपको पहले भी आ चुका है—सेवाग्राम में, साबरमती में, चम्पारन में। उससे तो आप निराश नहीं हुए। फिर ऐसा क्यों सोचते हैं? उसके बाद भी तो आपने बड़े-बड़े काम किये हैं।”

बापू कहने लगे, “काम तो अब भी करूंगा। चम्पारन में मलेरिया आया था, तब से लेकर आज पच्चीस वर्षों में क्या मैंने कुछ भी प्रगति नहीं की? मैं मानता था कि मैं उस स्थिति से बहुत आगे बढ़ गया हूँ, मगर अब उस मान्यता के विषय में शक पैदा हो गया है।”

भाई ने समझाया, “आध्यात्मिक दृष्टि से तो आप आगे बढ़े हैं, पर समय के बीतने के साथ-साथ शरीर जीर्ण भी तो होता है न।”

बापू बोले, “नहीं, शरीर दुर्बल भले हो, लेकिन जिसने अध्यात्म में प्रगति की है, वह बीमार नहीं पड़ता। उसकी सब शक्तियाँ और स्वास्थ्य अन्त तक कायम रहते हैं।”

भाई ने कहा, “दूसरे शब्दों में वह जीवन्मुक्त हो जाता है। मैं आपकी बात समझता हूँ। यह तो एक तरह की सिद्धावस्था की बात हुई, सो उसतक आप नहीं पहुँचे।”

बापू कहने लगे, “सिद्धावस्था की भी बात नहीं है। हाँ, जहा तक मैं अपने को पहुँच रहा मानता था, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ।”

मैं बोली, “आप किसी भी पहुँचे हुए, अत्यंत संयमी, पूर्ण स्वस्थ मन वाले व्यक्ति को लाइये, मैं उसे मलेरिया का बुखार चढ़ा देने का ठेका लेती हूँ। एक दफा नहीं तो बस दफा मच्छरों के काटने से उसे मलेरिया होगा और वह कुनीन से उतर भी जावेगा।”

बापू ने कहा, “इस बुद्धिबाव से तू मेरी मान्यता को हिला नहीं सकेगी। मैं जानता हूँ कि अपनी बात सिद्ध करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं हैं, तो भी मेरी बर्षों की यह मान्यता है कि जिसका मन पूर्णतः स्वस्थ यानी स्वच्छ है, उसका शरीर स्वस्थ रहना ही चाहिए।”



दोपहर को बापू ने वही लिया और शाम के समय दूध तथा सबरे केबल फल का रस लिया। तबीयत ठीक है, पर कमजोरी बहुत आ गई है।

शाम को बापू ने जेल-बबली और मनु को छुड़वाने के विषय में सरकार को पत्र लिखा। मनु वाला पत्र मनु के आग्रह के वश नहीं भेजा।

२१ अप्रैल '४४

सुबह प्रार्थना के बाद बापू सोए नहीं। रात को अच्छी नींद ली।

बापू ने कल कुल मिलाकर एक पीण्ड भोजन लिया था; दूध-वही मिलाकर आज सवा पीण्ड लिया। चीखें सब कल की जैसी ही थीं। सुबह मोसम्बी का रस, दोपहर को बही और शाम को दूध। कुनीन खाने का कोर्स आज पूरा हो गया।

शाम को सरकार द्वारा भेजे हुए बा की मृत्यु के सम्बन्ध में सहानुभूति-सूचक बहुतसे पत्र आए। बा पर लिखी हुई टॉमस की किताब भी आई है। पहले ही पन्ने पर लिखा था कि बा के तीन ही लड़के जीवित हैं—रामदासभाई को उन्होंने छोड़ ही दिया है। अम्बर कितना सहो लला होगा, वह कौन जाने। सुबह-शाम जितनी शक्ति हो, उतना बापू ने चलना आरम्भ किया, मगर बहुत चलने की शक्ति उनके पंरों में नहीं। बस एक चक्कर बगोचे का लगाया। बापू के लिए नई टार्च आई है। कल २२ तारीख है और बा के जाने का दिन है।

२२ अप्रैल '४४

आज बा की मृत्यु का दिन है। उन्हें गए दो महीने पूरे हो गए हैं। बा के बिना बापू को अपना जीवन बिताना आज भी करीब उतना ही कठिन है, जितना कि बा के जाने के बाद पहले हफ्ते में था। शायद ही बापू पूरी तरह से बंसा कर सके। उनके मलेरिया-प्रस्त होने में एक कारण यह भी है। बा के चले जाने से उनका शरीर इतना दुबल हो गया कि मलेरिया का सामना करने की शक्ति बहुत कम हो गई। सो मलेरिया आया।

प्रातः ८ बजे फूल चढ़ाने गए, लौटकर सोधे ऊपर आए—बगोचे में एक भी चक्कर नहीं लगाया। पहले दिन की दो खूराकों से ही उनका बुखार उतर गया। वे मानते हैं कि बाद में दो हुई कुनीन अनावश्यक थी।

बापू ने कुल मिलाकर ३६ ग्रैन कुनीन ली, जो कि सामान्य मनुष्य के लिए एक दिन की खूराक है, पर बापू उसे भी अधिक मानते हैं। पहली खूराक के ३ ग्रैन जो उलटी में चले गए थे, निकाल दें, तो उन्होंने ३३ ग्रैन कुनीन खाईं।

बा की स्मृति में कंबियों को सज्जी, कढ़ी और खिचड़ी खिलाई गई। सिपाहियों ने भी खाया-पिया।

दोपहर बाद ३ से ४ बजे तक सबने काता। डा० गिल्डर ने एक घटे में ११० तार निकाले। यह बड़ी अच्छी प्रगति है।

शाम को ७.३५ से ९ बजे तक प्रार्थना, रामायण और गीता-पारायण हुआ।

२३ अप्रैल '४४

आजकल खूब लू चलने लगी है। बापू के कमरे में परसाल की तरह दोनों ओर खस की टट्टी लगी रहती है। परसाल जब बा को बापू के कमरे में लगी टट्टियों की टंडक न सहन हो सकी और जब बापू ने देखा कि बा भाई के कमरे में सोने जाती है तो खुद गरमो सहन करना पसन्द किया और कमरे की टट्टियां निकलवा दी थीं।

बापू की देसी मच्छरदानी इतनी मोटी थी कि उसमें हवा भी ठोक से न जा पाती थी, इसलिए श्री कटेली से कहकर दूसरी बारीक कपड़े की मच्छरदानी बनवाई है। बहुत अच्छी है।

बापू ने सुबह-शाम समाधि पर जाने का समय ८ बजे का रखा था, मगर सुबह खूब धूप होती है, इसलिए कल से पौने आठ या उससे भी जल्दी आया करेंगे। दो-तीन रोज़ से, जब से बापू समाधि पर आने लगे हैं तब से ... बगैरह सिपाही समाधियों को हमारे आने से पहले अच्छी तरह सजा रखते हैं, पर आज बापू कहने लगे, "अपने हाथ से सजावट करना ज्यादा अच्छा लगता है।" इसलिए मैंने कल से सुबह साढ़े सात बजे जाकर फूल सजाने का निश्चय किया है।

मेरी भजनावली की जिल्द टूट गई थी। बापू की बताई हुई विधि से सुधारी जाने पर अब वह अच्छी बन गई है। महादेवभाई ने इसे मुझे भेंट किया था। उनके अवसान पर उनकी जेब से एक गीता निकली थी, जो मेरे ही पास है।

बापू में अब काफी शक्ति आ गई है, इसलिए घूमते समय खूब हंसी होती रही। वे अच्छी तरह घूमे।

भण्डारी के आने पर बापू ने पूछा कि छत पर जाने के विषय में वे क्या कहते हैं। भण्डारी ने कहा कि छत पर से मधुमक्खियां उड़ा दी जाए तब जाया जा सकता है।

बाद में मधुमक्खियों की ही चर्चा होती रही।

२४ अप्रैल '४४

आज बापू का मौन है।

मेरी आंख दुखती थी, इसलिए खाने के बाद आंख पर मिट्टी रखकर सो गई। बड़ा फायदा हुआ।

भाई की रामायण की जिल्द सुधारी और रात को टॉमस की किताब पढ़नी शुरू की।

बा को मृत्यु पर सहानुभूति के पत्रों का एक ढेर और आ गया है, जिसे बम्बई सरकार ने भेजा है।

२५ अप्रैल '४४

बापू पौने आठ बजे फूल चढ़ाने गए और सवा आठ बजे वापस आए। शाम को भी इसी तरह आधा घंटा घूमे। दोपहर को बा के विषय में लिखी टॉमस की किताब मैंने पूरी कर ली और कुछ डाक्टरी का अभ्यास किया।

२६ अप्रैल '४४

आज शाम को १५ मिनट डा० गिल्डर से फ्रेंच सीखी। भाई का आग्रह था कि संस्कृत तो है ही, फ्रेंच भी सीखनी चाहिए।

२७ अप्रैल '४४

आज मंने भण्डारी से बापू के रक्त की परीक्षा कराने तथा हृदय की थडकन का फोटो लेने के लिए कहा। आजकल बापू का रक्तचाप बहुत कम रहता है। चढ़ाव पर १४० के आसपास और उतार पर ८०-९० के बीच है, इसलिए दिल की थडकन का फोटो लेना अच्छा है।

भण्डारी कहने लगे, "कुनीन का असर तो यह नहीं है?"

डा० गिल्डर ने कहा, "नहीं, कुनीन तो उल्टी नाइडियों को सिकोडती है, इसीलिए तो कुनीन से अन्वयपन हो जाता है।" इसपर से नस में कुनीन देने की बात चली और पेशाब में शक्कर आने की बातें भी होती रहीं।

भण्डारी बापू से बिना मिले ही चले गए। बापू उस समय स्नान-घर में थे। भाई ने बापू को स्नान करा दिया था। मंने कपड़े धो डाले।

मंने मसानी की किताब पूरी कर ली है। मनु के साथ 'मार्गोपदेशिका' पढना शुरू किया और १५ मिनट तक डा० गिल्डर के माथ फ्रेंच भी सीखी।

प्रार्थना के बाद बापू का रक्तचाप १२६।७८-८० रहा। यह बहुत कम है। मंने बा के स्मरण लिखने शुरू किये हैं। मैं उनके इतना निकट रहो हूँ कि यही नहीं तय कर पाती कि क्या लिखूँ और क्या न लिखूँ। ज्यो-ज्यो विचार आते हैं, लिखती चली जाती हूँ। बापू जब देखेंगे तब पता चलेगा कि उसमें कुछ तथ्य है या नहीं।

२८ अप्रैल '४४

सुबह भण्डारी आए तो पूछने लगे कि बापू का खन परीक्षा के लिए कब भेजोगे? डा० गिल्डर ने बताया कि डा० नरोना रक्त-परीक्षा करने आ रहे हैं, तभी वह भी कर लेगे। इसलिए दो-दो बार बापू के शरीर में मूई बयो चुभोई जाए?

भण्डारी ने जाकर इन्तजाम किया। श्री कटेली ने बताया कि डा० नरोना बारह बजे आवेंगे। भण्डारी उसे लेकर करीब साढ़े बारह बजे आए और नरोना ने परीक्षा के लिए बापू का रक्त लिया।

बा की मृत्यु पर लिखे गए बहुत-से समवेदनात्मक पत्र आज फिर आए। जल-सेना के एक अफसर के पत्र में लिखा है— "आज मैं ऐसे धन्धे में पड़ा हूँ कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि मैं आपका कितना बड़ा भक्त हूँ। आपकी तरफ देखता हूँ और आपके आदर्श को मानता हूँ। इस लड़ाई के अंत पर बहुत-से लोग यहां ऐसे हैं जो आप पर आशा लगाए बैठे हैं।"

साढ़े चार बजे शाम को भण्डारी के कथनानुसार श्री कौयाजी की मशीन आई ६

बापू के बिल की थड़कन का क्रोटो लिया गया और मशीन वापस गई। छः बजे ही खबर मिल गई कि कोई नया दोष नहीं है। हृदय के बाएँ तरफ का जोर तो पुरानी चीज है।

२९ अप्रैल '४४

प्रातः ५ बजे बापू प्रार्थना के लिए उठे। उस वक्त रोज की तरह शहद और पानी पिया। नाश्ता छोड़ा, खाट पर पड़े रहे। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट\* के लिए डा० गज्जर आने वाले थे, पर सवा आठ बजे श्री कटेली ने कहा कि फोन किया गया था, लेकिन डा० आए नहीं। बापू को नाश्ता करवा दिया जाय। इतने में डा० गज्जर अपने दो सहायकों के साथ आ पहुँचे। बापू का पेशाब इकट्ठा किया और साढ़े नौ बजे बापू का खून लिया। खून की सामान्य परीक्षा यहीं कर ली गई। हेमोग्लोबिन (Haemoglobin) ८५ प्रतिशत, आर. बी. सी. ३७ लाख। मैक्रोसिटिक एनीमिया (Macrocytic anaemia)† लगता था।

खून की रासायनिक जांच के ब्याल से डा० गज्जर वगैरह ने पौने ग्यारह बजे की गाड़ी से जाने का विचार किया, इसलिए मनु ने उन्हें नाश्ता कराकर भेजा। उनका नीकर बापू का पेशाब लेकर दोपहर की गाड़ी से जाएगा।

: ८१ :

## सरकार की चिन्ता

साढ़े दस बजे बापू को संतरे का रस दिया। बाद में जब वे भोजन कर रहे थे तब थके-से लगते थे। अभी खा ही रहे थे कि १२॥ बजे श्री कटेली आए और बोले कि जनरल कंण्डी आए हैं। मैं नोटबुक लेकर उनके पास गई और उन्हें बापू का सारा हाल बताया। इतने में डा० गिल्डर भी आए। कंण्डी ने आकर बापू को देखा और ज्यादा मात्रा में कुनीन खाने और 'आयरन टानिक' लेने को कहा। बापू की खुराक कंसे बढ़े, यह भी समझते रहे। कुछ देर बाद वे कहने लगे, "देखने में तो खासे अच्छे दिखते हैं, मगर उसका कुछ महत्त्व नहीं है। अगर रक्तचाप १४० डिगरी से नीचे न जाए तो चिन्ता की बात नहीं।"

उन्हें लगा कि बापू को शायद इन्फ्लुएन्जा हुआ होगा, मगर हमने बताया कि खून में मलेरिया के जन्तु मिले हैं। टानिक वगैरह देने की बात करके वे चले गए। दोपहर के समय मैंने अखबार में देखा कि बापू की बीमारी के कारण सरकार

\*गुर्दों की खून में से यूरिया निकालने की गति

†रक्तहीनता का एक प्रकार का रोग

बहुत घबरा गई है ।

आज ९ बजे रात को बत्तियां बुझाकर हमें मच्छरदानी में घुस जाना का हुक्म मिला । शहब की मक्खियों को भगाने के लिए आवनी आया है ।

३० अप्रैल '४४

बापू ने 'हाउ ग्रीन बाज माइ वेली' पढ़कर पूरी कर ली । मेरे पूछने पर बोले, "अच्छी है, मगर तू न कहती तो मैं अपने-आप इसे पढ़ने वाला न था । यह किताब ऐसी नहीं है कि न पढ़ा हो तो ऐसा लगे कि कुछ रह गया ।"

रात को खबर मिली कि कल डा० बिधान राय बापू को देखने आवेंगे । पांच बजे को गाड़ी से आकर आठ बजे को गाड़ी से वापस जाना चाहते हैं । यहां साढ़े पांच बजे सुबह आने वाले थे ।

कल से बापू ने प्रार्थना में रामायण की एक चौपाई नियत कर दी है, बाद में उसका अर्थ गुजराती में कर देने का आदेश दिया है, ताकि डा० गिल्डर भी अच्छी तरह चौपाई को समझ सके ।

१ मई '४४

डा० बिधान राय ५॥ के बजाय ७ बजे आए । कहने लगे, "कल मैं यहां से गुजरा था तब मुझे नहीं बताया गया कि बापू को देखना है ।" भण्डारी ने कहा, "मैंने तो कल कहा था न कि म्यारह बजे तक ठहरो, मगर आप ठहरे ही नहीं ।" डा० बिधान राय बोले, "उपवास के बाद के कड़वे अनुभव के बाद मैं इस तरह कैसे ठहर सकता था ।"

डा० बिधान राय ने बताया कि बापू को छोड़ने के लिए विलायत में बड़ी हलचल हो रही है । हिन्द-मन्त्री को समाचार मिला है कि बापू अस्वस्थ हैं । दूसरे ही दिन श्री कण्डी की रिपोर्ट छपी कि 'बापू पहले से अच्छे हैं । रक्तचाप और रक्तहीनता की बशा पिछले २४ घंटों में काफी सुधरी है ।' पिछले वाक्य से लोगो, खासकर डाक्टरों को अवश्य ही लगा होगा कि रिपोर्ट विश्वास के लायक नहीं है । रक्तहीनता एक ही दिन में कैसे सुधर सकती है ? डा० गज्जर की रिपोर्ट छपी कि गुर्वे अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं । इसपर डा० बिधान राय ने पूछा, "हमें ठीक-ठीक बताना था कि क्या हाल रहा बापू का ?" भण्डारी ने कहा, "मैंने तो कई बार कहा था कि आप आवे ।" खैर जो कुछ भी हो, डा० बिधान राय आए, यह हमें अच्छा लगा ।

बापू को देखकर वे हम लोगों से सलाह करने बंटे । डा० गज्जर को वे कल फिर बुला रहे हैं । 'यूरिया क्लीयरेन्स' फिर करावेंगे और कुछ दूसरी परीक्षाएं करेंगे । तब अपनी रिपोर्ट देंगे ।

पौने आठ बजे डा० बिधान राय चले गए । डा० गज्जर की रिपोर्ट से जनता में कुछ चिन्ता बढ़ गई । आशा है कि गुर्वों पर यह असर स्थायी नहीं रहेगा ।

मनु की उंगली पर 'बिहटलो' होने की संयारी है । मैंने और डा० गिल्डर ने बापू

के लिए आंख का डाक्टर और मालिश के लिए दीनशा को भेजने के लिए भण्डारी से कहा ।

२ मई '४४

डा० गज्जर अपने सहायकों के साथ छः बजे सबेरे आए । ६-२० पर बापू उठे, तब उनकी परीक्षा करके वे लोग सवा आठ की गाड़ी से वापस गए । साठे आठ बजे पेशाब लेकर जमादार... ११-३० की गाड़ी से गया ।

कल फिर २४ घंटे का पेशाब लेकर जाना पड़ेगा ।

बापू जब खाना खा रहे थे तब भण्डारी आए । कहने लगे, "आंख का डाक्टर भेजेंगे । दीनशा के बारे में पुछवाया है ।" शाम को खबर मिली कि दीनशा आ सकेंगे । मैंने बापू से पूछा, "दीनशा यहां कितने समय तक ठहरेंगे ?" बापू बोले, "मैं इस तरह बंधना नहीं चाहता । बांधोगे तो मुझे दीनशा नहीं चाहिए । आवेगा तो जितना समय उसे आवश्यक लगेगा, रहेगा ।"

जेल-बदली के विषय में बापू को भण्डारी ने बताया कि विचार किया जा रहा है । बाद में डा० गिलडर से कह रहे थे कि क्या १०० मील का मोटर-सफर कर सकेंगे ? सोचा कि क्या अहमदनगर ले जावेंगे ? अगर ऐसा हो तो किस-किस को साथ ले जावेंगे ? वहां बापू को वकिला कमेटी के साथ रखेंगे या नहीं ?

दोपहर को बापू का रक्तचाप १२६।७८ और रात में १३४।७६ रहा । थोड़ा ज्यादा रहे तो अच्छा ही ।

यहां से बदली करने के बारे में बापू कहने लगे, "ये लोग दूसरी चीजों पर करोड़ों रुपए व्यर्थ ही जाया करते हैं, इसलिए मेरे पर भी कुछ करे तो क्या हुआ—यह बलील गलत है । मैं हिन्दुस्तान का पैसा इस तरह से क्यों खर्च करऊँ ? ये लोग अपनी जेब से कहां निकालते हैं ? निकलता तो सब मेरी ही जेब से है न, हिन्दुस्तान की जेब से ही तो ! यहां दो मृत्युएँ हुई हैं, इसीलिए ये मुझे यहां से हटाने की बात करते हैं । मगर मेरे सामने वह सवाल नहीं । उलटा उस कारण से तो मुझे यह जगह प्रिय है । समाधि पर जाना मुझे अच्छा लगता है, मगर हिन्दुस्तान का पैसा बचाने के लिए मैं वह त्याग करने को तैयार हूँ । मलेरिया का भी मेरे सामने सवाल नहीं । हिन्दुस्तान में ऐसी कौनसी जगह है, जहां मलेरिया न हो ? मेरे सामने एक ही सवाल है—खर्च का । वह कम होना ही चाहिए ।"

मुलाकाती के बारे में बापू कहने लगे, "मैंने अपने लिए एक नियम बना रखा है, इसलिए केवल रिश्तेदारों से ही मैं नहीं मिलना चाहता । बा की बात और थी ।"

अपनी बीमारी के कारण छूटने के विषय में बोले, "इसमें मुझे रस नहीं है । बा के जाने का मुझे बहुत आघात पहुँचा है । अभी तक है, मगर बुद्धि से मैं जानता हूँ कि बा के लिए इससे अच्छी मृत्यु ही नहीं सकती थी । जो बात बा को लागू होती थी, वह मुझे भी लागू होती है । इसका यह अर्थ नहीं कि मैं मरना चाहता हूँ । मैं जिन्दा रहना चाहता हूँ और भगवान से मांगता हूँ कि मुझे यहां से जिन्दा बाहर ले जाए और जब मैं

बाहर जाऊँ तब मेरे लिए कार्य-शैथिल्य तैयार हो। बीमार होकर निकलना मुझे चुभता है। सत्याग्रही को बहू शोभा नहीं देता और आज की परिस्थिति में मैं निकलकर कल्लेगा भी क्या ?”

मैंने कहा, “पहले तो शरीर को फिर से संगठित करना होगा। अपेण्डिक्स के आपरेशन के बाद उसी तरह जाना पड़ा था न।” बापू बोले, “सरकार छोड़ ही दे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मगर मुझे यह अच्छा नहीं लगता। इस हालत में बाहर जाकर मैं चुपचाप पड़ा भी नहीं रह सकता।”

३ मई '४४

दोपहर को भण्डारी आंख के एक डाक्टर को लाए। उन्हें 'फण्डस' (Fundus\*) में कुछ मिला नहीं। बात-बात में पता चला कि डा० ने मेरे कालेज की एक पंजाबी लड़की से शादी की है। उसके जाने के बाद बापू पूछने लगे कि क्या डा० पंजाबी था ? मैंने कहा, “हां पंजाबी ही तो लगता है।” वे बोले, “मैंने उसके साथ हिन्दुस्तानी में बात शुरू की, मगर वह शाहजादा तो अपोजी ही चलाता रहा। अगर जरा भी बैठता तो मैं डांटने वाला था कि हिन्दुस्तानी जानते हो या भूल ही गए हो ?”

सुबह बापू की मालिश करने के लिए दीर्घशा आए। मालिश के द्वारा शक्ति किस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजी जा सकती है, इसपर बातें होती रहीं।

मुलाकातों के बारे में बापू ने सरकार को लिखा है कि पिछले साल की तरह मुलाकातें देनी हों तो आश्रमवासियों, मित्रों तथा रिश्तेदारों—सबको देनी चाहिए। केवल रिश्तेदारों से मैं मिलना नहीं चाहता।

बापू के अंदर जितना पानी पहुंचता है और जितना निकलता है, उसमें ४०-५० औंस का फर्क दो रोज से मिलता है।

आज बापू का २४ घंटे का पेशाब जमादार... डा० गज्जर के पास बम्बई ले गया। उनकी रिपोर्ट आने पर हम अपनी रिपोर्ट भेजेंगे।

भण्डारी बता गए हैं कि कनु आ रहा है।

४ मई '४४

आज डा० गिल्डर के पेशाब में 'एल्ब्यूमिन' पाया गया है। बापू ने मुझे भण्डारी को इस बारे में लिखने को कहा।

बापू की बबली को लेकर अनेक अफवाहें उड़ रही हैं। देखें, आखिर क्या होता है। दोपहर को कनु आ गया। कह रहा था कि बा के स्मारक-फण्ड के विषय में कठिनाई हो रही है।

\*ग्राह के भीतर का एक अवयव

## रिहाई की खबर

५ मई '४४

प्रातः रोज की तरह पीने पांच बजे प्रार्थना के लिए उठे। फिर कल की डायरी लिखी। रात को शहब की मक्खी उड़ाने वाले फिर आए थे, इसलिए रात को लिख न सकी थी। स्नान आदि करके नीचे जाने के लिए उठे तो बापू की घड़ी में पीने आठ बज गए थे। साथ-साथ नीचे गए। समाधि पर प्रार्थना करने के बाद थोड़ा घूमे। सवा आठ बजे ऊपर आए। बापू की मालिश करने मेहता आए। उस समय डा० गिल्डर ने और मने बापू को लोहा सेवन करने की सलाह दी। डा० गिल्डर मेरी तरफ देखकर हँसकर कहने लगे, “यह छोटी-सी लड़की आपको लोहे के चने चबवाने वाली है क्या?” बापू ने दवा मगाने की इजाजत दे दी, खाने या न खाने का निश्चय बाद में करेंगे। मगर मगवाई है तो खाएंगे ही—ऐसी आशा है।

डा० गज्जर की रिपोर्ट कल आ गई थी, इसलिए उसके आधार पर चार बजे शाम को मैं अपनी रिपोर्ट लिखने बैठी, ताकि गिल्डर का और मेरा मत सरकार को भेज दिया जाय। पत्र तैयार करके डा० गिल्डर को दिया, जिससे उनके सुझाव भी जाने जा सकें। बापू का एक्सरे कराने के लिए भी हमने भण्डारी को एक पत्र डाला। हमारी रिपोर्ट कल सरकार को भेजी जावेगी। छः बजे खेल के बाद बापू को खाना दिया। मैं खाने बैठने ही वाली थी कि भण्डारी आए। आश्चर्य हुआ कि इस समय क्यों आए हैं। कुछ पहले ही सब कंबी भेज दिये गए थे। उन्हें आज जल्दी जाने का हुक्म था।

भण्डारी अचानक बापू के पास आकर बैठ गए और कहने लगे, “कल सुबह आठ बजे आप लोगों को बिना शर्त छोड़ दिया जायगा।” हम सब हैरान हो गए। बापू बोले, “आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं?” भण्डारी ने उत्तर दिया, “नहीं जी, आज पत्र आया है। अब दवा करके फिर वापस न आना। देखिए, चिन्ता के कारण मेरे तो बाल भी सफेद हो गए हैं।”

बापू हँसकर बोले, “मे कहां जाता हूँ। सरकार लाती है।”

छूटने की खबर सुनते ही मेरे मुँह से निकला, “तीन महीने की देर हो गई। अगर तीस महीने पहले बापू को मलेरिया होता और वे छूट जाते तो शायद आज वा जिन्दा होतीं!” बापू ने कहा, “हां, वह बिल्कुल सम्भव था।”

बापू तो इस खबर से बिल्कुल घबड़ा-से गए। एक तो बीमारी के कारण उन्हें छूटना अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे, वे कहते हैं कि बाहर जाकर कसंगा क्या! एक बार



कहने लगे, "क्या यह सचमुच सेहत के ही लिए है ? मुझे इसमें शक है ।" फिर कहने लगे, "नहीं, बस हमें यही मानना चाहिए कि जो वे लोग कहते हैं, वही सही है । वे मुझे सेहत के कारण ही छोड़ रहे हैं ।" हम लोग खाना खाने बंदे और तब समाधि पर गए । प्रार्थना के समय जोर की वर्षा हुई । मुझे लगातार बा का विचार आने लगा । उन्हें कितना शोक था बाहर जाने का ! मगर उनके नसीब में यहां शहीद होना लिखा था । आगाखाना महल में मृत्यु पा कर उन्हें जगदम्बा होना था । और आखिर तो वे मां थीं न ! शायद उन्हें लगा हो कि महादेव को बिल्कुल अकेले कैसे छोड़ा जा सकता है ।

श्री कटेली प्रार्थना के बाद बापू को प्रणाम करने आए । सुबह तो अफसर बन कर खड़े रहना पड़ेगा, सो अभी आकर बापू का आशीर्वाद लिया । उनके हृथं का पार नहीं है । वे हमेशा यही कहा करते थे, "सब लोग यहां से अपने-अपने घर जावे तो मुझे अच्छा लगेगा । बूसरी जेल में जाना, बिखर जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता । सब लोग मेरे लिए तो बिलकुल कुटुम्बीजन-से हो गए हैं, इसलिए मन में रहता था ही कि किमी बूसरे सुपारिटेण्डेण्ट से वास्ता न पड़े तो अच्छा है । खेर, अब उसका तो सवाल ही नहीं रहा ।" उन्होंने बापू को सुबह प्रार्थना के लिए जगाने को कहा । बोले, "सुबह नहाकर प्रार्थना करना चाहिए ।" डा० साहब ने भी उन्हे उठाने को कहा । मनु बड़ी ही खुश है । उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि न जाने कब बापू से अलग कर दी जाय । कहती थी, "मैं हमेशा समाधि पर जाकर प्रार्थना करती थी कि महादेवभाई और बा आशीर्वाद वे कि मुझे बापू से अलग न होना पड़े । ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली ।"

मगर बापू को कोई हर्ष नहीं है । गम्भीर विचार में पड़े हैं । बोले, "मेरा सिर खकरा रहा है ।" मैंने कहा, "बापू, बाहर जाकर बड़ी सम्भाल रखनी पड़ेगी ।" वे कहने लगे, "मैं जानता हूँ । बाहर जाकर मुझपर सब तरफ से प्रहार होने वाले हैं । यहां की शान्ति अब खतम हुई । मुझसे जितना बन पड़ेगा, उतना आराम तो लूंगा, मगर कुछ आराम तो छोड़ना पड़ेगा ही ।"

श्री कटेली प्रार्थना में हमारे साथ रामायण पढ़ा करते थे, इसलिए रामायण की एक नकल, जो देवदासभाई लाए थे, बापू ने उन्हे दे दी । कनु ने एक भजनावली और भाई ने 'एपिक फास्ट' की एक प्रति कटेली को दी । बापू का एक फोटो भी उन्हीं दिया गया । सब वस्तुओं पर कटेली की इच्छानुसार बापू ने दस्तखत कर दिये । बापू ने पहले ही पुछथा लिया था कि चीजें दस्तखत के साथ हों या बिना दस्तखत के ? बापू की मालिश के बाद हम लोग अपना सामान बांधने लगे । बापू ने नोटिस दिया था कि कल सुबह पौने आठ बजे सब कुछ तैयार रहना चाहिए । एक मिनट भी अधिक नहीं मिलेगा । तीन बजे तक सबका सामान बंधकर तैयार हो गया । बापू का सामान, खाने का सामान और दवाइयां बगैरह सम्भालने में बड़ा समय गया । भाई का सामान तो सबेरे ही बांधा जा सका । चार बजे नहा-धोकर मैं खाट पर पड़ी और पौने पांच बजे प्रार्थना के लिए उठी । एक मिनट भी नींब नहीं ली ।

“सवन प्रायंता के पश्चात समाधियों को अन्तिम बार कैंदी डग  
में प्रणाम किया ।” पृष्ठ ४५३





आखिरकार दरवाजा खले

## रिहाई

६ मई '४४

प्रातः पीने पांच बजे सब लोग प्रार्थना के लिए उठे। भाई का सामान बंध रहा था। कनु खूब नींद में था। चार बजे तड़के सोया था। मनु भी थोड़ी ही सोई थी। बापू ने भी रातभर में आध-पौन घंटे की ही नींद ली थी। सब लोग स्नानादि करके प्रार्थना करने आए और 'बंष्णवजन...' वाला गीत गाया। कल रात 'हरि ने भजता' गाया था। मोराबहन ने 'हूँने आइ सर्वे दि बण्डरस क्रॉस' गाया था। आज प्रार्थना के समय वे नहीं उठी।

प्रार्थना के बाद श्री कटेली ने बापू को (७५) भेंट किये। बहुत खुश थे। कहने लगे, "आप बाहर जावेंगे तो अनेक लोग भेंटें लावेंगे, मगर सबसे पहले कटेली की भेंट आपके हाथ में पहुँची है।"

प्रार्थना के बाद मैंने कटेली से बिदा ली और भून्-चूक के लिए माफी मागी। उनकी आंखों में पानी आ गया। विवेक की भाषा में बोले, "माफी तो मुझे मांगनी चाहिए।" प्रार्थना के बाद बापू सोए नहीं, एकदम तैयार हो गए। कटेली ने चाय तैयार की थी। उसमें से केबल मैंने ही ली। दूसरे लोग दूध लिया करते हैं। हम सबने बचा हुआ सामान बांधा और व्यवस्थित कर लिया।

साठे सात बजे समाधि पर गए। आज की प्रार्थना में 'नम्यो हो', 'ईशावास्य-मिवं सर्वं', 'असतोमासद्गमय', 'अउज-अ-बिल्ला', 'मज्जवा' और 'ओ गॉड अवर हेल्प इन एजेंज पास्ट' आदि सभी भाषाओं के भजन और गीता का १२वां अध्याय पढ़ने का कार्यक्रम चला। सबने प्रार्थना के पश्चात् समाधियों को अंतिम बार कंदी-दंग से प्रणाम किया। मेरे हृदय से निकला, 'बा, बापू की रक्षा करना। उन्हें सेहत, दीर्घायु और पूर्ण विजय देना। महादेवभाई, बापू की रक्षा करो और मुझे अपनी ही भांति बापू की सेवा करने की योग्यता और उन्हींकी गोद में कूच कर सकने का वरदान दो।'

पीने आठ बजे भण्डारी आए। आठ बजे के पहले छूटना नहीं था। बातें करते रहे। मैंने यह देखना चाहा कि अपने साथ कौन कौन-सा सामान ले जाऊंगी। सामान देखने पोर्ष में गई। देखा कि वहाँ कलक्टर और एक पुलिस का अफसर बैठे हैं। मुझे साथ में सामान बंधा लेना चाहिए, इसकी चर्चा करते देखकर पुलिस वाला बोला, "आधे घंटे में सारा सामान आपके पास पहुँच जायगा।"

भण्डारी की मोटर में बैठकर मैं बापू के साथ तार के अहाते के बाहर निकली

ही थी कि एक सिपाही ने कार खड़ी कराई और मुझे एक नोटिस दिया। नोटिस में लिखा था—“आगला महल में जो कुछ हुआ है, उसकी चर्चा करने के बारे में तुम्हें मनाही है।” सिपाही ने मुझसे इसपर दस्तखत करने को कहा। मैंने बापू को ओर देखा। बापू ने कहा, “कर दे।” मैंने कर दिये। बापू बाद में कहने लगे, “यह तो मुझे भी दस्तखत करने के लिए दे सकता था, क्यों नहीं दिया सो पता नहीं।” मैंने कहा, “बेचारे अधिकारी डरते होंगे कि कहीं आप यह कहकर अड़ न जाएँ कि ‘तब तो मुझे जाना ही नहीं है’, तब वे क्या करेंगे? हाँ, एक बात बताइये, इस तरह के हुक्म को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं?” बापू बोले, “पहली बात तो यह है कि दस्तखत किया सो उसका अर्थ यह नहीं है कि स्वीकार किया और दूसरे यह कि मुझे तुम लोगों से किसी तरह का तूफान नहीं करवाना है।”

बाहर के दरवाजे पर ४०-५० आदमी थे। उन्हींमें शान्तिकुमार, स्वामी आनन्द, जमनादासभाई और सुशीला पं थे। बापू ने किसीको नहीं देखा। मोटर सीधी हमें पर्णकुटीर लाई। कल भण्डारी ने कहा था, “आप यहा रहना चाहे तो रह सकते हैं, मगर मेरी सलाह है कि न रहें। यह फौजी इलाका है। अपने लोगों के झुण्ड आने लगे तो किसीके साथ भी झगड़ा हो सकता है। पर्णकुटीर में मैं खबर कर दूंगा।” बापू मान गए, सो हम लोग वही गए। वहां पर बापू के स्वागतार्थ खड़े हुए लोगों में से बहुतों को मैं नहीं पहचानती थी। जमनादासभाई ने बताया कि उन्हें आयरंग ने बुलाकर सारा हाल बताया था और यहां इसलिए भेजा था कि मैं बापू से कहूँ कि वे धीमे-धीमे चले; क्योंकि वे नहीं समझते कि उनकी हालत कितनी गम्भीर है।

बापू हंसी करते हुए बोले कि मनाही वाले नोटिस के हुक्म को ध्याकरण गलत है। मेरे हस्ताक्षर करने के बाद भाई व डा० गिल्डर ने भी मनाही के हुक्म पर दस्तखत किये थे। डा० गिल्डर को पहले कुछ शक हुआ था कि नोटिस पर दस्तखत किये जाय या नहीं, पर जब भाई ने कहा, “दस्तखत करने में क्या हर्ज है। उससे यह अर्थ थोड़ा ही निकल सकता है कि हम उसे स्वीकार करते हैं,” तब सबने कर दिया।

मिलने वाले अधिक-से-अधिक संख्या में आ रहे थे। कई लोगों ने तो बापू से खूब ही बातें की, यहां तक कि शाम तक बापू एकदम थक गए। सबरे बापू का रक्तचाप १९.२।१०६ था। वे मालिश में भी नहीं सोए। दोपहर को एक घटा सोए। उसके बाद रक्तचाप गिर गया।

यहां पर बेहद गरमी पड़ती है। आगला महल में खस की टट्टियों के कारण बापू का कमरा ठंडा रहता था, मगर यहा ऐसा इन्तजाम नहीं है। उनके बंठने की जगह भी सीढ़ी के सामने ही है। आते-जाते सब उन्हे देख सकते हैं और पास आकर बंठ जाते हैं। आराम की दृष्टि से घाटे में ही रहे।

शाम की प्रार्थना में वेशपाण्डे ने ‘हरि तुम हरो जन की भीर’ वाला भजन गाया। बापू ऊपर छत पर बंठे थे, लोग सामने नीचे बंठे थे। प्रार्थना के बाद हरिजनों के लिए

खन्दा इकट्ठा किया गया। तब बापू थोड़ा घूमे।

गरम पानी पीने के लिए बापू वापस आने ही वाले थे कि भी मुंशी और श्रीमती लीलावती, श्री रामेश्वरदास बिड़ला और दूसरे कई लोग आ गए। वस बजे बापू उठे और थोड़ा-सा घूमे। थोड़ी देर में पृथ्वीसिंह की पत्नी बंगरह और दो-चार लोग आ गए। उनके जाने पर ही बापू सोने की तैयारी कर सके। करीब ग्यारह बजे में बापू की मालिश बंगरह पूरी करके आई। आकर कमरे का सामान ठीक किया। डायरी लिखने बंठी। बारह बजे उठी। सोने को जा रही थी कि देखा—बापू बरामदे में खड़े हैं। वे बाहर खुले में सोए थे, पर मच्छर इतना काटते थे कि सो नहीं सके। मैंने उनका बिस्तर भीतर लगाया और मच्छरदानी लमाकर पंखा चलाया। मैं स्वयं बरामदे में जमीन पर सोई। बेहद गर्मी पड़ रही थी। खूब मच्छर लग रहे थे।

७ मई '४४

पीने पांच बजे बापू प्रार्थना के लिए उठे। बाद में वे पाखाने गए। तब आकर गादी पर बंठे। थोड़ा नाश्ता किया। कुछ तार-पत्रों के उत्तर भाई को लिखवाए। घूमने को निकले तो थोड़ी धूप निकल आई थी। आगाखा महल में, जिसे हम 'शिमला' कहते थे, बहुत देर से धूप आती थी, इसलिए वहां बापू देर तक घूमते रहते थे। वहां सब तरह की सूरहलियते थी। यहां के पाखाने छोटे-छोटे हैं और बापू के हिसाब से गंदे रहते हैं। पढ़ने के लिए पाखाने में बत्ती कहा से आए? बापू के लिए पाखाना और प्रार्थना-स्थल, दोनों एक-जैसे साफ चाहिए और पाखाने में पढ़ने और किताब रखने का साधन होना चाहिए।

दीनशा ने साढ़े आठ बजे से बापू की मालिश की और एक घंटे से अधिक की। बापू सोते रहे। उनके स्नान करने के लिए कोई टब नहीं है। एक हौज है। वह इतना लम्बा है कि बापू उसमें नीचे खिसकने लगते थे। एक बार तो दीनशा ने पंर पकड़कर और मैंने शरीर धामकर उसमें गिरने से उन्हें बचाया। थोड़ी देर में वे स्वयं उठ गए। पानी भी अच्छी तरह गरम नहीं था, नहीं तो वे आधे घंटे तक पानी में लेटे रहते हैं।

साढ़े ग्यारह बजे स्नान-घर से जब वे वापस आए तो उनका दरबार खचाखच भरा था। श्री मुंशी ने तो खूब ही उनसे बातें कराईं। सरोजिनी नायडू सुबह आ गई थीं। उन्होंने जाकर सबको टोका। श्री मुंशी और ठक्कर बापा ने बा-स्मारक फण्ड के बारे में बापू से खूब बातें कीं।

दोपहर को श्रीमती भण्डारी आईं और कहने लगीं, "मेरे पति के तो बाल सफेद हो गए हैं, मेहरबानी करके अब जेल न आना। अगर आवे तो दो महीने पहले नोटिस दे दें, ताकि मेरे पति छुट्टी पर चले जाएं।" भण्डारी आए तो बोले, "अब तो आप दरबदा जेल से दूर ही रहे।" रात को गर्मी और मच्छरों के कारण रातभर जागने के कारण बापू अत्यन्त थक गए हैं और सोना चाहते हैं, पर सो नहीं पाते। कह रहे थे, "मैं सोना चाहता था, बहुत प्रयत्न किया; मगर नींद ही नहीं आई। बस राम-नाम लेता

रहा। आखिर यह कहने वाला मैं ही तो हूँ न कि राम-नाम लेते रहो—एक लाख बार लो, एक करोड़ बार लो, अन्त में शान्ति मिलेगी ही। यह धन्धा मैंने किया। उसका परिणाम आज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। रातभर का जागरण है, दिन में भी इतना थम पड़ा है; मगर मैं ताजा महसूस करता हूँ। मुझे कुछ सूझता ही नहीं कि मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा; मगर जिसने आज तक मुझे रास्ता दिखाया है, वही अब भी रास्ता दिखाएगा। मगर इतना मैं कबूल कर लेता हूँ कि मैंने कभी इतना अंधेरा महसूस नहीं किया, जितना आज कर रहा हूँ।”

मैंने कहा, “बापू, इसका मुख्य कारण तो शारीरिक दुर्बलता है। उसीसे बिमागी थकान भी है। शक्ति आने पर सब ठीक हो जायगा।”

दोपहर को लोग आते ही रहे। ऋषी भीड़ रही। सीढ़ी के सामने पर्दा लगाया, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। सौन्द्रम् और रामचन्द्रन् आज आए। सौन्द्रम् से बहुत-से समाचार मिले। औंधवाले अप्पाजी अपनी पत्नी समेत आए। उनकी पत्नी डाक्टर हैं।

शाम को मुलाकातियों का तांता लगा रहा और बापू पर बहुत बोझा पड़ा। उन्हें बहुत थकान लगने लगी। प्रार्थना में रेहानाबहन ने भजन गाया। बाद में हरिजनों के लिए रुपए इकट्ठे किये।

दीनशा हम लोगों को शाम के बख्त समाधि पर ले गए। और कई लोग भी साथ थे। फूल बड़ाकर अगरबत्ती जलाई और प्रार्थना की। हमारी इच्छा थी कि जितने दिन हम यहाँ हैं, समाधि पर प्रार्थना करने जाया करें। कल की थी और आज भी कर ली।

समाधि पर से लौटे तब बापू मीन ले चुके थे।

हम लोग समाधि पर थे, तभी से तूफान की तैयारी थी। रात में थोड़ी वर्षा हुई। हवा ठण्डी हो गई। बापू रातभर अच्छी तरह सोए।

---



---

समाप्त

---



---



"किन्ती रोज हिल्दु-  
स्लान घाजाद हांगा  
तब यह यात्रा का  
म्वान बनेगा ।"

पृष्ठ ११०

आशाखां द्वारा  
बनवाई गई  
संगमरमर की  
समाधिपया







# वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल न० २६१ न० ११

लेखक

नयन कुशील

शीर्षक

बापू जी द्वारा वास लहरी

खण्ड

क्रम संख्या

४३६३